


॥ श्रीः ॥

मुहूर्तगणपतिः । दैवज्ञवर्यगणपतिविरचितः ।



स एव

क्षेमराज-श्रीकृष्णदासश्रेष्ठिना
मुम्बद्यां

स्वकीये “श्रीवेङ्कटेश्वर” (स्टीम) मुद्रणभन्त्रालये

S A 545
GPN/RHM मुद्रित्वा प्रकाशितः ।

संवत् १९६७, दाके १८३२.

अस्य सर्वेऽधिकारा राजनियमानुमारेण “श्रीवेङ्कटेश्वर” अन्नलयाध्यक्षेण
स्वायत्तीर्हताः सन्ति.

भूमिका ।

दोहा—पूरण परमात्म प्रभु, परब्रह्म सुपवित्र ॥

उपादान कारण प्रकृति, प्रेरक पुरुष विचित्र ॥

नित निगमागम गीत गुण, गोपति गिरा प्रचार ॥

गीर्वाण गुरु रवि चरण, बंदों वारंवार ॥ २ ॥

छन्द भुजंगप्रयात ।

जुरैहैं हरेरंगवारे तुरंगा, रमाका चमत्कार सोहैं सुरंगा ।

करै प्रेरणाहै अनूरूपरंगा, जु गजैं रुजैसे कि आकाशरंगा ॥

रथ्यैमें विराजे सरोजाभ स्वामी, धरै शंख चक्रै करोंमें खगामी ।

सवै देव सेवैं जिन्हें नित्यनामी, अलंकार चामीकरोंके प्रणामी ॥

विदित हो कि, श्रीमद्देवभगवानके शास्त्रोक्त छह अंग हैं. यथा—“छन्दः पादौ शब्दः शास्त्रं च वक्त्रं कल्पः पाणिज्योतिषं चशुपी च ॥ शिक्षा- ध्याणं श्रोत्रमुक्तं निरुक्तं वेदस्याङ्गान्पादुरेतानि पद्म” ॥ १ ॥ इन छह अंगोंमें नेत्रभूत ज्योतिष शास्त्रही प्रधान अंग है, जिसके बिना अन्य ५ छन्दः शिक्षादि अंग अपने अपने कर्म निर्वाहनमें सफुटतया स्वपकाशनक्षम नहीं हो सकते हैं, किन्तु श्रौतस्मार्तादि कर्मोंमें प्रथम ही प्रथम नेत्रांग ज्योतिषं शास्त्रका ही अवलम्बन करते हैं, जैसे कि, नेत्रांगहीन अंधे पुरुषके अन्य अंग अपने रकार्यमें पूर्णरूपसे विकाश नहीं दिखा सकते, वरन् नेत्रोंकी सहायता- सेही सकलकार्य करनेमें समर्थ होते हैं. ज्योतिषं शास्त्रके ज्ञान बिना कोई पुरुष ऐहिकतया पारलौकिक श्रौत स्मार्त व्यावहारिक कर्मकालका शुभाशुभत्व, निश्चय नहीं कर सकता, इस दशामें भारस्म किये हुए कर्मका फल भी कल्याणमय नहीं पासका; किन्तु अभद्रजनक ही होगा. जैसे कि, अंधा मनुष्य मार्गके सरल, कुटिल, सदोष, निर्दोष भावको न जानकर चलता है तो कण्टकादि लग जानेसे हुँखका ही भागी होता है इससे निश्चय हुआ कि, ज्योतिषं शास्त्र ही प्रधान अंग है और मनुष्योंके बैकालिक शुभाशुभ फलोंका ज्ञान भी इसीके द्वारा होता है. इससे द्विजाति मात्रके लिये अवश्य ही अध्येतव्य है, क्योंकि, देवर्थी नारदका बचन है कि, “सिद्धान्तसंहिताहोराशुप-स्कंधत्रयात्मकम् ॥ वेदस्य निर्मलं चशुज्योतिः शास्त्रमकलमपम् ॥ विनैदखिलं कर्म श्रौतं स्मार्तं न सिद्धयति ॥ तस्माज्गद्वितायेदं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा ॥ अत एव द्विजेरेत-दध्येतव्यं प्रयत्नतः” ॥ २ ॥ अब इसी श्लोकके अनुसार, यह भी लिखना पडता है कि, ज्योतिषं शास्त्र किसको कहते हैं? ज्योतिः नाम प्रकाशक सूर्यादिग्रहोंकी गत्यादिका वर्णन जिसमें किया गया हो उसको ज्योतिषं शास्त्र कहते हैं. उसके तीन स्कंध (भाग) हैं सिद्धान्त, होरा, संहिता किसी किसी आचार्य वराहमिहिरा-दिकने सिद्धान्तका दूसरा नाम तन्त्र करके लिखा है. जिसमें ज्योतिषं शास्त्रके सकल विषय प्रतिपादन किये गये हैं उसको संहिता, और जिसमें गणितद्वारा ग्रहोंकी गति

वर्णन की गई हो उसको सिद्धान्त वा तन्त्र, और जिसमें रायि ग्रहोंका पर्वग, काल, दिगादि बल, जातक, वायुर्दाय, राजयोग, नाभसादि योग, ताजिक, प्रथ, शकुन, वास्तु, स्वर, सामुद्रिक, विवाहादि पोडश संस्कार और यात्रादिके सकल मुहूर्त, अंगस्फुरण, स्वभ इत्यादि नाना अंगोंका वर्णन किया गया हो उसको हीरा कहते हैं यथा वराहामिहिराचार्यने वृहत्संहितामें लिखा है ‘ज्योतिःशास्त्रमनेकभेदविषयं स्कन्ध-ब्रयाधिष्ठितं तत्कात्स्न्योपनयस्य नाम सुनिभिः संकीर्त्यते संहिता ॥ स्कन्धेस्मि-न् गणितेन या ग्रहगतिस्तन्त्राभिधानस्त्वसौ होरार्ख्योङ्गविनिश्चयश्च कथितः स्कन्ध-स्त्रुतीयोऽपरः’ इन समग्र तीनों स्कंधोंका जाननेवाला मनुष्य पूर्ण ज्योतिर्विद् भूगोल, खगोल तथा भूत, भविष्यत, वर्तमान कालकी दशाका यथावद्वर्णन करनेमें समर्थ होता है । इस प्रकारके महानुभाव पूर्ण ज्योतिर्विद् लोग तो आज कल भारतभूतल पर वहुधा निरलेही विद्यमान हैं और होते हैं, इसका कारण यह है कि, कराल कलिकालके कुटिल चालचक्रमें जन्म लेनेवाले अलंपायु मानव निजकुटुंब पालन पोषणार्थ सांसारिक कठिन २ कायोंमें प्रतिदिन फँसे रहने और माप्तः संस्कार तथा भाग्यहीन होनेसे भी अवकाश न मिलनेपर विद्याध्ययनही नहीं करसकते और यदि कुछ अवकाश मिला भी तो अन्य रोगादि नाना विभ्रांतेसे उपहत हो जाते हैं । इसीसे कोई कोई विरले मनुष्य ज्योतिप शास्त्रका एक स्कंध और कोई दो स्कंध और कोई तीनों स्कंधका पूर्ण ज्ञाता चमत्कारी पंडित होता है, परन्तु वर्तमान कालमें प्रायः स्कन्धवित्रितयांशांशके जाननेवालेही अधिक हैं और ज्योतिप शास्त्रके अंगभूत वृहन्मुँहृत्तंश्रयोंके जानने वालोंकी संख्या स्कंधवित्रितयांशांशज्ञपुरुषोंसे कुछ विशेष है । तथा मुहूर्तंश्रय अपेक्षामें भी शीघ्रवोध, होडाचक्र, वालवोधादि छोटे २ सरल मुहूर्तंश्रयोंके जाननेवाले इतने अधिकतर हैं कि, शहर २, कसवा २, ग्राम २ में सर्वत्र विद्यमान हैं, परन्तु ऐसे शीघ्रवोधादि लघु सरल पुस्तकज्ञ पुरुष कुछ संस्कृतके मुहूर्तंश्रय वृहद्वित्रितयांशकोन न करसकनेके कारण, समस्त मुहूर्तांके पूर्ण ज्ञानानंदसे संदेव निराश और वंचित रहते हैं । ऐसे अल्पज्ञ पुरुषोंकी अशापूर्तिरूप उपकारके लिये, वर्वह वास्तव्य “श्रीविकटेश्वर” यन्त्रालयाधीश श्रीयुक्त सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासजीकी भेरणासे मैंने इस नातिकठिन सरल अनुपम सांसारिक सकलमुहूर्तांगार सुहृन्नगणपंति नामक वृहद्वित्रितयांशकी यह भाषाटीका बडे परिश्रमसे बनाकर और पारितोषिक पाकर श्रीविकटेश्वरस्तीमु यन्त्रालयाधिपति श्रीखेमराज श्रीकृष्णदास जीके अपेक्षण कर दीहै, दूसरे मनुष्य इसको छापने आदिका साहस न करें और विद्वानोंसे प्रार्थना करताहूँ कि, यदि इसमें मेरी भूल या प्रमादसे कहीं अशुद्धि होगई हो तो कृपया उसका संदोधन करके क्षमा करें ।

सकलविद्ज्ञनकृषाकांसी—पं० रामदयालुशर्मा,
मुकाम ढाढोली, पोस्टाफिस—वहजोइं जिंमुरादावाद-

अथ सुहृत्तगणपतिग्रन्थानुक्रमणिका ।

विषयः	पृष्ठानि	विषयः	पृष्ठानि
अथ संवत्सरादिप्रकरणम् १.		अथ वारप्रकरणम् ३.	
मङ्गलाचरणम् ...	१	वारनामानि (श्लो० १)	२१
संवत्सरानयनम् ...	२	वारस्वामिनः (श्लो० २)	"
पश्चिमसंवत्सरानामानि ...	४	शुभाशुभवाराः (श्लो० ३)	"
रेवादक्षिणभागे संवत्सरानयनम् ...	५	प्रत्येकवारकृत्यम् ...	२२
प्रमवसंवत्सरारम्भः ...	"	ताल्कालिकवारकृत्यार्थं होरा	२४
संवत्सराणां युगसंज्ञादि ...	६	तैलाभ्यङ्गे वारफलम् ...	२६
अयनगोलसंज्ञे ...	"	तैलाभ्यङ्गे दोषापवादः ...	"
ऋतुसंज्ञा ...	७	अथ नक्षत्रप्रकरणम् ४.	
माससंज्ञा ...	"	नक्षत्रनामानि ...	२७
चैत्रादिमासानां संज्ञा ...	"	नक्षत्रेशाः ...	३८
पक्षसंज्ञा ...	९	सामान्यतः शुभाशुभनक्षत्राणि	२९
अथ तिथिप्रकरणम् २.		प्रत्येकनक्षत्रकृत्यम् ...	"
तिथिनामानि (श्लो० १) ...	"	पुष्यप्रशंसा ...	३४
तिथीनां स्वामिनः (श्लो० ३) ...	१०	नक्षत्राणां विशेषसंज्ञा स्तत्कृत्यं च ...	"
तिथीनां नन्दादिसंज्ञाः (श्लो० ५) ...	"	अधङ्कर्धतिर्यङ्गमुखनक्षत्राणि चक्षुत्यच्च	३५
तिथीनामशुभमध्यशुभसंज्ञाः (श्लो० ६)	"	अधिन्यादिभानां तारकासंख्याः	३६
नन्दादितिथिकृत्यम् ...	१२	नक्षत्राणां स्वरूपाणि	३७
सामान्यतः शुभाशुभतिथयः ...	१३	नक्षत्रशरः ...	३८
पक्षरूपत्रितिथः ...	"	नभोमध्यमादुदयरक्षिज्ञानम् ...	४०
ज्युष्माद्वास्तिथयः ...	१४	रवीभान्मध्यमादुदयभाद्वतरात्रिज्ञानम्	"
प्रत्येकतिथिकृत्यम् ...	१५	अथवा ...	४१
दन्तवादने निपिद्वतिथयः ...	१७	पञ्चकम् ...	"
आमलकस्तनाने निपिद्वास्तिथयः ...	"	नक्षत्राणामन्यादिसंज्ञा ...	४२
उक्तकार्ये निपिद्वास्तिथयः ...	१८	नक्षत्रवशेन विनष्टवस्तुनो लाभालाभवि-	"
प्रतिपदादिदर्शान्तासु पोदशतिथिपु		चारः (श्लो० ७८) ...	"
वर्ज्यानि ...	"	अन्यादिनक्षत्रवशेन दिशज्ञानम् (श्लो० ७९) "	
युगादिमन्वादितिथयः ...	१९	दिवारात्रौ पञ्चदश सुहृत्तीः ...	४३
अधोदययोगः ...	२०	रव्यादिवारेषु त्याज्यसुहृत्तीः ...	४४
गजच्छाया ...	"	अथ योगप्रकरणम् ५.	
कृपिलापद्मी ...	"	योगनामानि ...	४५
आगस्त्योदयः ...	२१		

विधयः	षट्पानि	विधयः	पृष्ठानि
विरुद्धयोगानां त्याज्यांशाः ४६	स्तपादादियोगचतुष्कस्य ज्ञानम्	... ६६
अथ करणप्रकरणम् ६.	"	दुर्योगानां त्याज्ययटिकाः	... " "
करणनामानि ४७	वारनक्षत्रोद्घवः सिद्धियोगः	... ६७
करणानां स्वामिनः	... ४७	तिथिवारोत्था दुष्टयोगः	... " "
प्रत्येककरणकृत्यम् (इलो० ६)	..."	तिथिक्षत्रोत्पत्तस्त्याज्ययोगः	... ६८
भद्रायां विशेषः	... ४८	नक्षत्रवारोत्थाऽष्टयोगास्तत्रादीयमधण्ट-	
भद्रायामद्विभागस्तत्कलञ्च	... ४९	योगः ६९
भद्राया दिव्यमुखञ्च	... " "	मृत्युयोगः "
भद्रापुच्छम्	... ५०	दग्धयोगः ७०
भद्रास्वरूपम्	... " "	शुभे त्याज्यं त्रिविधं गणडान्तम्	... " "
भद्राया दोषापवादः	... ५१	नक्षत्रगण्डान्तम् ७१
भद्रायोगिशेषे कस्यचिन्मते विशेषः	... ५२	प्रकारान्तरेण तिथिगण्डान्तम्	... "
अथ चन्द्रताराबलप्रकरणम् ७.		लग्नगण्डान्तम् "
चन्द्रराशिमोगप्रमाणम्	... ५३	अर्द्धयामाः ७२
नक्षत्राणां प्रत्येकराशेभीर्णः	..."	कुलिकण्टककालवेलायमधण्टाख्यास्त्या	
अवकहृदादिचक्रानुसारेण नक्षत्रचरणानां		ज्यमुहूर्ताः "
वर्णाः ५५	दुष्टक्षणः ७३
चन्द्रस्य शुभाशुभफलम्	... ५७	एतेषामेव सुबोधार्थं पुना रव्यादिषु त्या-	
शुठपक्षे विशेषः	... ५८	ज्यक्षणाः "
आवश्यककृत्ये पक्षचन्द्रबलम्	..."	यमधण्टकुलिकक्षणयोदेशविशेषे त्या-	
ताराबलम् ५९	ज्यत्वम् ७४
आवश्यककृत्ये दुष्टताराणां त्याज्यांशाः	..."	संक्रान्ती त्याज्यकालः ७५
दुष्टतारासु दानम् ६०	तिथिक्षयवृद्धिदोषः "
चन्द्रावस्थाः "	मासशून्यतिथिनक्षत्रबलमानि	... "
तासां नमेषोदाहरणम्	..."	मासशून्यनक्षत्राणि ७६
वर्णविशेषे प्रहशलं सर्वचन्द्रबलं च	६१	मासशून्यराशयः ७७
चन्द्रबलं कश्यन विशेषः	..."	ओजतिथिषु शून्यलमानि ७८
आवश्यककृत्ये दुष्टतिथिवारक्षचन्द्रतारा-		शून्यतिथ्यादीनां देशविशेषत्याज्यत्वम्	"
दीनां दानम् ५२	आवश्यके दुष्टयोगानामपवादाः	... "
अथ शुभाशुभप्रकरणम् ८.		शुभाशुभकार्ये त्रिपुष्टक-यमल-	
विधिवारोत्थशुभाशुभयोगः	... ६३	योगी ७९
प्रपरिदूषतसिद्धियोगस्थापि त्याज्यत्वम्	६४	सुबोधार्थं रव्यादिवारेषु	शुभाऽशु-
दोषादेषु पद्मे रवियोगः "	भयोगः ८०
आनन्दप्रियोगाः	... ६५		

विषयाः	पृष्ठानि	विषयाः	पृष्ठानि
अथ त्याज्यप्रकरणम् ९.		सूचीकर्म १०१
विवाहादिशुभकार्ये त्यज्यतिथि		नवीनवक्षषालनम् "
नक्षत्रादि	८२	उपानत्परिधानं चर्मकृत्येच	... १०२
अथ लग्नप्रकरणम् १०.		वितानतृष्णिकोपधानादि-	
उग्रनामस्त्विपुरुपरूपाकर्त्तरस्त्विर		निर्माणं वितानवन्धनञ्च	... "
द्विस्वभावपृष्ठोदयादिसंज्ञाः	८४	वस्त्रमयगोहादिनिर्माणम्	... "
रातिस्वामिनः	८५	सुगन्धभोगः १०३
प्रहोद्यानि	८६	शश्यासनादिभोगः "
नीचम्	"	भूषणघट्टनम् "
मूलविश्लेषणम् ...	८७	रत्नयुतभूषणघट्टनम्	... १०४
मेपादिलमठुत्यानि	...	रौप्यमयमुक्तावश्रयुक्तमूषणनिर्माणम्	"
पद्मर्गः	८९	पात्रभोगः "
तन्वादिद्वादशभावसंज्ञाः	९२	इमश्वर्कर्म १०५
वर्गोच्चमनवमांशाः	९३	शुरुकृत्ये वारेफलम्	... "
साधारणशुभकार्ये उप्रहवलच्च	९४	क्षौरकार्ये त्याज्यारितथयः	... "
अथ नूतनाभ्वरालङ्घारधार-		निन्दयतिभिनक्षत्राणां दुष्टफलम्	... १०६
णादिप्रकरणम् ११.		क्षौरनिपेषेऽपि तदपवादः	... "
नूतनाभ्वरादिधारणे नक्षत्रादि	९५	राज्ञः इमश्वर्कर्म "
वस्त्रादिधारणे वारेफलम्	...	नरदवन्तमठुत्यम्	... १०७
नक्षत्रफलम् ...	९६	क्षौरनिपेधः "
वस्त्राभरणादिधारणे खीणां विशेषः	९७	शुरुकर्मणि शुभानहं वाक्यम्	... "
कजलादर्शकृत्यम्	...	विद्यारम्भः	... १०८
सीभास्यवत्या निपेधः	...	गणितारम्भः	... "
नप्रव्यविकृती कलम्	९८	व्यक्तरणारम्भः	... "
सुहूर्ति विनाऽपि कुत्रिचिद्वस्त्रधारणम्	...	न्यायादिशास्त्रारम्भः	... १०९
श्वेतपीतकर्वुरवस्त्रधारणम्	९९	धर्मशास्त्रपुराणारम्भः	... "
कुणनीलम्	वैद्यविद्यागारुडीविद्यारम्भः	... "
पट्टुकूलम्	जैनविद्यारम्भः	... ११०
कौशेयम्	पारशीतुरुषकशास्त्रारम्भः	... "
रोमजं वस्त्रम्	...	लिप्यारम्भः	... "
सतूलकंचुकधारणम्	...	रत्नपरीक्षा	... "
सुरण्णरजस्तमिभ्रतनुसन्धि		शिल्पविद्यारम्भः	... १११
वस्त्रपरिधानम्	...	राजदर्शनम्	... "
वस्त्रनिर्माणम् ...	१०१	राजसेवा	... "
कुसुम्भादिवस्त्रजनम्	...	दासीसंप्रहः	... ११२

विषया:	पृष्ठानि	विषया:	पृष्ठानि
राज्ञां छन्दचामरसिंहासनादिकृत्यम्	११२	सर्ववस्तुक्रयः ...	१२३
सुद्राकरणम् ...	"	सर्ववस्तुविक्रयः ...	"
गजाश्चायारोहणम् ...	११३	गृहक्षेत्रादिभूमिक्रयविक्रयौ	"
शिविकारोहणं चल्लत्यच्च ...	"	बाणिज्यम् ...	१२४
गजकृत्यम् ...	"	निधिद्रव्यादिवृद्धिसंप्रही ...	"
गजस्याकुशः ...	११४	द्रव्यनिधीनां गुप्तस्थाने स्थापनम्	"
अद्रवकृत्यम् ...	"	द्रव्यप्रयोगः ...	"
पत्त्याणादिनिर्माणम् ...	"	धान्यविक्रयः ...	१२५
अद्रवस्य विशेषकृत्यानि ...	"	रससप्रहः ...	"
रथकृत्यम् ...	११५	बृद्धवर्धे धान्यप्रयोगः ...	"
शाखवट्टनम् ...	"	हलप्रवाहः ...	"
शाखधारणम् ...	"	अकेत्य भुक्तनक्षत्राद्वलचक्रम्	१२६
धनुर्विद्यारंभः ...	११६	दीजोमिसत्त्वक राहुनक्षत्रात्	"
कुन्तादिसर्वशक्तायासः ...	"	सत्यारोपणम् ...	१२७
अग्निश्चष्टवृत्तं धारणच्च ...	"	सस्त्यवृक्षलतादीनां वापनं जलेन सेचनं च	"
नालिकारस्याग्निशक्तस्यत्यम्	"	धान्यच्छेदः ...	"
शवुचोरवन्यनं ताडनच्च ...	११७	कणमैदैनम् ...	१२८
शत्रुघ्निः ...	"	धान्यानवर्णं कल्पुष्पोत्तारणं च	"
मध्यारम्भः ...	"	मूरापाद्यादिपाकविद्या ...	"
मादकवस्तुमक्षणम् ...	११८	नवाज्ञाविधिर्नवाज्ञप्राशनं कल्पमूलाशनं च	१२९
नवाङ्गनामोगः ...	"	फोष्टादौ धान्यस्थितिः ...	"
गीर्तनृत्यारम्भः ...	"	धीजसंप्रहः ...	"
नटनर्चक्षिकृत्यम् ...	"	रुणरज्जुभिर्धीन्यवन्धनम् ...	१३०
दुन्दुभीमृदक्षादिकरवायम्	११९	धर्मक्रिया ...	"
मृगया ...	"	शान्तिकपौष्टिककर्म ...	"
जलयन्वरभासित्या ...	"	होमादौ रेटाद्विफलं सूर्यनक्षत्रात् ...	१३१
यापीवृपतवायादैनामारम्भः	१२०	होमादौ वडिवासफलम् ...	"
वृक्षलतादिरोपगमारामकृत्यम्	१२१	मन्त्रादिदीक्षा ...	१३२
नौवाहृत्यम् ...	"	दीक्षाकुण्डी ...	"
गामामन्यतः पद्मकृत्यं रक्षा च	"	सत्त्वप्रदृशचक्रम्	"
दग्धमदिष्यादिकृत्यम् ...	"	मन्त्रयन्वन्वतोपयासादि ...	१३३
मृगादिवनसारिष्टिकृत्यम्	१२२	बीरसाधनम् ...	"
नरिकृत्यम् ...	"	औपयकरण सेसेनं च ...	"
पद्मनं चक्षविद्या	"	रसोत्पादनम् ...	१३४
धीर्घरथम् ...	"	रससेवनम् ...	"

विषयः	पृष्ठानि	विषयः	पृष्ठानि
चातरोगादौ तैलोपवेशनम्	... १३४	तत्रापि विशेषः	... १५२
रक्तमोक्षणं विरेकवस्त्रं च	... "	सायनार्कासंक्रान्तिः	... "
वस्त्रलोहदाहः १३५	संक्रान्तिसुहृत्तास्तत्कलञ्च	... १५३
घनसंप्रहः "	अवद्विशापकाः	... "
रोगोत्पत्त्वा नक्षत्रवशात्पीडादिनसर्वा	१३६	संक्रान्तेः स्थित्युपवेशनशयनानि वत्कलञ्च १५४	
रोगोत्पत्त्वावशुभफलम् "	संक्रान्तेवीहनानि	... "
रोगोत्पत्त्वावनिष्टयोगः "	वस्त्राणि	... १५५
रोगाद्युपद्रवे सति दोपज्ञानं प्रश्नलग्नात्	१३७	शस्त्राणि	... १५५
प्रश्नलग्ने प्रहवशादोपज्ञानम्	... १३८	भृत्याणि	... "
रव्यादिपु वलिष्ठेषु वासरेषु वा दोषः ...	१४०	विलेपनानि	... "
सर्पदंश अनिष्टम्	... १४१	जातयः	... "
रोगनिर्मुकस्थानम्	... "	पुण्याणि	... १५६
रक्तमोक्षणानन्तरं स्नानम् १४२	आभरणानि	... "
रोगनिर्मुकस्थ वहिर्गमनम्	... "	वयांसि	... "
होलिकोत्सवस्थानम्	... "	संक्रान्तेवीहनानां दुष्टफलम्	... १५७
महामित्रा	... १४३	प्रतिमासे संक्रान्तिपूर्वमस्य वशाजनम-	
दिव्यपरीक्षा	... "	भस्य फलम्	... १५८
सर्पश्वरणम् १४४	दुष्टसंक्रान्ती दानम्	... "
अध्वादिपश्चानां दमनम्	... "	अधिमासक्षयमासकौ	... १५९
स्त्रेतुवन्धनः	... "	तारादिवलादन्येषां वलम् ...	"
लवणकृत्यम्	... "	अथ गोचरशक्तरणम् १३.	
जिनचार्वाकपाखण्डकिया	... १४५	ग्रहाणां स्थानफलानि	... १६०
शैल्पनटकर्म	... "	शुभफलदा ग्रहाः	... १६१
तैलिक्यन्त्रकृत्यम्	... "	ग्रहाणां क्रमवेषः तत्र प्रथमं रवेः	... १६२
कुम्भकारकृत्यम्	... १४६	चन्द्रमसः	... १६३
काष्ठशिल्पकृत्यम्	... "	भौमशनिराहुकेतूताम्	... "
स्वर्णकारकृत्यम्	... "	सुधस्य	... १६४
लोहाश्ममणीनां कृत्यानि १४७	गुरोः	... "
नापितकृत्यम् "	मृगोः	... "
आभीरजनकृत्यम्	... "	देवश्विभागेन जन्मतो वा प्रहतो	
चौरकृत्यम्	... "	वधगणना	... १६६
सुहृत्तादौ लमादिविश्वनानां वलावल-		अष्टकवर्गानुसारेण ग्रहफलम्	... "
ज्ञानार्थं गुणाः	... १४८	ग्रहाणां निष्पलत्वम्	... "
अथ संक्रान्तिप्रकरणम् १२.		ग्रहाणां राशिभोगमानम्	... १६७
संक्रान्तिनामानि	... १४९	ग्रहाणां फलसम्युः	... "
संज्ञान्वरम् १५०	जन्मराशिवो ग्रहणफलम्	... १६८
पुण्यसमयः १५१	विषप्रस्थे ग्रहे विवर्ज्यानि	... "
अथनयोर्विशेषः	... "	ग्रहाणां दानानि	... १६९
		ग्रहदोयद्वरमीपधीस्नानम्	... १७०

विषया:	पृष्ठानि	विषया:	पृष्ठानि
सर्वप्रहोपापनुत्तरे सामान्यसौपदी-		कच्छावन्धनम्	... १८६
स्नानम्	१७१	कटिसूत्रं भूम्युपवेशनम्	... "
प्रहृतिरेह रत्नादिधारणम् ...	१७२	अन्नप्राशनम्	... १८७
नवप्रहृतिरिक्ता	"	ताम्बूलभक्षणम्	... "
प्रहृतिरेह प्रश्नामनोपायाः ...	१७३	कर्णविवः	... १८८
अथ संस्कारप्रकरणम् १४.		कन्याया नासिकवेष्टः	... "
प्रथमरजोदर्शनम्	...	अद्वपूर्चकृत्यम्	... "
ऋतुमत्या स्नानम्	१७४	प्रतिष्ठादिविचारः	... १८९
स्नाननश्चव्रवशाच्छीवर्गभीवरणम्	१७५	शुक्रोदयास्तमानम्	... १९०
गर्भधानम्	..."	गुरुद्यास्तमानम्	... "
पुंसवनसीमन्तोन्नयने	१७६	चूडाकर्म	... १९१
मासेश्वराः	१७७	अक्षरलेननाम्भः	... १९२
गर्भसंस्तारे विशेषः	..."	उपनयनम्	... "
विष्णुपूजा	..."	वर्णशाः	... १९३
सूर्यिकागृहप्रवेशः	१७८	वेदाधीशाः	... "
जातकर्म	..."	गुर्वादिवलम्	... "
जननसमये दुष्टकालनिर्णयः, तत्राभुक्त-		उपनयने मासादिः	... १९४
मूढम्	..."	तिथयः	... "
मूढजनने पादफलम्	१७९	उत्तमानि नक्षत्राणि	... "
मूढग्रासः	..."	मध्यमानि	... "
आद्येशान्येष्टागण्डान्वयमलजननादी		प्रतिवेदनक्षत्राणि	... १९५
नेष्टफलम्	१८०	साधारणनक्षत्रे विशेषः	... "
जेष्टायाश्रणफलम्	..."	श्रेत्र निपिद्धनिः	... १९६
पूर्णिष्ठा अन्ये च जनने दुष्टकालाः		अनध्यायाः	... "
शान्त्या शुभावहास्तानाद्	१८१	लग्नफलम्	... "
विष्ट क्षेपः	..."	केन्द्रस्थरेटस्य फलम्	१९७
सनन्यपानम्	..."	चैत्रप्राशस्त्यम्	... १९८
सूर्यिकापायः	१८२	केशान्तसमावर्तनम्	... "
सूर्यिकापायम्	..."	मातृ रजोदेषे विशेषः	... "
पञ्चमीपूर्णिष्ठा	..."	राशी शुरिकायन्धनम्	... १९९
सूर्यिकापायनम्	..."	अथ विवाहप्रकरणम् १५.	
सुर्यिकानिष्टमानम्	१८३	विवाहलग्नप्रयोजनम् (इलो० १)	... "
र्घ्यांशं शतभिपास्त्वानं निपिद्धम्	..."	प्रदनकरणविधिः (इलो० २)	... "
अभ्यन्तरय दन्तोपर्यः फलम्	१८४	प्रदनलग्नाच्छुभाऽर्थमवक्षयनम् (इलो० ३)	२००
जटपूजा	..."	शुणकथलम् (इलो० १२)	... "
देवायाप्तम्	१८५	उत्तीर्णीतिः	... २०१
व्याप्तम्	..."	यग्नीतिः	... २०२
अभ्यन्तरदुपरापानम्	..."	वर्गीतिः	... २०३
निष्प्रमत्ता	१८६	वश्यापद्यम्	... २०४

विषया:	पृष्ठानि	विषया:	पृष्ठानि
तारामैत्री २०५	विवाहे तिथिनक्षत्राणि २२७
योनिमैत्री "	विवाहे दशमहादोषाः "
परस्परं महद्वैरम्	... २०६	वेदधोपः "
ग्रहमैत्री "	विवाहक्षर्णां वेदस्योदाहरणम्	... २२९
गणमैत्री २०७	वेदापवादः "
गणदोपापवादः २०८	पातदोपः २३०
राशिकूटम् २०९	पातानयनम् "
दुष्टकूटापवादः "	युतिदोपः "
नाडीशुद्धिः २१०	युतिदोपापवादः २३१
नाडीदोपापवादः २११	प्रकारान्तरेण युतिदोपः "
एकमेऽपि विशेषः "	एतस्यापवादः "
नाडीदोपवादानानि "	क्रान्तिसाम्यदोपः "
वर्णादिगुणाः २१२	क्रान्तिसाम्यसम्भवः २३२
प्रकारान्तरेण वर्णादीनां गुणाः	... "	गणितागतमेव क्रान्तिसाम्यं त्याज्यम्	... "
जन्मकाले भौमदोपः २१५	लक्ष्मादोपः "
विषकन्यायोगः "	एकार्गलदोपः २३३
विषकन्यादोपपरिहारः २१६	एकार्गलस्योदाहरणम् "
जन्मकालिकदुष्टनक्षत्रफलम्	... "	एकार्गलचक्रम् २३४
अस्यापवादः "	पञ्चकदोपः २३५
वाग्दानं कुमारीवरणं च २१७	दाक्षिणात्यप्रसिद्धपञ्चकम् "
विवाहादिक्षये निपिद्धसमयः	... "	पञ्चकद्वयस्यापवादव्यवस्था	... "
मकरस्थगुरुपरिहारः ११८	दग्धास्तिथयः २३६
गुरोर्वकातिचारे विशेषः "	उपग्रहदोपः २३७
वकातिचारदोपापवादः २१९	लक्ष्मप्रहृष्टातोषपद्मुष्ट्य त्याज्यः पादः	... "
सिंहस्थगुरुदोपः "	जामिनदोपः "
देशविशेषेण सिंहस्थगुरुदोपाभावः	... "	लक्ष्मप्रहृष्टानिमित्रकार्णिलकर्त्तीदोपा-	
सिंहस्थगुरु सर्वदेशेषु दोपापवादः	... "	णामपवादः २३८
मकरस्थे गुरी विशेषः २२०	देशविशेषे दोपव्यवस्था	... "
लुभसंवत्सरः "	एकविंशतिमहादोपाः "
कार्यविशेषे नामजन्मक्षयोः प्राधान्यम्	... "	कर्त्तरीदोपापवादः २३९
विवाहे सवत्सरादिशुद्धिः	... २२१	नक्षत्रविषयटिकाः	... "
तत्र विशेषः २२२	तिथिविषयटिकाः	... २४१
विवाहे रविगुरुचन्द्रवलम् "	वाराविषयटिकाः	... २४२
कन्याया वटोद्ध गुरुवलम्	... "	विपनाडीदोपापवादः "
वरस्य रविवलम्	... २२३	श्रहृष्टिः "
उभयोद्धवलम्	... "	लभ्रसप्तमशुद्धिः	... २४३
मासादिदोपापवादः "	पंगवन्यादित्याज्यलग्नानि	... २४४
विवाहाद्युपयुक्तः शास्त्रार्थः	... २२४	होलिकाष्टकम् "
विवाहे शुभमासाः २२६	मासशून्यराश्यादीनामपवादः	... २४५

विषयः	पृष्ठानि	विषयः	पृष्ठानि
गण्डान्तदोपापवादः	२४५	अथाद्याधानप्रकरणम् २८.	
कुलिक्यमध्यटयोरपवादः	"	अड्याधानेऽयनक्षत्रादिशुद्धिः	"
जाष्टमलग्नदोपापवादः	२४६	अथ राजाभिषेकप्रकरणम् १९.	
अद्वायनांघकणादिलग्नदोपापवादः	"	राजाभिषेके समयशुद्धिः	२६७
कुनवांशादिदोपापवादः	"	युवराजाभिषेकः	२६८
सर्वदोपापवादः	२४७	मुत्राभावेऽन्यस्याभिषेचनम्	२६९
विवाहदुभनवांशः	"	राजचिह्नधारणम्	"
विवाहलम्भं भगदा ग्रहाः	३४८	अथ यात्राप्रकरणम् २०.	
भर्गदमहापवादः	"	ज्ञातज्ञातजन्मनां राज्ञं यात्राकथन-	
विवाहलम्भे रेखापदा ग्रहाः	२४९	प्रकारः	"
मध्यमफलदा ग्रहाः	"	प्रश्नलम्भायात्रायाः शुभाऽशुभफलम्	२७०
रेखाप्रदमहाणां विशेषकाः	"	संकान्तिपु यात्रा फलम्	२७२
इष्टकालदानम्	२५०	दशादिव्यलवशाद्विधिं यात्राफलम्	"
इष्टकालाहमानयनम्	२५१	यात्रायां चन्द्रतारातिथ्यादिशुद्धिः	२७३
स्पष्टलग्नादिष्टकालानयनम्	२५२	„ पृथक्तिथिफलानि	"
विवाहे प्रशस्तयोगाः	२५३	„ शुभाशुभवाराः	२७४
„ नेष्टयोगाः	२५४	वार्षकालविशेषं यात्रा	"
गोधृलिकलग्नम्	२५८	यात्रायासुत्तमसम्ध्यमनेष्टनक्षत्राणि	"
गोधृलिसमयः	२५९	वर्जनक्षत्राणामावश्यके त्याज्यघटिकाः	२७५
विवाहलमान्युक्तुरादीनां शुभाऽशुभफ-		मतान्वरम्	"
लम्	"	उसनसो मते तु	२७६
आवश्यके राज्ञं रम्भविवाहः	२६०	नक्षत्रविशेषे विजययात्राप्रकारः	"
हीनजातीनां विवाहे विशेषः	"	दिक्कूलम्	२७७
शृदादीनां स्थियः पुर्वविवाहः	"	विदिक्कूलम्	"
विवाहाङ्करायम्	२६१	दिक्कूलदोपापनुस्तये विधिः	"
तेलादिलापते दिनसंख्या	"	समयविशेषे त्याज्यानि भानि	२७८
विवाहविदिका	२६२	सार्वकालं यात्रायां शुभनक्षत्राणि	"
विवाहानन्तरं मण्डपोद्घासनम्	२६३	युद्धयात्रायां विशेषः	२७९
अथ वधुप्रवेशप्रकरणम् १६.		अकुलगणः	२८०
वधुप्रवेशो नक्षत्रादिशुद्धिः	"	कुलगणः	"
विवाहोचरं प्रथमाद्ये मासविशेषेण वध्या		कुलाकुलगणः	"
नियासदोपः	२६४	नामादिवर्णवशान्त्रिसर्गिको वर्णस्वरः	२८१
अथ द्विरागमनप्रकरणम् १७.		तिथिस्वरः	"
द्विरागमे वर्यमासादिशुद्धिः	२६५	तात्कालिकस्वरः	२८२
रामुणदक्षिणकारदोपः (द्व्यौ० ४)	"	पथिरातुचक्रम्	"
दीपमिहिकार्यवेशे दोपापवादः	"	यात्राया गोरक्षमते तिथिचक्रं तत्पलभ्य	२८३
प्रविशुक्तोपापवादः	२६६	सर्वीक्योगफलम्	२८४
		आठलभैत्याज्यी	"

विषयः	पृष्ठानि :	विषयः	पृष्ठानि
प्रशस्तो हैवरयोगः ३८६	आवश्यकतीर्थयात्रायां न दोपः ३००
घवाढारयः शुभयोगः "	मार्गे शुक्रास्तादौ तत्रैव स्थितिः "
घातचन्द्राः "	यात्रायां त्याज्यलग्नानि ३०१
घातनश्चत्रोणि २८७	शुभलग्नानि "
घातवाराः "	दिप्रादश्यः ३०२
घाततिथ्यः २८८	दिग्गीशाः ३०३
घाततिथ्यानां त्याज्यघटिकाः "	लालाकी "
आवश्यके घातचन्द्रस्य नक्षत्रपादास्त्याज्याः,,		दिग्गीशोऽन्यकेन्द्रगे शुभं फलम् "
घातसूर्याः २८९	लालाटस्पष्टीकरणम् "
घातचन्द्राः "	उक्तसमेये लग्नाद्यलाभे उक्तान्यदिक्षु	
घातभौमाः "	प्रशस्ता यात्रा ३०४
घातवृद्धाः २९०	यात्रायां श्रेष्ठा नेष्टाश्च प्रहाः "
घातगुरुवः "	यात्रायां योगप्रशंसा ३०५
घातभृगवः "	योगाः ३०६
घातद्वन्द्यः २९१	योगाधियोगयोगाधियोगाः ३१०
खीणां घातचन्द्राः "	मिति सम वृद्धिदिति त्रिविधं गमनम् "
चन्द्रवासस्तकलङ्घ्य २९२	विजयदशम्याः प्रशंसा ३११
एकस्मिन्नपि राशी घटिकात्मकचन्द्र-		चित्तोत्साहादिप्राशस्त्यम् "
वासश्चत्रुदिक्षु "	यात्रायां शकुनादिप्राशस्त्यम् ३१२
योगिनीवासः २९३	उत्सामादध्यसमाप्ती यात्रा न कार्या "
तोत्कालिक्योगिनी २९४	अकालवृद्धिदोपः "
कालपात्रः "	अकालवृद्धिदोपपरिहारः ३१३
यामार्द्दात्मको द्विविधो राहुः २९५	एकस्मिन्दिने यात्राप्रवेशयोर्विचारः "
दिव्याद्वयामराहुः "	यात्राविधिः "
रात्रावद्वयामराहुः "	नक्षत्रदोहदम् ३१४
सुहृत्तीत्मकराहुः "	तिथिदोहदम् ३१५
राहुफलम् २९६	वारदोहदम् "
परिषद्धण्डः "	दिन्दोहदम् "
परिवेविदिनिर्णयः "	दोहदाऽलाभेऽस्पर्शत्वे च तद्वयानम् "
आवश्यके परियोज्यनम् २९७	देहस्तरविचारः ३१६
सर्वदिग्मने श्रेष्ठानि भानि "	तिथिपरत्वेन स्वरोदयः "
वक्षप्रदस्य वारादित्याज्यम् ३१८	वारपरत्वेन निजस्वरोदयः ३१७
अनुकूल्यम् "	प्रातः स्वस्वरपूर्वमुत्थानम् ३१८
त्रिविधः प्रतिशुक्रः २९९	चन्द्रस्वरकृत्यम् "
प्रतिशुक्रदोपापवादः "	सूर्यस्वरकृत्यम् ३१९
गमने शुक्रस्यास्तादिदोपः "	वहन्नादीस्वरकृत्यम् "
घुणोपि समुद्रस्त्याज्यः ३००	पञ्चघट्यात्मके स्वरे तत्त्वोदयाः ३२०
सामान्ययात्रायां प्रतिशुक्रादिदोपाभावः	"	तत्त्वनां प्रचारः ३२१

विषया:	पृष्ठानि	विषया:	पृष्ठानि
स्वरतत्त्वानां फलम्	... ३२१	काकिणीविचारः	... ३४०
यात्रायमये गमविधिः	... "	प्रामे निवासदिग्विचारः	... "
प्रतिदिवां याते वाहनानि	... ३२२	भूमिविचारः	... ३४१
दिश्युक्तवाहनाभावे ध्यानम्	... "	भूमी शस्यज्ञानम्	... ३४२
स्वगमनविलम्बे प्रतिनिधित्वेन प्रस्थानम्	..."	गेहमुवः शुभाशुभपरीक्षा	... "
प्रस्थितस्य वसतिप्रदेशाः	... ३२३	गेहार्थं भुवः शोधनम्	... "
छुतप्रस्थानस्यापि ततो गमः	... ३२४	भूमिग्रथमखनने शुभाशुभफलम्	... "
प्रस्थितस्य गमनावधिः	..."	समभूमी दिक्साधनम्	... ३४३
प्रस्थाने प्रस्थितस्य कार्यवशाद्विलम्बे दिननिर्णयः	..."	गहस्यायाः	... ३४४
दिक्पत्रत्वेन प्रस्थानम्	..."	क्षेत्रफलादायाद्यानयनम्	... ३४५
प्रस्थानोक्तदिनावधिक्ये पुनर्यात्रा	... ३२५	नक्षत्राद्राशिङ्गानम्	... ३४६
यात्रायाः पूर्व त्याज्यानि	..."	घटितम्	... "
यात्रायां शुभशकुनाः	... ३२६	व्ययानयनम्	... "
शुभवस्तुति विशेषः	... ३२८	इन्द्राजयमांशानयनम्	... ३४७
दुःशकुनाः	..."	स्वप्नायनक्षत्राभ्यां पिण्डानयनम्	... "
महापशकुनाः	... ३२९	क्षेत्रफलादैर्घ्यविस्तारज्ञानम्	... ३४८
दुःशकुना वामतस्याज्याः	... ३३०	गृहारम्भसमयः	... "
केषांचित्कीर्तनं केषांचिद्दर्शनं शुभम्	शुभम्	गृहारम्भे वृपमचक्रम्	... ३४९
शुभम्	..."	एवदेव पुनः सप्तम्	... ३५०
वामभागे शुभाः	..."	गृह खातदिक्स्पष्टीकरणम्	... ३५१
वामभागे शुभस्वनः	... ३३१	चन्द्रमासाहूरानिश्चार्य वास्तुशिरः	... "
दक्षिणभागे शुभः	..."	वास्तोर्वामकुक्षौ राते शङ्कुरोपणम्	३५२
प्रदक्षिणगताः शुभाः	..."	संकान्तिपत्रत्वेन गृहद्वारानिश्चयः	... "
वामगताः शुभाः	... ३३२	गेहारम्भे विशेषः	... "
अत्र विशेषः	..."	गेहे सुपार्थं तिथिविचारः	... ३५३
शुभशेषाविशेषः	..."	ध्रुवादिपोदशगृहाणि	... "
यात्राचशकुनानां वामदक्षिणभागयोः	प्रवेशादौ व्यत्ययः	ध्रुवादिगेहानामक्षुरसंख्या	... ३५४
शुभाशुमसूचकत्वम्	... ३३३	ध्रुवादिगेहानार्थी प्रस्तारः	... ३५५
शशुनादौ शुभाशुभदिग्विचारः	... ३३४	प्रकारान्तरेण प्रस्तारः	... "
दुःशकुने जाते कर्तव्यमाह	..."	गेहारम्भे लग्नवलविचारः	... ३५६
यात्रायां त्याज्यदोपाणां संप्रदः	... ३३५	गेहारम्भे शुभयोगाः	... "
युद्धायाप्रसादपूर्वम्	... ३३६	" नेष्ट्योगः	... ३५७
यात्रानिष्टत्वौ गृहप्रवेशः	... ३३७	नक्षत्रविशेषेषु सत्त्वे फलम्	... ३५८
शृण्येऽन्यनक्षत्राणां फलम्	... ३३८	द्वारदासारोपः	... "
उप्रवलम्	..."	द्वारचक्रम्	... ३५९
अथ वास्तुप्रकरणम् २१.		रातिपत्रत्वेन द्वारस्य दिननिर्णयः	... "
शामर्थं शुभाशुभो शामः.....	... ३३९	गयाक्षनिर्णयः	... ३६०

विषयः	पृष्ठानि	विषयः	पृष्ठानि
द्वारस्य तिर्यग्मानप्रेदशनिर्णयः	... ३६०	देवताविशेषेण मासविशेषः	... ३७५
द्वारस्योद्धता "	प्रतिष्ठायां लग्नवल्लम् "
गैरोच्चम् "	अथ मिश्रप्रकरणम् २४.	
द्वारादौ वेघविचारः ३६१	अंगस्फुरणफलम् ३७६
वेघापगादः "	अंगे तिलोत्पत्ती कंहूत्यां च फलम् ३७८
पौडशगृहनिर्माणम् "	पहीपतने शुभाशुभतिथिवारनक्षत्राणि ...	"
कूपसननप्रेदशः ३६२	स्वस्यारिष्टज्ञानम् ३८०
इष्टिकारम्भः सुधालेपञ्च "	संभासेऽशुभचिह्नम् ३८१
गृहोपकरणं वहिकूल्यञ्च ३६३	युद्धे जयलक्षणम् ३८२
चित्रारम्भः "	द्यायापुरुपदर्शनप्रकारस्तकलञ्च ...	"
गृहाङ्गणे शुभमृक्षाः "	स्वप्रदर्शनम् ३८३
गृहाङ्गणेऽशुभमृक्षाः "	शुभदाः स्वप्राः ३८४
सर्वेषि वृक्षा अङ्गेणऽशुभाः ३६४	अशुभस्वप्राः ३८५
पुराप्रमप्रकारादीनां निर्माणे सूत्रसाधनम् ३६५	... ३६५	स्वप्रस्य फलव्यवस्था ३९०
देवाल्यमठाद्यारम्भः "	दुष्टस्वप्रदर्शने दोपशार्तिः ३९१
जैन्याल्यप्रपादरीणामारम्भः "	उत्पाताः"
अथ गृहप्रवेशप्रकरणम् २२.		उत्पातानां संप्रहः ३९२
गृहप्रवेशो मासादिशुद्धिः ३६६	उत्पातफलज्ञानाय चतुर्विधमंडलम् ३९३
जीर्णगृहप्रवेशः "	उत्पातानां फलानि ३९४
प्रवेशेऽन्यनक्षत्रफलम् ३६७	केतवः ३९६
वारफलम् "	उत्पाताः ३९८
प्रवेशो त्यान्याः "	निर्धारितस्वरूपं तत्कलञ्च ३९९
लग्नवल्लम् ३६८	उल्कालक्षणं तत्कलञ्च"
गृहद्वारवशाच्चिययः ३६९	दिग्दाहफलम् ४००
गैरे तत्प्रवेशो च विशेषः "	मूकम्पफलम् ४०१
गृहप्रवेशो कलशचक्रम् "	रजोवृष्टिदर्शनम्"
तदेव स्पष्टयति	... ३७०	गान्धर्वनगरं तस्फलञ्च ४०२
प्रवेशविधिः "	एपासुत्पातानां फलपाकसमयः ...	"
प्रविधिः प्रवेशः ३७१	बुद्धिविकृतिस्तकलञ्च ४०३
वास्तुपूजनादिकं विना प्रवेशो न कार्यः	..."	पश्चिमूगादिविकृतिस्तकलञ्च ...	"
वास्तुपूजनम् "	अन्येऽत्यव्यशुभदा उत्पाताः ४०४
नवदुर्गप्रवेशः ३७२	उत्पातदोपापवादः ४०५
जितस्य शत्रोः पुरप्रवेशः "	उत्पातानामुपसंहाराः"
अथ देवाल्यादिप्रतिष्ठाप्रकरणम् २३.		काकस्पर्शफलम् ४०६
प्रतिष्ठायां समयशुद्धिः ३७२	कदाचित् काकस्पर्शेषि दोपाभावः	"
देवताविशेषेण नक्षत्र विशेषः	... ३७३	छिकाफलम् ४०७
देवताविशेषेण लग्ने विशेषः	... ३७४	वर्षे राजादिसप्तनाथविचारः	... ४०८
वारफलम् "	विशेषपकानयनम् ,
		सर्वैनिष्पत्तिर्धर्मसत्यके च ४०९

विषया:	पृष्ठानि	विषया:	पृष्ठानि		
श्रुधादृथानयनम्	...	४०९	केपांचिन्मतान्तरम्	...	४२९
प्रकारान्तरेण क्षुधादृथानयनम्	४१०	शुभगर्भेलक्षणानि	...	४३०	
उप्रतादृथानयनम्	”	गर्भाधारणदिनाद्वृष्टिज्ञानम्	...	”	
शलभादृथानयनम्	४११	प्रकारान्तरेण गर्भाद्वृष्टिज्ञानम्	...	”	
प्रकारान्तरेण शलभादृथानयनम्	”	पुनरन्यप्रकारेण मेघगर्भज्ञानं वृष्टिज्ञानं च	”	”	
उद्दिज्जादिप्राण्यानयनम्	४१२	प्रकारान्तरम्	...	”	
युगानां प्रमाणम्	”	पुनः प्रकारान्तरम्	...	४३१	
गतकलिमानानयनम्	४१३	सामान्यतो वृष्टिज्ञानम्	...	”	
धर्मान्तर्यनम्	”	जेष्ठशुक्लाष्टम्यादिदिवनचतुष्टये वायुफलम्	४३२	”	
प्रकारान्तरेण धर्मान्तरम्	”	स्वात्यादिपु वृष्टी आवणादायनावृष्टिः	...	”	
आयव्ययानयनार्थं भ्रुवांशका:	४१४	आपादद्वितीयादिपु चतुर्पु फलम्	...	”	
भेषादिराजीनामायस्ययोः	”	श्रावणशुक्लपञ्चमीफलम्	...	४३३	
शकात्सुभिक्षुदिज्ञानम्	”	सूर्येस्य रेत्यादिपु नक्षत्रेषु वृष्टेः फलम्	”	”	
संवत्सरात्सुभिक्षुदिज्ञानम्	४१५	संक्रान्तिदिवे वृष्टिरूलम्	...	४३४	
प्रकारान्तरेण संवत्सरात्कलम्	”	काकनीडफलम्	...	४३५	
वर्षे राजार्दिनां संक्षेपात्कलम्	४१६	तिद्विभाष्टकउम्	...	”	
दीपमालिकायोगे नेष्टे फलम्	”	रोहिणीचक्रम्	...	४३६	
न्युष्टप्रतिपदि योगः	४१७	सप्तनांडीचक्रम्	...	४३७	
आपादद्वितीयानवमीयोगः	”	तदेव सप्तयति	...	४३८	
शनिराशिफलम्	”	एतासु श्रेष्ठेषु सीस्थेषु फलम्	...	”	
कूर्मचक्रम्	४१८	शुक्रस्तिविशाद्महयोगवशाश्च	वृष्टि-	”	
शनिचाप्तसंगाच्छन्निचक्रम्	४१९	शानम्	...	४४१	
अद्वारवशान्महर्ष्यादि	४२०	आद्रादिनक्षत्रे रविप्रवेशे स्त्रीपुंयोगादी	”	”	
प्रतिमासमर्घज्ञानाय चन्द्रोदयज्ञानम्	४२१	वृष्टिज्ञानम्	...	४४३	
चन्द्रस्य शृण्गोन्नतिस्तरकलश	”	सूर्यक्षेयोगे वृष्टिज्ञानम्	...	४४४	
रवेवामशक्षिणभाग्योद्यन्द्रोदयफलम्	४२२	वर्षीकाले सद्योवृष्टिलक्षणानि	...	”	
प्रतिमासे दर्शकलम्	”	उपश्रुतिशुकुनाः	...	४४६	
एकमासे पञ्चवारफलम्	४२३	वारविशेषे उपश्रुतौ विशेषः	...	४४७	
प्रतिमासे संक्रान्तिवशात्सर्वमर्घमहर्षज्ञानम्	”	रघुवशादिशुकुनाः	...	”	
भीम्पशारदधान्यनिष्पत्तिज्ञानम्	४२४	सामुद्रिकपरीक्षा	...	४४८	
संप्रहस्ययः	”	खीणां विशेषः	...	४५२	
संप्रान्तिवशादैर्षपौरीगमासयोदयपादिवशा-	”	खीणां शुभचिह्नानि	...	४५३	
द्वान्यार्दिनां समर्घमहर्षपादज्ञानम्	४२५	सामान्यवः शुभलक्षणानि	...	४५४	
शुशादी पुण्यपत्रादैर्षपौरीगमादिविष्टु-	”	अथ ग्रन्थालंकरमकरणम्	२५	”	
षिद्गानम्	४२६	राजो वर्णनम्	...	”	
आपादयां पौरीमासयां वायुपरीक्षा	”	राजकुमाराणो वर्णनम्	...	४५५	
आपादयां धान्यादित्वानग्र	४२७	ग्रन्थकर्तुः कुलपरम्परावर्णनम्	...	४५७	
द्वैषिद्वावात्परीश्च	४२८	ग्रन्थनिर्माणयोजनान्तरम्	...	४६२	
वृष्टिज्ञानार्थं गेषगर्भज्ञानम्	”	टीकाकारकृतद्वेषोः	...	४६४	

॥ इति सुहूर्तगणपतिविषयातुकमणिवा समाप्ता ॥

॥ श्रीः ॥

अथ मुहूर्तं गणपतिः ॥

भाषाटीकासमेतः ।

श्रीमत्या कल्पवल्लयेव हैमवत्या निरत्ययः ॥ जयत्यालिं-
गितः कल्पद्रुमः सत्फलदः शिवः ॥ १ ॥ प्रवर्तयति सा-
लोकं लोकं यज्ञादिकर्मसु ॥ यन्मुहूर्ताकरोद्यानं वंदेकं काल-
मीथरम् ॥ २ ॥

उद्घानुरहर्पतिर्निंजकर्दूरीप्रकुर्वन्तमः
कञ्जानि प्रतिवोधयेथ सकलेः कर्माणि नः कारयन् ॥
नन्वन् भूतसुखं पुनँस्त्रिभुवनं गच्छेत्थ विद्वाजते
सोऽयं श्रीभगवान् सहस्रकिरणो देयात्स्वभक्तिं शुभाम् ॥ ३ ॥

गणपतिकृतमेतं ग्रथमुच्चं मुहूर्त-
र्लिलितसरलभाषाटीकयालङ्करोमि ॥

अहमपि शिशुवोधग्रामये रामपूर्व-
भवति च मम नामेतद्याल्वन्तमेव ॥ २ ॥

श्रीमती पर्वतीजीसे आलिङ्गन किये हुए अविनादी मोक्षादिशुभ
फलके देनेवाले शिवजी इस प्रकार जयको प्राप्त हैं जैसे कि, श्रीमती
सुवर्णमयी लतासे लिपटा हुआ निर्दोष सत्फलको देनेवाला कल्पवृक्ष
जयको प्राप्त होता है ॥ १ ॥ मुहूर्ताकी खानियोवाला जिनका उदय
समस्त जगत्को प्रकाशके साथ यज्ञादि कर्मोंमें लगाता है ऐसे
कालरूप ईश्वर सूर्यनारायणको में गणपति बन्दना करता हूँ ॥ २ ॥

श्रीविश्वेशं गणेशं गुरुचरणमथो यज्ञमृति सुकीर्ति नत्वा
पित्रोः पदाव्यं निखिलमुनिवरान्संहितासंप्रणेतृन् ॥ गर्गा-
विश्रीवसिष्ठां गिरसविरचिताः संहिता मूलभूता ज्ञात्वा

ज्योतिर्निवंधानतिललितपदां रत्नमालां विचिंत्य ॥ ३ ॥
 संकेतान्संविहाय व्यवहृतिसुखदं बालबोधाय शीघ्रं ज्योतिर्ग्रं
 थोदितार्थैः सुगमलयुपदैः सिद्धकार्येर्मुहूर्तैः ॥ ज्योतिस्सि-
 द्धांतवेत्ता श्रुतिविविधकलाशास्त्रपारीणवुद्धिगोडशीनेश-
 मान्यः क्षितिपतितिलकेनार्च्यमानश्च भूयः ॥ ४ ॥ श्रीराम
 दासजनुपो हरिशंकरस्य श्रीरावलस्य तनयो विनयोपपन्नः ॥
 ग्रंथं मुहूर्तगणपत्यभिधं विधत्ते विद्यानिधिर्गणपतिर्गणि-
 तागमज्ञः ॥ ५ ॥

श्रीरामदासजीके पुत्र रावल श्रीहरिशंकरजी तिनका पुत्र गण-
 पति नामवाला गौड ब्राह्मण जो कि, ज्योतिप शास्त्रके सिद्धा-
 न्तोंका जाननेवाला, वेद और अनेक कलाशाखोंके पार पहुँचने
 वाली वुद्धिवाला, चीनदेशके राजाका मान्य और फिर चक्रवर्ती
 राजासे भी पूज्यमान, विनयसे युक्त, विद्याओंका निंधान, गणितशा-
 स्त्रका जाननेवाला है. सो विश्वेश्वर, गणेश, और सुकीर्ति यज्ञमूर्ति
 गुरुचरण और माता पिताके चरण कमल और संहिताओंके बनाने
 वाले सकल मुनिवरोंको ग्रणाम करके तथा गर्ग, आत्रि, श्रीवशिष्ठ
 अंगिरा इनकी रची हुई मूलभूत संहिताओंको जानकर और ज्यो-
 तिपञ्चांशों तथा अतिललित पदोंवाली रत्नमालाको विचारकर संके-
 तोंको छोड़कर बालकोंको शीघ्र बोध होनेके लिये पुराने ज्योतिप
 ग्रंथोंमें कहेहुए अर्थोंवाले तथा सरल और छोटे पदोंवाले कार्योंके
 सिद्ध करनेवाले मुहूर्तोंसे व्यवहारमें सुख देनेवाले मुहूर्तगणपाते-
 नामक ग्रंथको बनाताहै ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥

अथ संवत्सरानयनम् !

शाककालः पृथक्संस्थो द्वाविंशत्या २२ हतस्त्वथा ॥ भूनंदा-
 व्यव्यव्य ४२९९ युग्मल्लो धाणशैलगजेद्वुभिः १८७६ ॥ ६ ॥
 लव्ययुग्मिवहतः पष्टया ६० शेषे स्युर्गतवत्सराः ॥ वार्हस्प-
 त्येन मानेन प्रभवाद्याः क्रमादमी ॥ ७ ॥

अब संवत्सर लानेका प्रकार लिखते हैं-शाकेको दो स्थानमें अलगर और एक स्थानमें (द्वाविंशति) २२ से गुणाकरके उसमें भू १ नंद ९ आश्विर अधिकृत अर्थात् ४२९१ जोड़दे इस जोड़हुएमें वाण ५ शैल ७ गजट इंदु १ अर्थात् १८७५ का भागदे ॥ ६ ॥ जो फल मिले सो दूसरे स्थानमें धरेहुए शाकेमें जोड़दे, उसमें साठि ६० का भाग देनेसे जो शेष वचै सो गत संवत्सर जाने और उसके आगेका वर्तमान संवत्सर होता है इस प्रकार वृहस्पतिके मानसे क्रसकरके प्रभवादिक संवत्सर होते हैं ॥ ७ ॥

(उदाहरण) जैसे कि, वर्तमान संवत् १९६४ में शाका १८२९ है इसको दो स्थानोंमें लिखा एक जगह २२ से गुणा किया तो ४०२३८ हुए इनमें ४२९१ जोड़े तो ४४५२९ हुए, इनमें १८७५ का भाग दिया तो लघ्व २३ मिले. इनको दूसरी जगह धरे हुए शाकमें जोड़ा तो १८५२ हुए इनमें ६० साठिका भाग दिया तो शेष ५२ रहे । वावनवाँ कालयुक्तनाम संवत्सर तंक गत हो चुके और इसके आगेका ५३ वाँ सिद्धार्थी नाम संवत्सर वर्तमान है ऐसा जानना—

शाका १८७५) ४४५२९ (२३ लघ्व मिले

	३७५०
१८२९	७०२९
२२	५६२५
<u>३६५८</u>	<u>१४०४</u>
<u>३६५८</u>	<u>३७५०</u>
४०२३८ यह गुणनफल हुआ	शाका १८२९
<u>४२९१ जोड़े तो</u>	<u>२३ लघ्व जोड़े</u>
४४५२९ इतने हुए	भागदिया ६०) १८५२ (३०
१८७५ का भाग दिया तो	शेष ५२ वाँ
गत संवत्सर हुआ इसके आगेका ५३ वाँ वर्तमान है ॥	१८०

अथ पष्टिसंवत्सरनामानि ।

प्रभवो १ विभवः २ शुक्लः ३ प्रमोदो ४ इथ प्रजापतिः ५
 अंगिराः ६ श्रीमुखो ७ भावो ८ युवा ९ धाता १० तथे-
 श्वरः ११ ॥ ८ ॥ वहुधान्यः १२ प्रमाथी १३ च विक्रमो
 १४ वृपवत्सरः १५ ॥ चित्रभानुः १६ सुभानुश्च १७
 तारणः १८ पार्थिवो १९ अव्ययः २० ॥ १॥ सर्वजित् २१
 सर्वधारी च २२ विरोधी २३ विकृतिः २४ खरः २५ ॥
 नंदनो २६ विजयश्चैव २७ जयो २८ मन्मथ २९ दुर्मुखो
 ३० ॥ १० ॥ हेमलंबी ३१ विलंबी च ३२ विकारी ३३
 शार्वरी ३४ पुवः ३५ ॥ शुभकृ ३६ छोभकृत् ३७ कोधी
 ३८ विश्वावसु ३९ पराभवो ४० ॥ ११ ॥ पुवंगः ४१
 कीलकः ४२ सौम्यः ४३ साधारण ४४ विरोधकृत् ४५ ॥
 परिधावी ४६ प्रमाथी ४७ स्यादानंदो ४८ राक्षसो ४९
 उन्नलः ५० ॥ १२ ॥ पिंगलः ५१ कालयुक्तश्च ५२ सि-
 द्धार्थी ५३ रोद्र ५४ दुर्भती ५५ ॥ दुंदुभी ५६ रुधिरोद्धारी
 ५७ रक्ताक्षी ५८ क्रोधनः ५९ क्षयः ६० ॥ १३ ॥ पष्टि-
 संवत्सरा द्वेते क्रमेण परिकीर्तिताः ॥ स्वाभिधानसमं ज्ञेयं
 फलमेपां मनीपिभिः ॥ १४ ॥

अब साठि संवत्सरोंके नाम वर्णन करते हैं—प्रभव १, विभव २,
 शुक्ल ३, प्रमोद ४, प्रजापति ५, अंगिरा ६, श्रीमुख ७, भाव ८, युवा ९,
 धाता १०, ईश्वर ११, वहुधान्य १२, प्रमाथी १३, विक्रम १४, वृप १५,
 चित्रभानु १६, सुभानु १७, तारण १८, पार्थिव १९, अव्यय २०, सर्व-
 जित् २१, सर्वधारी २२, विरोधी २३, विकृति २४, खर २५, नंदन २६,
 विजय २७, जय २८, मन्मथ २९, दुर्मुख ३०, हेमलम्बी ३१, विलम्बी
 ३२, पिंगली ३३, शार्वरी ३४, ईव ३५, शुभकृत् ३६, शोभनकृत् ३७,

क्रोधी ३८, विभावसु ३९, पराभव ४०, प्लवंगम् ४१, कीलक ४२, सौम्य
४३, साधारण ४४, विरोधकृत् ४५, परिधावी ४६, प्रसाथी ४७, आनंद
४८, राक्षसं ४९, अनल ५०, पिंगल ५१, कालयुक्त ५२, सिद्धार्थी ५३,
रोद्र ५४, दुर्मतिप५५, दुंदुभी ५६, तथिरोद्धारी ५७, रक्ताक्षी ५८, क्रोधन
५९, क्षय ६०, पंडितोंने यह साठि संवत्सर क्रमसे कहेहैं । इनका
फल अपने २ नामके समान जानना चाहिये ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥
॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥

अथ रेवादक्षिणभागे संवत्सरानयनम् ।

शाको द्वादशभिर्युक्तः पष्टिद० हृद्वत्सरो भवेत् ॥
रेवाया दक्षिणे भागे मानवारव्यः स्मृतो द्वृधैः ॥ १६ ॥ सं
एव नवभिर्युक्तो नर्मदायास्तथोत्तरे ॥ जैवा वाचस्पतेर्मध्य-
राशिभोगेन कथयते ॥ १६ ॥

अब रेवा नदीके दक्षिण भागमें संवत्सर लानेका प्रकार कहतेहैं—
शाकमें १२ जोडकर ६० का भाग देनेसे जो बचे सो रेवाके
दक्षिण भागमें मानवनाम संवत्सर पंडितोंने कहा है ॥ १५ ॥ और
यदि उसमें ९ जोडदिये जायें तो रेवाके उत्तर भागमें जैवनाम
संवत्सर कहाता है । जो कि, वृहस्पतिकी मध्यम गति करके राशि
भोगकरनेसे होताहै । जैसा कि, लघुवसिष्ठसिद्धान्तमें लिखाहै कि,
“मध्यगत्या भभोगेन गुरोर्गोरवत्सराः” इति ॥ १६ ॥

अथ प्रभवसंवत्सरारंभः ।

मावे मासि धनिष्ठायाः प्रथमे चरणे गुरुः ॥ यदोदेति तदा
श्रेष्ठः प्रभवो वत्सरायणीः ॥ १७ ॥

अब प्रभव संवत्सरका आरम्भ जाननेका प्रकार वर्णन करतेहैं—
जब माघके महीनेमें धनिष्ठाके प्रथमचरणपर वृहस्पति उदय
होतेहैं तब सब संवत्सरोंमें पहिला प्रभवनाम श्रेष्ठ संवत्सर
होताहै ॥ १७ ॥

अथ संवत्सराणां युगसंज्ञादि ।

आदौ संवत्सरो ज्ञेयो युगस्यानलदेवता ॥ भानुमहैवतः
 प्रोक्तो द्वितीयः परिवत्सरः ॥ १८ ॥ इडावत्सरसंज्ञश्च तृती-
 यः सोमदैवतः ॥ अनुवत्सरकस्तुर्यः प्राजापत्यः समीरितः
 ॥ १९ ॥ तथैव वत्सरो गौरीदैवतः स तु पंचमः ॥ युगं तैः
 पंचर्भिर्वर्षैः पष्ठिर्द्वादशभिर्युगैः ॥ २० ॥ तदीशा वह्निजी-
 वेद्रपावकत्वपृसंज्ञकाः ॥ अहिर्वृच्छ्यश्च पितरो विश्वेदेवा
 निशाकरः ॥ पुरुहूतानलौ दस्त्रौ भगञ्चैते क्रमात्समृताः ॥ २१ ॥

अब संवत्सरोंकी युगादिसंज्ञा वर्णन करते हैं—युगकी आदिमें
 संवत्सर जानना, जिसका देवता अश्री है. दूसरा परिवत्सर जानना,
 ॥ १८ ॥ जिसका देवता सूर्य है. तीसरा इडावत्सर नामक जानना,
 जिसका देवता चंद्रमा है. चौथा अनुवत्सर जानना, जिसका देवता
 प्रजापति है ॥ १९ ॥ पांचवां इद्वत्सर जानना, जिसकी देवता गौरी है.
 इन पांच वर्षोंसे एक युग और बारह युगोंसे साठि संवत्सर होते हैं ॥
 ॥ २० ॥ तिन बारह युगोंके क्रमसे यह स्वामी कहे हैं कि, अश्री १,
 चृहस्पति २, इंद्र ३, पावक ४, त्वष्टा ५, अहिर्वृच्छ्य ६, पितर ७, विश्वे-
 देवा ८, चंद्रमा ९, इंद्रामी १०. अश्विनीकुमार ११ भग १२ ॥ २१ ॥

अथायनगोलसंज्ञे ।

मकराद्वाशिपक्षेक प्रोक्तं चैवोत्तरायणम् ॥ तदेवदिवसस्तत्र
 शुभं कार्यं प्रशस्यते ॥ २२ ॥ पद्मसुकर्कादितो ज्ञेयं दक्षिणं
 द्युयनं रवेः ॥ देवरात्रिस्तदेवात्र प्रोक्तं कार्यं प्रसिद्ध्यति ॥
 ॥ २३ ॥ मेषादुत्तरगोलस्तु दक्षिणाख्यो धटादितः ॥ २४ ॥

अब अयनसंज्ञा वर्णन करते हैं—मकरसे लेकर छह राशिमें सूर्य
 होते हैं तो उत्तरायण कहाताहै, सो देवताओंका दिनहै; उसमें शुभकार्य
 करना श्रेष्ठ होताहै ॥ २२ ॥ और कर्कसे लेकर छह राशियोंमें सूर्य

दक्षिणायन कहाता है, सो देवताओं की रात्रि है, इसमें जो कार्य करना कहा है सो सिङ्ग होता है ॥ २३ ॥ मेपसे लेकर छह राशि उत्तर गोल और तुलासे लेकर छह राशि दक्षिण गोल कहाता है ॥ २४ ॥

अथ ऋतुसंज्ञा ।

वसंतो ग्रीष्मसंज्ञश्च इतद्दर्पास्ततः शरत् ॥ हेमंतः शिशिर-
श्रैव पडेते ऋतवः स्मृताः ॥ २५ ॥ मीनमेपगते सूर्ये वसं-
तः परिकीर्तिः ॥ वृपमे मिथुने ग्रीष्मो वर्षा सिंहेथ कर्कटे
॥ २६ ॥ कन्यायां च तुलायां च शरद्वतुरुदाहतः ॥ हेम-
तो वृश्चिकद्वंद्वे शिशिरो मृगकुमयोः ॥ २७ ॥

अब ऋतुओंके नाम कहते हैं—वसन्त १, ग्रीष्म २, वर्षा ३,
शरद् ४, हेमन्त ५, शिशिर ६ यह छह ऋतु कहते हैं ॥ २५ ॥ मीन मेपके
सूर्यमें वसन्त, वृप मिथुनके सूर्यमें ग्रीष्म, कर्क सिंहके सूर्यमें वर्षा
॥ २६ ॥ कन्या तुलाके सूर्यमें शरद्, वृश्चिक धनुके, सूर्यमें हेमंत
और मकर कुमके सूर्यमें शिशिर ऋतु कहाती है ॥ २७ ॥

अथ माससंज्ञा ।

मासश्चैत्रोथ वैशाखो ज्येष्ठ आषाढसंज्ञकः ॥ ततस्तु श्राव-
णो भाद्रपदोथाश्विनसंज्ञकः ॥ २८ ॥ कार्त्तिको मार्गशीर्षश्च
पौषो माघोथ फालगुनः ॥ २९ ॥

अब महीनोंके नाम वर्णन करते हैं—चैत्र १, वैशाख २, ज्येष्ठ ३,
आषाढ ४, श्रावण ५, भाद्रपद ६, आश्विन ७॥ २८ ॥ कार्त्तिक ८,
मार्गशीर्ष ९, पौष १०, माघ ११, फालगुन १२, यह बारह
महीने हैं ॥ २९ ॥

अथ चैत्रादीनां संज्ञा ।

मधुश्रृङ्ग माघवरश्चैव शुक्रः ३ शुचिश्चथो नमः ५ ॥ नम-
स्यदश्वेष ऊर्जश्च ॥ ८ सहश्रांथ सहस्रकः १० ॥ ३० ॥

तप ११ स्तथा तपस्यश्च १२ माससंज्ञाः क्रमादमूः ॥
 मासो दर्शावधिश्चांद्रः सौरः संक्रमणाद्रवेः ॥ ३१ ॥
 त्रिशदिनः सावनिको नाक्षत्रो विद्युसंभ्रमात् ॥ प्रोक्तकार्ये
 त्विमे मासा विहेयाः कोविदैः सदा ॥ ३२ ॥ सौरे कार्य
 विवाहादि ग्रहवारादिकं तथा ॥ सावने गर्भवृद्धयादि
 नाक्षत्रे मेघगर्भजम् ॥ ३३ ॥ ब्रतयज्ञादिकं चांद्रे मासे
 परिणयः कचित् ॥ चांद्रस्तु द्विविधो मासो दर्शातः
 पौर्णिमांतिमः ॥ ३४ ॥ देवार्थे पौर्णिमास्यंतो दर्शातः पितृ-
 कर्मणि ॥ ३५ ॥

अब चैत्रादि महीनोंके अन्य नाम वर्णन करते हैं—चैत्रका नाम
 मधु ? , वैशाखका नाम माघव २, ज्येष्ठका शुक्र ३, आपादका
 शुचि ४, श्रावणका नभ ५, भाद्रोंका नभस्य ६, कारका इप ७,
 कर्त्तिकका उर्जा, मार्गशीर्षका सह ९, पौषका नाम सहस्य १०,
 ॥११॥ माघका तप ११, फाल्गुनका तपस्य १२ ये क्रमसे मासोंके नाम
 जानने. शुक्रपक्षकी प्रतिपदासे लेकर अमावास्यातक चांद्र मास
 होता है और सूर्यकी संक्रांतिसे संक्रान्ति पर्यन्त सौर मास होता है ॥३१॥
 और तीस दिनका सावनिक मास होता है। सावन नाम एक दिनका
 है. नक्षत्रोंपर चंद्रमासी गतिचालसे नाक्षत्र मास होता है पांडितोंको
 ये महीने उक्त कार्योंमें सदैव विचारने चाहिये ॥ ३२ ॥ सौर
 मासमें विवाहादि कर्म, ग्रहचार, वारप्रवृत्ति आदिका विचारकरै.
 सावन मासमें गर्भोंकी वृद्धयादिका विचार. नाक्षत्र मासमें मेघग-
 र्भका विचार ॥ ३३ ॥ तथा चांद्रमासमें ब्रत यज्ञादि करना
 चाहिये और कहीं २ चांद्र मासमें विवाह करनाभी कहा है । चांद्र
 मास दो प्रकारका होता है एक तो शुक्रप्रतिपदासे अमावास्या

१ इन महीनोंका व्यवहार गूर्णसंदानमें विशेष करके प्रतिमादन कियाहै ।

पर्यन्त और दूसरा कृष्णप्रतिपदासे पूर्णिमा पर्यन्त ॥ ३४ ॥ देव-
कर्ममें पौर्णमास्यन्त और पितृकर्ममें अमावास्यान्त मासका
ग्रहण होता है ॥ ३५ ॥

अथ पक्षसंज्ञा ।

शुक्लकृष्णाबुभौ पक्षौ देवे पित्र्ये च कर्मणि ॥ ग्राह्यो तथा शुभं
सव शुक्लपक्षे प्रशस्यते ॥ ३६ ॥

इति श्रीमद्दैवज्ञरावलहरिशंकरसूरिसूनुगणपतिकृते मुहूर्तगण-
पतौ संवत्सरादिप्रकरणं प्रथमम् ॥ १ ॥

अब पक्षसंज्ञा वर्णन करते हैं—शुक्ल और कृष्ण दो पक्ष होते हैं ।
देवकर्ममें शुक्लपक्ष और पितृकर्ममें कृष्णपक्ष ग्रहण करना चाहिये.
तथा सकल शुभकर्म शुक्ल पक्षमें श्रेष्ठ होते हैं ॥ ३६ ॥

इति श्रीमद्दैवज्ञरावलहरिशंकरसूरिसूनुगणपतिकृते मुहूर्त-
गणपतौ श्रीमद्भूर्जरगोडविप्रवंशावतंसपंडितवर्यवेणी-
रामशर्मात्मजपंडितरामदयालुकृतभाषाटी-
कासमलंकृतं संवत्सरादिप्रकरणं

प्रथमम् ॥ १ ॥

अथ तिथिप्रकरणम् ।

प्रतिपञ्च द्वितीया च तृतीया तदनन्तरम् ॥ चतुर्थीं पंचमी
पट्ठी सप्तमी चाष्टमी ततः ॥ १ ॥ नवमी दशमी चैवैका-
दशी द्वादशी ततः ॥ २ ॥ त्र्योदशी ततः प्रोक्ता ततो ज्ञेया
चतुर्दशी ॥ ३ ॥ पूर्णिमा शुक्लपक्षेत्या कृष्णपक्षे त्वमा
स्मृता ॥

अब इसके पश्चात् तिथिप्रकरण लिखा जाता है—प्रतिपत् १
द्वितीया २, तृतीया ३, चतुर्थी ४, पंचमी ५, पष्ठी ६, सप्तमी ७,
अष्टमी ८, नवमी ९, दशमी १०, एकादशी ११, द्वादशी १२, त्रयोदशी १३,
चतुर्दशी १४ ॥ २ ॥ शुक्लपक्षके अन्तमें पूर्णिमा और कृष्णपक्षके
अन्तमें अमावस्या जाननी ॥

तिथीशा वह्निधात्रं वाहेरं वोरगपणमुखाः ॥ ३ ॥ रवीशांवा
यमो विश्वे हरिस्मरशिवेंद्रवः ॥ अमावास्यातिथेरीशाः
पितरः संप्रकीर्तिताः ॥ ४ ॥

अब तिथियोंके स्वामी कहते हैं—आग्नि १, ब्रह्मा २, पार्वती ३,
गणेश ४, सर्प ५, स्वामि कार्त्तिकेय ६ ॥ ३ ॥ सूर्य ७, शिव ८,
दुर्गा ९, यम १०, विश्वेदेव ११, विष्णु १२, कामदेव १३, शिव १४
चंद्रमा १५ ये क्रमसे प्रतिपदासे पूर्णिमासी तकके स्वामीहैं
और अमावास्याके स्वामी पितर हैं ॥ ४ ॥

नंदाभद्राजयारित्कापूर्णाश्च प्रतिपन्मुखाः ॥ पष्ठचाद्याश्च
क्रमाज्ञेयास्तथैवैकादशीमुखाः ॥ ५ ॥

अब तिथियोंकी नंदादिसंज्ञा कहते हैं—प्रतिपदासे पंच,
मीतक और पष्ठीसे दशमीतक और एकादशीसे पूर्णिमा अथवा-अमा-
वास्या तक पाँच २ तिथियोंकी क्रमसे नंदा, भद्रा, जया, रित्का, पूर्णा
संज्ञा जाननी ॥ ५ ॥

असन्मध्यं शुभं शुक्ले तिथीनां पंचकं क्रमात् ॥ कृष्णपक्षे
शुभं मध्यं नेष्टुं ज्ञेयं शुभे सदा ॥ ६ ॥

अब इनकी अशुभ शुभ मध्य संज्ञा कहते हैं—) शुक्लपक्षमें
प्रतिपदासे लेकर पाँच २ तिथि क्रमसे सौदैव शुभ कर्ममें अशुभ-

मध्य, शुभ और कृष्णपक्षमें शुभ, मध्यम, अशुभ जाननी ॥ ६ ॥
इन श्लोकोंका भावार्थ नीचे लिखे चक्रमें स्पष्ट समझलेना चाहिये ॥

अथ तिथिसंज्ञाचक्रम् ।

	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५०३०	तिथियः
अस्ति	मद्या	पांचोत्ता	गोला	सर्वं	कार्तिं	सर्वं	क्रिय	दुर्गां	यामा	विष्णु	कामा	शिव	बंद्रपा	पितर	स्वामिनः	
नंदा	भद्रा	जया	रिका	दूर्गा	भद्रा	जया	जया	रिका	पूर्णा	जया	रिका	पूर्णा	पूर्णा	पूर्णा	नंदादि संज्ञा	
अशुभ	अशुभ	अशुभ	अशुभ	अशुभ	अशुभ	अशुभ	अशुभ	अशुभ	मध्यमा	मध्यमा	मध्यमा	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभपक्षे अशुभ भादि संज्ञा
शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभपक्षे शुभा निः संज्ञा	

अथ नंदादितिथिकृत्यम् ।

गीतं नृत्यं तथा क्षेत्रं चित्रोत्सवगृहादिकम् ॥ वस्त्रालंकार-
शिल्पादि नंदाख्यासु शुभं स्मृतम् ॥ ७ ॥ विवाहोपनयो
यात्राभूषाशिल्पकलादिकम् ॥ गजाश्वरथकृत्यं च भद्रा-
तिथिषु सिद्धिदम् ॥ ८ ॥ सैन्यं संग्रामशस्त्रादि यात्रोत्सव-
गृहादिकम् ॥ भैपञ्ज्यं चैव वाणिज्यं सिद्धचेत्सर्वं जयासु
च ॥ ९ ॥ शश्वराणां वधवंधादि विपशस्त्राग्नियोजनम् ॥
कर्तव्यं तज्ज रिक्तायां नैव सन्मंगलं क्वचित् ॥ १० ॥ व्रत-
वंधविवाहादि यात्राराजाभिपेचनम् ॥ शांतिकं पौष्टिकं
कर्म पूर्णासु किल सिद्धचति ॥ ११ ॥

अब नंदादि तिथियोंमें कृत्य वर्णन करते हैं—गीत, नृत्य,
खेतकरना, उत्सव करना, यहादिक बनाना, वस्त्र सिलाना, पहरना,
कारीगरी सीखना इत्यादि कार्यं नंदासंज्ञक १ । ६ । ११ तिथियोंमें
शुभ कहे हैं ॥ ७ ॥ विवाह, यज्ञोपवीत, यात्रा, आभूषण बनवाना,
पहरना, कारीगरीकी कला सीखना, हाथी, घोड़ा, रथका चलाना,
चढ़ना, ये सब कार्यं भद्रासंज्ञक २ । ७ । १२ तिथियोंमें सिद्धिके
देनेवाले होते हैं ॥ ८ ॥ सेनाको चलाना, सिखाना, युद्ध करना,
शस्त्रादि चलाना, बनवाना, यात्रा, उत्सव, यहादि, औपधि बनाना,
वाणिज्य करना ये कार्यं जयातिथि ३ । १३ योंमें सिद्ध होते हैं ॥ ३ ॥
शत्रुओंको मारना, वाँधना, विप देना, शस्त्र चलाना, अग्नि लगाना,
इत्यादि कार्यं रिक्तातिथियों ४ । ९ । १४ में करै किन्तु कोई शुभं
मंगलकार्यं नहीं करै ॥ १० ॥ यज्ञोपवीत, विवाहादि, यात्रा, राज्या-
भिपेक, शान्तिक तथा पौष्टिक कर्म पूर्णातिथियों ५ । १० । १५ में
सिद्ध होते हैं ॥ ११ ॥

अथ सामान्यतः शुभाशुभतिथय उच्यन्ते ।

द्वितीया पंचमी चैव तृतीया सप्तमी तथा ॥ दशम्येकादशी कृष्णप्रतिपञ्च त्रयोदशी ॥ १२ ॥ पूर्णिमा तिथयो ह्येताः सर्वकार्ये शुभावहाः ॥ अन्यास्तु तिथयो नेषाः प्रोक्तकृत्ये शुभा मताः ॥ १३ ॥ कृष्णा चतुर्दशी शुक्ला प्रतिपद्हर्षसंज्ञका ॥ एताः शुभेषु कार्येषु वर्जनीयाः प्रयत्नतः ॥ १४ ॥

अब सामान्य रीतिसे शुभाशुभ तिथियोंका वर्णन करते हैं—द्वितीया, पंचमी, तृतीया, सप्तमी, दशमी, एकादशी कृष्णपक्षकी प्रतिपदा, त्रयोदशी ॥ १२ ॥ पौर्णिमासी ये सब तिथि शुभ कार्योंमें शुभ करनेवाली हैं और अन्य तिथियें शुभ नहीं हैं। किन्तु उनमें जोजो कृत्य करना कहाहै उसमें शुभ मानी गई हैं ॥ १३ ॥ कृष्णपक्षकी चतुर्दशी, शुक्लपक्षकी प्रतिपदा, अमावास्या ये तिथि शुभ कार्योंमें यत्नपूर्वक वर्जित करनी चाहिये ॥ १४ ॥

अथ पक्षरंध्रतिथयः ।

- चतुर्थीरसवस्वंकद्वादशीशक्रसंमिताः । ४ । ६ । ८ । ९ । १२ । १४ ॥ तिथयः पक्षरंध्रास्यास्त्याज्याः सर्वेषु कर्मसु ॥ १५ ॥ एतासु वसुन्देन्द्रतत्त्वदिक्छरसंमिताः ॥ ९ । १४ । २६ । १० । ६ ॥ हेयाः स्युरादिमा नाज्यः क्रमाच्छेपास्तु शोभनाः ॥ १६ ॥

अथ पक्षरंध्रतिथिचक्रम् ।

४	६	८	९	१२	१४	पक्षरंध्रतिथयः
८	९	१४	२५	१०	५	त्याज्यनाड्यः

अब पक्षरंध्र तिथियोंका वर्णन करते हैं—चतुर्थी, पष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी ये पक्षरंध्र नाम तिथि सब शुभ कर्मोंमें त्याज्य हैं ॥ १५ ॥ इन तिथियोंके आदिकी आठ, नौ, चौदह, पचीस, दश, पांच घटी क्रमसे त्याग देनी चाहिये, और शेष घटी शुभ होती हैं ॥ १६ ॥

अथाशुभारव्यास्तिथयः ।

मेषादीनां चतुर्णा हि चतस्रः पतिपन्मुखाः ॥ तिथयस्तच्च-
तुष्कस्य पंचमी परिकीर्तिता ॥ १७ ॥ सिंहकन्यातुला-
लीनां पष्टचायास्तिथयः क्रमात् ॥ दशम्येतच्चतुष्कस्य
तथा चैकादशीमुखाः ॥ १८ ॥ चतस्रो धनुरादीनामेतेषां
पूर्णिमास्यमा ॥ पापयुक्तस्य राशेर्या तिथिः सा न शुभा-
वहा ॥ १९ ॥

अब शुभ नामक तिथियोंका वर्णन करतेहैं—मेषादि चार
राशियोंकी प्रतिपदादि चार तिथि हैं अर्थात् मेष, वृष, मिथुन,
कर्ककी क्रमसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी तिथि हैं और
इन प्रतिपदादि चार तिथियोंकी पंचमी पूर्णातिथि कहीहै ॥ १७ ॥
और सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियोंकी क्रमसे पष्टी, सप्तमी,
अष्टमी, नवमी तिथि हैं, इन पष्टथादि चार तिथियोंकी दशमी पूर्णा
तिथि है । तथा धनु, सकर, कुंभ, मीन इन राशियोंकी क्रमसे एका-
दशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी तिथि हैं और इन एकादश्यादि
चार तिथियोंकी १५ पौर्णिमासी तथा अमावास्या पूर्णातिथि है ।
जो तिथि पापग्रह युक्त राशियोंकी होय सो शुभकारक नहीं
होती है ॥ १८ ॥, १९ ॥,

प्रति तिथि नाम	राशि	मे.	वृ.	मि.	क.	सि.	कं.	तु.	वृ.	ध.	म.	कुं.	मी.
विधि	१	२	३	४	६	७	८	९	११	१२	१३	१४	
पूर्णा विधि	५	५	५	५	१०	१०	१०	१०	१५	१७	१५	१७	
संतागा	१	२	३	४	१	२	३	४	१	२	३	४	

अथ प्रत्येकतिथिकृत्यम् ।

विवाहोत्सवयात्रा च प्रतिष्ठा वास्तुकर्म च ॥ कुर्याद्बौलादिकं
 कृष्णे न शुक्ले प्रतिपत्तिथौ ॥ २० ॥ राज्यकार्यं विवा-
 हादिमंगलं वास्तुभूपणम् ॥ ब्रतवंधः प्रतिष्ठा च द्वितीया-
 यां तिथौ स्मृतम् ॥ २१ ॥ अन्वप्राशनसंगीतविद्यासीमंत
 शिल्पकम् ॥ द्वितीयाप्रोक्तमखिलं तृतीयायां प्रशस्यते ॥
 ॥ २२ ॥ शत्रूणां वधवंधादिविपश्चाग्नियोजनम् ॥ कर्त-
 व्यं तच्छ्रुद्ध्या तु नैव सन्मंगलं क्वचित् ॥ २३ ॥ शुभ-
 कर्माणि सर्वाणि स्थिराणि च चराणि च ॥ क्रणदानं
 विना यांति सुसिद्धं पंचमीदिने ॥ २४ ॥ दंतकाष्ठागमाभ्यं-
 गांस्त्यकल्पाथो शिल्पकर्म च ॥ रणवास्तुविभूपादि पष्ठचां
 सिद्ध्यति मंगलम् ॥ २५ ॥ गजकृत्यं विवाहादि संगीतं
 वस्तुभूपणम् ॥ यात्राप्रवेशसंग्रामाः सिद्ध्येयुः सप्तमीतिथौ
 ॥ २६ ॥ नृत्यं स्त्रीरत्नभूपादि संग्रामाः शस्त्रधारणम् ॥
 वास्तुशिल्पादिकं कार्यमप्यां सिद्धिमासुयात् ॥ २७ ॥
 वियहः कलहद्यूतमद्यमाखेटकस्तथा ॥ विपाग्निशस्त्रकृत्यं
 च नवम्यां सिद्धिमासुयात् ॥ २८ ॥ विवाहादिशुभं कार्यं
 भूपायात्राप्रवेशनम् ॥ गजाध्वनृपकार्याणि सिद्ध्यति दश-
 मीदिने ॥ २९ ॥ ब्रतवंधो विवाहादि रणः शिल्पं सुरो-
 त्सवः ॥ गमागमो विभूपादि द्वेकादश्यां प्रशस्यते ॥ ३० ॥
 चरस्थिराणि कार्याणि विवाहव्रतवंधनम् ॥ द्वादश्यां तत्प्र-
 कुर्वीत तेलयात्रादिकं त्यजेत् ॥ ३१ ॥ यात्राप्रवेशसंग्राम-
 वस्तुभूपणमंगलम् ॥ ब्रतवंधं विनाऽन्यत्र शुभा शुक्लवयो-
 दशी ॥ ३२ ॥ विपवंधाग्निशस्त्रादि प्रकुर्याद्दृष्टकर्म च ॥
 चतुर्दश्यां शुभं कर्म क्षोरं यात्रां विवर्जयेत् ॥ ३३ ॥ मांगल्यं

भूपणं शिल्पं प्रतिष्ठा यज्ञकर्म च ॥ संग्रामो गृहकृत्यं-
च पौर्णमास्यां प्रसिद्ध्यति ॥ ३७ ॥ अश्याधानं महा-
दानं पितृयागादिकं च यत ॥ प्रोक्तं कर्म प्रकर्तव्यं दर्शे
नान्या शुभा क्रिया ॥ ३८ ॥

अब प्रत्येक तिथिमें कृत्यको वर्णन करते हैं—विवाह, उत्सव,
यात्रा, देवप्रतिष्ठा, वास्तुकर्म (यहादि वनाना) शान्ति करना,
मुंडनादिकर्मये सब कृष्णपक्षकी प्रतिपदामें करें और शुभ
पक्षकी प्रतिपदामें नहीं करें ॥ २० ॥ राजकार्य, विवाहादि मंगल
कार्य, वास्तुकर्म, आभूपण वनवाना, यज्ञोपवीत, देवप्रतिष्ठा, ये
कार्य द्वितीया तिथिमें श्रेष्ठ होते हैं ॥ २१ ॥ अन्नप्राशन (वालकको
प्रथमहीप्रथम अन्न चटाना) संगीत विद्या, सीमन्त कर्म, शिल्प
कर्म और जो द्वितीयामें करने कहेहैं सो सब कर्म तृतीयामें श्रेष्ठ
होते हैं ॥ २२ ॥ शत्रुओंको मारना, वांधना, विप देना, शत्रु मारना,
आग्नि लगाना इत्यादि क्रूर कर्म चतुर्थीमें करने चाहिये और शुभ
मंगल कर्म कोई नहीं करना चाहिये ॥ २३ ॥ सब शुभ कर्म,
स्थिर, तथा चर कर्म पंचमीमें सिद्ध होते हैं परन्तु ऋण देना श्रेष्ठ
नहीं है ॥ २४ ॥ दत्तौन करना, आनाजाना, उवटना इन कर्मोंको
त्याग कर शिल्प कर्म, युद्ध, यहारंभ, आभूपण गढ़वाना, मंगल
कार्य पठीमें सिद्ध होते हैं ॥ २५ ॥ हाथीपर चढ़ना, हाथीको चलाना
सिखाना, घेचना, खरीदना, विवाहादि संगीतकर्म, वस्त्र, आभूपण
वनवाना और पहिरना, यात्रा, यहप्रवेश, वधूप्रवेश, संग्राम ये कार्य
सप्तमी तिथिमें सिद्ध होते हैं ॥ २६ ॥ नृत्य, स्त्री, भूपणादि धारण
करना, संग्राम, शत्रु धारण, वास्तु शिल्पादि कार्य अष्टमीमें सिद्ध
होते हैं ॥ २७ ॥ विग्रह, लडाई, कलह, जुआ खेलना, मद्य वनाना,
दिक्षार खेलना, विप देना, आग्नि लगाना, शत्रु वनवाना, चलाना,

इत्यादि कार्य नवमीमें सिद्धिको प्राप्त होते हैं ॥ २८ ॥ विवाहादि
शुभ कर्म, आभूषण बनवाना, यात्रा, प्रवेश, हाथी घोड़ोंका कार्य,
राजकार्य, दशमीके दिन सिद्ध होते हैं ॥ २९ ॥ यज्ञोपवीत, विवा-
हादि, युद्ध, कारीगरी सीखना, करना, मध्य बनाना, उत्सव करना,
जाना आना, आभूषण बनवाना, पहिरना, इत्यादि कार्य एकादशीमें
शुभ होते हैं ॥ ३० ॥ चर और स्थिर कार्य, विवाह, यज्ञोपवीत द्वाद-
शीमें करें, किन्तु तैलमर्दन, यात्रादि कर्मोंको त्याग देवे ॥ ३१ ॥
यात्रा, प्रवेश, संग्राम, वस्त्र, आभूषण बनवाना और पहिरना, मंगल
कार्य और यज्ञोपवीत, इनको छोड़कर अन्य कर्मोंमें शुल्कपक्षकी
त्रयोदशी शुभ होती है ॥ ३२ ॥ विषदेना, वांधना, अग्नि लगाना,
शस्त्र चलाना आदि दुष्ट कर्म चतुर्दशीमें शुभ होते हैं । परन्तु
शुभकर्म और क्षोर यात्रादि कर्म वर्जित करें ॥ ३३ ॥ मंगल
कार्य, भूषण, शिल्प, प्रतिष्ठा, यज्ञकर्म, संग्राम, गृहकृत्य पौर्णमासीमें
सिद्ध होते हैं ॥ ३४ ॥ हवनादिकर्म, महावान, पितृयज्ञ और जो
कर्म अमावस्यामें करने कहे हैं सो सब अमावास्याके दिन करें ।
किन्तु अन्य शुभ कर्म नहीं करने चाहिये ॥ ३५ ॥

अथ दंतधावने निपिद्धतिथयः ।

अमायां च तथा पष्ठ्यामेकादश्यां खेदिने ॥ प्रतिपद्युत्तरे
यामान्न कुर्यादन्तधावनम् ॥ ३६ ॥

अब दंतधावन कर्ममें निपिद्धतिथियोंका वर्णन करते हैं—अमा-
वास्या, पष्ठी, एकादशी, रविवार, प्रतिपदा, पहर दिन चढे पीछे
दूतीन नहीं करें ॥ ३६ ॥

अथामलकस्ताने निपिद्धाः ।

दशमीसप्तमीदर्शाद्वितीयानवमीदिने ॥ त्रयोदश्यां तथा नैव
स्तायादामलकेर्नरः ॥ ३७ ॥

अब आमलक स्नानमें निपिञ्च तिथियोंका वर्णन करते हैं—
दशमी, सप्तमी, अमावास्या, द्वितीया, नवमी, त्रयोदशी इन तिथि-
योंमें पुरुष आमलेके जलसे स्नान न करे ॥ ३७ ॥

अथोक्तकार्यं निपिञ्चाः ।

क्षोरे चतुर्दशीं चैव पष्ठीतैले पलेऽष्टमीम् ॥ दर्श स्त्रीसेवने
जग्धाद्यदीच्छेदीर्घजीवितम् ॥ ३८ ॥

अब उक्त कार्योंमें निपिञ्च तिथियोंको कहते हैं—जो मनुष्य
दीर्घ कालतक जीना चाहे तो क्षोर कर्ममें चतुर्दशी, तैल खाने वा
मलेनेमें पष्ठी, मांस खानेमें अष्टमी, स्त्रीसेवनमें अमावास्याको
त्याग देवे ॥ ३८ ॥

अथ प्रतिपदादिदर्शान्तासु षोडशतिथिषु वर्ज्यानि ।

त्यजेत्प्रतिपदाद्यासु कूप्मांडं वृहतीफलम् ॥ लवणं मूलकं
चैव पनसं तैलसेवनम् ॥ ३९ ॥ धात्रीफलं नारिकेलं फलं
तुंव्याः पटोलकम् ॥ निष्पावान्नं मसूरांश्च वृत्ताकं माक्षिकं
क्रमात् ॥ ४० ॥ अमायां सुरतं चैव पौर्णमास्यां दुरो-
दरम् ॥ ४१ ॥

अब प्रतिपदासे अमावास्यातक १६ सोलह तिथियोंमें त्यज्य
वस्तुओंका वर्णन करते हैं—प्रतिपदामें पेटा, द्वितीयामें कटेरीका फल,
तृतीयामें लवण, चतुर्थीमें मूली, पंचमीमें कटहल, पष्ठीमें तैलसे-
वन ॥ ३९ ॥ सप्तमीमें आमला, अष्टमीमें नारियल, नवमीमें तुंवी
(दो प्रकारका काशी फल, तोरई) दशमीमें परवल, एकादशीमें
दलिया, द्वादशीमें मसूर, त्रयोदशीमें वैंगन, चतुर्दशीमें शहत ॥
॥ ४० ॥ अमावास्यामें स्त्रीसंगम, पौर्णमासीमें जुआ खेलना
वर्जित है ॥ ४१ ॥

अथ प्रसंगाद्युगादिमन्वादितिथयः ।

नवमी कार्त्तिके शुक्ला वैशाखे च तृतीयका ॥ त्रयोदश्यात्थिने कृष्णा तथा दर्शश्च फाल्गुने ॥ ४२ ॥ कार्त्तिकेश्वत्कृतारंभस्तुतारंभस्तु माघवं ॥ फाल्गुने द्वापरारंभ आरंभस्थात्थिने कलेः ॥ ४३ ॥ क्रमाच्छुर्हरिवेद्धाः पितरस्तत्र देवताः ॥ तिलौष्ठवणसौवर्णगाथ्य दद्याद्युगादिषु ॥ ४४ ॥ एते युगादयः पुण्याः शुभे वज्या मनीषिभिः ॥ तत्राक्षय्यतृतीयाः तु सर्वकार्येतिशोभना ॥ ४५ ॥ आश्विने नवमी शुक्ला माघमासे तु सतमी ॥ भाद्रे चैत्रे तृतीया च कार्त्तिके द्वादशी तथा ॥ ४६ ॥ आपाढे दशमी प्रोक्ता ज्येष्ठमासे तु पूर्णिमा ॥ आपाढी फाल्गुनी चैत्री कार्त्तिकी पूर्णिमा तथा ॥ ४७ ॥ भाद्रे कृष्णाष्टमी प्रोक्ता पौषे त्वेकादशी सिता ॥ अमा भाद्रपदे मासि मन्वाद्यास्तिथयस्त्वमाः ॥ ४८ ॥ अत्र मासास्तु एकांता विज्ञेया गणकोत्तमेः ॥ ४९ ॥

अब ग्रसंगवशसे युगादि और मन्वादि तिथियोंका वर्णन करते हैं—
 कार्त्तिक शुक्लपक्षकी नवमी, वैशाख शुक्लपक्षकी तृतीया, आश्विन कृष्णपक्षकी त्रयोदशी, फाल्गुनकी अमावास्या युगादि तिथि हैं ॥ ४२ ॥
 कार्त्तिक मासमें सत्ययुगका ग्रारम्भ हुआथा, वैशाखमें त्रेतायुगका आरंभ हुआ, फाल्गुनमें द्वापरका आरम्भ हुआ, आश्विनमें कलियुगका आरम्भ हुआ है ॥ ४३ ॥ शिव, विष्णु, ब्रह्मा, पितर क्रमसे ये चारों युगोंके देवताहैं. युगादि तिथियोंमें तिल, लवण, सुवर्ण, गो इनका दान करना चाहिये ॥ ४४ ॥ ये युगादि तिथि (पुण्य) पवित्र हैं. परन्तु पंडितोंको शुभकर्ममें त्याग देना चाहिये और इन युगादि चार तिथियोंमें वैशाखशुक्लपक्षकी अक्षय तृतीया तो सर्वकाव्यामें आतिशुभ है ॥ ४५ ॥ आश्विन मासके शुक्लपक्षमें नवमी, साधशु-

कुमे सप्तमी, भाद्रपद और चैत्र शुक्लपक्षमें तृतीया, कार्त्तिक शुक्ल पक्षमें द्वादशी ॥ ४६ ॥ आषाढ शुक्लपक्षमें दशमी, ज्येष्ठ शुक्लपक्षमें पूर्णिमा और आषाढ, फाल्गुन, चैत्र, कार्त्तिक इन मासोंकी पूर्णिमा ॥ ४७ ॥ तथा भाद्रपदकी कृष्णाष्टमी, पौषकी कृष्णा एकादशी, भाद्रपदकी अमावास्या ये तिथि मन्वादिक हैं ॥ ४८ ॥ यहांपर ज्योतिपियोंको ये महनि तो इन्हींमें जान लेने चाहिये ॥ ४९ ॥

अथार्धोदययोगः ।

मावे मासि रवौ दर्शे व्यतीपाते श्रवान्विते ॥ अर्धोदयाभिधो योगः सूर्यपर्वशताधिकः ॥ अयमुक्तो दिवा योगः किंचिन्न्यूनो महोदयः ॥ ५० ॥

अब अर्धोदय योग कहते हैं-साधके महीनेमें रविवारकी अमावास्या, व्यतीपात योग और श्रवण नक्षत्रसे युक्त हो तो अर्धोदय नाम योग, सौ सूर्यपर्वसेभी आधिक फलदायक होता है और ये योग दिनमें होना कहा है, रात्रिमें नहीं । यदि इस योगमें कुछ न्यूनताभी हो तो महोदय योग होता है ॥ ५० ॥

अथ गजच्छाया ।

पितृपक्षे त्रयोदश्यां हस्तेऽकेऽब्जे मधागते ॥ गजच्छायाभिधो योगः श्राद्धेश्यफलप्रदः ॥ ५१ ॥

अब गजच्छाया योग कहते हैं—आश्विन मासके पितृपक्षकी त्रयोदशीके दिन हस्त नक्षत्रपर सूर्य और मधापर चंद्रमा हो तो गजच्छाया नाम योग श्राद्धमें अक्षय फलका देनेवाला होता है ॥ ५१ ॥

अथ कपिलापष्टी ।

आश्विने कृष्णपक्षे च पष्टयां भौमोऽथ रोहिणी ॥ व्यतीपातस्तदा पष्टी कपिलाऽनन्तपुण्यदा ॥ ५२ ॥

अब कपिलापष्टी योग कहते हैं—आश्विन मासके कृष्णपक्षकी

‘पष्ठी, मंगल वार, रोहिणी नक्षत्र, व्यतीपात घोग युक्त हो ते कपिला पष्ठी कहाती है अनन्त पुण्यकी देनेवाली है ॥ ५२ ॥

अथ प्रसंगादगस्त्योदयः ।

अष्टमपलभासंख्यैरश्चैर्युक्ता वसुग्रहाः ॥ ताहशेऽकें मुनेऽन्यै
उदयः कुंभजन्मनः ॥ ५३ ॥

इति श्रीदेवज्ञरावलहरिशंकरसूरिसूनुगणपतिकृते मुहूर्तगण-
पतौ तिथिप्रकरणं द्वितीयम् ॥ २ ॥

अब प्रसंगवशसे अगस्त्यका उदय लिखते हैं—अपने देशकी पलभाको आठसे गुणा करनेसे अंश होते हैं, उनमें अटानवे ९८ जोड़कर तीस ३० का भाग देनेसे जो लब्ध मिले सो सूर्य की राशि और शेष वचे सो अंश जानै उसी सूर्यके उतने अंशोंपर अगस्त्यका उदय होता है ।

उदाहरण—जैसे स्वदेशी पलभा ५१४५ को आठसे गुणा किया तो ६६०० अंश हुए, इनमें ९८ जोड़े तो १४४ हुए, इन १४४ में तीसका भाग दिया तो ४ लब्ध मिले २४ शेष वचे अर्थात् सिंहके सूर्यके २४ अंशपर अगस्त्यका उदय जनाना ॥ ५३ ॥

इति श्रीदेवज्ञरावलहरिशंकरसूरिसूनुगणपतिकृते मुहूर्तगणपतौ
श्रीयुतपंडितवर्यवेणीरामशम्भात्मजपंडितरामदयालुशम्भ-
कृतभाषाटीकासमलंकृतं तिथिप्रकरणं द्वितीयम् ॥ २ ॥

अथ वारप्रकरणम् ।

आदित्यश्चंद्रमा भौमो द्वुधश्चाथ द्वृहस्पतिः ॥ शुक्रः शने श्वर-
श्चैते वासराः परिकीर्तिताः ॥ १ ॥ शिवो दुर्गा गुहा विष्णु-
त्रैलोक्यः कालसंज्ञकः ॥ सूर्यादीनां क्रमादेते स्वामिनः परि-
कीर्तिताः ॥ २ ॥ गुरुश्चंद्रो द्वुधः शुक्रः शुभा वारा शुने-
स्मृताः ॥ क्रारात्तु क्रकृत्येषु ग्राद्या भौमाक्मृत्यजाः ॥ ३ ॥

स्थिरः सूर्यश्चरच्छंद्रो भौमश्चोयो बुधः समः ॥ लघुजीवो
मृदुः शुक्रः शनिस्तीक्ष्णः समीरितः ॥ ४ ॥

इसके पश्चात् वारप्रकरण लिखतेहैं—रवि१, चंद्रमा२, मंगल ३, बुध
४, वृहस्पति ५, शुक्र ६, शनैश्चर ७ ये सात वार कहे हैं ॥ १ ॥ शिव
३, दुर्गा२, कार्त्तिकेय३, विष्णु४, ब्रह्मा५, इंद्र६, काल७ क्रमसे ये
सूर्यादिवारोंके स्वामी कहे हैं ॥ २ ॥ वृहस्पति, चंद्रमा, बुध, शुक्र
ये शुभ वारहैं शुभकार्यमें ग्रहण करने कहे हैं और मंगल, सूर्य,
शनैश्चर ये कूर वारहैं कूरकम्मोंमें ग्रहण करने योग्य हैं ॥ ३ ॥
सूर्य स्थिर है, चंद्रमा चर है, मंगल उत्थ है, बुध सम है, वृहस्पति लघु
है, शुक्र कोमल है और शनि तीक्ष्ण है ॥ ४ ॥

अथ वारसंज्ञाचक्रम् ।

वारा:	सूर्य	चंद्रमा	मंगल	बुध	वृहस्पति	शुक्र	शनि
स्वामिनः	शिव	दुर्गा	कार्त्तिकेय	विष्णु	ब्रह्मा	इंद्र	काल
स्वामावः	स्थिर	चर	उत्थ	सम	लघु	मृदु	तीक्ष्ण

अथ प्रत्येकवारकृत्यम् ।

राजाभिपेकमांगल्यं यानमंत्रास्त्रमौपधम् ॥ रणः पण्याग्नि-
सेवाद्यं सुवर्णादि रवीं स्मृतम् ॥ ५ ॥ शंखमौक्तिकरौप्या-
दि भूषा गीतं क्रतुः कृपिः ॥ भोज्यं स्त्रीक्षुविकरांभःक-
मोक्तं सोमवासरे ॥ ६ ॥ भेदस्तेयान्तं शाश्वं विपशस्त्राग्नि-
वातनम् ॥ प्रवालकरहेमाद्यमेतत्कुर्यात्कुजेहनि ॥ ७ ॥
कलानेपुण्यवाणिज्यं संविद्यायामसेवनम् ॥ वेदाध्ययन-
लिप्यादि विद्यादुधवासरे ॥ ८ ॥ यज्ञो धर्मः क्रिया
विद्या मांगल्यं पाणिकं गृहम् ॥ यात्राभेपञ्ज्यभूषाद्या विधेया
गुरुवासरे ॥ ९ ॥ गीतं स्त्रीरनश्यादि वस्त्रं भूषोत्सव-

कियाः ॥ भूपण्यकृपिकोशाद्याः सर्वे सिद्ध्यन्ति भार्गवे ॥
 ॥ १० ॥ गृहप्रवेशादीक्षादि गजवंधः स्थिरकियाः ॥ दांस-
 शस्त्रानुतं स्तेयमेतत्सिद्ध्येच्छनेश्वरे ॥ ११ ॥ खेटस्योपचय-
 स्थस्य वारे कार्यं शुभावहम् ॥ तदेवापचयस्थस्य यत्नेनापि
 न सिद्ध्यति ॥ १२ ॥

अब प्रत्येक वारमें कृत्यका वर्णन करते हैं—राजाका गदीपर वैठना,
 मंगल कार्य करना, सवारी बनवाना, उसपर चढ़ना, अथवा जाना, मंत्र
 सिद्ध करना, अख चलाना और बनाना, औषधि बनाना और खाना,
 युद्ध करना, दुकान करना, अग्नि लगाना, सेवा करना, सुवर्णका आभू-
 पण बनवाना और पहिरना, इत्यादि कार्य रविवारमें करने कहें हैं ॥
 ॥ ५ ॥ शंख, सोती, चांदी आदिका आभूपण धारण करना और
 बनवाना, गीत, यज्ञ, खेती, भोजन कार्य, स्त्रीसेवन, इक्षुविकार
 (खांड गुडादि) बनाना, जलकर्म ये सब चंद्रवारमें शुभ होते हैं ॥६॥
 भेदकरना, चोरी करना, झूँठ बोलना, छिपकर बुराकाम करना,
 विष देना, शस्त्र चलाना, अग्नि लगाना, मारना, मूँगा पहिरना,
 कर बाँधना और लेना, स्वर्णका काम करना, मंगलवारमें शुभ
 होता है ॥ ७ ॥ कलाओंका सीखना, चतुरता करना, व्यापार
 करना, मिलाप, कसरत, नौकरी करना, वेदका पढ़ना, लिखना
 इत्यादि कार्य बुधवारमें शुभ होते हैं ॥ ८ ॥ यज्ञ, धर्म, शुभ
 कर्म, विद्या, मंगल कार्य, पौष्टिक कर्म, यहारंभ, यात्रा,
 औषध बनाना, सेवन करना, आभूपण धारण करना इत्यादि
 कर्म वृहस्पतिवारमें करने चाहिये ॥ ९ ॥ गाना, स्त्रीसेवन, रत्न
 पहिरना, शश्यादि बनाना, वस्त्र, आभूपण धारण, उत्सवकिया-
 भूमिका कार्य, दुकानदारी, खेती, खजाना इत्यादि कार्य शुक्र,
 वारमें सिद्ध होते हैं ॥ १० ॥ शहप्रवेश, मंत्रदीक्षादि, हाथीका
 बाँधना, स्थिर कर्म, नौकर होना, शस्त्र चलाना, मिथ्या

स्थिरः सूर्यश्वरचंद्रो भौमश्वोयो वुधः समः ॥ लघुर्जीवो
मृदुः शुक्रः शनिस्तीक्ष्णः समीरितः ॥ ४ ॥

इसके पश्चात् वारप्रकरण लिखते हैं—रवि१, चंद्रमा२, मंगल ३, वुध
४, वृहस्पति ५, शुक्र ६, शनैश्वर ७ ये सात वार कहे हैं ॥ ३ ॥ दिव
१, दुर्गा२, कार्त्तिकेय३, विष्णु४, ब्रह्मा५, इंद्र ६, काल ७ क्रमसे ये
सूर्यादिवारोंके स्वामी कहे हैं ॥ ३ ॥ वृहस्पति, चंद्रमा, वुध, शुक्र
ये शुभ वारहैं शुभकार्यमें ग्रहण करने कहे हैं और मंगल, सूर्य,
शनैश्वर ये क्रूर वारहैं क्रूरकर्मोंमें ग्रहण करने योग्य हैं ॥ ३ ॥
सूर्य स्थिर है, चंद्रमा चर है, मंगल उत्तर है, वुध सम है, वृहस्पति लघु
है, शुक्र कोमल है और शनि तीक्ष्ण है ॥ ४ ॥

अथ वारसंज्ञाचक्रम् ।

वारा:	सूर्य	चंद्रमा	मंगल	वुध	वृहस्पति	शुक्र	शनि
स्वामिनः	दिव	दुर्गा	कार्त्तिकेय	विष्णु	ब्रह्मा	इंद्र	काल
स्वभावः	स्थिर	चर	उत्तर	सम	लघु	मृदु	तीक्ष्ण

अथ प्रत्येकवारकृत्यम् ।

राजाभिपेकमांगल्यं यानमंत्रास्त्रमौपधम् ॥ रणः पण्याग्नि-
सेवाद्यं सुवर्णादि रखो स्मृतम् ॥ ५ ॥ शंखमौक्तिकरौप्या-
दि भूपा गीतं क्रतुः कृपिः ॥ भोज्यं स्त्रीक्षुविकरांभःक-
मोक्तं सोमवासरे ॥ ६ ॥ भेदस्तेयानृतं शाश्वं विपशस्त्राग्नि-
वातनम् ॥ प्रवालकरहेमाद्यमेतत्कुर्यात्कुजेहनि ॥ ७ ॥
कलानेपुण्यवाणिज्यं संधिव्यायामसेवनम् ॥ वेदाध्ययन-
लिप्यादि विदध्याद्वुधवासरे ॥ ८ ॥ यज्ञो धर्मः क्रिया
विद्या मांगल्यं पौष्टिकं गृहम् ॥ यात्राभैपञ्ज्यभूपाद्या विधेया
गुरुवासरे ॥ ९ ॥ गीतं स्त्रीरत्नशस्यादि वस्त्रं भूपोत्सव-

क्रियाः ॥ भूपण्यकृपिकोशाद्याः सर्वे सिद्ध्यंति भार्गवे ॥
 ॥ १० ॥ गृहप्रवेशदीक्षादि गजवंधः स्थिरक्रियाः ॥ दांस-
 शस्त्रानृतं स्तेयमेतत्सिद्ध्येच्छनैश्चरे ॥ ११ ॥ खेटस्योपचय-
 स्थस्य वारे कार्यं शुभावहम् ॥ तदेवापचयस्थस्य यत्नेनापि
 न सिद्ध्यति ॥ १२ ॥

अब प्रत्येक वारमें कृत्यका वर्णन करते हैं—राजाका गदीपर वैठना,
 मंगल कार्य करना, सवारी बनवाना, उसपर चढ़ना, अथवा जाना, मंत्र
 सिद्ध करना, अख्त चलाना और बनाना, औपधि बनाना और खाना,
 युद्ध करना, दुकान करना, अग्नि लगाना, सेवा करना, सुवर्णका आभू-
 षण बनवाना और पहिरना, इत्यादि कार्य रविवारमें करने कहे हैं ॥
 ॥ ५ ॥ शंख, मोती, चांदी आदिका आभूषण धारण करना और
 बनवाना, गीत, यज्ञ, खेती, भोजन कार्य, स्त्रीसेवन, इक्षुविकार
 (खांड गुडादि) बनाना, जलकम्म'ये सब चंद्रवारमें शुभ होते हैं ॥६॥
 भेदकरना, चोरी करना, झूंठ बोलना, छिपकर बुराकाम करना,
 विष देना, शस्त्र चलाना, अग्नि लगाना, मारना, मूँगा पहिरना,
 कर वाँधना और लेना, स्वर्णका काम करना, मंगलवारमें शुभ
 होता है ॥ ७ ॥ कलाओंका सीखना, चतुरता करना, व्यापार
 करना, मिलाप, कसरत, नौकरी करना, वेदका पढ़ना, लिखना
 इत्यादि कार्य बुधवारमें शुभ होते हैं ॥ ८ ॥ यज्ञ, धर्म, शुभ
 कर्म, विद्या, मंगल कार्य, पौष्टिक कर्म, यहारंभ, यात्रा,
 औपध बनाना, सेवन करना, आभूषण धारण करना इत्यादि
 कर्म वृहस्पतिवारमें करने चाहिये ॥ ९ ॥ गाना, स्त्रीसेवन, रत्न
 पहिरना, शश्यादि बनाना, वस्त्र, आभूषण धारण, उत्संविक्रिया-
 भूमिका कार्य, दुकानदारी, खेती, खजाना इत्यादि कार्य शुक्र,
 वारमें सिद्ध होते हैं ॥ १० ॥ गृहप्रवेश, मंत्रदीक्षादि, हाथीका
 वाँधना, स्थिर कर्म, नौकर होना, शस्त्र चलाना, मिथ्या बोलना

चोरी करना, इतने कार्य शनिवारमें सिद्ध होते हैं ॥ ११ ॥ लघ्से तीसरा, छठा, दशवाँ, ग्यारहवाँ घर उपचय कहाताहै और लघ्स, दूसरा, चौथा, पांचवाँ, सातवाँ, आठवाँ, नौवाँ, बारहवाँ घर अपचय कहाताहै. उपचय स्थानमें स्थित ग्रहके वारमें कियाहुआ कार्य शुभकारक होताहै और यदि वहही ग्रह अपचय स्थानमें हो तो कार्य यत्न करनेसे भी सिद्ध नहीं होता ॥ १२ ॥

अथ तात्कालिकवारकृतार्थं होरा प्रोच्यते ।

स्वदेशान्मध्यरेखांतयोजनैः पादवर्जितैः ॥ तावत्पलैर्युतो-
नाः स्युस्तिथयः १५ परपूर्वतः ॥ १३ ॥ तद्विनाद्वांतर-
पलैर्हनाधिक्ये दिनार्द्धतः ॥ ऊर्ध्वं चाधः क्रमाद्वारप्रवेशस्त
पनोदयात् ॥ १४ ॥ वारारंभाद्वतानाङ्गो द्विश्राः २ पंच
विभाजिताः ॥ लघ्सके गतहोराः स्युर्वासरेशादितः क्रमात्
॥ १५ ॥ रविः शुक्रो बुधश्वंद्रः शनिर्जीवस्ततः कुजः ॥
एवं क्रमेण विज्ञेयाः कालहोरेश्वरा ग्रहाः ॥ १६ ॥ यस्मि-
न्वारे तु यत्कृत्यं पूर्वाचार्यैरुदाहृतम् ॥ तत्कृत्यं तस्य
खेटस्य होरायां खलु सिद्धयति ॥ १७ ॥ वारदोपाश्रये
प्रोक्ता रात्रौ न प्रभवति ते ॥ शनिभौमार्कवारेषु विशेषा-
दिति केचन ॥ १८ ॥

अब तात्कालिक वारमें कर्त्तव्यकर्मार्थं होराका वर्णन करते हैं—
अपना देश और मध्यरेखाके बीचमें जितने योजनोंका अन्तर
होय उनमेंसे उनकाही चौथा भाग घटायकर जो शेष वचै सो
पल होते हैं. उन पलोंको पर या पूर्व देश होनेसे क्रमसे १५

* मूर्मध्यरेखाके देश इस लोकसे जाते हैं—पुरी रक्षणा देवकन्याऽय काची शितः पर्वतः
पर्यंगी यत्कुम्भम् ॥ पुरी, चोजायन्यादिका गगीराट कुम्भेनमेल भुवो मध्यरेखा ॥ १ ॥
मध्य—याद्योद्दिपिनीपुरोरखिद्येश्वरादिदेशान् रुद्धतनुभ्र मेदगत बुधर्निंगदिता या मध्यरेखा
यूच ॥ २ ॥ इति ॥

पंद्रहमें जोड़े और घटावै ॥ १३ ॥ भावार्थ यह है कि, भूमध्येरेखासे अपना देश पश्चिममें हो तो पलोंको १५ पंद्रहमें जोड़देवे और जो मध्येरेखासे अपना देश पूर्वमें होय तो पंद्रहघडियोंमें पलोंको घटाय देवे इस प्रकार करनेसे जो अंक मिलें सो ध्रुवांक कहाते हैं। जिस दिनका वारप्रवेश जानना होय उसी दिवसके दिनार्ढका और ध्रुवांकका अन्तर करे अर्थात् जिसमेंसे जो घट सके उसे घटाय देवे शेष वचै सो वारप्रवेशकी घट्यादि जानै। तासर्य यह है कि, दिनार्ढमेंसे ध्रुवांक घट गया हो तो सूर्योदयसे (ऊर्ध्व) उतनी घटी पल दिन चढ़े वारप्रवेश हुआ जानै और जो ध्रुवांकमेंसे दिनार्ढ घट गया हो तो सूर्योदयसे (अधः) उतनी घटी पल पहिले वारप्रवेश हुआ जानै।

उदाहरण-जैसे कि, भूमध्येरेखा लंकासे कुरुक्षेत्रपर होती हुई सुमेरु पर्वततक सीधी चली गई है ऐसा दैवज्ञोंने माना है और कुरुक्षेत्रसे ठीक पूर्वमें ३१ योजनपर हमारा ग्राम ढाडौली है, आज सं. १९६४ मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया रविवारके दिन वारप्रवेश जानना है आज दिन-मान २६।४ है तो ३१ योजनका चौथाई७।१४५ हुआ इनको ३१मेंसे घटाया तो २३।१५ शेष वचै ये पल और विपल हैं, इन पल विपलोंको १५ घडियोंमेंसे घटाया क्यों कि, हमारा देश मध्येरेखासे पूर्वमें है तो शेष १४।३६।४५ वचै यह ही वारप्रवेशका ध्रुवांक है और दिनार्ढ, ३३।२ है यहांपर ध्रुवांकमें दिनार्ढ घटता है तो शेष १३।४।४५ वचते हैं वस यही वारप्रवेशकी घट्यादि हैं अब जानलो कि, आज सूर्योदयसे १ घटी ३४ पल ४५ विपल पहिले वारप्रवेश हुआ है ॥ १४ ॥ वारप्रवेशसे इष्टतक जितनी घड़ी वीती होय उनको दूना करके पांच ५ का भाग देनेसे जो अंक लब्ध मिलै सोही वर्त्तमान वारसे गत होरा इस क्रमसे होते हैं, जैसे रविवारके दिन प्रथम तो सूर्यकाही होरा, फिर शुक्रका, फिर बुधका, उसके आगे

चन्द्रमाका, तब शनिका, तब वृहस्पतिका इसी क्रमसे काल होराके स्वामी अह जान लेने चाहिये ॥ १६ ॥ पूर्वाचायोंने जो कार्य जिस वारमें करना कहाहै वह कार्य उसी वारके होरामें भी सिद्धिको प्राप्त होताहै अर्थात् आवश्यक कार्यमें वार न मिलसकै तो उस वारकी होरामें उस कार्यको करलेवे ॥ १७ ॥ वारोंमें जो दोष कहेहैं सो रात्रिमें बली नहीं होतेहैं और कोई आचार्य ऐसा कहतेहैं कि, शनि, मंगल, रविवारोंमें जो दोष कहेहैं सो रात्रिमें बली नहीं होतेहैं ॥ १८ ॥

तैलाभ्यंगे वारफलम् ।

रविस्तापं शशी कांतिं मृतिं भौमो बुधः श्रियम् ॥ वित्त-
हानिं गुरुः शुक्रो विपत्तिं च सुखं शनिः ॥ १९ ॥ तैला-
भ्यंगे मनुष्याणां कुरुते नात्र संशयः ॥ रवौ भौमे व्यती-
पाते संकांतौ वैधृतावपि ॥ २० ॥ पष्टचष्टम्योश्च विष्टचां
च तैलाभ्यंगो न पर्वसु ॥ २१ ॥

अब तैल लगानेमें वारोंका फल कहतेहैं—तैलाभ्यंगमें रविवार तापको करताहै, चन्द्रमा कांतिको, मंगल मृत्युको, बुध लक्ष्मीको, वृहस्पति धनकी हानिको, शुक्र विपत्तीको, शनि सुखको करताहै ॥ १९ ॥ इस वारफलमें किसी प्रकारका संशय नहीं है और रवि, मंगल, व्यतीपात, संकान्ति, वैधृति योग ॥ २० ॥ पष्टी, अष्टमी तिथि, भद्रा, पर्व (ग्रहण अमावास्यादि) इनमें तैलाभ्यंग नहीं करना चाहिये ॥ २१ ॥

अथ तैलाभ्यंगे दोपापवादः ।

तैलाभ्यंगो न दोपाय प्रत्यहं क्रियते च यः ॥ उत्सवे वात-
रोगे वा यज्ञ वाचनिकोपि वा ॥ २२ ॥ भार्गवे गोमयं
भौमे मृदं दूर्वां वृहस्पतां ॥ रवौ पुष्पं निधायांतस्तैलाभ्यं-

गो/न दोपकृत् ॥ २३ ॥ मंत्रितं कथितं तैलं सार्पयं पुष्प-
वासितम् ॥ द्रव्यांतरयुतं वापि नैव दुप्येत्कदाचन ॥ २४ ॥
इति श्रीमद्वज्जरावलहरिशंकरसूरिसूनुगणपतिकृते मुहूर्त-
गणपतौ वारप्रकरणं तृतीयम् ॥ ३ ॥

अब तैलाभ्यंगमें दोपका अपवाद लिखते हैं जो तैलाभ्यंग प्रति-
दिन किया जाता है अथवा उत्सवमें, वातरोगमें, पुण्याहवाचनमें किया
जाता है उसका दोप नहीं होता ॥ २२ ॥ दूसरा परिहार है कि,
शुक्रवारमें गोवर, मङ्गलवारमें मिठी, वृहस्पतिको दूध, रविको फूल
तैलमें डालकर लगानेसे दोप नहीं करता ॥ २३ ॥ मंत्रसे शुद्ध किया-
हुआ, अथवा अग्निसे पकाया हुआ, वा फूलोंसे सुगन्धित कियाहुआ,
अथवा द्रव्यान्तर (औषधियोंसे) मिलाहुआ और सरसोंका
तैल मलनेमें कभी दूषित नहीं होता है ॥ २४ ॥

इति श्रीमद्वज्जरावलहरिशंकरसूरिसूनुगणपतिकृते मुहूर्त-
गणपतौ श्रीयुतपंडितवर्यवेणीरामशर्मात्मजपंडि-
तरामदयालुकृतभाषाटीकासमलंकृतं
वारप्रकरणं तृतीयम् ॥ ३ ॥

अथ नक्षत्रप्रकरणम् ।

अथिनी भरणी चैव कृत्तिका रोहिणी मृगः ॥ आर्द्रा पुन-
र्वसु पुष्यस्तथाऽङ्गेषा मधा तथा ॥ १ ॥ पूर्वाफाल्युनिका
तस्मादुत्तराफाल्युनी ततः ॥ हस्तश्चित्रा तथा स्वाती
विशाखा तदनन्तरम् ॥ २ ॥ अनुराधा ततो ज्येष्ठा ततो
मूलं निगद्यते ॥ पूर्वापाठोत्तरापाठा त्वभिजिच्छ्वणस्ततः
॥ ३ ॥ धनिष्ठा शतताराख्यं पूर्वाभाद्रपदा ततः ॥ उत्तरा-
भाद्रपाच्चैव रेवत्येतानि भानि च ॥ ४ ॥

अब नक्षत्रप्रकरण लिखते हैं—अश्विनी १, भरणी २, कृत्तिका-
३, रोहिणी ४, मृगशिरा ५, आर्द्धा ६, पुनर्वसु ७, पुष्य ८, आश्लेषा
९, मघा १०, पूर्वाफालगुनी ११, उत्तराफालगुनी १२, हस्त १३,
चित्रा १४, स्वाति १५, विशाखा १६, अनुराधा १७, ज्येष्ठा १८,
मूल १९, पूर्वापाढा २०, उत्तरापाढा २१, अभिजित् २२, श्रवण
२३, धनिष्ठा २४, शतमिषा २५, पूर्वभाद्रपदा २६, उत्तरभाद्रपदा
२७, रेवती २८ ये २८ नक्षत्र हैं ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥

अथ नक्षत्रेशाः ।

अश्विनी दस्तदैवत्या भरणी यमदेवता ॥ आग्नेयी कृत्तिका
प्रोक्ता विधाता रोहिणीश्वरः ॥ ५ ॥ मृगशीर्षेश्वरश्चंद्रस्त-
थैवाद्रेश्वरः शिवः ॥ अदितिस्तु पुनर्वस्त्रोः पतिः पुष्यस्य
वाक्पतिः ॥ ६ ॥ आश्लेषा विष्पतिः सर्पो मधेशाः पितरः
स्मृताः ॥ भगव्य पूर्वाफालगुन्या उफायाः पतिर्यमा ॥ ७ ॥
हस्तस्याधिष्पतिः सूर्यस्त्वष्टा चित्राभिधस्य च ॥ स्वातेश्व
देवतं वायुर्विशाखेऽद्राग्निदेवता ॥ ८ ॥ अनुराघेश्वरो मित्रो
ज्येष्ठाया इंद्र उच्यते ॥ मूलस्य देवतं रक्षः पूर्वापाढेश्वरो
जलम् ॥ ९ ॥ उपाया देवतं विश्वे विधिश्वाभिजितोधिपः
श्रवणाधिष्पतिर्विष्णुर्धनिष्ठा वसुदेवता ॥ १० ॥ वरुणः
शततारायाः पूर्वेशः कथितोऽजपात् ॥ अहिर्वृच्छ्यस्तथो-
भायाः पूर्षोक्तो रेवतीपतिः ॥ ११ ॥

अब नक्षत्रोंके स्वामी कहते हैं—अश्विनीका अश्विनीकुमार,
भरणीका यम देवताहै, कृत्तिका अग्नि, रोहिणीका विधाता
स्वामीहै ॥ ५ ॥ मृगशिरका चंद्रमा, आर्द्धका शिव, पुनर्वसुका
अदिति, पुष्यका वृहस्पति ॥ ६ ॥ आश्लेषाका सर्प, मघाके पितर,
पूर्वाफालगुनीका भग, उत्तराफालगुनीका अर्यमा ॥ ७ ॥ हस्तका
सर्य, चित्राका त्वष्टा, स्वातीका वायु, विशाखाका इंद्रामी ॥ ८ ॥

अनुराधाका मित्र, ज्येष्ठाका इंद्र, मूलका राक्षस, पूर्वापादाका जल ॥ ९ ॥ उत्तरापादाका विश्वेदेव, अभिजितका ब्रह्मा, श्रवणका विष्णु, धनिष्ठाका वसु ॥ १० ॥ शतभिषाका वरुण, पूर्वभाद्रपदका अजपात्, उत्तरभाद्रपदका अहिर्वन्नव्य, रेवतीका पूषा देवता स्वामी है ॥ ११ ॥

अथ सामान्यतः शुभाशुभनक्षत्राणि ।

रोहिण्यश्विमृगः पुण्यो हस्तश्चित्रोत्तरात्रयम् ॥ रेवती श्रवण-
श्वैव धनिष्ठा च पुनर्वसुः ॥ १२ ॥ अनुराधा तथा स्वाती
शुभान्येतानि भानि च ॥ सर्वाणि शुभकार्याणि सिद्धचं-
त्येषु च भेषु च ॥ १३ ॥ पूर्वात्रयं विशाखा च ज्येष्ठाद्र्दा-
मूलमेव च ॥ शतताराममेतेषु कृत्यं साधारणं स्मृतम् ॥
॥ १४ ॥ भरणी कृत्तिका चैव मवाश्लेषे तथैव च ॥ अत्युग्रं
दुष्टकार्यं यत्प्रोक्तमेषु विधीयते ॥ १५ ॥

अब सामान्यतासे शुभाशुभ नक्षत्रोंका वर्णन करते हैं—रोहिणी, अश्विनी, मृगशिर, पुण्य, हस्त, चित्रा, तीनों उत्तरा, रेवती, श्रवण, धनिष्ठा, पुनर्वसु ॥ १२ ॥ अनुराधा, स्वांती ये नक्षत्र शुभ हैं इनमें सब शुभकार्य सिद्ध होते हैं ॥ १३ ॥ तीनों पूर्वा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा ये साधारण नक्षत्र हैं इनमें साधारणकार्य शुभ होते हैं ॥ १४ ॥ भरणी, कृत्तिका, मधा, आश्लेषा ये अतिउग्र नक्षत्र हैं इनमें अतिउग्र कार्य दुष्टकार्य और जो कार्य इनमें करने कहे हैं सो सब किये जाते हैं ॥ १५ ॥

अथ प्रत्येकनक्षत्रकृत्यम् ।

यात्रोपधविभूपाश्च विद्याशिल्पकलादिकम् ॥ गजकार्य
विवाहांगं मांगल्यं चाश्विभे चरेत् ॥ १६ ॥ साहसं दारुणं
शङ्खनाशनं विपवंधनम् ॥ भरणीं कूपकृष्णाद्यमन्दिदाहा-
दिकं चरेत् ॥ १७ ॥ कृत्तिकार्यां सदा कुर्यात्साहसाग्नि-

परिग्रहम् ॥ रिपोर्वधं विवाहं च लोहमण्योश्च कर्म तु ॥
 ॥ १८ ॥ रोहिण्यां पौष्टिकं कुर्यादिवादं धनसंग्रहम् ॥
 प्रासादं सुरकृत्यं च मांगल्यं भूपणादिकम् ॥ १९ ॥ विवा-
 होपनयो यात्रा मृगशीर्षे तु शोभनम् ॥ सुरसंस्थापनं
 वास्तुक्षेत्रारंभादि सिद्ध्यति ॥ २० ॥ आद्रीयां विग्रहं
 कुर्यादिवनं छेदनं वधम् ॥ विपसंध्यग्रिविद्याद्यं दारुणो-
 चाटने तथा ॥ २१ ॥ शांतिकं पौष्टिकं यात्राभूपावास्तु-
 त्रादिकम् ॥ वाहनं कृपिविद्याद्यं पुनर्वस्त्रोर्बिधीयते ॥
 ॥ २२ ॥ चरस्थिराणि कार्याणि शांतिकं पौष्टिकोत्सवम् ॥
 विवाहं वर्जयित्वाऽन्यत्समस्तं पुष्ट्यमे चरेत् ॥ २३ ॥
 आश्लेषायां रिपोर्वातं वाणिज्यं साहसं तथा ॥ विपसर्पादि
 कृत्यं च स्तैर्यं कापद्यमाचरेत् ॥ २४ ॥ मघायां पैतृकं
 कार्यं तथा सत्यादिरोपणम् ॥ जलाश्रयं विवाहं च कुर्या-
 द्युद्धादिसाहसम् ॥ २५ ॥ वंधनं दारुणं शिल्पं कापट्यं
 रणकर्म च ॥ पूर्वाफाल्युनिकायां तु चित्रकर्मादि साधयेत् ॥
 ॥ २६ ॥ विवाहो व्रतवंधश्च स्थिरकर्म विभूपणम् ॥ उत्तरा-
 फाल्युनीमे स्वाहाहारं भ्रवेशनम् ॥ २७ ॥ यात्राविद्यावि-
 वाहादिविभृपांवरमापयम् ॥ गृहारंभं प्रतिष्ठां च विद्ध्या-
 दस्तमेऽग्निलम् ॥ २८ ॥ शांतिकं पौष्टिकं शिल्पं वास्तु-
 भूपांवरादिकम् ॥ व्रतवंधं स्थिरं कार्यं चित्रायां कृपिकर्म
 च ॥ २९ ॥ सुरसंघविधानं च मंगलांवरभूपणम् ॥ वीजा-
 रोपं च संयामं शब्दाद्यं स्वातिभे चरेत् ॥ ३० ॥ चस्तुसं-
 ग्रहणं भूपां शिल्पं चित्रं प्रहारकम् ॥ स्थकार्यं विशाखायां
 कुर्यादोपवसेवनम् ॥ ३१. ॥ पाणिग्रहं व्रतं यात्रां गजा-
 चांवरभूपणम् ॥ चरं स्थिरं शुभं कुर्यादनुराघाऽभिवेऽग्नि-

लम् ॥ ३२ ॥ रिपूणां हनने भेदे प्रहारे लोहकर्मणि ॥
शिल्पे स्नेहविधौ चित्रे ज्येष्ठा चैव समीरिता ॥ ३३ ॥ मूल-
भे च वनारामाः संग्रामाः संधिविग्रहौ ॥ वापीकूपतडा-
गाद्या विधेयाः कृपयोपि च ॥ ३४ ॥ वापीकूपादिकं
कृष्णं विग्रहं वंधमोक्षणम् ॥ कूरकार्यं द्वुमच्छेदं पूर्वापाढा-
भिधे चरेत् ॥ ३५ ॥ स्थापनं मंडनं वास्तुनिवेशं च प्रवे-
शनम् ॥ वीजारोपविभूपाद्यमुत्तरापाढभे चरेत् ॥ ३६ ॥
देवतास्थापनं गेहं पौष्टिकं शिल्पकर्म च ॥ मांगल्योप-
नयं चित्रं शांतिकं थ्रवणे चरेत् ॥ ३७ ॥ चौले चौपनये
युद्धे गजाश्वोश्चादिकर्मणि ॥ गेहोद्यानविभूपासु धनिष्ठा
कथितोत्तमा ॥ ३८ ॥ गजाश्वरथनोकानां रौप्यमुक्ताफल-
सजाम् ॥ वास्तुसंग्रामशस्त्राणां कार्यं तच्छतभे चरेत् ॥
॥ ३९ ॥ पूर्वाभाद्रपदे शिल्पं साहसं छेदनं कृपिम् ॥
विक्रयं महिपोष्टाणां जलयंत्रादिकं शुभम् ॥ ४० ॥ विवाहो
ब्रतवंधश्च देवतास्थापनं गृहम् ॥ वास्तुकर्माभिपेकश्चोत्तरा-
भाद्रपदे भवेत् ॥ ४१ ॥ गेहं देवालयं भूपा विवाहो ब्रत-
वंधनम् ॥ जलस्थलादिकं कार्यं रेखत्वां सिद्धिमाप्नुयात् ॥ ४२ ॥

अब प्रत्येक नक्षत्रमें कृत्य कहते हैं—यात्रा, औपध वनाना और
खाना, आभूपण वनवाना और पहिरना, विद्या पढ़ना, कारीगरी
कला आदि सीखना, हाथीका कार्य, विवाह, मंगलकर्म ये सब
अश्विनी नक्षत्रमें करें ॥ १६ ॥ साहस और भयानक कर्म, शत्रुका
मारना, विष देना, वाँधना, कूप बनाना, खेती करना, अग्नि-
लगाना इत्यादि कार्य भरणी नक्षत्रमें करें ॥ १७ ॥ साहस, अग्निप-
रिग्रह, शत्रुमारण, विवाह करना, लोह और मणिका कर्म ये सब
कार्य कृत्तिकामें करें ॥ १८ ॥ पौष्टिक कर्म, विवाद, धनका संग्रह,

(प्रासाद) राजगृह, देवगृह बनवाना, देवकार्य करना, मांगलिक कर्म, भूषणादि धारण कर्म, रोहिणी नक्षत्रमें करे ॥ १९ ॥ विवाह, यज्ञोपवीत, यात्रा, देवस्थापन, वास्तुकर्म, क्षेत्रका बनवाना इत्यादि कार्य मृगशिरानक्षत्रमें शुभ होते हैं ॥ २० ॥ लडाई करना, वाँधना, काटना, विषदेना, मिलाप करना, अग्नि लगाना, विद्या सीखना, दारुण कर्म. उचाटन कर्म ये सब आद्रा नक्षत्रमें करे ॥ २१ ॥ शांति कर्म, पौष्टिक कर्म, यात्रा, आभूषण, मकान बनवाना, त्रिताडि करना, वाहनकार्य, खेती करना, विद्या सीखना ये सब कार्य पुनर्वसु नक्षत्रमें करे ॥ २२ ॥ चर और स्थिर कार्य, शांतिक, और पौष्टिक कर्म, उत्सव, विवाहको छोड़कर अन्य सब शुभकर्म पुष्यनक्षत्रमें करे ॥ २३ ॥ शत्रुका मारना, व्यापार करना, साहस कर्म, विष देना, सर्पादिका कार्य, चोरी, कपटता ये सब आश्लेषा नक्षत्रमें करे ॥ २४ ॥ पितृकार्य, खेती, बाड़ी बोना, जलाश्रय बनवाना, विवाह, युद्धादि साहस कर्म भया नक्षत्रमें करे ॥ २५ ॥ वाँधना, दारुण कर्म करना, कारीगरी करना, कपट करना, युद्धकर्म, चित्र बनाना इत्यादि कार्य पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रमें करे ॥ २६ ॥ विवाह, यज्ञोपवीत, स्थिरकर्म, आभूषण धारण, गृहारंभ, गृहप्रवेश ये सब कार्य उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रमें करे ॥ २७ ॥ यात्रा करना, विद्या सीखना, विवाहादि करना, आभूषण बद्ध पहिरना, ओपाधि बनाना और खाना, यह बनवाना, प्रतिष्ठा करना ये सब काम हस्त नक्षत्रमें करे ॥ २८ ॥ शान्तिक, पौष्टिक कर्म, शिल्प कर्म, वास्तु कर्म, आभूषण चत्वार्दि धारण कर्म, यज्ञोपवीत, स्थिर कर्म, शृणि कर्म ये सब चित्रा नक्षत्रमें करे ॥ २९ ॥ देवगृह बनाना, मंगल कार्य करना यथा, भूषण पहिरना, चीज़ बोना, संयाम करना,

शस्त्रादि वनाना और धारण करना, इत्यादि कार्य स्वाति नक्षत्रमें करै ॥ ३० ॥ वस्तुओंका संग्रह, आभूषण धारण करना, शिल्प कार्य करना, चित्र कार्य, प्रहार करना, रथकार्य, औपध सेवन विशाखा नक्षत्रमें करै ॥ ३१ ॥ विवाह, व्रत, ग्रावा, हाथी और घोडे सम्बन्धी कार्य वस्त्र और आभूषणका धारण करना, चरकार्य, स्थिरकार्य और शुभकार्य ये सब अनुराधा नक्षत्रमें करना ॥ ३२ ॥ शत्रुओंका मारना, भेद करना, प्रहार करना, लोहेका कर्म, शिल्प कर्म, तैल अतर आदिका वनाना, चित्रकारी करना, इन सब कर्मोंमें ज्येष्ठा नक्षत्र शुभ कहा है ॥ ३३ ॥ वन, वर्गीचा आदि लगाना, युद्ध, मिलाप, विघ्रह करना, वावडी कूप तड़ा-गादि वनवाना, खेती करना ये सब कार्य मूल नक्षत्रमें करै ॥ ३४ ॥ वावडी कूपादि वनाना, खेती, लडाई, वांधना, छोडना, क्रूर कर्म करना, वृक्ष काटना ये कार्य पूर्वापाद नक्षत्रमें करै ॥ ३५ ॥ देवस्थापन, सजाना, गृह वनाना, गृहप्रवेश, वीज बोना, आभूषणादि पहिरना ये कार्य उत्तरापादा नक्षत्रमें करै ॥ ३६ ॥ देवताका स्थापन करना, गृह वनाना, पौष्टिक कर्म, शिल्प कर्म, मांगलिक कर्म, यज्ञोपवीत, चित्र कर्म, शगन्ति कर्म ये सब श्रवण नक्षत्रमें करै ॥ ३७ ॥ मुँडन, यज्ञोपवीत, युद्ध, हाथी घोडा ऊटों आदिका कर्म, घर वनाना, वर्गीचा लगाना, आभूषण पहिरना इतने कार्योंमें धनि-ष्ठा नक्षत्र उत्तम कहा है ॥ ३८ ॥ हाथी, घोडा, रथ, नावका कर्म, चांदी, मोती, माला आदिका कर्म, गृहारंभ, संग्राम, शस्त्रका कार्य ये सब शतभिषा नक्षत्रमें करै ॥ ३९ ॥ शिल्प कर्म, साहस कर्म, काटना, खेती करना, भैसे ऊटोंका बेचना, जलयंत्रादिका वनाना ये सब कार्य पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रमें शुभ होते हैं ॥ ४० ॥ विवाह, यज्ञोपवीत, देवस्थापन, देवगृहारंभ, वास्तुकर्म, राज्याभियेक ये कार्य

उत्तराभाद्रपद नक्षत्रमें करै ॥ ४१ ॥ मकान, देवगृह बनाना, भूषण पहिरना, विवाह, यज्ञोपवीत, जलस्थलादिके कार्य रेवती नक्षत्रमें सिद्धिको प्राप्त होते हैं ॥ ४२ ॥

अथ पुष्यप्रशंसा ।

पापैर्विष्टे युते हीने चंद्रतारावलेऽपि च ॥ पुष्ये सिद्धचयंति सर्वाणि कार्याणि मंगलानि च ॥ ४३ ॥

अब पुष्य नक्षत्रकी प्रशंसा लिखते हैं—चन्द्रमा और तारा बलहीन हो पापग्रहोंसे विछ हो अथवा युक्त हो तोभी पुष्य नक्षत्रमें सब मंगल कार्य सिद्ध होते हैं ॥ ४३ ॥

अथ नक्षत्राणां विशेषसंज्ञा तत्कृत्यं च ।

शुवं स्थिरमिति ख्यातं रोहिणी चोत्तरात्रयम् ॥ तत्रामरगृह-
ग्रामाऽभिपेकाद्याः स्थिरक्रियाः ॥ ४४ ॥ मृगश्चित्राऽनुराधा
च रेवती मृदुमैत्रकम् ॥ तत्र गीतं रतिं कुर्याद्भूपामांगल्य-
मंबरम् ॥ ४५ ॥ पुष्याश्विन्यभिजिद्दस्तं लघु क्षिप्रमुदाहृतम् ॥
तत्र भूपौपधज्ञानं गमनं शिल्पकं रतिः ॥ ४६ ॥ ज्येष्ठाद्वारा
मूलमाश्लेपा तीक्ष्णं दारुणमुच्यते ॥ तत्र भेदो वधो वंधो
मंत्रभूतादिसाधनम् ॥ ४७ ॥ श्रवणादित्रिभं स्वातिपुनर्वसु
चरं चलम् ॥ तस्मिन्वाजिगजारोहो वाटिकागमनादिकम्
॥ ४८ ॥ भरणी च मधा पूर्वा ऋसुयमुदाहृतम् ॥ विपश-
खामिघातादि तत्र च्छेदविनाशनम् ॥ ४९ ॥ विशाखा
कृत्तिका चैव मिथ्रं साधारणं स्मृतम् ॥ नीलोत्सगोऽग्रि-
कार्यं च मिथ्रं तत्र च सिद्धयति ॥ ५० ॥

अब नक्षत्रोंकी विशेष संज्ञा और उनमें कृत्यका वर्णन करते हैं—रोहिणी, तीनों उत्तरा अर्धात् उत्तरापालगुनी, उत्तरापादा, उत्तराभाद्रपदा ये नक्षत्र ध्रुव और स्थिर संज्ञक हैं इनमें देवगृह

बनाना, आम बसाना, राजगद्दीपर वैठना, स्थिरकार्य करना इत्यादि
शुभ होते हैं ॥ ४४ ॥ मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, रेवती ये नक्षत्र
मृदु और मैत्र संज्ञक हैं। इनमें गाना, स्त्रीसंगम, आभूषण धारण,
मांगलिक कर्म, बस्त्र धारण ये सब कार्य करै ॥ ४५ ॥ पुष्य, अश्विनी
अभिजित, हस्त ये नक्षत्र लघु और क्षिप्र संज्ञक हैं। इनमें आभू-
षण धारण, औषध सेवन, ज्ञान, गमन, कारीगरी, स्त्रीसंगम इतने
कार्य शुभ होते हैं ॥ ४६ ॥ ज्येष्ठा, आद्रा, मूल, आश्लेषा ये नक्षत्र
तीक्ष्ण और दारुण संज्ञक हैं। इनमें भेदन, मारण, बंधन, मंत्रसा-
धन, भूतादि साधन शुभ होते हैं ॥ ४७ ॥ श्रवण, धनिष्ठा, शत-
भिषा, स्वाति, पुनर्वसु ये नक्षत्र चर और चल संज्ञक हैं। इनमें हाथी
घोड़ोंपर चढ़ना, फुलबाड़ी लगाना, जाना इत्यादि कार्य शुभ
होते हैं ॥ ४८ ॥ भरणी, मधा, तीनों पूर्वा ये नक्षत्र क्रूर, और उथ्र
संज्ञक हैं। इनमें विषदेना, शस्त्र चलाना, आश्चे लगाना, मारना,
काटना, विनाश करना इत्यादि कार्य सिद्ध होते हैं ॥ ४९ ॥ विशाखा,
कृत्स्निका ये दो नक्षत्र मिश्र तथा साधारण संज्ञक हैं। इनमें वृषो-
त्सर्ग, आश्निकार्य, मिश्रकार्य सिद्ध होते हैं ॥ ५० ॥

अथाधउद्धृतिर्यङ्मुखनक्षत्राणि तत्कृत्यानि च ।

मूलाश्लेषामधापूर्वाविशाखाभरणीद्वयम् ॥ अधोमुखानि
भान्यत्र कर्म सिद्धयेदधोमुखम् ॥ ५१ ॥ वापीकृपतडागादि
खातस्तत्र विधीयते ॥ निधिक्षेपोद्वृती रंगप्रवेशो गणितं
तथा ॥ ५२ ॥ पुनर्वस्त्रनुराधाख्यं ज्येष्ठाहस्तत्रयं मृगः ॥
रेवतीद्वितयं तिर्यग्वक्त्रं तस्मैस्तथाक्रियाः ॥ ५३ ॥ गजा-
श्वरथतंत्रीणां नौकायाश्च गमादिकम् ॥ शिविकाहलयंत्राणां
कार्य तिर्यद्वमुखे तु भे ॥ ५४ ॥ उत्तरा रोहिणी चैव पुष्या-

द्र्ग्नश्रवणत्रयम् ॥ एतान्यूर्ध्वमुखान्यत्र कर्मोक्तं तादशं वुधेः
॥ ५५ ॥ प्रासादश्च ध्वजच्छब्दप्राकारगृहतोरणम् ॥ वृपा-
भिपेक आराम उत्साहस्तूर्ध्ववक्त्रभे ॥ ५६ ॥

अब अधोमुख, उर्ध्वमुख, तिर्यङ्गमुख नक्षत्र और उनमें कृत्यका
वर्णन करते हैं—मूल, आश्लेषा, मघा, तीनों पूर्वा, विशाखा, भरणी,
कृत्तिका ये नक्षत्र अधोमुख संज्ञक हैं। इनमें अधोमुख कार्य सिद्ध
होते हैं ॥ ५१ ॥ वावडी, कुआँ, तालाब आदिका खोदना, पृथ्वीमें
धन रखना और खोदना, गुफा प्रवेश करना, गणितविद्या सीखना
इतने कार्य अधोमुख नक्षत्रोंमें करने चाहिये ॥ ५२ ॥ पुनर्वसु,
अनुराधा, ज्येष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वाति, मृगशिरा, रेवती, अश्विनी
ये नक्षत्र तिर्यङ्गमुख संज्ञक हैं। इनमें तिर्यङ्गमुख कार्य सिद्ध होते हैं
॥ ५३ ॥ हाथी, घोडा, रथ, नावका चलाना, वीणा बनाना, पाल-
कीपर चढ़ना, हल चलाना, यंत्रोंका कार्य करना, ये सब कार्य शुभ
होते हैं ॥ ५४ ॥ तीनों उत्तरा, रोहिणी, पुष्य, आर्द्धा, श्रवण, धनिष्ठा,
शतभिषा ये नक्षत्र उर्ध्वमुख संज्ञक हैं। इनमें उर्ध्वमुख संज्ञक कार्य
सिद्ध होते हैं ॥ ५५ ॥ राजगृह, देवगृह, बनाना, ध्वजा वांधना, छत्र
धारण करना, परकोटा धेरना, तोरण वांधना, राज्याभिपेक करना, वाग
लगाना, उत्साह करना ये सब कार्य उर्ध्वमुख नक्षत्रोंमें शुभ होते हैं ॥ ५६

अथाश्विन्यादिभानां तारकासंख्या ।

राम ३ रामां ३ ग ६ वाणा ५ ग्नि ३ भू १ वेदा ४ ग्नि-
३ शरा: ५ शरा: ५ ॥ नेत्रा २ श्वि २ वाण ५ भू १ चंद्रा
१ वेद ४ वेदा ४ ग्नि ३ शंकरा: ११ ॥ ५७ ॥ हग २-
श्वि २ रामा ३ रामा ३ विध ४ शतं १०० नेत्रे २ क्षणं २
रदा: ३२ ॥ अश्विनीप्रमुखानां हु तारासंख्या यथा-
कमम् ॥ ५८ ॥

अव अश्विन्यादि नक्षत्रोंकी तारासंख्या लिखते हैं—राम ३, राम ३, अंग ६, वाण ५, अस्ति ३, भू १, वेद ४, अस्ति ३, शर ५, शर ५, नेत्र २, अश्वि २, वाण ५, भू १, चंद्र १, वेद ४, वेद ४, अस्ति ३, शंकर ११, ॥५७॥ इकूर, अश्विरराम ३, राम ३, अचिध ४, शत १००, नेत्र २, ईक्षण २, रद ३२ ये क्रमसे अश्विन्यादि नक्षत्रोंके ताराओंकी संख्या हैं अर्थात् अश्विनीके तीन ' तारा हैं, भरणीके तीन तारा हैं, कृत्तिकाके छह तारा हैं, इत्यादि सब जानलेने चाहिये ॥ ५८ ॥

अथ नक्षत्राणां स्वरूपाणि ।

अश्विन्यश्विसुखाकारा भरणी भगसन्निभा ॥ कृत्तिका च क्षुराकारा रोहिणी शकटाकृतिः ॥ ६९ ॥ मृगो मृगसुखा-कारस्तथाद्र्वा मणिसन्निभा ॥ पुनर्वसुगृहाकारो पुष्यो वाण-समाकृतिः ॥ ६० ॥ चक्राकृतिरथाश्लेषा मधा शालोपमा स्मृता ॥ पूफा तु शयनाकारा तथैवोत्तरफाल्युनी ॥ ६१ ॥ ज्येष्ठो हस्ताकृतिर्हस्तश्वित्रा मौक्तिकसन्निभा ॥ प्रवालस-द्वशी स्वाती विशाखा तोरणाकृतिः ॥ ६२ ॥ वलितुल्याऽनुराधाख्या ज्येष्ठा कुंडलसन्निभा ॥ सिंहपुच्छनिमं सूलं पूर्वपाढा तु तल्पवद् ॥ ६३ ॥ उत्तरा गजदंताभा त्रिकोणं चाभिजित्स्मृतम् ॥ श्रवणश्चिपदाकारो धनिष्ठा मर्दला-कृतिः ॥ ६४ ॥ शतभं वर्णलाकारं यमाभा पूर्वभाद्रपात् ॥ उत्तरा शयनाकारा मर्दलाभा तु रेखती ॥ ६५ ॥

अब नक्षत्रोंका स्वरूप वर्णन करते हैं—अश्विनी नक्षत्र घोड़ेके सुख के समान है, भरणी नक्षत्र भगके समान है, कृत्तिका क्षुराके आकारका है, रोहिणी गाड़ीके आकारका है ॥ ५९ ॥ मृगशिरा मृगके सुखके

आकारका है, आर्द्ध मणिके समान है, पुनर्वसु गृहके आकारका है, पुष्य वाणके समान है, आश्लेषा चक्राकार है ॥ ६० ॥ मध्य शालाके समान है, पूर्वाफाल्गुनी शत्र्याके समान उत्तरा फाल्गुनी शत्र्याके आकार है ॥ ६१ ॥ हस्त हाथके आकारसा है, चित्रा मोतीके समान है, स्वाति मूँगके समान है, विशाखा तोरणके आकारकी है ॥ ६२ ॥ अनुराधा वलिके समान है, ज्येष्ठा कुंडलके समान है, मूल सिंहकी पूँछके समान है, पूर्वापादा शत्र्याके समान है ॥ ६३ ॥ उत्तरापादा हाथी दांतके समान है, अभिजित् त्रिकोणाकार है, श्रवण तीन चरणके आकारका है, धनिष्ठा मृदंगके समान है ॥ ६४ ॥ शतभिषा गोलाकर है, पूर्वाभाद्रपात् यमके समान है, उत्तराभाद्रपात् शत्र्याके समान है, रेवती मृदंगके समान है ॥ ६५ ॥

अथ नक्षत्रशरः ।

पूर्वापादाद्यं मूलानुराधार्द्धा मृगः करः ॥ ज्येष्ठा पुनर्वसु
चैपां तारा दक्षिणगः सदा ॥ ६६ ॥ रोहिणीकृत्तिकाऽश्ले-
पारेवतीश्रवणत्रयम् ॥ पुष्यश्चित्रा नवैतानि मध्यचारीणि
भानि हि ॥ ६७ ॥ अश्विनीद्वितयं स्वातीविशाखाफाल्गु-
नीद्वयम् ॥ मध्यभाद्रपदायुग्ममेतान्युत्तरगाणि च ॥ ६८ ॥

अब नक्षत्रोंका शर वर्णन करते हैं—पूर्वापादा, उत्तरापादा, मूल, अनुराधा, आर्द्धा, मृगशिरा, हस्त, ज्येष्ठा, पुनर्वसु इन नक्षत्रोंके तारा सदैव दक्षिणचारी हैं ॥ ६६ ॥ रोहिणी, कृत्तिका, आश्लेषा, रेवती, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पुष्य, चित्रा ये नौ नक्षत्र मध्यमचारी हैं ॥ ६७ ॥ अश्विनी, भरणी, स्वाति, विशाखा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, मध्या, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा ये नक्षत्र उत्तरचारी हैं ॥ ६८ ॥

विभागीय संख्या	प्रत्येक विभागीय	विभागीय संख्या	विभागीय संख्या	प्रत्येक विभागीय	विभागीय संख्या	विभागीय संख्या	विभागीय संख्या
उत्तरचारी	अध्यमुखाकार	८०	निवृहमुख	लघु क्षिप्र	शु.	अभिनीत्युभार	अ.
उत्तरचारी	मृगाकार	८०	बधेमुख	कूर उप्र	उप्र	यम	अ.
मध्यमचारी	धूपाकार	८०	बधेमुख	मिथ्र साधार.	उप्र	विनि	अ.
मध्यमचारी	दाक्षाकार	८०	कर्वमुख	ध्रुव स्थिर	शु.	ब्रह्मा	५०
दक्षिणचारी	मृगमुखाकार	८०	निवृहमुख	मृढ़ मैत्र	शु.	चंद्रमा-	अ.
दक्षिणचारी	मिश्रपद्म	८०	कर्वमुख	तीक्ष्ण दाहण	साधारण	शिव	अ.
दक्षिणचारी	गृहाकार	८०	तिवृहमुख	चर चल	शु.	विदिति	५०
मध्यमचारी	चागाकार	८०	कर्वमुख	लघु क्षिप्र	शु.	बृहस्पति	५०
मध्यमचारी	चक्राकार	८०	बधेमुख	तीक्ष्ण दाहण	उप्र	संप.	आम्लेषा
उत्तरचारी	शालाकार	८०	बधेमुख	कूर उप्र	उप्र	पिनर	अ.
उत्तरचारी	शालाकार	८०	बधेमुख	कूर उप्र	साधारण	भग	अ.
उत्तरचारी	शूष्याकार	८०	कर्वमुख	ध्रुव स्थिर	शु.	र्वमा	अ.
दक्षिणचारी	हस्ताकार	८०	निवृहमुख	लघु क्षिप्र	शु.	सूर्य	अ.
मध्यमचारी	मुक्ताकार	८०	तिवृहमुख	मृढ़ मैत्र	शु.	त्वष्टा	अ.
उत्तरचारी	ज्वालाकार	८०	तिवृहमुख	चर चल	शु.	वायु	अ.
उत्तरचारी	तोरणाकार	८०	बधेमुख	मिथ्रसाधारण	साधारण	इंद्रामी	अ.
दक्षिणचारी	यतिमद्दश	८०	तिवृहमुख	मृढ़ मैत्र	शु.	मित्र	अ.
दक्षिणचारी	कुंडलाकार	८०	तिवृहमुख	तीक्ष्ण दाहण	साधारण	ईंद्र	अ.
दक्षिणचारी	सिंहमुखाका.	८०	बधेमुख	तीक्ष्ण दाहण	साधारण	राष्ट्रस	अ.
दक्षिणचारी	शूष्याकार	८०	बधेमुख	कूर उप्र	साधारण	जल	प. चा.
दक्षिणचारी	गणदंताकार	८०	कर्वमुख	ध्रुव स्थिर	शु.	विष्वेदेवा	ट. चा.
•	त्रिकोणाकार	८०	कर्वमुख	लघु क्षिप्र	शु.	ब्रह्मा	अभिजित्
मध्यमचारी	बरणत्रयाका.	८०	कर्वमुख	चर चल	शु.	विष्णु	अ.
मध्यमचारी	मृदंगाकार	८०	कर्वमुख	चर चल	शु.	वसु	धनिष्ठा.
मध्यमचारी	गोलाकार	८०	कर्वमुख	कूर उप्र	साधारण	वरुण	अ.
उत्तरचारी	यमाकार	८०	बधेमुख	कूर उप्र	साधारण	अजपात्	पू. भा.
उत्तरचारी	शूष्याकार	८०	कर्वमुख	ध्रुव स्थिर	शु.	अहिंस्य	ट. भा.
मध्यमचारी	मृदंगाकार	८०	निवृहमुख	मृढ़ मैत्र	शु.	पूरा	रेती.

अथ नभोमध्यमादुदयर्क्षज्ञानम् ।

विशाखादिव्रयं पूर्वापाढा श्लेपाद्वेभे यदा ॥ रोहिणीभं नभो-
मध्ये तदा चाष्टमभोदयः ॥ ६९ ॥ नवमक्षोदयो मूले मृगे
चांवरमध्यगो ॥ शेषे मध्यगते व्योमः सतमक्षोदयो भवेत् ॥ ७० ॥

अब मध्याकाशस्थ नक्षत्रसे उदय नक्षत्रका जानना लिखते हैं—

विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, पूर्वापाढा, आश्लेपा, आद्री रोहिणी ये, नक्षत्र
आकाशके मध्यमें स्थित हों तो आठवें नक्षत्रका उदय होता है
अर्थात् इनमें से जो नक्षत्र आकाशके मध्यमें होय उससे आठवें
नक्षत्रका उदय होता है ॥ ६९ ॥ और मूल तथा मृगशिरा
आकाशके मध्यमें होय तो नवम नक्षत्रका उदय होता है और
यदि शेष नक्षत्र आकाशके मध्यमें गत हों तो सातवें नक्षत्रका
उदय होता है ॥ ७० ॥

अथ रविभान्मध्यमादुदयभाद्वतरात्रिज्ञानम् ।

रविभादस्त्वं व्येकं मध्यमं चाष्टहीनकम् ॥ उद्यद्वं तिथि
१६, हीनं वा नख२०म्बं नव९भाजितम् ॥ ७१ ॥ लब्धं
रवेर्गता नाडयः शेषं लब्धं पलानि च ॥ ७२ ॥

अब सूर्यके नक्षत्रसे और मध्य नक्षत्रसे तथा उदयके नक्षत्रसे
गतरात्रि जाननेकी रीति लिखते हैं—सूर्यके नक्षत्रसे अस्तनक्षत्र-
की जो संख्या होय उसमें एक घटावे और सूर्य नक्षत्रसे आका-
शके मध्यमनक्षत्रकी जो संख्या होय उसमें आठ घटावे, इसी
प्रकार सूर्यके नक्षत्रसे उदयके नक्षत्रकी जो संख्या होय उसमें
१५ पन्द्रह घटावे ऐसा करनेसे तीनों स्थानमें समानांकही शेष
बचेंगे, उस शेषको धीस २० गुणा करके नौका भाग देनेसे जो
लब्ध मिले, सो रात्रिकी गतघटी और शेष बचे सो पल जानलेने
चाहिये ॥ ७१ ॥ ७२ ॥

अथवा ।

अस्तभार्दकं तिथ्या १५ हीनं मध्यमतोष्टभिः ॥ उदय-
क्षात्तथा व्येकं १ विंशतिम् २० ग्रहै९भजेत ॥ ७३ ॥
लब्धाद्यग्रादिका ह्रेया शेपा रात्रिसुट्टाथ वा ॥ सप्ता ७
ए८ नवहीनं च ह्यस्तोदयप्रमाणतः ॥ मध्यमे तु विशेपो
इयं ह्रेया युक्ता विचक्षणैः ॥ ७४ ॥

अब दूसरी रीतिसे गत रात्रिका ज्ञान कहते हैं) अथवा अस्तके नक्षत्रसे सूर्यके नक्षत्रकी जितनी संख्या होय उसमें पन्द्रह१५घटावे और अस्तके नक्षत्रसे आकाशके मध्य नक्षत्रकी जो संख्या होय उसमें आठ घटावे और अस्तके नक्षत्रसे उदय नक्षत्रकी जो संख्या होय उसमें एक घटावे ऐसा करनेसे तीनों जगह एकसेही अंक शेष वचेंगे उसको बीसगुणा करके ९ का भाग देनेसे जो लब्ध मिलै सो गत रात्रिकी घटी और जो शेष वचै उसको ६०साठिगुणा करके ९ नौका भाग देनेसे जो लब्ध मिलै सो पल जानलेने चाहिये ॥ ७३ ॥ और आकाशके मध्य नक्षत्रमें तो पंडितोंको यह विषय जानना योग्य है कि, अस्त और उदयके प्रमाणसे क्रमकरके सात ७ आठ ८ नौ ९ घटावै और पूर्वोक्त क्रिया करनेसे गतरात्रिका ज्ञान होताहै अर्थात् मध्य नक्षत्रसे अस्तनक्षत्रकी जो संख्या होय उसमें सात ७ घटावै और उदयनक्षत्रकी जो संख्या होय उसमेंसे आठ ८ घटावे और सूर्यनक्षत्रकी जो संख्या होय उसमेंसे नौ ९ घटावे तीनों जगह समानांकही शेष वचेंगे, पूर्वोक्त क्रिया करनेसे गतरात्रिकी घटी पल जानलेने चाहिये ॥ ७४ ॥

अथ पंचकम् ।

धनियाद्वैत्तरं पंचऋक्षेष्वेषु त्यजेहुधः ॥ याम्यदिग्गमनं
शव्यापूर्णकं गेहगोपनम् ॥ ७५ ॥ स्तम्भोच्छायं प्रेतदाहं

तृणकाष्ठादिसंग्रहम् ॥ भवेत्पंचगुणं चात्र जातं लब्धं मृतं
गतम् ॥ ७६ ॥

अब पंचक लिखते हैं—धनिष्ठोत्तरार्द्ध, शतभिष्या, पूर्वभाद्रपदा, उत्तरभाद्रपदा, रेवती, इन पांच नक्षत्रोंमें दक्षिण दिशाका जाना, खाटका बुनना, घरका छावना। ७५॥ खंभगाडना, मृतकका जलाना, तृण काष्ठादिका संग्रह करना ये सब कार्य त्याग देवे इन नक्षत्रोंमें उत्पन्न हुई वस्तु, लाभ हुई वस्तु, मृत्यु हुई वस्तु, गर्द्द हुई वस्तु पांच गुणी होजाती है अर्थात् पंचकोंमें जो कोई उत्पन्न हुआ हो तो पांच औरभी उत्पन्न होंगे, यदि किसी वस्तुका लाभ, हुआ हो तो पांच औरभी मरेंगे, यदि कुछ खोयागया वा जातारहा हो तो पांच खोये जावें वा जाते रहेंगे ऐसा कहै ॥ ७६ ॥

अथ नक्षत्राणामधादिसंज्ञा ।

अंधकं मंदनेत्रं च मध्यचक्षुः सुलोचनम् ॥ गणयेद्वोहिणी-
पूर्वं सप्तावृत्त्या पुनःपुनः ॥ ७७ ॥ अंधक्षें शीघ्रलाभः

स्याद्यतो मंदलोचने ॥ श्रवणं मध्यनेत्रे तु नैव लाभः
सुलोचने ॥ ७८ ॥ अंधे प्राच्यां गतं वस्तु मंदनेत्रे तु
दक्षिणे ॥ पश्चिमे मध्यनेत्रे स्यादथोदीच्यां सुलोचने ॥ ७९ ॥

अब नक्षत्रोंकी अंधादि संज्ञा लिखते हैं—रोहिणीसे लेकर चार नक्षत्रोंकी सात आवृत्ति करके गिनै तो अंधक, मंदनेत्र, मध्य-
चक्षु, सुलोचन ये चार संज्ञाके नक्षत्र होते हैं ॥ ७७ ॥ यदि
अंधे नक्षत्रमें कोई वस्तु चोरी या खोई गई हो तो शीघ्रही मिले
और मंदलोचन नक्षत्रमें चोरीगई हो तो यत्से मिले और यदि
मध्यनेत्र नक्षत्रमें चोरी गई हो तो सुननेमें आवै परन्तु मिले नहीं
और सलोचनमें गई हो तो कभी नहीं मिले ॥ ७८ ॥ अंध नक्षत्रमें

अथान्धादिनक्षत्रवक्रम् ।

अंधलोचन,	मंदलोचन,	मध्यलोचन,	सुलोचन,
रोहिणी	मृगशि०	आद्री	पुनर्वसु
पुष्य	आशेषा	मधा	पूर्वाकाल्युनी
उत्तराकाल्युनी	हस्त	चित्रा	स्वाति
विशाखा	अनुराधा	ज्येष्ठा	मूल
पूर्वापाढा	उत्तरापाढा	अभिजित्	अवण
घनिष्ठा	शतभिषा	पूर्वाभाद्रपद	उत्तराभाद्रप.
रेती	अश्विनी	भरणी	कृतिका

गई वस्तु पूर्व दिशामें
बतावै, मंदनेत्रमें गई^१
वस्तु दक्षिण दिशामें,
मध्यनेत्रमें गई वस्तु
पश्चिम दिशामें और
सुलोचनमें गई वस्तु
उत्तर दिशामें गई है
ऐसा कहै ॥ ७९ ॥

अथ दिवारात्रौ पंचदश मुहूर्ताः ।

शिवोऽहिमैत्रपितरो वस्त्वंभोविश्ववेघसः ॥ विधिरिद्विथ
शकाभी रक्षोऽव्यीशोर्यमा भगः ॥ ८० ॥ मुहूर्तेशा इति
प्रोक्ता दिवा पंचदश क्रमात् ॥ मुहूर्ता रजनौ शंभुरजैकच-
रणाब्रयः ॥ ८१ ॥ दास्तात्पंचादितिर्जीवो विष्णवर्कै तक्ष-
मारुतौ ॥ दिनमानस्य तिथ्यंशो रात्रेरपि मुहूर्तकः ॥ ८२ ॥
नाक्षत्रनाथतुल्येस्मिन्कार्यं कुर्यात्स्वभोदितम् ॥ दिनमध्ये-
भिजित्संज्ञे दोपसंघेषु सत्स्वपि ॥ ८३ ॥ सर्वं कुर्याच्छुभं-
कर्म याम्यदिग्गमनं विना ॥ ८४ ॥

अथ दिवारात्रौ पंचदश मुहूर्ताः ।

६	९	१७	१०	२४	२०	२२	२३	४	१८	१६	१९	२५	१२	११	दि. सु.
६	८६	२७	२८	१	२	३	४	५	७	८	२३	१३	१४	१५	रा. सु.

अब दिन और रात्रिके १५ पंद्रह मुहूर्तोंका वर्णन करते हैं—शिव १,
सर्प २, मैत्र ३, पितर ४, वसु ५, जल ६, विश्वेदेव ७, ब्रह्मा ८, इन्द्र १०,
इन्द्राभी ११, राक्षस १२, वरुण १३, अर्यमा १४, भग १५, ॥८०॥ ये दिनकी
पन्द्रह १५ मुहूर्तोंके स्वामी क्रमसे कहते हैं। शिव १, अजैकपात् २, अहि-

वृद्धि ३, पूरा ४ ॥ ८१ ॥ अश्विनीकुमार ५, यम ६, अर्णि ७, ब्रह्मा ८, चंद्रमा ९, अदिति १०, बृहस्पति ११, विष्णु १२, सूर्य १३, तक्ष १४, पवन १५ ये रात्रिके मुहूर्तोंके स्वामी हैं ॥ ८३ ॥ दिन-मानका पन्द्रहवां भाग और रात्रिका भी पंद्रहवां भाग मुहूर्त होता है ॥ ८२ ॥ नक्षत्रमें कहाहुआ कार्य नक्षत्रके स्वामीकी मुहूर्त में करे । भावार्थ यह है कि, यदि नक्षत्र न मिले तो उस नक्षत्रके स्वामीकी मुहूर्तमें भी उस कार्यको करलेवे यदि दिनमें अभिजितसंज्ञक मुहूर्त हो तो दोषोंका समूह होनेपरभी सब शुभकार्य करे, परन्तु दक्षिण दिशाको न जावे ॥ ८३ ॥ ८४ ॥

अथ मुहूर्तस्वामिचक्रम् ।

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	मुहूर्त- संख्या
शिव	सं	मं	शिव	बु	ज	विश्वेश	ब्रह्मा	व्रह्मा	इन्द्र	इदामि	राक्षस	वश्व	अर्णि	मग	दिवामु हूर्ताः
आर्या	आश्वेषा	भुवरा	मा	धनिष्ठा	पूर्वांशु	वृत्तरा पाद	अभिजित्	रोहिणी	ज्येष्ठा	विश्वारा	मृग	शत्रिया	उच्चरा चा.	पूर्वो	नक्षत्राणि
शिव	विजयपत्	अहित्यु	पूरा	अश्विनीकु.	यम	अमि	ब्रह्मा	चंद्र	अदिति	बृहस्पति	विष्णु	सं	तक्ष	पवन	रात्रि- मुहूर्तः
कार्त्ता	भाद्र- पूर्व-	भुवरा	वृत्तरा	अश्विनी	भरणी	कुम्भका	रेतिष्ठा	श्वस्त्री	उत्तर्वृष्टि	पूष	श्रवण	हस्त	चित्रा	स्त्रा	नक्षत्राणि

अथ रव्यादिवारेषु त्याज्यमुहूर्ताः ।

अर्णमा भानुमद्वारे चंद्रेहि विधिराक्षसौ ॥ पित्र्यामी कुजवारे तु चंद्रपुत्रे तथाऽभिजित् ॥ ८५ ॥ पित्र्यव्रह्मौ भृगोवर्षरे क्षसार्पा गुरोर्दिने ॥ रोद्रसार्पा शनेरहि त्याज्याश्वेते मुहूर्तकाः ॥ ८६ ॥

इति श्रीमद्वज्रावलहरिशंकरसूरिसुनुगणपतिकृते मुहूर्तगणपतौ नक्षत्रप्रकरणं चतुर्थम् ॥ ४ ॥

अब सूर्यादिवारोंमें त्याज्य मुहूर्तोंका वर्णन करते हैं—रविवारके दिन अर्थमा, चंद्रवारके दिन ब्रह्मा और राक्षस, मंगलवारके दिन पितर और आग्नि, शुधवारके दिन अभिजित् ॥ ८५ ॥ शुक्रवारके दिन पित्र्य और ब्रह्म, वृहस्पतिके दिन राक्षस और जल, शनैश्चरके दिन रौद्र और सार्प ये मुहूर्त स्याग देने चाहिये ॥ ८६ ॥ । ।

इति श्रीमद्वज्ञरावलहरिदांकरसूरिसूनुगणपतिकृते मुहूर्त-
गणपतौ श्रीयुतपंडितवर्यदेणीरामात्मजपंडितरामद-
यालुशर्मकृतभाषाटीकासमलंकृतं नक्षत्र-
प्रकरणं चतुर्थम् ॥ ४ ॥

अथ योगप्रंकरणम् ।

विष्कंभः प्रीतिरायुष्मान्सौभाग्यः शोभनाभिधः ॥ अतिगंडः
सुकर्माख्यो धृतिः शूलाभिधानकः ॥ १ ॥ गंडो वृद्धिर्धु-
वश्वाथ व्याघातो हर्षणाह्यः ॥ २ ॥ सिद्धिर्व्यतीपातो
वरीयान्परिघः शिवः ॥ ३ ॥ सिद्धिः साद्व्यः शुभः शुक्लो
ब्रह्मा चैद्वौद्यथ वैधृतिः ॥ योगानां ज्ञेयमेतेपां स्वनामसदृशां
फलम् ॥ ४ ॥

अब योगप्रकरण लिखते हैं—विष्कंभ १, प्रीति २, आयु-
ष्मान् ३, सौभाग्य ४, शोभन ५, अतिगंड ६, सुकर्मा ७, धृति ८,
शूल ९ ॥ १ ॥ गणड १०, वृद्धि ११, ध्रुव १२, व्याघात १३, हर्षण
१४, वज्र १५, सिद्धि १६, व्यतीपात १७, वरीयान् १८, परिघ १९;
शिव २० ॥ २ ॥ सिद्धि २१, साद्व्य २२, शुभ २३, शुक्ल २४, ब्रह्म
२५; एंद्र २६, वैधृति २७ ये सत्ताईस योग हैं इनका फल अपने
नामके समान जानना चाहिये अर्थात् जो इन नामोंके अर्थ हैं
सोई फल जानो ॥ ३ ॥ । ।

अथ विरुद्धयोगानां त्याज्यांशाः ।

वैधृतिव्यतिपाताख्यौ संपूर्णं वर्जयेच्छुभे ॥ वज्रविष्कंभयो-
श्वैव घटिकात्रयमादिमम् ॥ ४ ॥ परिवार्धं पञ्च शूले
व्याधाते घटिकानवम् ॥ गंडातिगंडयोः पदं च हेयाः सर्वेषु
कर्मसु ॥ ५ ॥ एतेपामपि योगानां शेषं साधारणं स्मृतम् ॥
एके विरुद्धयोगानां पादमाद्यं त्यजन्ति हि ॥ ६ ॥

इति श्रीमद्वज्ञरावलहरिशंकरसूरिसुनुगणपतिकृते
मुहूर्तगणपतौ योगप्रकरणं पञ्चमम् ॥ ६ ॥

अब विरुद्ध योगोंके त्याज्य भागका वर्णन करते हैं—शुभ-
कार्यमें वैधृति और व्यतीपात योगको संपूर्ण त्याग देवे और
वज्र तथा विष्कम्भ योगके आदिकी तीन घडी त्यागदेवे ॥ ४ ॥ परिव-
योगका पूर्वार्द्ध, शूल योगकी पांच घडी, व्याधातकी नौ घडी,
गंड और अतिगंडकी छह छह घडी सब शुभकर्मोंमें त्याग देवे
॥ ५ ॥ और इन योगोंका शेष भाग भी साधारण कहा है, कोई
आचार्य विरुद्ध योगके आदिका चतुर्थ भाग त्याग देने कहते हैं ॥ ६ ॥

इति श्रीमद्वज्ञरावलहरिशंकरसूरिसुनुगणपतिकृते मुहूर्त-
गणपतौ श्रीयुतपंडितवर्यवेणीरामात्मजपंडितरामद-
यालुशर्मकृतभापाटीकासमलंकृतं योगप्रक-
रणं पञ्चमम् ॥ ५ ॥

अथ करणप्रकरणम् ।

करणानि चराख्यानि ववालवकौलवम् । तैतिलं गरवाणिज्ये
विष्टिरेतानि सप्त च ॥ १ ॥ गताश्च तिथयो द्वाभ्यां २
निम्नाः शुक्लादितः क्रमात् ॥ ववाच्च करणं पूर्वे ज्ञेयं सैकं परे
दले ॥ २ ॥ परे कृष्णचतुर्दश्यां दले च शकुनिर्भवेत् ॥
दर्शे चतुर्पदं नागं पूर्वापरविभागयोः ॥ ३ ॥ शुक्ले प्रति-

पदः पूर्वे दले किंस्तुम्भसंज्ञकम् ॥ एतेषां करणानां हि
चतुष्कं स्थिरसंज्ञकम् ॥ ४ ॥

अब करणप्रकरण लिखते हैं—वव १, वालव २, कौलव ३,
तैतिल ४, गर ५, वाणिज्य ६, विष्टि ७ ये सात करण चरसंज्ञक
हैं ॥ १ ॥ शुकृपक्षकी प्रतिपदासे लेकर गत तिथियोंको दोसे
गुणा करै जो अंक होय सो क्रमसे ववादिक करण तिथिके
पूर्वार्द्धमें होते हैं और यदि तिथिके परार्द्धमें करण जानना हो तो
दूनी कीहुई गत तिथियोंमें १ एक जोड़कर क्रमसे ववादिक करण
जानले और विदित हो कि, प्रत्येक तिथिके दो करण भोगते हैं ॥ २ ॥
कृष्णपक्षकी चतुर्दशीके परार्द्धमें शकुनि करण होता है और अमावा-
स्याके पूर्व और परभागमें क्रमसे चतुष्पद और नाग करण होता है
अर्थात् पूर्व भागमें चतुष्पद और परभागमें नाग करण होता है ॥ ३ ॥
शुकृपक्षकी प्रतिपदाके पूर्वदलमें किंस्तुम्भ करण होता है इन
चारों करणोंकी स्थिर संज्ञा है ॥ ४ ॥

अथ करणानां स्वामिनः ।

इंद्रो ब्रह्मा तथा मित्रश्चार्यमाभूरमायमाः ॥ कल्पधर्मक्षना-
गाजः करणानामधीश्वराः ॥ ५ ॥ ववे पौष्टिककार्याणि
विप्रकर्माणि वालवे ॥ कौलवे स्त्रीसुहृत्कर्म तैतिले सुभगा-
प्रियम् ॥ ६ ॥ गरे वीजाश्रितं कुर्याद्वाणिज्यं वणिजे चरेत् ॥
दाहपातादिकं विष्टयां न शुभं तत्र किंचन ॥ ७ ॥ शकुना-
वौषधं मंत्रसाधनं पौष्टिकं चरेत् ॥ राज्यं गोविप्रयोः कर्म
पितृकार्यं चतुष्पदे ॥ ८ ॥ सौभाग्यं दारुणं नागे किंस्तुम्भे
मंगलं चरेत् ॥ ९ ॥

अब करणोंके स्वामी लिखते हैं—इंद्र १, ब्रह्मा २, मित्र ३, अर्यमा
४, पृथ्वी ५, लक्ष्मी ६, यम ७, कलि ८, वृष्य ९, सर्प १०, वायु
११ ये क्रमसे ववादि करणोंके स्वामी हैं ॥ ५ ॥ वव करणमें पौष्टिक-

कर्म, वालवमें ब्राह्मणोंके कर्म; कौलवमें स्त्री और मित्रके कर्म, तैतिलमें सौभाग्यवती स्त्रीका प्रिय कर्म करै ॥ ६ ॥ और गर करणमें वीज बोना और जोतना, वणिजमें व्यापार कर्म करै (विष्टिकरण) भद्रामें अग्नि लगाना, गिराना आदि दुष्टकर्म करै और कोई शुभकर्म नहीं करै ॥ ७ ॥ शकुनी करणमें औपध-सेवन, मंत्रसाधन, पौष्टिककर्म करै, चतुष्पदमें राज्यकर्म, गौ ब्राह्मण कर्म, पितृकर्म करै ॥ ८ ॥ नागमें सौभाग्यकर्म तथा दारुणकर्म और किंस्तुद्धमें मंगलकर्म करै ॥ ९ ॥

अथ भद्रायां विशेषः ।

एकादश्यां चतुर्थ्यां च शुक्ले भद्रा परे दले ॥ अष्टम्यां पौर्णिमायां च भद्रा पूर्वदले स्मृता ॥ १० ॥ तृतीयायां दशम्यां च कृष्णपक्षे परे दले ॥ सप्तम्यां च चतुर्दश्यां भद्रा पूर्वदले भवेत् ॥ ११ ॥

अथ करणचक्रम्

शुक्रवास तिथि ३०			कृष्णप. ति, ३०			नामानि	स्वागी
पूर्वदल	उत्तर दल	रिपरादि संज्ञा	पूर्वदल	उत्तर दल	करण नाम		
१ ०० ०० ००	सिपर	०० ०० ०० ००	किंस्तुद्ध	वायु			
५ १२ ३० १५	चर	४ ११ ५ ००	वय	इद			
३ ९ ५ १३	चर	१ ८ ४ ११	वालव	भद्रा			
६ १३ ३ ९	चर	५ १३ १ ८	कौलव	मित्र			
२ १० ६ १३	चर	२ ९ ५ १२	तैतिल	सूर्य			
१७ ३४ ३ १०	चर	६ १३ ३ ९	गर	भूमि			
४ ११ ५ १५	चर	३ १० ६ १३	वणिज	लक्ष्मी			
१८ १५ ४ ११	चर	७ १४ ३ १०	कृष्ण	यम			
० ० ० ०	रिपर	० ० ० ० १४	शकुनि	पलि			
० ० ० ०	रिपर	० १० ० ० ०	चतुष्पद	पूर्व			
० ० ० ०	रिपर	० ० ० ० ३०	नाग	सर्प			

अब भद्रामें वि-
शेष लिखते हैं—शुक्र-
पक्षकी एकादशी
और चतुर्थीके दिन
(परदल) पराचर्चमें
भद्रा रहती है
और शुपक्षकी
अष्टमी तथा पौर्णि-
मासीके दिन पूर्वद-
लमें भद्रा होती है
॥ १० ॥ और कृष्ण-

पक्षकी तृतीया तथा दशमीके दिन परदलमें भद्रा होतीहै और कृष्णपक्षकी सप्तमी तथा चतुर्दशीके दिन पूर्वदलमें भद्रा होती है ॥ ११ ॥

अथ भद्राया अंगविभागस्तत्फलम् ।

पंच नाड्यो मुखे चैका कंठे तु हृदये दश ॥ पंच नाभी कट्टौ पद्म च विष्टः पुच्छं घटित्रयम् ॥ १२ ॥ कार्यनाशो मृति-र्लक्ष्म्या नाशो बुद्धेहृतिः कलिः ॥ ज्ञेयं क्रमात्फलं विष्टे-रिदमंगसमुद्धवम् ॥ १३ ॥ कार्येऽत्यावश्यके विष्टेर्मुखमात्रं परित्यजेत् ॥

अब भद्रामें अंगविभाग और उसका फल लिखते हैं—पांच ५ घटी मुखमें, एक १ कंठमें, दश १० हृदयमें, पांच नाभिमें, छह६ कमरमें, तीन ३ पुच्छमें इस प्रकार तीस घडियोंके विभागसे भद्राके छह अंग जानलेने चाहिये ॥ १२ ॥ कार्यनाश, मृत्यु, लक्ष्मीनाश, वुद्धिनाश, कलह, जय इस प्रकार कमसे भद्राके छहों अंगोंका फल जानलेना चाहिये ॥ १३ ॥ अत्यावश्यक कार्यमें भद्राका मुखमात्र त्यागदेवे ॥

अथ भद्राया दिङ्मुखं च ।

शक्राष्टमुनितिथ्यविधिदिग्निद्राग्निमिते तिथौ ॥ १४ ॥ प्रथ-मादिपुयामेषु दिक्षु पूर्वादितः क्रमात् ॥ विष्टेर्मुखं विजा-नीयाच्छुभं पृष्ठेऽग्रतोऽग्नुभम् ॥ १५ ॥

अब भद्राके दिशामुख लिखते हैं—(शक्र)चतुर्दशी,(अष्ट)अष्टमी,(मुनि) सप्तमी (तिथि) पौर्णमासी, (अविधि) चतुर्थी, (दिक्) दशमी,(ईश) एकादशी,(अग्नि) तृतीया इन आठ तिथियोंके प्रथमादि आठों प्रहरोंमें क्रमसे पूर्वादि आठ दिशाओंमें भद्राका मुख-जानलेना चाहिये, जैसे चतुर्दशीके प्रथम प्रहरके आदिकी पांच ५ घड़ी

भद्राका सुख पूर्वदिशामें और अष्टमीको द्वितीय प्रहरके आदिकी पांच घड़ी भद्राका सुख आश्रेयदिशामें और सप्तमीको तृतीयप्रहरके आदिकी पांच घड़ी भद्राका सुख दक्षिणदिशामें होता है इसी प्रकारसे सब जानलेने चाहिये भद्राका सुख पीठमें शुभ और सामने में अशुभ होता है ॥ १४ ॥ १५ ॥

अथ भद्रापुच्छम् ।

चतुर्थ्याश्वाप्तमे यामे प्रथमेचाप्तमेहनि ॥ एकादश्यास्तथा
पछे पौर्णमास्यास्तृतीयके ॥ १६ ॥ प्राते घटीन्द्रियं पुच्छं
कृष्णपक्षे त्वथोच्यते ॥ सप्तमे स्यात्तृतीयायाः सप्त-
म्यास्तु द्वितीयके ॥ १७ ॥ दशम्याः पंचमे यामे चतु-
र्दश्याश्वतुर्थके ॥ विष्टिपुच्छे जयो युद्धे कार्यमन्यन्न
शोभनम् ॥ १८ ॥

अब भद्राके पुच्छका वर्णन करते हैं—शुक्लपक्षकी चतुर्थीके आठवें प्रहरके और अष्टमीके प्रथम प्रहरके अन्तकी तीनतीन घड़ी भद्राकी पुच्छ संज्ञक होतीहैं। एकादशीके दिन छठे प्रहरके अन्तकी तीन घड़ी और पौर्णमासीके दिन तीसरे प्रहरके अन्तकी तीन घड़ी भद्राकी पुच्छ संज्ञक होती हैं॥१६॥ और कृष्णपक्षकी तृतीयाके दिन सातवें प्रहरके अन्तकी तीन घड़ी और सप्तमीके दिन द्वितीय प्रहरके अन्तकी तीन घड़ी ॥१७॥ और दशमीके दिन पांचवें प्रहरके अन्तकी तीन घड़ी और चतुर्दशीके दिन चौथे प्रहरके अन्तकी तीन घड़ी भद्राकी पुच्छ होतीहैं। भद्राके पुच्छमें युद्ध करना शुभ होताहै अन्य कार्य शुभ नहीं होता ॥ १८ ॥

अथ भद्रास्वरूपम् ।

पुग देवासुरे युद्धे शंभुकायाद्विनिर्गता ॥ देत्यमी रासभा-
म्या च विष्टिलांगृलिनी विपात् ॥ १९ ॥ सिंहश्रीवा शवा

रुढा सप्तहस्ता कृशोदरी ॥ अमरैः अवणप्रांते सा नियुक्ता
शिवाज्ञया ॥ २० ॥ महोग्रा विकरालास्त्या पृथुदंष्ट्रा भया-
नका ॥ कार्यन्त्री भुवमायाति वह्निज्वालासमाकुला ॥ २१ ॥

अब भद्राका स्वरूप कहते हैं—पहिले समयमें देव और देव्योंके
युद्धमें शिवजीके शरीरसे भद्रा निकलीथी जो कि, देव्योंकी
मारनेवाली गधेकासा मुखवाली पूँछवाली, तीन पैरोंवाली ॥ १९ ॥
सिंहकीसी श्रीवावाली, मुर्दापर चढ़ी, सात हाथ ऊँची, पतले
पेटवाली; शिवजीकी आज्ञासे देवतोंने कानके समीपमें
रखी हुई ॥ २० ॥ सहाउयरूपिणी, विकराल मुखवाली, सोटी-
मोटी डाढ़ोंवाली, भय देनेवाली, कायोंका नाश करनेवाली,
अग्निकी लपटोंसे भरीहुई पृथ्वीपर आईथी ॥ २१ ॥

अथ भद्राया दोपापवादमाह ।

तिथेः पूर्वार्द्धजा रात्रौ दिने भद्रा परार्द्धजा ॥ भद्रादोपो न
तत्र स्यात्कायेत्यावश्यके सति ॥ २२ ॥ अजवयेवजेलिगे
च भद्रा स्वलोकचारिणी ॥ कन्याद्वये धनुर्युग्मे चंद्रे भद्रा
रसातले ॥ २३ ॥ कुंभे मीने तथा, कक्षे सिंहे चंद्रे भुवि
स्थिता ॥ भूलोकस्था सदा त्याज्या स्वर्गपातालगा शुभा
॥ २४ ॥ वैद्यतिव्यतिपातश्च विएश्च भौमवासरः ॥ तथैव
दुष्टाराः स्युर्मध्याह्नात्परतः शुभाः ॥ २५ ॥

अब भद्राके दोपका अपवाद लिखते हैं—तिथिके पूर्वार्धकी भद्रा
रात्रिमें और परार्द्धकी भद्रा दिनमें आजावे तो आवश्यक कार्यमें
भद्राका दोप नहीं होता है ॥ २२ ॥ मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिकके
चंद्रमामें भद्रा स्वर्ग लोकमें और कन्या, तुला, धनु, मकरके
चंद्रमामें भद्रा पाताल लोकमें ॥ २३ ॥ कुंभ, मीन, कक्ष, सिंहके

चंद्रमामें भद्रा पृथ्वीपर रहती है. भूलौककी भद्रा सदैव त्याज्य है और स्वर्ग और पाताल लोककी सदैव शुभ है ॥ २४ ॥ वैधृति योग, व्यतीपात्, भद्रा, मंगलवार, दुष्टतारा ये सब मध्याह्नके पश्चात् शुभ होते हैं ॥ २५ ॥

अथ भद्राविशेषे कस्यचिन्मते विशेषः ।

शुक्ले तु वृश्चिकी भद्रा कृष्णपक्षे शुजंगमा ॥ सा दिवा सर्पिणी रात्रा वृश्चिकी चापरे जगुः ॥ २६ ॥ मुखं त्याज्यं तु सर्पिण्या वृश्चिक्याः पुच्छमेव च ॥ खराथाप्रसवे दुर्ग-पूजने दानकर्मणि ॥ दाहवातादिके भद्रा शस्ता नान्यत्र शोभना ॥ २७ ॥

इति श्रीमद्देवज्ञरावलहरिशङ्करसूरिसूतुगणपतिकृते मुहूर्त-गणपतो करणप्रकरणं पष्टम् ॥ ६ ॥

अब भद्राके विषयमें किसी २ आचार्यका मत विशेष है सो
॥ अथ भद्राचक्रम् ॥

पठ	निधि		पठी सम्बन्ध	श्यामफल	चद्रमा	लोकवास	फल
वृष्ण पृष्ठ	३ १०	इन निधियोंके उत्तरार्थमें भद्रा रहती है नारियों नाम,	३	तुन्ड विजय	नेत्र बृप्तम मिथुन शूदिय	स्वर्गलोक	सौत्रय
शुभ पृष्ठ	४ ११	इन निधियोंके पार्श्वमें भद्रा रहती है शूदियों नाम,	६	वटि युद्धिनामा			
वृष्ण पृष्ठ	५ १२	इन निधियोंके पूर्णार्थमें भद्रा रहती है नारियों नाम,	५	नारि युद्धिनामा	वृद्या दुर्ला धन महार	पाताल लोक	धन प्राप्ति
दूष पृष्ठ	६ १३	इन निधियोंके पूर्णार्थमें भद्रा रहती है शूदियों नाम,	१०	हृष्ण दृष्टिनामा	कम मोन वर्क मिद्	भूलोक	अशुभ
				५ ८ ९ ५	कृष्ण मायनामा		

कहते हैं—शुक्रपक्षकी भद्रा वृथिकी और कृष्णपक्षकी सर्पिणी कहाती है और कोई आचार्य ऐसा कहते हैं कि, दिनकी भद्रा सर्पिणी और रात्रिकी वृथिकी नामवाली है ॥ २६ ॥ सर्पिणी भद्राका मुख और वृथिकी भद्राका पुच्छ त्याग देना चाहिये, गधा और घोड़ाके जन्ममें, किलाके पूजनमें, दान कर्ममें, दाह धातादि कर्ममें भद्रा शुभ होती है अन्य कार्यमें शुभ नहीं है ॥ २७ ॥

इति श्रीमद्वैवज्ञरावलहरिशंकरसूरिसूनुगणपतिकृते मुहूर्त-
गणपत्तौ श्रीयुतपंडितवर्यवेणीरामात्मजपंडितराम-
दयालुशर्म्मकृतभाषाटीकासमलंकृतं करण-
प्रकरणं पठम् ॥ ६ ॥

अथ चंद्रतारावलप्रकरणम् ।

सपादर्क्षद्वयं भोगो मेपादीनामनुकमात् ॥ १ ॥

अब चंद्र और तारवल प्रकरण लिखते हैं—मेपादि वारह राशियोंका भोग अनुकमसे सवाडोडो नक्षत्रका होता है अर्थात् सवाडो नक्षत्र भोगनेसे एक राशि पूरी हो जाती है ॥ १ ॥

अथ नक्षत्राणां प्रत्येकराशेभोगः ।

अश्विनी भरणी सर्वा कृतिकाप्रथमांश्रिकम् ॥ मेपस्यात्कृ-
त्तिकापादन्त्रितयं रोहिणी तथा ॥ २ ॥ वृषभो मृगपूर्वांश्च
तदंत्यांश्च तथाद्रभम् ॥ पादवयं पूर्ववस्वोः स राशिर्मिथु-
नाभिधः ॥ ३ ॥ तदंत्योऽप्रिस्तथा पुष्यो ह्याश्लेपा कर्ष्णा-
भिधः ॥ मघा पूर्वोत्तराद्योऽप्रिः सिंहस्तञ्चरणवयम् ॥ ४ ॥

हस्तश्चिन्नाभपूर्वार्द्धे कन्या चित्रोत्तरं दलम् ॥ स्वातिभं च
विशाखाद्यचरणन्तियं तुला ॥ ६ ॥ तदंत्यांश्यनुराधारुयो
ज्येष्ठाभं वृथिकः स्मृतः ॥ मूलं पूर्वोत्तरापादाप्रार्गंशिः
कथितं धनुः ॥ ६ ॥ उत्तरांत्रिभवयं कणों धनिष्ठाप्रथमं
दलम् ॥ मकरारुयो धनिष्ठांत्यं दलं च शततारका ॥ ७ ॥
पूर्वभापादत्रयं कुंभस्तदंत्यश्वरणस्तथा ॥ उभा च रेवती चैव
मीनराशिः प्रकीर्तिः ॥ ८ ॥

अब नक्षत्रोंकी प्रत्येक राशिका भेग वर्णन करते हैं—समस्त
अश्विनी और समस्त भरणी, कृत्तिकाका प्रथम चरण मेथ राशि होती
है। कृत्तिकाके तीन चरण ॥२ ॥ समस्त रोहिणी, मृगशिरका पूर्वार्द्ध
वृष राशि होतीहै। मृगशिरके पिछले दो चरण, समस्त आर्द्ध
और पुनर्वसुके तीन चरण मिथुन राशि होती है ॥ ३ ॥ पुनर्व-
सुका (अन्त्य) चौथा चरण समस्त पुष्य और आश्लेषा कर्क
राशि होतीहै। समस्त मधा और पूर्वफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनीका
पहिला चरण सिंह राशि होतीहै। उत्तराफाल्गुनीके पिछले तीन
चरण ॥ ४ ॥ समस्त हस्त, चित्राके पहिले दो चरण कन्या राशि
होतीहै। चित्राके पिछले दो चरण, समस्त स्वाति, विशाखाके पहिले
तीन चरण तुला राशि होतीहै ॥ ५ ॥ विशाखाका पिछला एक
चरण, समस्त अनुराधा और ज्येष्ठा वृथिक राशि होतीहै। समस्त
मूल और पूर्वपादा, उत्तरापादाका पहिला एक चरण धनु राशि
होतीहै ॥ ६ ॥ उत्तरापादाके पिछले तीन चरण, समस्त श्रवण और
धनिष्ठाके पहिले दो चरण मकर राशि होतीहै। धनिष्ठाके पिछले
दो चरण, समस्त शतभिपा ॥ ७ ॥ पूर्वभाद्रपदाके पहिले
तीन चरण कुंभ राशि होतीहै पूर्वभाद्रपदाका पिछला एक

चरण, समस्त उत्तराभाद्रपदा तथा समस्त रेवती मीन राशि
होती है ॥ ८ ॥

अथावकहडादिचक्रानुसारेण नक्षत्रचरणानां वर्णाः ।
 अश्विनी तु चूचेचोला लीलूल्लेलो भरण्यपि ॥ कृत्तिका
 स्थादईउए रोहिण्योवाविवू स्मृता ॥ ९ ॥ वेवोकाकी मृग-
 आद्री कूघड़छाः प्रकीर्तिः ॥ केकोहही पुनर्भ स्यात्
 हूहेहोडा च पुष्यभम् ॥ १० ॥ आश्लेपा तु डिङ्डेडो मामी-
 मूमे मधाहयम् ॥ मोटाटीटू तु पूर्वाख्या टेटोपपि च
 उत्तरा ॥ ११ ॥ प्रोक्तः पूर्णणठोहस्तः पेपोरारी तु चित्रका ॥
 रूरेरोता तथा स्वाती तीतुतेतो विशाखिका ॥ १२ ॥
 अनुराधा नानिनूने ज्येष्ठा नोयायियू मता ॥ तथा येयो-
 भभी मूलं पूर्वापाढा भुधाफढा ॥ १३ ॥ भेभोजाज्यु-
 त्तरापाढा जूजेजोखस्तथाभिजित् ॥ खीखुखेखो श्रवो
 ज्ञेयो गामीगृगे धनिष्ठिका ॥ १४ ॥ गोसासीसु शताख्यं तु
 पूभा सेसोददी मता ॥ उभा दूथझज ज्ञेया देदोचाची
 तु रेवती ॥ १५ ॥

अब अवकहडादि चक्रानुसार नक्षत्र चरणोंका वर्णन करते
 हैं—चूचेचोला अश्विनी, लीलूल्लेलो भरणी, अईउए कृत्तिका,
 ओवाविवू रोहिणी ॥ ९ ॥ विवोककि मृगशिरा, कूघड़छ आद्री,
 केकोहही पुनवसु, हूहेहोडा पुष्य ॥ १० ॥ डिङ्डेडो आश्लेपा,
 मामीमूमे मधा, मोटाटीटू पूर्वाफाल्गुनी, टेटोपपि उत्तराफाल्गुनी
 ॥ ११ ॥ पूर्णणठ हस्त, पेपोरारि चित्रा, रूरेरोता स्वाति, तीतुतेतो
 विशाखा ॥ १२ ॥ नानिनूने अनुराधा, नोयायीयू ज्येष्ठा, येयो-
 भभी मूल, भुधाफाढा पूर्वापाढा ॥ १३ ॥ भेभोजाजि उत्तरापाढा,
 जूजेजोख अभिजित्, खीखुखेखो श्रवण, गगिगृगे धनिष्ठा ॥ १४ ॥

गोसासीसु शतभिषा, सेसोददी पूर्वभाद्रपदा, दृथझज उत्तरभाद्रपदा, देवोचाची रेवती ॥ १५ ॥

अथावकहडादिचक्रम्

बू च चो ला	अधिनी	हृ दृ हो डा	पुष्य	सं रो ता	त्रातो	जू जो स्ता	अभिनिन्
ली लू ले लो	भरणी	डी डू डो	आश्रेष्टा	ती तू तो	विशाखा	स्त्री मृ स्त्री	श्रवण
आ इ ^३ उ ^४ ए	हृतिका	मा मी मू मे	मधा	ना नी नू न	अनुराधा	गा मी गू गे	धनिष्ठा
जो वा वी पू	रोद्धिणी	मो दा टी दू	पूर्वोक्ताल्पुनी	तो या यी यू	व्येष्टा	गो मा सी सू	शतभिषा
वे वो वा वी	मृगशिरा	टे टो पा पी	उत्तराकाल्पा.	ये यो मा मी	मूल	से सो दा दी	पूर्वभाद्रपदा
श ष ष ल उ	आद्रा	पू प ष ठ	इरव	भू घ फ ट	पूर्वोपादा	दृ थ क्ष व	उत्तरभाद्रपदा
क ष ष ल री	पुनर्यु	पे पो रा री	चित्रा	भे भो जा षी	दक्षरापादा	दृ द्वा चा ची	रेवती

अथ चंद्रस्य शुभाशुभफलम् ।

स्वजन्मराशिमारभ्य चंद्राशिस्थितं फलम् ॥ १६ ॥ चंद्रे
जन्मस्थिते पुष्टिर्द्वितीये नो सुखं भवेत् ॥ तृतीये धनला-
भश्च चतुर्थे रोगसंभवः ॥ १७ ॥ पांचमे कार्यनाशश्च पष्ठे
द्रव्यागमो महान् ॥ सप्तमे भूपसम्मानस्त्वष्टमे मरणं
श्रुतम् ॥ १८ ॥ नवमे च भयं ज्ञेयं दशमे कार्यसंपदम् ॥ एका-
दशोऽर्थलाभश्च द्वादशे विविधापदः ॥ १९ ॥

अथ राशित्वक्रमः

मेष	द्वय	मिथुन	कर्क	मिह	कन्या	तुला	वृषभक	धनु	सकर	कुम	मीन
चू	डे	क	ही	मा	टो	रा	तो	वे	भो	गृ	दी
वे	उ	ल	की	टू	मी	पा	रो	ना	दो	जा	गे
चो	ए	कु	है	मू	पी	ह	नी	भ	जी	गो	थ
ला	ओ	घ	ह्वी	मे	पू	ते	नू	नी	जू	त्ता	ल
ली	आ	इ	डा	मो	प	रे	ने	मू	जे	सी	ल
द	धी	छ	टी	टा	ए	ता	ना	थ	जो	मृ	दे
ले	वूं	के	टू	टी	ठ	ती	वा	फ	गह	से	दो
सो	वे	को	डे	हु	ये	तु	यो	ट	सी	गो	च
अ	वो	इ	तो	टे	यो	ले	यू	भे	खूंसे	द	ची

अब चंद्रमाका शुभाशुभ फल लिखतेहैं—अपनी जन्मराशिसे
लेकर चंद्रमाकी राशित्वकका फल कहतेहैं ॥ १६ ॥ चंद्रमा जन्म-
शाशिपर स्थित हो तो पुष्टि, दूसरा हो तो सुख नहीं होय, तीसरा
हो तो धनलाभ, चौथा हो तो रोगोत्पत्ति ॥ १७ ॥ पांचवाँ हो तो
कार्यनाश, छठा हो तो महान् द्रव्यागम, सातवाँ हो तो राजसम्मान,

आठवाँ हो तो मरण ॥ १८ ॥ नौवाँ हो तो भय, दशवाँ हो तो कार्यसंपत्ति, चारहवाँ हो तो ब्रह्मलाभ, चारहवाँ हो तो अनेक आपत्ति होती हैं ॥ १९ ॥

अथ शुक्लपक्षे विशेषः ।

द्वितीयः पंचमश्वंद्रो नवमश्च शुभप्रदः ॥ शुक्लपक्षे विशेषो यं तु स्थिमन्यत्थो भयोः ॥ २० ॥ चंद्रस्यैव वलं शुक्ले न तु ताराप्रधानता ॥ रात्रौ कान्ते वलोपेते स्वातंत्र्यं न च योपितः ॥ २१ ॥ कृष्णपक्षे तु ताराया वलं ग्राह्यं सदा यतः ॥ क्षीणे वा प्रोपिते कान्ते गार्हस्थ्यं गेहिनी चरेत् ॥ २२ ॥

अब शुक्लपक्षकमें विशेष कहते हैं—शुक्लपक्षमें इतना विशेष है कि, दूसरा, पाँचवाँ, नौवाँ चंद्रमा शुभदायक होता है और इनसे अन्य चंद्रमा दोनों पक्षोंमें समान फलदायक है ॥ २० ॥ शुक्लपक्षमें चंद्रमाकाही वल प्रधान होता है ताराका वल प्रधान नहीं होता क्यों कि, रात्रिमें पतिके वलवान् होनेसे स्त्रीकी स्वतंत्रता नहीं रहती ॥ २१ ॥ और कृष्णपक्षमें सदैव ताराका वल अहण करना चाहिये क्यों कि जब पति क्षीण होता है अथवा विदेशको चला जाता है तो घरका कार्य घरवाली स्त्रीही करती है ॥ २२ ॥

अथापश्यककृत्ये पक्षचंद्रवलम् ।

शुभः पशस्तु दुष्टेष्वे पशादाँ कृष्णपक्षके ॥ शुक्ले तु शुभदे चंद्रे शुभः पशोऽतिसंकटे ॥ २३ ॥

अब आपश्यक कृत्यमें पक्षचंद्रमाका वल लिखते हैं—कृष्ण पक्षकी प्रतिपदाको दुष्ट चंद्रमा हो तो समस्त कृष्णपक्ष शुभ रहता है और शुक्लपक्षकी प्रतिपदाको शुभ फलदायक चंद्रमा होम्

तो समस्त शुक्लपक्ष अतिसंकटमें भी शुभ रहता है (विवाह यात्रा, यज्ञादि संकट कहते हैं) ॥ २३ ॥

अथ तारावलम् ।

जन्मभाद्विनभं यावत्तारा ज्ञेया नवोद्धृता ॥ जन्मसंपद्विप-
त्क्षेमाः पापा सिद्धावधा क्रमात् ॥ २४ ॥ मित्रातिमित्रसंज्ञा
च नामतुल्यफलात्र ताः ॥ द्विचतुःपद्मनवापृष्ठ्य २ । ४ ।
६ । ९ । ८ स्ताराश्रेष्ठोत्तमा मताः ॥ २५ ॥ जन्माख्या
मध्यमा ज्ञेया नेष्टस्त्वन्याः ॥ ६ । ६ । ७ प्रकीर्तिताः ॥ २६ ॥

अब ताराका वल कहते हैं—जन्मनक्षत्रसे दिनके नक्षत्रतक गिनै
नोका भाग दे जो शेष वचे सो तारा जाननी चाहिये. एक वचे
तो जन्मतारा, २ दो वचे तो संपद, ३ तीन वचे तो विषय, ४ चार
वचे तो क्षेम, ५ पांच वचे तो पाप, ६ छः वचे तो सिद्धि, ७ सात
वचे तो वध, ॥ २७ ॥ ८ आठ वचे तो मित्र और कुछ
न वचे तो अतिमित्र संज्ञक तारा होती हैं और जानना
चाहिये कि, ताराओंकी तीन आवृत्ति होती हैं और इन ताराओंका
फल नामके तुल्य होता है। दूसरी, चौथी, छठी, आठवीं, नौवीं,
तारा शुभ मानी हैं ॥ २८ ॥ जन्मतारा मध्यम है। और अन्य तारा
३ । ५ । ७ अशुभ हैं ॥ २९ ॥

अथावश्यके कृत्ये दुष्टताराणां स्याज्यांशाः ।

तारां पूर्णा त्यजेदाद्यावर्तपंचविसत्तिकाम् ॥ ५।३।७।३७।
द्वितीये चैव तत्पादाँस्तुर्यादिमवृत्तीयकान् ॥ तृतीये तु
शुभाः सर्वाः कार्यत्यावश्यके स्मृताः ॥ २७ ॥

अब आवश्यक कृत्यमें दुष्ट ताराओंका त्याज्यांश वर्णन करते हैं—
(आद्यावृत्तों) प्रथमावृत्तिमें, पांचवीं, तीसरी, सातवीं, तारा संपूर्ण
त्याज्य हैं और दूसरी आवृत्तिमें, पांचवीं ताराका चौथा चरण,

तीसरीका पहिला और सातवींका तीसरा चरण त्याज्य है । तीसरी आद्वितिमें सब तारा शुभ होते हैं । इसका विचार आवश्यक कार्यमें करना चाहिये ॥ २७ ॥

अथ दुष्टतारासु दानम् ।

सप्तम्यां तारकायां च द्व्यात्स्वर्णं तिलानपि ॥ गुडं तृतीय-
तारायां पंचम्यां लवणं तथा ॥ दोपापनुत्तये तासां द्व्या-
च्छाकं त्रिजन्मसु ॥ २८ ॥

अब दुष्ट तारका दान लिखते हैं—सातवीं तारामें सुवर्ण और तिल दान करें, तीसरी तारामें गुडदान करें, पांचवीं तारामें लवण दान करें, ताराओंका दोप दूर करनेके लिये तीसरी आद्वितिकी जन्म-
तारामें शाक दान करें ॥ २८ ॥

अथ चंद्रावस्था ।

प्रवासोथ विनाशश्च मरणं जयहास्यके ॥ रतिः क्रीडा तथा
सुता भुक्ता चाथ ज्वराभिधा ॥ २९ ॥ कंपिता सुस्थिरा-
वस्था द्वादशेता विधोः स्मृताः ॥ तासां मानं सपादैकादश-
नाडीभितं स्मृतम् ॥ ३० ॥ मेपादितः प्रवासाद्या नाम-
तुल्यफलप्रदाः ॥ ३१ ॥

अब चंद्रमाकी अवस्थाओंका वर्णन करते हैं—प्रवास॑, विनाश २,
मरण ३, जय ४, हास्य ५, रति ६, क्रीडा, सुता ८, भुक्ता ९,
ज्वरा १०, ॥ २९ ॥ कंपिता ११, सुस्थिरा १२, चंद्रमाकी ये वारह
अवस्था कहते हैं ॥ ३० ॥ मेपादि राशियोंसे प्रवासादि अवस्था गिनी
जानीहैं और नामक तुल्य फल देनीहैं ॥ ३१ ॥

अथ तासां क्रमस्योदाहरणम् ।

मेपगशो प्रवासाद्या नाशाद्या वृपभे विधौ ॥ सृताद्या मिथुने
चेष्टं क्रमाण्डशगणिषु ॥ ३२ ॥

अब अवस्थाओंके क्रमका उदाहरण लिखतेहैं—मेष राशिमें प्रवासादिक अवस्था गिनीजातीहैं, वृष राशिके चंद्रमामें नाशादि और मिथुनके चंद्रमामें मरणादि अवस्था गिनी जातीहैं, इसी प्रकार वारहों राशियोंमें क्रमसे जान लेना ॥ ३२ ॥

अथ मेषादिराशीनामवस्थाचक्रम् ।

राशयः	मेष	वृष	मिथु.	कर्क	सिंह	कन्या	तुला	शूक्रि.	धनु	मकर	कुंभ.	मीन
अन्यथा	प्रगान्धि	नाशनरण	जय	हास्य	रति	कीदा	मुमा	सुका	ज्वरा	कम्प	स्थिरा	

अथ कार्यविशेषे ग्रहवलं सर्वचन्द्रवलं च ।

उद्धाहे चोत्सवं जीवः सूर्यो भूपालदर्शने ॥ संग्रामे धरणी-
पुत्रो विद्याभ्यासे वृद्धो वली ॥ ३३ ॥ यात्रायां भार्गवः
प्रोक्तो दीक्षायां च शनैश्चरः ॥ चंद्रमाः सर्वकार्येषु प्रशस्तो
गृह्णते वृद्धेः ॥ ३४ ॥

अब कार्यविशेषमें ग्रहवल और सवमें चंद्रवल कहतेहैं—विश्वाह और उत्त्ववमें वृहस्पतिका वल, राजदर्शनमें सूर्यका वल, संग्राममें मंगलका वल, विद्याभ्यासमें बुधका वल ॥ ३५ ॥ यात्रामें शुक्रका वल, दीक्षामें शनैश्चरका वल और सर्व कार्योंमें चंद्रमाका वल प्रशस्त है ; ये पंडितोंसे ग्रहण किया जाता है ॥ ३६ ॥

अथ चंद्रवले कश्चन विशेषः ।

शुभचंद्रोप्यसत्पापात्सप्तमः पापयुक्तथा ॥ पापमध्यगतः
क्षीणो नीचगः शब्दवर्गगः ॥ ३५ ॥ अशुभोपि शुभचंद्रो
गुरुणालोकितो युतः ॥ स्वक्षोच्चरूपः शुभांशे वा स्वाधिमि-
त्रांशके तथा ॥ ३६ ॥

अब चंद्रवलसे कुछ विशेष कहते हैं—पापग्रहसे सातवें धरमें चंद्रमा होय अथवा पापग्रहके साथ होय अथवा पापग्रहोंके मध्यमें होय अथवा श्रीण होय, वा नीचका होय, शत्रुवर्गका होय तो शुभ चंद्रमाभी अशुभही होता है ॥ ३५ ॥ यदि चंद्रमा वृहस्पतिसे दूष वा युक्त हो अथवा अपनी कर्कराशिका हो अथवा उच्चका हो, शुभ-अहके नवांशामें हो अथवा अपने अधिमित्रके नवांशामें हो तो अशुभ चंद्रभी शुभ होजाता है ॥ ३६ ॥

अथावश्यककृत्ये दुष्टतिथिवारक्षचंद्रतारादीनां दानम् ।

तंडुलांश्च तिथीं दुष्टे वारे रत्नं सकांचनम् ॥ गामृक्षे कनकं घोगे करणे धान्यमेव च ॥ ३७ ॥ शंखं रौप्ययुतं चंद्रे तारायां सेंधवं तथा ॥ नाड्यां हेम नृपो दद्यात्कार्येत्यावश्यके सति ॥ ३८ ॥

इति श्रीमद्देवज्ञरावलहरिशंकरसूरिसुनुगणपतिकृते मुहूर्त-
गणपतौ चंद्रतारावलप्रकरणं सप्तमम् ॥ ७ ॥

अब आवश्यक फूल्यमें दुष्ट तिथि, वार, नक्षत्र, चंद्रमा, तारादिका दान लिखते हैं—दुष्ट तिथिमें चावलोंका दान करे, दुष्ट वारमें सुवर्णसहित रत्नका दान करे, दुष्ट नक्षत्रमें गोका, दुष्ट घोगमें सुवर्णका, दुष्ट करणमें धान्यका ॥ ३७ ॥ दुष्ट चंद्रमामें शंख और चांदीका, दुष्ट तारामें सेंधवका, दुष्ट नाडीमें सुवर्णका दान करे, यदि आवश्यक कार्य होय तो राजा उक्त वस्तुओंका दान करे ॥ ३८ ॥

इनि श्रीमद्देवज्ञरावलहरिशंकरसूरिसुनुगणपतिकृते मुहूर्तगण-
पतौ श्रीयुनपांडितवर्यवेणीरामात्मजपंडितरामदयालु-
शर्मण्नभाषाटीकासमलंकृतं चंद्रतारावलप्रक-
रणं सप्तमम् ॥ ७ ॥

अथ शुभाऽशुभप्रकरणम् । तत्र तिथिवारोत्थ-
शुभाऽशुभयोगः ।

नंदा भृगौ बुधे भद्रा मंदे रिक्ता कुजे जया ॥ गुरौ पूर्णा
खिले कायें सिद्धियोगः शुभवहाः ॥ १ ॥ नंदा भद्रा
तथा नंदा जया रिक्ताथ भद्रिका ॥ पूर्णाः सूर्यादिवारेषु
वसिष्ठादिमतेऽशुभाः ॥ २ ॥

अब शुभाऽशुभप्रकरण लिखते हैं—तहाँ प्रथम तिथिवारोत्थ शुभ-
योग कहते हैं—शुक्रके दिन नंदा, बुधके दिन भद्रा, शनैश्चरको जया,
वृहस्पतिके दिन पूर्णा तिथि होय तो सिद्धियोग होता है, सर्व कायोंमें
शुभ कारक होता है ॥ १ ॥ नंदा, भद्रा, नंदा, जया, रिक्ता, भद्रा,
पूर्णा ये तिथि सूर्यादि वारोंमें क्रमसे होय तो वशिष्ठादि ऋषियोंने
अशुभ योग माना है ॥ २ ॥

अथ सिद्धियोगचक्रम् ।

सू	च	म	बु	बृ	शु	श	वारा
००	००	शाश्वत १३	शाश्वत १२	५११०१५	११६१११	४१३१४	नियमः सिद्धि
११६१११	शाश्वत १२	११६१११	शाश्वत १३	४१३१४	शाश्वत १२	५११०१५	नियमः अशुभम्

अथ नक्षत्रवारोत्था योगास्तत्रादावमृतसिद्धियोगाः ।

अकें हस्तो मृगश्वंद्रे गुरा पुष्योऽश्विनी कुजे ॥ अनुराधा
बुधे शुक्रे रेवती रोहिणी शनौ ॥ ३ ॥ अमृतः सिद्धियोगः
स्यात्सर्वकार्यार्थसिद्धिदः ॥ यथा सूर्यस्तमो हंति दोप-
संघास्तथा त्वयम् ॥ ४ ॥

अब नक्षत्रवारोत्थ योग लिखते हैं—तहाँ प्रथम अमृत सिद्धियोग
कहते हैं—रविवारको हस्त, चंद्रवारको मृगशिर, वृहस्पतिको पुष्य,
मंगलको अश्विनी, बुधको अनुराधा, शुक्रको रेवती, शनिको

रोहिणी ॥ ३ ॥ नक्षत्र होय तो अमृतसिद्धियोग होता है । यह सब कार्य और प्रयोजनों की सिद्धिका देनेवाला है जिस प्रकार सूर्य अंधकारको नाश करदेते हैं इसी प्रकार यह अमृत सिद्धियोग दोपसमूहोंका नाश करदेता है ॥ ४ ॥

अथ नक्षत्रवारोत्यसिद्धियोगचक्रम् ।

सू	चं	मे	बु	वृ	शु	श	वाराः
हस्त	मृग	आश्विनी	अनुराधा	पुष्य	रवीनी	रोहिणी	नक्षत्राणि

अत्र कुत्रचिदमृतसिद्धियोगस्यापि त्याज्यत्वम् ।
पञ्चम्यादितिथौ त्याज्या हस्तार्कांधाः क्रमाच्छुभे ॥ योग-
श्वामृतसिद्धचास्या अन्ये सर्वार्थसाधकाः ॥ ५ ॥ उद्धाहे
गुरुपूष्यं च प्रवेशे तु कुजाश्विनी ॥ त्यजेदेतत्प्रयत्नेन
प्रयाणे शनिरोहिणीम् ॥ ६ ॥

कहीं अमृतसिद्धियोगभी त्याग दिया जाता है—पञ्चम्यादि तिथियोंमें क्रमसे पूर्वोक्त हस्त सूर्यादि जो अमृतसिद्धि नामक योग सो शुभकर्ममें त्याग देना चाहिये। अर्थात् पंचमीको हस्त युक्त रविवार, पृथीको मृगशिरयुक्त चंद्रवार, सप्तमीको आश्विनीयुक्त मंगलवार, अष्टमीको अनुराधायुक्त बुधवार, नवमीको पुष्ययुक्त बृहस्पतिवार ये अमृत सिद्धयोग शुभ कर्ममें त्याज्य हैं, इनसे अन्य जो अमृतसिद्धियोग सो सब कायोंके सिद्धिकरनेवाले होते हैं ॥ ५ ॥ विवाहमें बृहस्पति वारके दिन पुष्य, गृहप्रवेशमें मंगलके दिन अश्विनी, वात्रामें शनिवारके दिन रोहिणी इनको यत्न पूर्वक त्याग देवे ॥ ६ ॥

अथ दोपःसंघरो रवियोगः ।

सूर्यभादशमे पष्टे तुर्यं विशे ब्रयोदशे ॥ नवमे चंद्रनक्षत्रे
रवियोगः शुभप्रदः ॥ अनेकदोपसंवानां ध्वंसकोय-
शुदाहनः ॥ ७ ॥

अब दोपसमूहका हरनेवाला रवियोग लिखते हैं—सूर्यके नक्षत्रसे चंद्रमाका नक्षत्र दशवां, छठा, चौथा, वीसवां, तेरहवां, नौवां हो तो रवियोग होता है यह शुभदायक है और अनेक दोपोंके समूहका नाशक कहा है ॥ ७ ॥

अथानंदादियोगः ।

आनंदः कालदंडोथ धूम्राऽक्षोथ प्रजापतिः ॥ सौम्यध्वांक-
ध्वजाश्वैव श्रीवत्सो वत्रमुद्गरो ॥ ८ ॥ छत्रं मित्रं क्रमेणैव मा-
नसः पद्मलुंघको ॥ उत्पातमृत्युकाणाख्याः सिद्धिश्वैव शुभा-
मृतो ॥ ९ ॥ मुसलं च गदाख्यश्च मातंगो राक्षसश्चरः ॥
स्थिरः प्रवर्द्धमानश्च नामतुल्यफला अमी ॥ १० ॥ भानु-
वारेश्विनक्षत्रात्साभिजित्कैश्च सर्वमैः ॥ भवति क्रमशो
योगा अष्टाविंशतिसंख्यकाः ॥ ११ ॥ मृगादारभ्य रात्रीशे
श्वेषातः कुजवासरे ॥ हस्ताङ्गुधेनुराधाभाङ्गुरुवारे तथैव च
॥ १२ ॥ उत्तरापाठतः शुक्रे शततारादितः शनौ ॥ १३ ॥

अथानंदादियोगः—आनंद १, कालदंड २, धूम्राक्ष ३, प्रजापति
४, सौम्य ५, ध्वांक ६, ध्वज ७, श्रीवत्स ८, वत्र ९ मुद्रर १० ॥ ८ ॥
क्षत्र ११, मित्र, १२ मानस १३, पद्म १४, लुंघक १५, उत्पात १६,
मृत्यु १७, काण १८, सिद्धि १९, शुभ २०, अमृत २१ ॥ ९ ॥
मुसल २२, गद २३, मातंग २४, राक्षस २५, चर२६, स्थिर २७,
प्रवर्द्धमान २८ ये अट्टाईस योग अपने २ नामके तुल्य फल
देनेवाले हैं ॥ १० ॥ रविवारके दिन अश्विनी नक्षत्रसे लेकर वर्तमान
नक्षत्रतक गिनकर जो संख्या होय सो क्रमसे आनंदादि योग जाने
और अभिजित् सहित सब नक्षत्र गिननेसे २८ अट्टाईस आनंदादि
योग होते हैं ॥ ११ ॥ चंद्रवारके दिन मृगशिरासे, मंगलके दिन
आश्लेषासे, वुधके दिन हस्तसे, वृहस्पतिके दिन अनुराधासे ॥ १२ ॥

शुक्रके दिन उत्तरापाढ़ासे, शनिके दिन शतभिषासे गिनकर आनंदादि योग जानै ॥ १३ ॥

अथोत्पातादियोगचतुष्कस्यैव ज्ञानम् ।

क्रमाच्चतुष्टये भानां विशाखातो रवेदिने ॥ पूर्वापाढ़ाभिषाच्च-
द्वे धानिष्ठातः कुजेहनि ॥ १४ ॥ रेवत्याश्च बुधे ल्लेया
रोहिणीतो वृहस्पतौ ॥ पुष्याच्छुक्रे तथा मंदे उफातश्च
भवत्यमी ॥ १५ ॥ योगाश्रत्वार उत्पातमृत्युकाणाख्य-
सिद्धयः ॥ १६ ॥

अब उत्पातादि चारोंयोगोंको जननेके लिये लिखतेहैं—रविवारके दिन विशाखासे चार नक्षत्र अर्थात् विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा,
मूल होय तो क्रमसे उत्पात, मृत्यु, काण, सिद्धि ये चार योग होते
हैं. इसी प्रकार चंद्रवारके दिन पूर्वापाढ़ासे, मंगलके दिन धानिष्ठासे
॥ १४ ॥ बुधके दिन रेवतीसे, वृहस्पतिके दिन रोहिणीसे, शुक्रके
दिन पुष्यसे, शनिके दिन उत्तरापाढ़ालगुनीसे ॥ १५ ॥ चारचार
नक्षत्र गिननेसे उत्पात, मृत्यु, काण, सिद्धि ये चार योग क्रमसे
होतेहैं. जैसा कि, नचि चक्रमें स्पष्ट लिखा है ॥ १६ ॥

अथोत्पातादियोगचतुष्टयचक्रम् ।

स	चं.	मं	बु.	वृ.	शु.	श	वारा:
विशाखा	पूर्वापाढ़ा	धनिष्ठा	रेवती	रोहिणी	पुष्य	उत्तरापा.	उत्पात
अनुराधा	उत्तरापा.	शतभिषा	वर्षिणी	मृगशिर	आश्लेषा	इस्त	मृत्यु
ज्येष्ठा	बभिजि	पूर्वामांड	भरणी	आदां	मघा	चित्रा	काण
मंगल	श्यमा	उत्तरापा.	द्वितीया	पुनर्बंशु	पूर्वाप्ता	स्वाति	सिद्धि

अथ द्वयोंगानां त्याज्यघटिकाः ।

ध्वांशमुहूरतव्राणां घटीपञ्चकमादिपु ॥ काणमौसलयोद्देशे
चतुवः पद्मलुंवयोः ॥ १७ ॥ एका धूमे गदे सप्त चरे तिसो

वटीस्त्यजेत् ॥ त्यजेत्सर्वाञ्छुभे मृत्युकालोत्पाताख्य-
राक्षसान् ॥ १८ ॥

अब दुष्ट योगोंकी त्याज्य घड़ियोंको कहते हैं—ध्वांक्ष, मुहर, कञ्ज
इन योगोंके आदिकी पांच २ घड़ी, और काण भौसलके आदिकी दो २
घड़ी, पद्म और लुंबकके आदिकी चार २ घड़ी ॥ १७ ॥ धूम्रके
आदिकी एक घड़ी, गदके आदिकी सात ७ घटी शुभकार्यमें
स्थाग देवे ॥ १८ ॥

अथ वारनक्षत्रोद्धवः सिद्धियोगः ।

मूलमके श्रवश्चंद्रे भौमे चोत्तरभाद्रपात् ॥ कृत्तिका बुधवारे तु
गुरुवारे पुनर्वसु ॥ पूफा शुक्रे शनौ स्वाती सिद्धियोग
उदाहृतः ॥ १९ ॥

अब वारनक्षत्रसे उत्पन्न सिद्धियोगोंको लिखते हैं—रविवारको मूल,
चंद्रवारको श्रवण, मङ्गलवारको उत्तरभाद्रपद, बुधवारको कृत्तिका,
बृहस्पतिवारको पुनर्वसु, शुक्रको पूर्वाफालगुनी, शनिको स्वाति
नक्षत्र होय तो सिद्धियोग होता है ॥ १९ ॥

अथ तिथिवारोत्था दुष्टयोगाः ।

द्वादश्यकें विधौ पष्ठी भौमे सप्ताष्टमी बुधे ॥ दश शुक्रे शनौ
रुद्रा गुरौ नव हुताशनः ॥ २० ॥ द्वादश्यकें विधौ रुद्रा
भौमे पंच बुधेश्वयः ॥ गुरौ पष्ठचष्टमी शुक्रे दग्धाख्यो नवमी
शनौ ॥ २१ ॥ चतुर्थ्यकें विधौ पष्ठी द्वितीया ज्येष्ठमी गुरौ ॥
नव शुक्रे विपाख्या च सप्तमी कुजमंदयोः ॥ २२ ॥ शनौ
पष्ठी भूगौ सप्ताष्टमी जीवे बुधे नव ॥ कुजे दश विधौ
रुद्राः क्रकचो द्वादशी ख्वौ ॥ २३ ॥ प्रतिपञ्चे ख्वौ सप्त
संवत्तो योग ईरितः ॥ दग्धादींस्तिथिवारोत्थास्त्यजेवो-
गाञ्छुभे सदा ॥ २४ ॥

अब तिथिवारोंसे उत्पन्न दुष्टयोगको लिखते हैं—रविवारकी द्वादशी, चंद्रवारकी पष्ठी, मंगलवारकी सप्तमी, बुधवारकी अष्टमी, शुक्रकी दशमी, शनैश्चरकी एकादशी, वृहस्पतिकी नवमी तिथि होय तो हुताशन योग होता है ॥ २० ॥ रविवारके दिन द्वादशी, चंद्रवारके दिन एकादशी, मंगलके दिन पंचमी, बुधके दिन तृतीया, वृहस्पतिके दिन पष्ठी, शुक्रके दिन अष्टमी शनिके दिन नवमी, तिथि होय तो दग्धनाम योग होता है ॥ २१ ॥ रविकी चतुर्थी, चंद्रवारकी पष्ठी, बुधकी द्वितीया, वृहस्पतिकी अष्टमी, शुक्रकी नवमी, मंगल और शनैश्चरकी सप्तमी तिथि होय तो विष्वनामक योग होता है ॥ २२ ॥ शनैश्चरकी पष्ठी, शुक्रकी सप्तमी, वृहस्पतिकी अष्टमी, बुधकी नवमी, मंगलकी दशमी, चंद्रवारकी एकादशी, रविवारकी द्वादशी तिथि होय तो क्रकच योग होता है ॥ २३ ॥ बुधवारको प्रतिपदा, रविवारको सप्तमी तिथि होय तो संवर्त्त योग होता है। तिथिवारोंसे उत्पन्न हुए दग्धादि योग सौदेव शुभ कार्यमें त्याग देवे ॥ २४ ॥

अथ तिथिवारोत्थयोगचक्रम् ।

योगनामानि	सु.	चं	मं.	बु.	वृ.	शु.	श.	वारा:
हुताशनयोगः	१२	६	७	८	९	१०	११	तिथयः
दग्धयोगः	१२	१२	५	३	६	८	९	तिथयः
विष्वयोगः	४	६	७	३	८	९	७	तिथयः
क्रकचयोगः	१२	११	१०	५	८	७	६	तिथयः
संवर्त्तयोगः	७	००००	१	००००	००			तिथयः

अथ तिथिनक्षत्रोत्पन्नः सांत्यययोगः ।

द्वितीयामनुराघायां मध्यायां पंचमीतिथिम् ॥ एकादशीं च रोहिण्यां तृतीयां श्युत्तरे त्यजेत् ॥ २५ ॥ नवमीं कृत्ति-

कायां च चित्रास्वात्योख्योदशीम् ॥ त्यजेत्पष्ठीं च
रोहिण्यां पूर्वाभाद्रपदेऽप्यमीम् ॥ २६ ॥

अब तिथि नक्षत्रोंसे उत्पन्न त्यज्ययोगोंको लिखते हैं—अनु-
राधा नक्षत्रमें द्वितीया तिथि, मध्यमें पञ्चमी तिथि, रोहिणीमें
एकादशी, तीनों उत्तराओंमें तृतीया ॥ २५ ॥ कृत्तिकामें नवमी
चित्रा और स्वातिमें त्रयोदशी, रोहिणीमें पष्ठी, पूर्वाभाद्रपदमें अष्टमी,
तिथि होय तो शुभकार्य न करै ॥ २६ ॥

अथ चक्रम् ।

नक्ष- त्राणि	अनुराधा	मध्या	रोहिणी	तीनों उत्तरा	कृत्ति	न्वाति	चित्रा	रोहि.	पूर्वाभाद्र
तिथ्य	३	५	११	३	९	१३	१३	६	८

अथ नक्षत्रवारोत्थाऽप्ययोगः, तत्रदौ यमघण्टयोगः ।

अकें मध्या विशाखेंदौ ज्ञे मूलं कृत्तिका गुरो ॥ आद्रा भौमे
शनो हस्तो रोहिणी भृगुवासरे ॥ २७ ॥ यमघण्टाख्ययोगोयं
सर्वकार्यविनाशकः ॥ २८ ॥

अब नक्षत्रवारोंसे उत्पन्न और योगोंको लिखते हैं—तिसके
आदिमें यमघण्टकयोगको लिखते हैं—रविवारके दिन मध्या, चंद्र-
वारके दिन विशाखा, बुधके दिन मूल, वृहस्पतिके दिन कृत्तिका,
मंगलके दिन आद्रा, शनिके दिन हस्त, शुक्रके दिन रोहिणी ॥ २७ ॥
नक्षत्र होय तो यमघण्ट नाम योग होता है । सब कायोंका विनाश
करनेवाला है ॥ २८ ॥

अथ मृत्युयोगः ।

अनुराधा रवौ सोमे उत्तरापादसंज्ञका ॥ बुधेऽश्विनी मृगो
जीवि शुक्रेऽल्लेपा शनों करः ॥ भौमे शतभिपक्ष चार्य
मृत्युयोगोऽर्थनाशकः ॥ २९ ॥

अब मृत्युयोग लिखते हैं— रविके दिन अनुराधा, सोमवारके दिन उत्तरापाढा, बुधके दिन अश्विनी, वृहस्पतिके दिन मृगशिरा, शुक्रके दिन आश्लेषा, शनिके दिन हस्त, मंगलके दिन शतभिषा नक्षत्र होय तो मृत्यु योग होता है । सर्व कार्योंका नाश करने-वाला है ॥ २९ ॥

अथ दग्धयोगः ।

भरण्यके विधौ चित्रा जीवे चोत्तरफाल्गुनी ॥ भौमे चैवोत्तरापाढा धनिष्ठा बुधवासरे ॥ ३० ॥ शुक्रे ज्येष्ठात्यभं मंदे त्यजेदेतद्विद्व दग्धभम् ॥ ३१ ॥

अब दग्ध योग लिखते हैं—रविके दिन भरणी, चंद्रवारके दिन चित्रा, वृहस्पतिके दिन उत्तरापाढा, मंगलके दिन उत्तरापाढा, बुधके दिन धनिष्ठा ॥ ३० ॥ शुक्रके दिन ज्येष्ठा, शनिके दिन रेवती नक्षत्र होय तो यह दग्ध योग होता है ॥ ३१ ॥

अथ यमचंटकादियोगव्यव्यचक्रम् ।

वारा:	स.	चं.	मं.	झ.	बृ.	शु.	गु.	श.
यमचंट.	मध्या	चित्रापाढा	आश्लो	मूल	कृतिका	रोहिणी	हस्त	
मृत्युयोग अनुराधा	उत्तरा-पाढा	शतभिषा	अश्विनी	मृगशिरा	आश्लेषा	हस्त		
दग्धयोग भरणी	चित्रा	उत्तरा-पाढा	धनिष्ठा	उत्तरा-फाल्गुनी	ज्येष्ठा	रेवती		

अथ शुभे त्याज्यं त्रिविधं गंडांतम् ।

नक्षत्रियिराशीनां गंडांतं त्रिविधं त्यजेत् ॥ नवपंच-चतुर्थांत्ये द्वेकार्द्धवटिका २ । १ । ०-३० मितम् ॥ तावन्मितं ततोऽन्याणामादावपि परित्यजेत् ॥ ३२ ॥

अब शुभकार्योंमें त्याज्य त्रिविध गंडान्त लिखते हैं—नक्षत्र, तिथि, राशि इनका तीन प्रकारका गंडान्त होता है। अर्थात् नक्षत्रगण्डान्त, तिथिगण्डान्त, लघ्नगण्डान्त। नवमी, पंचमी, चतुर्थी इन तिथियोंके अंतकी क्रमसे दो २, एक १, आधी घडी गंडान्त होती हैं। अर्थात् नवमीके अन्तकी २, पंचमीके अन्तकी १, चतुर्थीके अन्तकी आधी घडी गंडान्त संज्ञक त्याज्य है। इसी प्रकार आगे के नक्षत्र और लघ्नोंके आदिकी गंडान्तघडी त्याज्य हैं ॥ ३२ ॥

अथ नक्षत्रगण्डान्तम् ।

ज्येष्ठामूलर्क्षयोः संधौ रेवत्यविभयोस्तथा ॥ आश्लेषामध्योरन्तराले नाडीचतुष्पृथम् ॥ ३३ ॥

अब नक्षत्रगण्डान्त दिखाते हैं—ज्येष्ठा और मूल नक्षत्रकी संधिमें चार घडी गण्डान्त होती हैं, अर्थात् ज्येष्ठाके अन्तकी दो घडी और मूलके आदिकी दो घडी इसी प्रकार रेवतीके अन्तकी और अश्विनीके आदिकी दो दो घडी और आश्लेषाके अन्तकी दो घडी और मधाके आदिकी दो घडी गंडान्त होती हैं ॥ ३३ ॥

प्रकारान्तरेण तिथिगण्डान्तम् ।

अंतरे पंचमीपष्ठयोः पूर्णिमाद्याह्नयोरपि ॥ दशम्येकादशीसंधौ गंडान्तं घटिकाद्यम् ॥ ३४ ॥

अब अन्य प्रकारसे भी तिथिगंडान्त कहते हैं—पंचमी और पष्ठीकी संधिमें दो घडी गंडान्त होती हैं, अर्थात् पंचमीके अन्तकी एक घडी और पष्ठीके आदिकी एक घडी तथा दशमीके अन्तकी और एकादशीके आदिकी एक २ घडी गंडान्त होती है ॥ ३४ ॥

अथ लघ्नगण्डान्तम् ।

कर्कसिंहारूपयोर्मीनमेपयोरंतरे तयोः ॥ वृश्चिकारूपधनुः-संधौ लघ्नस्यैकं घटीमितम् ॥ ३५ ॥

अब लग्नगंडान्त कहते हैं—कर्क और सिंह लग्नके मध्यकी एक घड़ी गंडान्त होती हैं, अर्थात् कर्कके अन्तकी आधी घड़ी और सिंहके आदिकी आधी घड़ी गंडान्त होती हैं । इसी प्रकार मीनके अन्तकी और मेषके आदिकी आधी २, वृश्चिकके अन्तकी और धनुके आदिकी आधी २ घड़ी गंडान्त होती हैं ॥ ३५ ॥

अथार्द्धयामाः ।

अर्द्धयामाः परित्याज्या वेदसप्तद्विपञ्चमाः ॥ अष्टत्रिपष्ठ-
संख्याकाः क्रमतो रविवासरात् १४।१२।१०।८।६॥ ३६॥
अब अर्द्धयाम लिखते हैं—रविवारादि सातवारोंके क्रमसे ४ । ७
। २ । ५ । ८ । ३ । ६ ॥ इन प्रहरोंका आधा २ प्रहर शुभकर्ममें
त्यज्य है ॥ ३६ ॥

अथार्द्धयामचक्रम् ।

स.	चं.	मं.	ज्ञ.	वृ.	शु.	श.	वारा:
४	७	२	५	८	३	६	यामाः
३॥	३॥	३॥	३॥	३॥	३॥	३॥	अर्द्धयाम घटिकाः

अथ कुलिककंटककालवेलायमघणटाख्या- स्त्याज्यमुहूर्ताः ।

मन्वर्कदशनागत्तुवेदनेत्रमिताः १४।१२।१०।८।६।४।२
क्षणाः ॥ कुलिकास्ते रवेर्वारात्क्रमतः कंटका त्रुधात् ॥ ३७॥
गुरोस्ते कालवेलाख्याः शुक्राते यमघणटकाः ॥ त्यजे-
देताञ्छुभे कार्ये निशि व्येकान्मुहूर्तकान् ॥ ३८ ॥

अब कुलिक कंटककालवेला यमघणट सम्बन्धी त्याज्य मुहूर्त
लिखते हैं—रविवारादि सप्तवारोंके क्रमसे १४ । १२ । १० । ८ । ६ । ४ । २

ये मुहूर्त कुलिक संज्ञक होते हैं और वृधवारके क्रमसे येही उक्त मुहूर्त कन्टक संज्ञक होते हैं ॥ ३७ ॥ और वृहस्पति वारके क्रमसे कालबेला संज्ञक होते हैं और शुक्रवारके क्रमसे उक्त मुहूर्त यमधंट संज्ञक होते हैं, ये दिनके मुहूर्त कहे हैं और इन्ही मुहूर्तोंमें से एक घटा देनेसे रात्रिके मुहूर्त होते हैं सो नीचे चक्रमें स्पष्ट लिखते हैं—शुभ कार्यमें ये सब मुहूर्त त्याग देने चाहिये ॥ ३८ ॥

अथ दिने कुलिकादिचक्रम् ।

रात्रौ कुलिकादिचक्रम् ।

सू. चं. मं. तु.	वृ.	शु.	रा.	वारा:
१४ १३ १० ८	६	४	३	कुलिक
६ ५ २ १४	१२	१०	८	कंटक
८ ६ ४ २	१४	१२	१०	कालबेला
१० ८ ६ ४	२	१४	१२	यमधंटक

सू. चं. मं. तु.	वृ.	शु.	रा.	वारा:
१३ ११ ९	७	५	३	१
५ ३ १	१३	११ ९	७	कंटक
७ ५ ३	१	१३ ११	९	कालबेला
९ ७ ५ ३	३	१	१३ ११	यमधंटक

अथ दुष्टक्षणः ।

क्षणश्चतुर्दशः सूर्ये नवमद्वादशौ ९ । १२ विधौ ॥ सतम्यो निशि भौमेऽत्रि तुर्ये ४ श्वाथ वृद्धेऽप्यमः ८ ॥ ३९ ॥ पष्ठ- द्वादशको ६ । १२ जीवे चतुर्थनवमौ ४ । ९ भूगौ ॥ शनौ चाद्यद्वितीयौ च १ । २ त्याज्या दुष्टक्षणा इमे ॥ ४० ॥

अब दुष्टक्षण लिखते हैं—रविवारको चौदहवां मुहूर्त, सोमवारको नौवां और वारहवां मुहूर्त, और मंगलवारको रात्रिमें सातवां तथा चौथा मुहूर्त, वृधको आठवां ॥ ३९ ॥ वृहस्पतिको छठा और वार- हवां, शुक्रको चौथा और नौवां, शनिको पहिला और दूसरा मुहूर्त दुष्टक्षण होते हैं ये सब शुभकर्ममें त्याज्यहैं ॥ ४० ॥

अथेतपामेव सुवोधार्थं पुना रव्यादिपु त्याज्यक्षणा लिख्यन्ते ।

रवौ पद्मदशसप्ताष्टमनुसंख्यमुहूर्तकाः ६ । १० । ७ । ८ । १४ ॥ चंद्रेविधवसुपद्मिष्वेमनुखेटार्कसंमिताः ४ । ८ । ६ । १३ ।

१४ । ११२ ॥ ४१ ॥ भौमे द्वित्रिचतुःपष्ठदशसंख्या क्षणाः
 २ । ३ । ४ । ६ । १० स्मृताः ॥ बुधे वेदाश्विवस्त्वंकमनु-
 दिक्प्रमिताः ४ । २ । ८ । ९ । १४ । १० क्षणाः ॥ ४२ ॥
 जीवं भूपाश्वितिथ्यांगमनुसूर्यमिताश्च १६ । २ । १६ । ६ ।
 १४ । १२ ते ॥ शुक्रे पंचांकपड्डेददिग्र्कमनु ५ । ११ । ६ ।
 ४ । १० । १२ । १४ संमिताः ॥ ४३ ॥ मंडे भूनेत्ररुद्राए १ ।
 २ । १३ । ८ पोडशांशाः क्षणा इमे ॥ ४४ ॥

अन इसके सुवोधार्थ किर रव्यादि वारमें त्याज्य क्षण लिखते हैं—
 रविवारको छठा, दशवां, सातवां, आठवां, चौदहवां मुहूर्त त्याज्य
 हैं और सोमवारको चौथा, आठवां, छठा, तेरहवां, चौदहवां, नौवाँ
 वारहवां मुहूर्त त्याज्य हैं । शुक्रवारके दिन पांचवां, नौवां, छठा-

सु	च	म	इ	न	ब्र	श	वार्ष
६	४	३	४	१६	५	१	
१०	८	३	२	७	९	२	
७	६	४	८	१५	६	११	
८	१३	६	९	६	४	८	
१४	१४	१०	१४	१४	१०		
१०	१०	१०	१३	१३			
१३				१४			

चौथा, दशवां, वारहवां, चौदहवां,
 मुहूर्त त्याज्य हैं ॥ ४३ ॥ शनिके दिन
 पहिला, दूसरा, ग्यारहवां आठवां
 मुहूर्त त्याज्य हैं । जानना चाहिये कि,
 दिन मानका शोलहवां भाग मुहूर्त
 कहाता है ॥ ४४ ॥

अथ यमघंटकुलिकक्षणयोदेशविशेषे त्याज्यत्वसु ।

विध्यहेमागयोर्मध्ये मग्ने यमघंटकः ॥ अंगेष्वे मत्स्यदेशे वा
 दोपकृत्तमव सः ॥ ४५ ॥ काश्मीरे कुलिकस्त्याज्यस्त्वर्चया-
 मस्तु सर्वतः ॥ ४६ ॥

अव यमघंटक, कुलिक और यामार्धका देश विशेषसे त्याज्यत्व
 लियते हैं—विध्याचल और हिमालय पर्वतका मध्यदेश तथा
 मगधदेश, अंगदेश, आंध्रदेश, मत्स्यदेश इन सर देशोंमें यम-
 घंटक यांग दोपकारक होता है । अन्य देशोंमें नहीं ॥ ४५ ॥

काद्मीरदेशमें कुलिकयोग त्याज्यहै और अर्ज्याम दोष सब
देशोंमें त्याज्यहै ॥ ४६ ॥

अथ संक्रान्तौ त्याज्यकालः ।

अयने विषुवे त्याज्यं पूर्वं मध्यं परं दिनम् ॥ शेषसंक्रमणे
२ । ५ । ८ । ११ । ३ । ६ । ९ । १२ पूर्वं पश्चात्पोडश-
नाडिकाः ॥ ४७ ॥

अब संक्रान्तियोंमें त्याज्य काल लिखते हैं—दक्षिणायन अर्थात्
कर्ककी संक्रान्ति लगनेसे पहिला एकादिन और मकरकी संक्रान्ति
लगनेका वर्तमान दिन और (विषुव) अर्थात् तुला मेषकी संक्रान्तिसे
पिछलादिन शुभकार्यमें त्याज्यहै और शेष संक्रान्तियोंमें पहिली
और पिछली सोलह २ घण्टी त्याज्य हैं ॥ ४७ ॥

अथ तिथिक्षयवृद्धिदोषः ।

तिथीनां त्रितयं वार एकः स्पृशति यत्र वै ॥ अवमं तद्विनं
ज्ञेयं शुभकर्मसु संत्यजेत् ॥ ४८ ॥ वाराणां त्रितयं यत्र
तिथिरेका स्पृशेयदा ॥ त्रिद्युःस्पृक् चेति सा स्वाता न ग्राह्या
मंगलादिषु ॥ ४९ ॥

अब तिथिक्षयवृद्धिदोष लिखते हैं—जब कभी तीन तिथि-
योंको एकही वार स्पर्श करे तो वह दिन (अवम) तिथिक्षय जानना
चाहिये ये शुभकर्ममें त्याज्य है ॥ ४८ ॥ और जबकभी तीन वा-
रोंका एकही तिथि स्पर्श करे तो वह तिथि अयहःस्पृक् कहाती है ॥ अर्थात्
तिथिकी वृद्धि हो जाती है । मंगलादि कार्योंमें नहीं ग्रहण करनी
चाहिये ॥ ४९ ॥

अथ मासशून्यतिथिनक्षत्रलग्नानि, अत्र दर्शाता मासा ग्राह्याः—

चैत्रेऽष्टमीनवम्यो ८ । ९ च वैशाखे द्वादशी तिथिः १२ ॥
श्रावणे द्वितीये २ । ३ । च भाद्रे भूनेत्रसंमिते १ । २ ।

॥ ५० ॥ दशम्येकादशी १० । ११ । त्वीपे सप्तनागो ७ ।
 ८ । च मार्गके ॥ चतुर्थी पंचमी ४ । ६ पौपे शून्यास्ता:
 पक्षयोद्दियोः ॥ ५१ ॥ कार्त्तिके पंचमी ६ कृष्णा तथा
 शुक्ला चतुर्दशी १४ ॥ आपाढे वहुला पष्ठी ६ शुक्लपक्षे तु सप्तमी
 ७ ॥ ५२ ॥ चतुर्थी ४ फाल्गुनी कृष्णा शुक्लपक्षे तृतीयका
 ३ ॥ ज्येष्ठे चतुर्दशी कृष्णा १४ शुक्ले चैव त्रयोदशी १३
 ॥ ५३ ॥ कृष्णा तु पंचमी ६ माघे पष्ठी ६ शुक्ले
 प्रकीर्तिता ॥ ५४ ॥

अब मासशून्य तिथि नक्षत्र लग्न लिखते हैं—यहाँ दर्शान्त मास
 ग्रहण करना, चैत्रके महीनेमें अष्टमी और नवमी, वैशाखमें द्वादशी,
 श्रावणमें द्वितीया और तृतीया, भाद्रपदमें प्रतिपदा और द्वितीया
 ॥ ५० ॥ आश्विनमें दशमी और एकादशी, मार्गशीर्षमें सप्तमी और
 अष्टमी, पौषमें चतुर्थी और पंचमी ये तिथि दोनों पक्षोंमें शून्य
 होती हैं ॥ ५१ ॥ कार्त्तिके कृष्णपक्षकी पंचमी और शुक्लपक्षकी चतुर्दशी,
 आपाढ़के कृष्णपक्षकी पष्ठी और शुक्लपक्षकी सप्तमी ॥ ५२ ॥
 फाल्गुनके कृष्णपक्षकी चतुर्थी और शुक्लपक्षकी तृतीया और ज्येष्ठ
 कृष्णपक्षकी चतुर्दशी, शुक्लपक्षकी त्रयोदशी ॥ ५३ ॥ माघके कृष्ण-
 पक्षकी पंचमी और शुक्लपक्षकी पष्ठी ये शून्य तिथिहैं ॥ ५४ ॥

अथ मासशून्यनक्षत्राणि ।

अथिनी रोहिणी चैत्रे चित्रा स्वाती च माघवे ॥ ज्येष्ठे
 पुष्योत्तरापाढे धनिष्ठाभगभे शुक्ले ॥ ५५ ॥ श्रावणे
 श्रवणोपाख्ये पूर्वाभाद्रपदाथिने ॥ रेतीशतभं भाद्रे कार्त्तिके
 कृत्तिका मघा ॥ ५६ ॥ मार्गे चित्रा विशाखा च पौषे
 त्वार्द्विनीकराः ॥ फाल्गुने भरणी ज्येष्ठा माघे मूलं

थ्रवस्तथा ॥ एतानि मासशून्यानि भानि प्रोक्तानि
कोविदैः ॥ ५७ ॥

अब मासशून्य नक्षत्र लिखते हैं—चैत्रके महीनेमें अश्विनी और
रोहिणी, वैशाखमें चित्रा और स्वाति, ज्येष्ठमें पुष्य और उत्तरापाढा,
आषाढ़में धनिष्ठा और रोहिणी ॥ ५५ ॥ श्रावणमें श्रवण और उत्त-
रापाढा, आश्विनमें पूर्वाभाद्रपदा, भाद्रपदमें रेवती और शतभिपा,
कार्त्तिकमें कृत्तिका और सघा ॥ ५६ ॥ मार्गशीर्षमें चित्रा और
विशाखा, पौषमें आर्द्धा, अश्विनी, हस्त. फालगुनमें भरणी, ज्येष्ठा,
माघमें मूल, श्रवण पांडितोंने ये नक्षत्र महीनोंमें शून्य कहे हैं ॥ ५७ ॥

अथ मासशून्यराशयः ।

कुंभो मीनो वृष्टश्वैव मिथुनं मेपकन्यके ॥ वृश्चिकोऽथ तुला
धन्वी कर्को मकरसिंहकौ ॥ ५८ ॥ चैत्रादिषु क्रमादेते
कथिताः शून्यराशयः ॥ ५९ ॥

अब मासशून्यराशि लिखते हैं—कुंभ, मीन, वृष्ट, मिथुन, मेप,
कन्या, वृश्चिक, तुला, धनु, कर्क, मकर, सिंह ये राशि क्रमसे चैत्रादि
महीनोंमें शून्य कहीं हैं ॥ ५८ ॥ ५९ ॥

अथ मासशून्यतिथिनक्षत्रलग्नचक्रम् ।

चैत्र	वैशा.	ज्येष्ठ	भाषा.	आव	भाद्र.	आशि.	कार्ति.	मार्ग	पौष	माघ	काश्य.	मासा:
५९	१३	००	००	३१३	११३	१०१११	००	०७१८	४१५	००	००	उमेरपदा- शून्यतिथियः
००	००	१४	६	००	००	००	५	००	००	५	४	शून्यपदा- शून्यतिथियः
००	००	१३	७	००	००	००	१४	००	००	६	३	शून्यपदा- शून्यतिथियः
आश्विनी- रोहिणी	चित्रा	वृष्ट	उपनिषा	प्रभगुड	सेवनी	हर्षमा-	इतिष्ठा	चित्रा	ता. अ	मूल	भैरवी	नद्यप्रभा- शून्यतिथियः
	मीना	तराया	रोहिणी	नाराया	रातमि	ददर	मधा	निरान	ददर	धर्वा	उद्देश्या	शून्यतिथियः
कुम	मीन	१३	मिथुन	मेर	कन्या	द्युषिक	तुला	पंचुर	कर्क	महर	मिट	यदायः शून्यः

अथौजतिथिषु शून्यलग्नानि ।

आद्ये तिथौ तुलानकौ तृतीये मृगसिंहकौ ॥ पंचम्यां
मिथुनं कन्या सप्तम्यां कर्कटो धनुः ॥ ६० ॥ एकादश्यां
धनुर्मीनौ नवम्यां सिंहकर्कटौ ॥ वृषो मीनस्त्रयोदश्यां
शून्यलग्नमिदं त्यजेत् ॥ ६१ ॥

अब विषमतिथिमें शून्यलग्न लिखते हैं—प्रतिपदामें तुला, मकर;
तृतीयामें मकर, सिंह; पंचमी तिथिमें मिथुन, कन्या; सप्तमीमें कर्क;
धनु ॥ ६० ॥ एकादशीमें धनु, मीन; नवमीमें सिंह, कर्क; त्रयोदशीमें
वृष, मीन ये लग्न शून्य होती हैं। इन्हें शुभकार्यमें त्यागदेवे ॥ ६१ ॥

अथौजतिथिषु शून्यलग्नानां चक्रम् ।

१	३	५	७	९	११	१३	योजतिथिषु:
तुला मकर	मकर सिंह	मिथुन कन्या	कर्क धनु	सिंह कर्क	धनु मीन	वृष मीन	शून्यल- ग्नानि

अथ शून्यतिथ्यादीनां देशविशेषत्याज्यत्वमाह ।

नक्षत्रतिथिलग्नानि मासशून्यानि यानि च ॥ मध्यदेशे
त्यजेत्तानि शुभे नान्यत्र कुत्रचित् ॥ ६२ ॥

अब शून्यतिथ्यादिकोंको देश विशेष करके त्याज्यत्व लिखते हैं—
मासोंमें नक्षत्रशून्य, तिथिशून्य, लग्नशून्य, राशिशून्य ये सब शुभ-
कार्यमें मध्यदेशमें त्याज्य हैं और अन्यत्र कहीं नहीं त्याज्य हैं ॥ ६२ ॥

अथावश्यके योगानामपवादाः ।

तिथिवारोद्वान्योगान्दुष्टाख्यांश्च भवारजान् ॥ तिथिभो-
त्यांस्त्रितयजान्दृणे वंगे खशे त्यजेत् ॥ ६३ ॥ नान्यदेशे

निपिद्धास्ते गुणवत्तिथिभादिषु ॥ उत्पातमृत्युकाणाख्यात्र-
क्षोदग्धाख्यकालकान् ॥ ६४ ॥ क्रकचं यमघंटादीञ्चस्ते
चंद्रे शुभाज्ञगुः ॥ मध्याह्नोत्तरमित्येके यामोत्तरमथापरे ॥ ६५ ॥
यात्रातिरिक्तकार्येन्ये लग्नशुद्धया शुभाज्ञगुः ॥ कुयोगः
सिद्धियोगश्च यदि स्यातामुभावपि ॥ ६६ ॥ सुयोगो हंति
दुर्योगं कार्यसिद्धये शुभावहः ॥ ६७ ॥

अब आवश्यक कृत्यमें योगोंके अपवाद लिखते हैं—तिथिवारो-
त्पन्न और नक्षत्रवारोत्पन्न तथा तिथिनक्षत्रोत्पन्न ये तीन प्रकारके
दुष्टयोग हूण और वंग तथा खश देशमें त्याज्य हैं ॥ ६३ ॥ यदि
तिथिनक्षत्रादिक सब गुणयुक्त हों तो वह तीनों दुष्टयोग अन्य
देशमें निपिद्ध नहीं हैं और यदि चंद्रमा शुभ होय तो उत्पात,
मृत्यु, काण, दर्घ, काल, क्रकच, यमघंटक आदि कुयोग शुभ
हो जाते हैं ऐसा पंडितोंने कहा है और कोई आचार्योंने ऐसा
माना है कि, मध्याह्नके पश्चात् उक्त कुयोग शुभ हो जाते हैं
तथा कोई अन्य आचार्योंने ऐसा कहा है कि, प्रहरके पश्चात् शुभ
होते हैं ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ और कुछ पंडितोंने ऐसा कहा है कि,
यात्रा विना अन्य कार्योंमें लग्न शुद्ध होय तो कुयोग शुभ होते हैं
और कुयोग तथा सिद्धियोग दोनों एकही समयं होंय तो
सिद्धियोग कुयोगोंका नाश करदेता है और कार्यकी सिद्धि
कराता है ॥ ६६ ॥ ६७ ॥

अथ शुभाऽशुभकार्ये त्रिपुष्करयमलयोगो ।

भद्रातिर्थो शनीज्यारवारे चेद्विपर्मांत्रिभम् ॥ तदा त्रिपुष्करो
योगो यमलो युग्मपादभे ॥ ६८ ॥

अब शुभाऽशुभ कार्यमें त्रिपुष्कर और यमलयोग लिखते हैं—यदि
भद्रातिर्थि राष्ट्र१२में और शनि, वृहस्पति, मंगलवारमें (विष-

मांश्रि नक्षत्र) कृत्तिका, पूर्णर्वसु, उत्तराफाल्गुनी, विशाखा, उत्तरापादा, पूर्वाभाद्रपदा होंय तो त्रिपुष्कर नाम योग होता है और इन्ही तिथियोंमें (युगमपाद नक्षत्र) मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा होंय तो यमल योग होता है ॥ ६८ ॥

अथ सुवोधार्थे रव्यादिवारेषु शुभाशुभयोगाः ।
 रवौ हस्तोऽश्विनी मूलं धनिष्ठा चोत्तरात्रयम् ॥ पुष्यस्तथा॒ष्टमी॑ चैव सिद्धियोगा इमे स्मृताः ॥ ६९ ॥ विशाखा॑ भरणी॒ सूर्ये॑ मघा॑ ज्येष्ठा॑ अनुराघिका॑ ॥ सप्तमी॑ द्वादशी॑ तद्विष्णुद्वा॑ स्याच्चतुर्दशी॑ ॥ ७० ॥ चंद्रे॑ च श्रवणः॑ पुष्योऽनुराधा॑ रोहिणी॑ मृगः॑ ॥ दशमी॑ नवमी॑ वाष्पि॑ सिद्धियोगः॑ शुभावहः॑ ॥ ७१ ॥ पूर्वापाठोत्तरापादा॑ स्वातीचित्रे॑ विशाखिका॑ ॥ सोमे॑ चैकादशी॑ पष्टी॑ वर्जनीया॑ ब्रयोदशी॑ ॥ ७२ ॥ भौमे॑ अल्पेषाऽश्विनी॑ मूलं मृगशीर्पञ्चयोदशी॑ ॥ तृतीया॑ चाष्टमी॑ पष्टी॑ सिद्धिदा॑ कीर्तिता॑ बुधैः॑ ॥ ७३ ॥ उत्तरापादमं चार्द्वा॑ धनिष्ठाग्नितयं॑ तथा॑ ॥ द्वितीया॑ दशमी॑ भौमे॑ वर्जनीया॑ प्रयत्नतः॑ ॥ ७४ ॥ बुधे॑ पुष्योऽनुराधा॑ च कृत्तिका॑ रोहिणी॑ मृगः॑ ॥ द्वितीया॑ सप्तमी॑ चैव द्वादशी॑ च शुभप्रदा॑ ॥ ७५ ॥ धनिष्ठा॑ भरणी॑ मूलमश्विनी॑ रेवती॑ बुधे॑ ॥ तृतीया॑ प्रतिपद्मापि॑ विरुद्धा॑ नवमी॑ स्मृता॑ ॥ ७६ ॥ गुरौ॑ पुष्योऽनुराधा॑ च विशाखाऽश्विपुर्णर्वसु॑ ॥ रेवती॑ दशमी॑ चैव पूर्णिमा॑ शुभदा॑ स्मृता॑ ॥ ७७ ॥ जीवे॑ पष्टयष्टमी॑ नेष्टा॑ चतुर्थी॑ शततारका॑ ॥ कृत्तिकादिचतुर्पकं॑ च तथा॑ चोत्तराफाल्गुनी॑ ॥ ७८ ॥ शुक्रे॑ पुष्योऽश्विनी॑ चित्रा॑ रेवती॑ च पुर्णर्वसु॑ ॥ श्रवणः॑ प्रतिपत्पष्टी॑ सिद्धा॑ चैकादशी॑ तथा॑ ॥ ७९ ॥ भार्गवे॑ रोहिणी॑ ज्येष्ठा॑ पुष्योऽल्पेषा॑ मघा॑ तथा॑ ॥ द्वितीया॑ सप्तमी॑ चैव विरुद्धा॑ सर्वकर्मसु॑ ॥ ८० ॥ शनौ॑ स्वाती॑ श्रवः॑ पूर्वाफाल्गुनी॑ रोहिणी॑

मृगः ॥ चतुर्थी नवमी वापि तिथिः सिद्धा चतुर्दशी ॥ ८१ ॥
पूर्वांपाढोत्तरापाढा चित्रा हस्तोऽथ रेवती ॥ उत्तराफाल्गुनी
पष्ठी निपिद्धा सप्तमी शनौ ॥ ८२ ॥

इति श्रीमद्वैवज्ञरावलहरिशंकरसूरिसूनुगणपतिकृते मुहूर्त-
गणपतौ शुभाशुभप्रकरणमप्यमम् ॥ ८ ॥

अब सुवोधार्थ रव्यादि वारोंमें शुभाशुभयोगलिखते हैं-रविवारके
दिन हस्त, अश्विनी, मूल, धनिष्ठा, तीनों उत्तरा, पुष्य ये नक्षत्र और
अष्टमी तिथि होय तो ये सब मिलकर सिद्धियोग होता है ॥ ६९ ॥
रविवारके दिन विशाखा, भरणी, मघा, ज्येष्ठा, अनुराधा ये नक्षत्र और
सप्तमी, द्वादशी चतुर्दशी ये तिथि होय तो विरुद्धयोग होता है ॥ ७० ॥
चंद्रवारके दिन श्रवण, पुष्य, अनुराधा, रोहिणी, मृगशिरा ये
नक्षत्र और दशमी, नवमी तिथि होय तो शुभकारक सिद्धियोग
होता है ॥ ७१ ॥ सोमवारके दिन पूर्वांपाढा, उत्तरापाढा, स्वाति,
चित्रा, विशाखा नक्षत्र और एकादशी, पष्ठी, त्रयोदशी तिथि होय
तो वर्जित करने योग्य दुष्टयोग होता है ॥ ७२ ॥ मंगलके दिन
आश्लेषा, अश्विनी, मूल, मृगशीर्ष नक्षत्र, त्रयोदशी, तृतीया, अष्टमी,
पष्ठी तिथि होय तो पांडितोंने सिद्धिदायक योग कहा है ॥ ७३ ॥
मंगलके दिन उत्तरापाढा, आर्द्धा, धनिष्ठा, शातभिषा, पूर्वाभाद्रपदा
नक्षत्र, तथा द्वितीया, दशमी तिथि होय तो यत्से वर्जित करने
योग्य दुष्टयोग होता है ॥ ७४ ॥ बुधके दिन पुष्य, अनुराधा,
कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा ये नक्षत्र और द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी
तिथि होय तो शुभदायक होता है ॥ ७५ ॥ बुधके दिन धनिष्ठा,
भरणी, मूल, अश्विनी, रेवती नक्षत्र और तृतीया, प्रतिपदा, नवमी
तिथि होय तो विरुद्ध योग होता है ॥ ७६ ॥ बृहस्पतिके दिन पुष्य,
अनुराधा, विशाखा, अश्विनी, पुनर्वसु, रेवती नक्षत्र, दशमी, पूर्णिमा

तिथि होय तो शुभदायक योग होता है ॥ ७७ ॥ वृहस्पतिके दिन पष्ठी, अष्टमी, चतुर्थी तिथि और शतमिष्या, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्री, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र होय तो नेष्टयोग होता है ॥ ७८ ॥ शुक्रके दिन पूर्वापादा, अश्विनी, चित्रा, रेवती पुनर्वसु, श्रवण नक्षत्र और प्रतिपदा, पष्ठी, एकादशी तिथि होय तो सिद्धियोग होता है ॥ ७९ ॥ शुक्रके दिन रोहिणी, ज्येष्ठा, पुष्य, आश्लेषा, मघा नक्षत्र और द्वितीया, सप्तमी तिथि होय तो विरुद्ध-योग होता है सब कार्योंमें त्याज्य है ॥ ८० ॥ शनिके दिन स्वाती, श्रवण, पूर्वाफाल्गुनी, रोहिणी, मृगशिरा नक्षत्र और चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी तिथि होय तो सिद्धियोग होता है ॥ ८१ ॥ शनिके दिन पूर्वापादा, उत्तरापादा, चित्रा, हस्त, रेवती, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और पष्ठी, सप्तमी तिथि होय तो निपिद्धयोग होता है ॥ ८२ ॥

इति श्रीमद्वैवज्ञरावलहरिशंकरसूरिसूनुगणपतिकृते मुहूर्त-
गणपतौ श्रीयुतपंडितवर्यवेणीरामात्मजपंडितराम-
दयालुशर्म्मकृतभाषाटीकासमलङ्घतं शुभा-
शुभप्रकरणमष्टमम् ॥ ८ ॥

अथ त्याज्यप्रकरणम् ।

तिथिनक्षत्रवाराणां दुष्टयोगान्परस्परम् ॥ व्यतीपातादिदु-
र्योगान्विदिशर्कसंक्रमान् ॥ १ ॥ जन्मर्क्षतिथिमासाँश्च तिथ्य-
द्वित्ववमं दिनम् ॥ पापैर्मुक्तं युतं भोग्यं विद्धं लत्तिंतमृक्षकम् ॥ २ ॥ उत्पातग्रहभिन्नं च खग्रासे ग्रहणर्क्षकम् ॥ पण्मा-
सावधि मासेषु त्रिषु आसेऽर्द्धके सति ॥ ३ ॥ मासमेकं तु

तुर्यांशे ग्रस्ते चंद्रे च भास्करे ॥ व्यहं प्राग्यहणात्सप्तदिनानि
ग्रहणोत्तरम् ॥ ४ ॥ ग्रस्तास्ते तु व्यहं पूर्वं व्यहं ग्रस्तोदये
परम् ॥ पूर्णे ग्रासे त्विदं ज्ञेयं खंडग्रासैऽनुपाततः ॥ ५ ॥
गंडांतं विविधं दुष्टं क्षीणेदुःपापकर्त्तरी ॥ पापहोरा खले वारे
यामाद्वै कुलिकादिकान् ॥ ६ ॥ चंद्रपापयुतं लग्नमर्शं वा कुन-
वांशकम् ॥ जन्मराशिविलग्नभ्यामष्टमं लग्नमेव च ॥ ७ ॥
दिनमेकं तु मासान्ते नक्षत्रांते घटीद्रव्यम् ॥ घटीमेकां तु
तिथ्यंते लग्नांते घटिकाद्वैकम् ॥ ८ ॥ विपाख्या नाडिका
भानां पातमेकार्गलं तथा ॥ दग्धाहं क्रांतिसाम्यं च लग्नेशं
रिपुमृत्युगम् ॥ ९ ॥ दिनाद्वै च रजन्यद्वै सन्धौ च पलविं-
शतिम् ॥ मलमासं कवीज्यास्तं वालवाद्वैक्यमेव च ॥ १० ॥
जन्मेशास्तं मनोभंगं सूतकं मातुरात्तंवम् ॥ रोगोत्पा-
ताद्यरिप्यानि शुभेष्वेतानि संत्यजेत् ॥ ११ ॥

इति श्रीमद्वज्ञारावलहरिशङ्करसूर्यगणपतिकृतमुहूर्त
गणपतौ त्याज्यप्रकरणं नवमम् ॥ ९ ॥

अब त्याज्य प्रकरण लिखते हैं—तिथि, वार, नक्षत्रोंसे परस्पर
उत्पन्न हुए दुष्टयोग और व्यतीपातादि दुर्योग, भद्रा, अमावास्या,
सूर्यकी संक्रान्ति ॥ १ ॥ जन्मनक्षत्र, जन्मतिथि, जन्ममास, तिथिवृद्धि,
तिथिक्षय और पापग्रहोंसे भोग कर त्यागाहुआ नक्षत्र और
पापग्रहोंसे युक्त नक्षत्र और पापग्रहोंके भोग्य नक्षत्र अर्थात् जिस
नक्षत्रपर पापग्रह जानेवाले हैं, पापग्रहोंसे विद्व नक्षत्र, पापग्रहोंकी
लक्ष्ययुक्त नक्षत्र ॥ २ ॥ उत्पातका नक्षत्र, ग्रहसे भेदन कियाहुआ
नक्षत्र त्याज्य होता है । खग्रासमें ग्रहणका नक्षत्र छह महीनेतक
और अङ्ग्रास ग्रहण होय तो ग्रहणका नक्षत्र तीन महीनेतक ॥ ३ ॥
और चंद्रमा तथा सूर्यका चौथाई ग्रहण होय तो ग्रहणका नक्षत्र
एक महीनेतक ताज्य होता है । ग्रहणसे पहिले तीन दिन और

ग्रहणसे पिछले सात दिन ॥ ४ ॥ अस्तास्तमें पहिले तीन दिन और अस्तोदयमें पिछले तीन दिन और पूर्णग्रासमें पहिले और पिछले तीन तीन दिन और इसी तीन दिनके हिसावसे वैराशिक करके खंडग्रासमें भी पहिले और पिछले दिन त्याज्य-जानलेने चाहिये ॥ ५ ॥ तीन ग्रकारका गण्डान्त अर्थात् तिथि-गण्डान्त, नक्षत्रगण्डान्त, लग्नगण्डान्त और दोषयुक्त तथा क्षीण चंद्रमा, पापकर्त्तरी दोष, पापग्रहके वारमें पापग्रहकी होरा, यामार्ढ, कुलिक ॥ ६ ॥ चंद्रमा और पापग्रहोंसे युक्त लग्न, पापग्रहोंसे युक्त नवांशा, पापग्रहोंका नवांशा और जन्मलग्न तथा जन्मराशिसे आठवाँ लग्न ॥ ७ ॥ मासान्तमें एक दिन, नक्षत्रान्तमें दो घडी, तिथ्यन्तमें एक घडी, लग्नान्तमें आधी घडी ॥ ८ ॥ नक्षत्रोंकी विष-घडी ये सब त्याज्यहैं। पातदोष, एकार्गल, दग्धतिथि, क्रान्ति-साम्य, छठे आठवें स्थानमें स्थित लग्नेश ॥ ९ ॥ मध्याह और अर्द्ध-रात्रिकी संधिमें बीस २ पल, मलमास, शुक्र और वृहस्पतिका अस्त, तथा शुक्र वृहस्पतिका धालत्व और वृद्धत्व ये सब त्याज्यहैं ॥ १० ॥ जन्म-शका अस्त, मनका भंग, सूतक, माताका कङ्कुसमय, रोग उत्पा-तादिक अरिए, ये सब दोष शुभकार्यमें त्यागदेवे ॥ ११ ॥

इति श्रीमद्वज्ञरावलहरिशंकरसूरिसूनुगणपतिकृते
मुहूर्तगणपत्तौ श्रीयुतपंडितवेणीरामात्मजपंडि-
तरामदयालुदार्म्मकृतभापाटीकासमलंकृतं
त्याज्यप्रकरणं नवमम् ॥ ९ ॥

अथ लग्नप्रकरणम् ।

मेषो वृषोऽथ मिथुनं कर्कः सिंहोऽथ कन्यका ॥ तुलाथ
वृश्चिको धन्वी भकरः कुंभमीनकां ॥ १ ॥ राशयस्तु

क्रमादेते पुंस्त्रियौ क्रूरसाम्यकौ ॥ ज्ञेयश्वरस्थिरचैव द्वि-
स्वभावः क्रमात्पुनः ॥ २ ॥ पृष्ठोदया धनुर्मेषो मकरो वृप-
कर्कटी ॥ उभयोदयवान्मीनस्ततोन्ये मस्तकोदयाः ॥ ३ ॥
मेषो वृपो धनुर्युग्मं कर्कनक्री निशावलाः ॥ दिवावलास्तु
तेभ्योन्ये स्वस्वकाले वलाधिकाः ॥ ४ ॥

अब लग्न प्रकरण लिखते हैं—मेष, वृप, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या,
तुला, वृथिक, धनु, मकर, कुंभ, मीने ये चारह राशि हैं । ये सर्व
राशि क्रमसे पुरुष और द्वी, क्रूर और सौम्य हैं । तथा क्रमसे चर,
स्थिर, द्विस्वभावभी जाननी ॥ १ ॥ २ ॥ धनु, मेष, वृप, मकर,
कर्क, ये राशि पृष्ठोदय हैं । मीनराशि उभयोदय है । इनसे अन्य
राशि अर्थात् मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृथिक, कुंभ मस्तको-
दय हैं ॥ ३ ॥ मेष, वृप, धनु, मिथुन, कर्क, मकर ये राशि रात्रि-
वली हैं । इनसे अन्य राशि दिवावली हैं । अपने २ कालमें अधिक
वली होती हैं ॥ ४ ॥

अथ राशिस्वामिनः ।

मेषवृथिक्योर्भास्मो बुवो मिथुनकन्ययोः ॥ तुलावृप-
भयोः शुक्रः कर्कटस्य तु चंद्रमाः ॥ ५ ॥ सिंहस्याधिपतिः
सूर्यः शनिर्मकरकुंभयोः ॥ धनुर्मानभयोर्जीवश्चेते गाशी-
श्वराः स्मृताः ॥ ६ ॥

अब राशिस्वामीको लिखते हैं—मेष, वृथिकका स्वामी मंगलहै,
मिथुन, कन्याका स्वामी वृथ. तुला, वृपका शुक्र. कर्कका चंद्रस्त्रा
॥ ५ ॥ सिंहका सूर्य. मकर, कुंभका शनि. धनु, मीनका वृहस्त्री
स्वामी है ये राशीद्वार कहे हैं ॥ ६ ॥

अथ राशिसंज्ञाचक्रम् ।

मे	वृ	मि	क	सि	क	उ	वृ	ध	म	कुं	मी	राशयः
उ.	खो	ु.	खो	ु.	खो	ु.	खो	ु.	खो	ु.	खो	ुंखो संहा
कूर	सौम्य	कूर	सौम्य	कूर	सौम्य	कूर	सौम्य	कूर	सौम्य	कूर	सौम्य	कूरसौ म्यसं
चर	स्थिर	द्वित्व भाव	चर	स्थिर	द्वित्व भाव	चर	स्थिर	द्वित्व भाव	चर	स्थिर	द्वित्व भाव	चरादि संहा
पृष्ठोदय	पृष्ठोदय	मस्तको दय	पृष्ठो दय	मस्तको दय	पृष्ठो दय	मस्तको दय	पृष्ठो दय	मस्तको दय	पृष्ठोदय	मस्तको दय	उभयो दय	पृष्ठोद यादि सं
रात्रि	रात्रि	रात्रि	रात्रि	दिवा	दिवा	दिवा	दिवा	रात्रि	रात्रि	दिवा	दिवा	रात्रिदि
दली	बली	बली	बली	बली	बली	बली	बली	बली	बली	बली	बली	नवलसं
मं	उ	ु	ं	॒	ु	॒	ं	॒	॒	॒	॒	॒ द्वामि नः

अथ ग्रहोचानि ।

मेपो वृपस्तथा नकः कन्याकर्कज्ञपास्तुला ॥ सूर्यादीनां
क्रमादेते कथिता उच्चराशयः ॥ ७ ॥ परमोचांशकाः सूर्या-
दिशो १० रामा ३ गजाश्विनः २८ ॥ वाणचंद्राः १५
शराः ६ शैलहृशः २७ खाश्वि २० मिताः क्रमात् ॥ ८ ॥

अब ग्रहोच्च लिखतेहें—मेष, वृष, मकर, कन्या, कर्क, मीन, तुला
ये राशि क्रमसे सूर्यादि ग्रहोंके उच्च कहीहै ॥ ७ ॥ दश १०, तीन ३,
अष्टार्ड्दस २८, पंद्रह १५, पांच ५, सत्त्वार्ड्दस २७, वीस २० ये
क्रमसे सूर्यादि ग्रहोंके परमोचांशहैं ॥ ८ ॥

अथ नीचम् ।

सूर्यादीनां जगुर्नांचं स्वोच्चभाद्यच्च सप्तमम् ॥ ग्रहोस्तु
कन्यका गेहं मिथुनं रवोच्चभं स्मृतम् ॥ ९ ॥

अब नीच लिखते हैं—सूर्यादि ग्रहोंकी उच्चराशिसे सातवीं २ राशि नीच कही है और राहुकी कन्या राशि यह और मिथुन उच्च कही है ॥ ९ ॥

अथ मूलत्रिकोणम् ।

सिंहो वृपभमेषौ च कन्याधन्वितुलाधटाः ॥ रव्यादीनां
क्रमान्मूलत्रिकोणा राशयः स्मृताः ॥ १० ॥

अथ ग्रहाणामुच्चादिसंज्ञाचक्रम् ।

अथ रव्यादीपदाः	सू	चं	मे	बु	वृ	छ	श	रा
उच्चराशयः	१	२	१०	६	४	१२	७	३
नीचराशयः	७	८	४	१२	१०	६	१	९
परमोच्चाराशयः	१०	३	२८	१५	५	२७	२०	०
मूलत्रिकोणराशयः	५	२	१	६	९	१०	११	०

अब मूलत्रिकोण लिखते हैं—सिंह, वृप, मेष, कन्या, धन, तुला, कुम्भ ये राशि क्रमसे सूर्यादि ग्रहोंके त्रिकोण कही हैं ॥ १० ॥

अथ मेषादिलभ्रकृत्यानि ।

आकरो धातुकर्माणि भूमिपालाभिपेचनम् ॥ विरोधः साहसं चैतन्मेषलभ्रे प्रसिद्ध्यति ॥ ११ ॥ क्षेत्रकूपादिकं दानं कुमारीवरणं ध्रुवम् ॥ गृहप्रवेश उद्घाइः सिद्ध्येदेतद्वृपोदये ॥ १२ ॥ कलाविभूपाविज्ञानं यत्कार्यं वृपभोदये ॥ तत्सर्वं मिथुने प्रोक्तं होराशास्त्रविचक्षणैः ॥ १३ ॥ वारिवंघनमोक्षं च पौष्टिकं चरकर्म च ॥ वाषीकृपतडागादि कर्कटे कथितं वुधैः ॥ १४ ॥ राजसेवा कृषिः पण्यं परयोगो वणिक्यथः ॥ सिंहे सिद्ध्यति तत्सर्वं मेषलभ्रोदितं च यत् ॥ १५ ॥ भूपणं शिल्पविज्ञानमौपर्धं पौष्टिकं तथा ॥ चरं स्थिरं तु यत्किंचित्कन्यालभ्रे प्रसिद्ध्यति ॥ १६ ॥ वाणिज्यं कर्षणं सेवा यात्रा भाँडतुलाश्रयम् ॥ तुलालभ्रे समाख्यातं मुनि-

भिस्तत्त्ववेदिभिः ॥ १७ ॥ राजसेवाभिपेको च साहसं
दासुणं तथा ॥ उत्रचौयं स्थिरं कर्म कर्त्तव्यं तत्सरीसृपे
॥ १८ ॥ उद्वाहपौष्टिकं यात्रा वाहनाग्निपरिग्रहां ॥ धनु-
र्लग्ने चरं कर्म कथितं पूर्वसूरिभिः ॥ १९ ॥ दासीचतुष्प-
दोष्टादेरभसो वंधमोक्षणम् ॥ तथा क्षेत्राश्रयं यात्रा पवसो
मकरोदये ॥ २० ॥ वीजस्य संग्रहं नौकाचर्या वारि-
गमादिकम् ॥ तथा ध्रुवं चरं कार्यं कुंभे कुर्यात्सदा सुधीः
॥ २१ ॥ उद्वाहश्चाभिपेकश्च विद्यालंकरणादिकम् ॥ पशु-
कर्माद्विकार्यं च मीनलग्ने प्रकीर्तिम् ॥ २२ ॥ मेपा-
दिष्पेषु शुद्धेषु यथोक्तं कर्म सिद्धचति ॥ पापेक्षितयुतेष्पेषु
कूरं सिद्धचेत्र चेतरम् ॥ २३ ॥

अब मेपादि लग्नकृत्य लिखते हैं—खानका खोदना, धातुका
कर्म करना, राजाका अभिपेक करना, विरोध करना, साहसकर्म
करना ये सब मेपलग्नमें सिद्ध होते हैं ॥ ११ ॥ क्षेत्र और
कूपादिका बनाना, दानकरना, कुमारीका वरण, शहप्रवेश, विवाह
ये सब कार्य वृपलग्नमें सिद्ध होते हैं ॥ १२ ॥ कला और आभू-
षणोंका विज्ञान जानना और जो वृप लग्नमें कहे हैं वे सब
कार्य मिथुन लग्नमें सिद्ध होते हैं ऐसा होराशास्त्रके जानने
वाले पंडितोंने कहा है ॥ १३ ॥ जलका वांधना, छोडना, पौष्टिककर्म,
चरकर्म, वापी कूप तडागादि बनाना पंडितोंने कर्क लग्नमें शुभ
कहा है ॥ १४ ॥ राजाकी सेवा, खेती, दुकान, परके साथ मिलना,
बाजार लगाना और जो मेप लग्नमें कहे हैं वे सब कार्य सिंह लग्नमें
सिद्ध होते हैं ॥ १५ ॥ भूपणपहरना, कारीगरी सीखना, औपध
खाना, पौष्टिककर्म, चर और स्थिरकर्म ये सब कन्यालग्नमें सिद्ध
होते हैं ॥ १६ ॥ व्यापार करना, खेती करना, सेवा, यात्रा, वर्तन और
तराजूका कार्य ये सब तुला लग्नमें सिद्ध होते हैं । ऐसा तत्त्ववेदी

मुनिनोंने कहा है ॥ १७ ॥ राजसेवा, राज्याभियेक, साहस और दास्तानकर्म, उग्रकर्म, चोरीकर्म, स्थिरकर्म ये सब वृथिक लग्नमें करने चाहिये ॥ १८ ॥ विवाह, पौष्टिककर्म, यात्रा, वाहनकर्म, (अग्नि परिग्रह) अग्नि धारण करना, चरकर्स धनु लग्नमें शुभ होतेहैं ऐसा पूर्वाचायोंने कहा है ॥ १९ ॥ दासी और ऊंट आदि चौपायें खरीदना, जलका बांधना छोडना, क्षेत्र स्थानका बनाना, यात्रा, दूधका कर्म ये सब मकर लग्नमें सिद्ध होतेहैं ॥ २० ॥ वीज इकट्ठा करना, नौका चलाना, जलयात्रा करना, ध्रुव और चर कार्य करना, ये सब कुंभ लग्नमें करे ॥ २१ ॥ विवाह, राज्याभियेक, विद्या सीखना, आभूषण पहिरना, पशुकर्म जलकर्म, ये सब कार्य मीन लग्नमें करने कहे हैं ॥ २२ ॥ ये मेपादिक लग्न शुद्ध होय तो पूर्वोक्तकर्म सिद्ध होतेहैं और यदि पापग्रहोंसे हट वा युक्त हों तो कूरकर्म सिद्ध होतेहैं, अन्य शुभकार्य सिद्ध नहीं होते ॥ २३ ॥

अथ पद्धर्गः ।

पङ्गां गृहहोराख्यो द्रेष्काणोथ नवांशकः ॥ द्वादशांशस्तथा विंशांशकः स शुभजः शुभः ॥ २४ ॥ विंशदंशा ३० गृहं राशेरद्द्वं होरेति कथ्यते ॥ द्रेष्काणः स्यानृतीयोंशो १० नवमांशो नवांशकः ॥ २५ ॥ द्वादशांशो द्विपद्मभाग २३० विंशांश-३ विंशदंशकः ॥ लग्नराशिपतिः खेटो ग्रहेशः परिकीर्तिः ॥ २६ ॥ चंद्रभान्वोः समे राशो विप्रमे रविचंद्रयोः ॥ द्रेष्काणोशाः क्रमादायपंचांक १५१९ भवनेश्वराः ॥ २७ ॥ धनुः सिंहोऽथ मेपश्च मेपाद्यास्तु नवांशकाः ॥ मकरो वृपभः कन्या मकराद्याः प्रकीर्तिः ॥ २८ ॥ तुलामिथुन-कुंभाख्यास्तुलाद्याः कथिता बुधैः ॥ कर्काद्यास्ते तु विजेया मीनवृथिककर्कटाः ॥ २९ ॥ द्वादशांशो यथासंख्यो विज्ञातव्यः स्वराशितः ॥ विप्रमक्षे तु वाणा ५५४ ५ वसु ८

शैल ७ शराः ६ क्रमात् ॥ ३० ॥ भौमार्कीज्यज्ञशुकाणा
विंशांशाः परिकीर्तिताः ॥ समक्षे तु शर ६ आव ७ वसु-
८ वाण ६ शरां ६ शकाः ॥ ३१ ॥ शुक्रसौम्यांगिरोमंद-
भौमानां च यथाक्रमम् ॥ ३२ ॥

अब पढ़र्ग लिखते हैं—(यह) लग्नादि वारह स्थान १, होरा २,
द्रेष्काण ३, नवांश ४, द्वादशांश ५, त्रिंशांश ६ ये छह वर्ग
कहाते हैं और शुभग्रहका वर्ग शुभ होता है ॥ २४ ॥ तीस अंशका
एक यह अर्थात् राशि होती है और राशिका आधाभाग होरा
कहता है, अर्थात् राशिके १५ पंद्रह २ अंशकी दो होरा होती हैं
और राशिका तीसरा भाग अर्थात् दश १० अंशका द्रेष्काण
होता है । इसी प्रकार प्रत्येक राशिके दश २ अंशके तीन द्रेष्काण
होते हैं । तीन ३ अंश और चौथा २० कलाका एक नवांशक होता है ॥
॥ २५ ॥ और राशिका वारहवां भाग दो २ अंश तीस ३० कलाका
द्वादशांश होता है और तीस ३० अंशका त्रिंशांशक होता है ।
लग्नराशिका स्वामी ग्रह यहेश कहाता है ॥ २६ ॥ सम राशिमें प्रथम
चंद्रमाकी फिर सूर्यकी और विष्म राशिमें प्रथम सूर्यकी फिर चंद्र-
माकी होरा होती है । पहिली और पांचवीं तथा नौवीं राशिके
स्वामी ग्रह क्रमसे पहिले, दूसरे, तीसरे द्रेष्काणके स्वामी
होते हैं ॥ २७ ॥ धनु, सिंह, मेष इन राशियोंका नवांशा मेषसे
गिना जाता है । और मकर, वृष, कन्या इन राशियोंका नवांशा
मकरसे ॥ २८ ॥ तुला, मिथुन, कुम्भका नवांशक तुलासे गिना
जाता है । ऐसा पंडितोंने कहा है । और मीन, वृश्चिक, कर्क इन राशि-
योंका नवांशा कर्कसे गिना जाता है ॥ २९ ॥ अपनी राशिसे यथा-
संग्रहक वारह भागोंके स्वामी गिननेसे द्वादशांश जानना, विष्म
राशिमें पांच ५, पांच ५, आठ ८, सात ७, पांच ५ इतने अंश

क्रमसे ॥ ३० ॥ मंगल, शनैश्चर, वृहस्पति, बुध, शुक्र इन ग्रहोंके त्रिंशांशक होते हैं । और सम राशिमें पांच ५, सात ७, आठ ८, पांच ५, पांच ५ ॥ ३१ ॥ इतने अंश क्रमसे शुक्र, बुध, वृहस्पति, शनैश्चर, मंगल इन ग्रहोंके त्रिंशांशक होते हैं ॥ ३२ ॥

अथ होराचक्रम् ।

मे	वृ	मि	क	सिं	क	तु	वृ	ध	म	कु	मी	राशयः
दू	चं	सू	चं	सू	चं	सू	चं	सू	चं	सू	चं	अंश १५
चं	सू	चं	सू	चं	सू	चं	सू	चं	सू	चं	सू	अंश ३०

अथ द्वेष्टकाण्चक्रम् ।

राशयः	मे	वृ	मि	क	सिं	क	तु	वृ	ध	म	कु	मी
१ द्रौ. १०	मं	शु	बु	चं	सू	बु	शु	मं	वृ	श	श	वृ
२ द्रौ. २०	सू	बु	शु	मं	वृ	श	श	वृ	मं	शु	बु	चं
३ द्रौ. ३०	वृ	श	श	वृ	मं	तु	बु	चं	सू	बु	शु	मं

नवांशचक्रम् ।

अंश	कला	मे	वृ	मि	क	सिं	क	तु	वृ	ध	म	कु	मी
३	२०	मं	श	शु	चं	मं	श	शु	चं	मं	श	शु	चं
६	४०	शु	श	मं	सू	शु	श	मं	सू	शु	श	मं	सू
१०	००	बु	वृ	वृ	वृ	बु	वृ	बु	वृ	बु	वृ	वृ	बु
१३	२०	चं	मं	श	शु	चं	मं	श	शु	चं	मं	श	शु
१६	४०	सू	शु	श	मं	सू	शु	श	मं	सू	शु	श	मं
२०	००	बु	बु	वृ	वृ	बु	बु	बु	वृ	बु	बु	वृ	वृ
२३	२०	शु	चं	मं	श	शु	चं	मं	श	शु	चं	मं	श
२६	४०	मं	सू	शु	श	मं	सू	शु	श	मं	सू	शु	श
३०	००	वृ	शु	बु	वृ	वृ	बु	बु	वृ	वृ	बु	बु	वृ

द्वादशांशचक्रम् ।

अंशा कला	मे	वृ	भि	क	सि	क	तु	वृ	ध	म	कु	मी
३०	मं	शु	वु	वं	सू	वु	शु	मं	वृ	श	श	वृ
५०	शु	वु	वं	सू	वु	शु	म	वृ	श	श	वृ	मं
३७	वु	वं	सू	वु	शु	मं	वृ	श	स	वृ	मं	शु
१०	वं	सू	वु	शु	मं	वृ	श	श	वृ	मं	शु	वं
१३	सू	वु	शु	मं	वृ	श	श	वृ	मं	शु	वु	वं
१५	वु	शु	मं	वृ	श	श	वृ	मं	शु	वु	वं	सूं
१७	शु	मं	वृ	श	श	वृ	मं	शु	वु	वं	सू	वु
३०	म	वृ	श	श	वृ	मं	शु	वु	वं	सु	वु	शु
३३	वृ	श	श	वृ	मं	शु	वु	वं	सू	वु	शु	म
३५	श	श	वृ	मं	शु	वु	वं	सू	वु	शु	मं	वृ
३७	श	वृ	मं	शु	वु	वं	सू	वु	शु	मं	वृ	श
३८	वृ	मं	शु	वु	वं	सू	वु	शु	मं	वृ	जा	श

अथ विपर्विशांशचक्रम् । समविशांशचक्रम् ।

अंशाः	मे	वृ	भि	क	तु	ध	कु	अंशाः	वृ.	क	क	वृ	म	मी
५	मं	मं	मं	मं	मं	मं	म	५	शु	शु	शु	शु	शु	शु
५	श	श	य	श	श	श	ग	७	वु	वु	वु	वु	वु	वु
८	वु	८	वु	वु	वु	वु	वु	वु						
७	उ	उ	उ	उ	उ	उ	उ	५	रा	रा	रा	रा	रा	रा
५	शु	५	मं	मं	मं	मं	मं	मं						

अथ तन्वादिद्वादशभावसंज्ञा ।

तत्र॑ र्धनं २ सहोत्थाख्यं ३ सुहं ४ त्पुत्रा ५ रि ६ यो-
पितः ॥ ७ निधनं ८ धर्म ९ कर्मा १० य ११ व्यया १२

भावास्तनोः क्रमात् ॥ ३३ ॥ केंद्रं ११४।७।१० पणफरं
 २।६।८।११ चापोक्तिम् ३।६।१।१२ लग्नात्पुनः पुनः ॥
 नवमं पंचमं स्थानं १।६ त्रिकोणं परिकीर्तिम् ॥ ३४ ॥
 त्रिदशैकादशं पष्ठं प्रोक्तं चोपचयाह्यम् ॥ जामित्रं ७
 सप्तमं द्यूनं द्यूतं च मदनाभिधम् ॥ ३५ ॥ रिःफं तु द्वादशं
 १२ ज्येयं दुश्चिक्यं स्याचृतीयकम् ॥ चतुरसं तुरीयाप्तसंख्यं
 रंध्रमथाएमम् ॥ ३६ ॥

अब तन्वादि द्वादश भावसंज्ञा लिखते हैं—तनु१, धन२, (सहोत्थ)
 भ्रातृ३, सुहृत्४, पुत्र५, शन्मु६, स्त्री७, मृत्यु८, धर्म९, कर्म१०,
 लाभ११, द्वय१२ ये लग्नसे लेकर, क्रमसे वारह भाव हैं ॥ ३३ ॥
 लग्नसे लेकर केंद्र, पणफर, चापोक्तिम् इस प्रकार चार वार गिननेसे
 वारहों स्थानोंकी संज्ञा जानी जाती है । अर्थात्—१।४।७।१० ये
 स्थान केंद्रसंज्ञक हैं, २।५।८।११ ये स्थान पणफर और ३।६।१२
 ये स्थान पापोक्तिम् संज्ञक हैं और नोवां, पांचवाँ स्थान त्रिकोण
 कहाताहै ॥ ३४ ॥ तीसरा, दशवां, ग्यारहवां, छठा स्थान उपचय संज्ञक
 कहाहै । सातवां घर जामित्र और द्यून, द्यूत तथा मदन संज्ञक
 है ॥ ३५ ॥ वारहवां घर रिष्फ संज्ञक जानना । तीसरा स्थान दुश्चिक्य
 संज्ञक है । चौथा, आठवां स्थान चतुरसं संज्ञक है । आठवां रन्ध्र
 संज्ञक है ॥ ३६ ॥

अथ वर्गोत्तमनवमांशाः ।

आद्यश्वरे नवांशः स्यात्स्थिरे राशौ तु पंचमः ॥ नवमो
 द्विःस्वभावाख्ये शुभो वर्गोत्तमो ह्ययम् ॥ ३७ ॥

अब वर्गोत्तम नवांश लिखते हैं—चर लग्नमें पहिला नवांशक
 वर्गोत्तम होताहै, स्थिरराशिमें पांचवां और द्विःस्वभाव राशिमें नोवां
 नवांशक वर्गोत्तम होताहै ॥ ३७ ॥

अथ साधारणशुभकार्ये लग्नग्रहवलं च ।

सर्वेषु शुभकार्येषु नेष्टाः 'खेटा व्ययाष्टगाः' ॥ लग्ने पापा
रिपौ सौम्याः पापाः केंद्रत्रिकोणगाः ॥ ३८ ॥ सौम्याः
केंद्रत्रिकोणस्थाः पापस्तु त्रिपदायगाः ॥ ते सर्वे लाभगाः
खेटाः श्रेष्ठाः स्युः शुभकर्मणि ॥ ३९ ॥ भावः स्वपतिना
सौम्यैर्देष्टो युक्तो वलाधिकः ॥ पूर्णं फलं निजं धते व्यस्तं
पापैर्युतेक्षितः ॥ ४० ॥ लग्ने पड्गर्गसंशुद्धे प्रोक्तस्थान-
स्थिते यहे ॥ शुभकर्तिथिवारेषु कार्याः सर्वाः शुभाः क्रियाः
॥ ४१ ॥ एतत्सामान्यतः प्रोक्तं ग्रहलग्नवलादिकम् ॥
विशेषस्तु यथाशास्त्रं ज्ञेयस्तत्तन्मुहूर्तके ॥ ४२ ॥

इति श्रीमद्वज्रावलहरिशंकरसूरिसूनुगणपतिकृते मुहूर्त-
गणपतो लग्नप्रकरणं दशमम् ॥ १० ॥

अब साधारण शुभकार्यमें लग्नमें ग्रहवल लिखते हैं—समस्त शुभ
कार्योंमें चारहवें, आठवें घरमें सब ग्रह अशुभ होते हैं और लग्नमें
पापग्रह, छठे स्थानमें शुभग्रह, केंद्र और त्रिकोणमें पापग्रह नेष्ट
होते हैं ॥ ३८ ॥ केंद्र और त्रिकोणमें सौम्यग्रह, तथा तीसरे, छठे,
ग्यारहवें घरमें पापग्रह और ग्यारहवें घरमें सब पाप और शुभग्रह
होंय तो शुभकर्ममें श्रेष्ठ होते हैं ॥ ३९ ॥ जो जो भाव अपने स्वामीसे
अथवा शुभग्रहोंसे दृष्ट अथवा युक्त हो सो अधिक घलवान् होता है
और अपना पूर्ण फल धारण करता है और जो भाव पापग्रहोंसे दृष्ट
या युक्त हो सो विपरीत अर्थात् निर्वल होता है न्यून फल करता है ॥
॥ ४० ॥ लग्नमें पड्गर्ग शुद्ध होय, उक्त शुभ स्थानोंमें ग्रह स्थित होय,
नक्षत्र, तिथि, चार शुभ होय तो समस्त शुभकर्म करने चाहिये ॥ ४१ ॥

यहांपर अह और लग्नका वलादिक सामान्यतासे कहाहै और विशेष फलादिक तो तिस २ मुहूर्तमें जानलेना चाहिये ॥ ४२ ॥

इति श्रीमद्वज्ञरावलहरिशंकरसूरिसूनुगणपतिकृते मुहूर्तग-
णपतौ श्रीयुतपंडितवर्येवेणीरामात्मजपंडितरामदया-
लुश्मंकृतभाषाटीकासमलंकृतं लग्नप्रकरणं

दशमम् ॥ १० ॥

अथ नूतनांवरालंकारधारणप्रकरणम् ।

हस्तादिपंचके पुष्पे धनिष्ठारेवतीद्वयोः ॥ त्रित्तरे च पुन-
र्वस्वो रोहिण्यां च शुभे तिथौ ॥ १ ॥ बुधे शुक्रेज्यवारेषु
नूतनांवरधारणम् ॥ सौवर्णं रक्षस्प्यादिभूपणानां धृतिः
शुभा ॥ २ ॥ प्रागुत्तमधिष्ठिवारे च स्वर्णाद्याभरणादिकम् ॥
रक्तं वासो द्वृघैर्धार्यं भौमभास्करयोरपि ॥ ३ ॥

अब नूतन वस्त्र और अलंकारका प्रकरण लिखते हैं—हस्त, चित्रा,
स्वाति, विशाखा, अनुराधा, पुष्प, धनिष्ठा, रेवती, अश्विनी, तीनों
उत्तरा, पुनर्वसु, रोहिणी ये नक्षत्र और शम्भतिथि ॥ १ ॥ बुध, शुक्र,
वृहस्पतिवार इनमें नवीन वस्त्र पहिरना शुभ होता है. तथा सुवर्ण,
रक्त, चांदी आदिका आभूपण पहिरनाभी शुभ होता है ॥ २ ॥
और पूर्वोक्त नक्षत्रवारोंमें सुवर्णादिके आभूपण पहिरने शुभ होते
हैं ॥ और लालवस्त्र बुध, मंगल, रविवारके दिन पहिरना शुभ
होता है ॥ ३ ॥

अथ वारफलम् ।

जीर्णमर्को विधुश्चार्द्रं भौमः शोकं बुधो धनम् ॥ गुरुज्ञानं
प्रयाणात्मि भार्गवो मलिनं शनिः ॥ ४ ॥ कुर्वति वासरा-
स्त्वेते नूतनांवरधारणात् ॥ ५ ॥

अब वारफल लिखते हैं—नवीन वस्त्र पहिरनेसे रथ्यादिक वार ऐसा फल करते हैं कि, सूर्य तो शीघ्रही वस्त्रको जीर्ण करते हैं, चंद्रमा गीला करता है, मंगल शोकको करता है, वुध धनको, वृहस्पति ज्ञानको, शुक्र यात्रा और लाभको, शनि मलीनताको करता है ॥ ४ ॥ ५ ॥

अथ नक्षत्रफलम् ।

वस्त्रप्राप्तिरथाश्विन्यां भरण्यां तद्विनाशनम् ॥ कृत्तिकाऽभ्य-
भयं कुर्याद्वोहिण्यां सर्वसंपदः ॥ ६ ॥ मृगे मूपकभीतिः
स्यादाद्रीयां निधनं भवेत् ॥ पुनर्वस्वोस्तथा पुष्ये धनधर्म-
महोत्सवः ॥ ७ ॥ आश्लेषायां भवेच्छोको मधायां मरणं
श्रुत्वम् ॥ राज्ञो भयं तु पूफायामुफायां च धनागमः ॥ ८ ॥
कर्मसिद्धिस्तु हस्तक्षें चित्रायामिषसंपदः ॥ मिष्टभोज-
नदा स्वाती विशाखानंददायिनी ॥ ९ ॥ मित्राप्तिरु-
राधायां ज्येष्ठायां वाससां हृतिः ॥ जलष्टुतिश्च मूलक्षें
पूर्वापाढातिरोगदा ॥ १० ॥ मिष्टावदोत्तरापाढा श्रवणो
नयनार्तिकृत् ॥ धान्यागमो धनिष्ठायां विषभीतिः शता-
भिषे ॥ ११ ॥ पूर्वाभाद्रे जलाद्वीतिरुत्तरायां धनागमः ॥
रत्नावाप्तिस्तु रेत्यां भवेद्वस्त्रस्य धारणात् ॥ १२ ॥

अब नक्षत्रफल लिखते हैं—अश्विनी नक्षत्रमें वस्त्र धारण करै तो फिरभी वस्त्र मिले, भरणीमें वस्त्रका विनाश, कृत्तिकामें अग्निभय, रोहिणीमें सब संपदा ॥ ६ ॥ मृगशिरमें मूपकका भय, आद्रीमें मृत्यु, पुनर्वसु तथा पुष्यमें धन और धर्मका महोत्सव ॥ ७ ॥ आश्लेषामें शोक, मधामें मरण, पूर्वाफालगुनीमें राजका भय, उत्त-
राफालगुनीमें धनागम ॥ ८ ॥ हस्तमें कार्यकी सिद्धि, चित्रामें इष्ट-
संपदाकी प्राप्ति होती है, स्वाती भीष्टे भोजन देनेवाली, विशाखा

आनंद देनेवाली है ॥ ९ ॥ अनुराधामें मित्रकी प्राप्ति होय, ज्येष्ठामें वस्त्रोंकी चोरी होय, मूलमें जलमें झूबजाय, पूर्वापाढा अतिरोगकी देनेवाली है ॥ १० ॥ उत्तरापाढा मिट्टान्नकी देनेवाली है, श्रवण नेत्र-पीडाकारक है, धनिष्ठामें धान्यकी प्राप्ति होतीहै, शतभिपामें विषकी भय होतीहै ॥ ११ ॥ पूर्वाभाद्रपदमें जलकी भय, उत्तराभाद्रपदमें धनकी प्राप्ति, रेवतीमें रत्नोंकी प्राप्ति होतीहै, इन नक्षत्रोंमें वस्त्र धारण करनेसे पूर्वोक्त फल होताहै ॥ १२ ॥

अथ वस्त्राभरणादिधारणे स्त्रीणां विशेषः ।

अश्विन्यां च धनिष्ठायां रेवत्यां करपंचके ॥ सुवर्णरत्नदंता-
दिवस्त्राणां धारणं स्त्रियः ॥ १३ ॥

अब स्त्रियोंके वस्त्राभरणादि धारणमें विशेष लिखतेहैं—अश्विनी, धनिष्ठा, रेवती, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा इन नक्षत्रोंमें स्त्रीको सुवर्ण, रत्न, दंतादि तथा वस्त्र धारण करना शुभ होताहै ॥ १३ ॥

अथ कज्जलादर्शकृत्यम् ।

चित्राचतुष्टयेऽश्विन्यां धनिष्ठारेवतीमृगे ॥ शुक्रेकेहि शनौ
स्त्रीणां दर्पणांजनयोर्धृतिः ॥ १४ ॥

अब कज्जलादर्श कृत्य लिखतेहैं—चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, धनिष्ठा, रेवती, मृगशिर ये नक्षत्र और शुक्र, रवि, शनि वारमें स्त्रियोंको दर्पण और अंजनका धारण करना शुभ होताहै ॥ १४ ॥

अथ सौभाग्यवत्या निपेधः ।

रोहिण्यां श्युत्तरे पुष्ये पुनर्वस्त्रोः कदाचन ॥ न दध्या-
त्सुभगा भूपावस्त्राण्यन्ये कुजेपि न ॥ १५ ॥

अब सौभाग्यवतीके नियेध लिखतेहैं—रोहिणी, तीनों उत्तरा, पुष्य, पुनर्वेसु इन नक्षत्रोंमें सौभाग्यवती स्त्री आभूषण और वस्त्र न पहिरै और कोई आचार्य कहतेहैं कि, मंगलके दिन भी न पहिरै ॥ १५ ॥

अथ नववस्त्रविकृतौ फलम् ।

वाससो नवधाभागे चतुष्कोणेषु देवताः ॥ मध्यव्यंशस्थितं
रक्षो नरः पाश्वदशांशयोः ॥ १६ ॥ दग्धे जीर्णे नवे वस्त्रे
लिप्ते वा कर्दमादिभिः ॥ इयं रक्षोंशके नेष्टुं शुभं देव-
नरांशके ॥ सर्वप्रांत्येष्वसञ्चैवं शयनासनपादुके ॥ १७ ॥

अब नव वस्त्रविकृतिमें फल लिखतेहैं—नवीन वस्त्रके नौ भाग
मानि लेय चारों कोणोंमें देवता स्थापित करै और मध्यके तीन
भागोंमें राक्षस (और पाश्व) करघटके दोनों भागोंमें मनुष्य
स्थापन करै ॥ १६ ॥ राक्षसके भागमें नवीन वस्त्र जल जाय वा
फट जाय अथवा जीर्ण होजाय वा कीचड आदिसे सन जाय तो
शुभ नहीं होता और यदि देवता अथवा मनुष्यके भागमें पूर्वोक्त
दग्धादि वात होजाय तो शुभ होताहै और यदि सब भागोंमें
दग्धादि होजाय तो अशुभ होताहै । इसी प्रकार शश्या, आसन,
खडाऊंसेंभी विचारै ॥ १७ ॥

अथ मुहूर्तं विनापि कुत्रचिद्वस्त्रधारणम् ।

राजा प्रीत्यार्पितं वस्त्रं विवाहे चोत्सवादिषु ॥ तथा विप्राज्ञया
धार्यं निन्द्ये धिष्णयेषि वासरे ॥ १८ ॥

अब मुहूर्तविना भी कहींपर वस्त्र धारण लिखतेहैं—राजाने
प्रीतिसे दियाहुआ तथा विवाहमें और उत्सवमें और ब्राह्मणकी
आज्ञासे नवीनवस्त्र निन्दित नक्षत्र और वार होय तो भी पहिर
लेना चाहिये ॥ १८ ॥

अथ वस्त्रविशेषे विशेषः, तत्र श्वेतपीतकर्वुर-
रक्तवस्त्रधारणम् ।

शुच्छं वस्त्रोल्लभे धार्य रवौ शुक्रे गुरौ बृधे ॥ विशुक्रे कर्वुरं
पीतं सभौमे रक्तमम्बरम् ॥ १९ ॥

अब वस्त्रविशेषमें विशेष लिखते हैं—तहाँ प्रथम श्वेत, पीत,
कर्वुर, रक्त वस्त्रधारण लिखते हैं—वस्त्र धारणमें कहे हुए नक्षत्र
और रवि, शुक्र, बृहस्पति, बृध वार इनमें श्वेत वस्त्र धारण
करना शुभ है और शुक्र विना उक्त मुहूर्तमें कवरा और पीत
वस्त्र धारण करना, तथा मंगलसहित उक्त मुहूर्तमें लाल वस्त्र धारण
करना शुभ होता है ॥ १९ ॥

अथ कृष्णनीलस् ।

पुनर्वसुधनिष्ठाख्येऽश्विभे हस्ताच्चतुष्ये ॥ पूर्वोत्तरे शनी
सूर्ये नीलकृष्णावरं शुभम् ॥ २० ॥

अब कृष्ण नील वस्त्र धारण लिखते हैं—पुनर्वसु, धनिष्ठा, अश्विनी,
हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, तीनों पूर्वा, तीनों उत्तरा इन नक्ष-
त्रोंमें और शनि, रविवारोंमें नीला तथा काला वस्त्र धारण करना
शुभ होता है ॥ २० ॥

अथ पट्टदुकूलम् ।

जीविके च बृधे शुक्रे वस्त्रोल्लक्ष्मे श्रवान्वितो ॥ स्थिरेङ्गे सद्वहैर्युक्ते
पट्टदुकूलस्य धारणम् ॥ २१ ॥

अब पट्टदुकूल लिखते हैं—बृहस्पति, रवि, बृध, शुक्र इन वारोंमें
श्रवणसहित वस्त्र धारणोंक नक्षत्रोंमें शुभग्रहोंसे युक्त स्थिर लम्भमें
रेशमीन वस्त्र धारण करना शुभ होता है ॥ २१ ॥

अथ कौशेयम् ।

अश्विनीरेषतीहस्ते रोहिण्यां श्रवणव्ये ॥ पूर्वोत्तरे पुनर्वस्त्रोः

स्वात्यां पुष्ये मधाभिधे॥२२॥ रवौ चंद्रे गुरो धार्य कौशेयं
वसनं जनैः ॥ २३ ॥

अब कौशेयवस्त्र धारण लिखते हैं—अश्विनी, रेवती, हस्त, रोहिणी,
श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा तीनों, उत्तरा तीनों, पुनवसु, स्वाती,
पुष्य, मधा इन नक्षत्रोंमें ॥ २२ ॥ रवि, चंद्र, वृहस्पति वारोंमें
मनुष्योंको रेशमीन वस्त्र धारण करना चाहिये ॥ २३ ॥

अथ रोमजं वस्त्रम् ।

नीलवस्त्रोदिते धिष्ण्ये रेवतीपुष्ययोरपि ॥ शुक्रे शनैश्चरेके
च धारयेद्वैरोमजांवरम् ॥ २४ ॥

अब रोमज वस्त्र धारण लिखते हैं—नील वस्त्रोंके धारण करनेमें
कहे जो नक्षत्र और रेवती, पुष्य नक्षत्रमें शुक्र, शनि, रविवारोंमें
जनका वस्त्र धारण करे ॥ २४ ॥

अथ सतूलकंचुकधारणम् ।

पुष्योत्तरानुराधांत्ये धनिष्ठाश्विकरत्रये ॥ रोहिण्यां गुरु-
शुक्राव्ये देहदुर्गधृतिः शुभा ॥ २५ ॥

अब सतूल कंचुक धारण लिखते हैं—पुष्य, अनुराधा, रेवती,
धनिष्ठा, अश्विनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, रोहिणी नक्षत्रोंमें और
वृहस्पति, शुक्र, चंद्रवारोंमें रुद्रका कोट धारण करना शुभ
होता है ॥ २५ ॥

अथ सुवर्णरजतमिश्रतंतुसंभववस्त्रपरिधानम् ।

सुवर्णंतुसंमिश्रं वासो धार्य रवौ कुजे ॥ राजतं तद्वि-
शुक्रेव्ये वस्त्रधारणभे शुभम् ॥ २६ ॥

अब सुवर्ण रजतमिश्र तनुसंभव वस्त्र परिधान लिखते हैं—सुव-
र्णके तारोंसे मिलाहुआ वस्त्र रवि और मंगलवारके दिन और चाँदीके

प्रकरणम् ३१ः] भाषाटीकासमेतः । (१०९)

तारकसीका वस्त्र शुक्रविना चंद्रवारके दिन तथा वस्त्रधरणोंके नक्षत्रोंमें धारण करना शुभ होताहै ॥ २६ ॥

अथ वस्त्रनिर्माणम् ।

रोहिणीरेवतीचित्राऽनुराधामृगभोत्तरे ॥ शनिं हित्वा कुवि-
दानां तंतुभिः पट्टसाधनम् ॥ २७ ॥

अब वस्त्रनिर्माण लिखतेहैं—रोहिणी, रेवती, चित्रा, अनुराधा, मृगशिर, तीनों उत्तरा इन नक्षत्रोंमें और शनिवर्जित वारोंमें जुलाहों से सूतोंका वस्त्र बुनवाना शुभ होताहै ॥ २७ ॥

अथ कुसुंभादिवस्त्ररंजनम् ।

पुनर्वसुद्वये हस्तात्पंचके श्रवणद्वये ॥ अश्विभेंके कवीज्यारे
वाससां रंजनं शुभम् ॥ २८ ॥

अब कुसुंभादि वस्त्ररंजन लिखतेहैं—पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, अश्विनी नक्षत्र और रवि, शुक्र, वृहस्पति, मंगल इन वारोंमें वस्त्र रंगवाना शुभ होताहै ॥ २८ ॥

अथ सूचीकर्म ।

मृगश्चित्राऽनुराधाश्चिपुष्यांत्यं रोहिणी करः ॥ ज्येष्ठा सद्वा-
सराः साक्षीः सूचीकर्मणि संमताः ॥ २९ ॥

अब सूचीकर्म लिखतेहैं—मृग, चित्रा, अनुराधा, अश्विनी, पुष्य, रेवती, रोहिणी, हस्त, ज्येष्ठा ये नक्षत्र और शभवार तथा रविवार वस्त्र सिलवानेमें शुभ मानेहैं ॥ २९ ॥

अथ नवीनवस्त्रक्षालनम् ।

पुनर्वसुद्वयेश्विन्यां धनिष्ठाहस्तपंचके ॥ हित्वार्कार्किद्वया-
त्रिक्तां पष्ठीं श्राद्धदिनं तथा ॥ ३० ॥ ब्रतं पर्वं च वस्त्राणि
क्षालयेद्वजकादिना ॥ ३१ ॥

अब नवीन वस्त्र क्षालन लिखते हैं—पुनर्वसु, पुष्य, आश्विनी, धनिष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा इन नक्षत्रोंमें धोवी आदिसे वस्त्र धुलवाना शुभ होता है। परन्तु रवि, शनि, वुध-वार, रिक्ता ४ । ५ । १४ पट्टी तिथि, आच्छका दिन, व्रत और पर्वका दिन इन सबको छोड़कर वस्त्र क्षालन करावै ॥ ३० ॥ ३१ ॥

अथोपानत्परिधानं चर्मकृत्यं च ।

चित्रापूर्वानुराधाद्र्ज्येष्टाश्लेषामधामृगे ॥ विशाखाकृत्तिका-
मूले रेवत्यां ज्ञाक्सूर्यजे ॥ उपानत्परिधानं च चर्मकर्माणि
शस्यते ॥ ३२ ॥

अब उपानत्परिधान और चर्मकृत्य लिखते हैं—चित्रा, तीनों पूर्वा, अनुराधा, आद्री, ज्येष्ठा, आश्लेषा, मधा, मृगशिर, विशाखा, कृत्तिका, मूल, रेवती इन नक्षत्रोंमें और वुध, रवि, शनि इन वारोंमें जूता पहिरना तथा चमड़ेका काम करनाभी शुभ होता है ॥ ३२ ॥

अथ वितानतूलिकोपधानादिनिर्माणं वितानवंधनं च ।

कुर्याद्वस्त्रोदिते विष्ण्ये तूलिकामुपधानकम् ॥ वितानाद्यं च
वध्रीयादृध्र्वमूर्ढ्मुखोङ्गपु ॥ ३३ ॥

अब वितान तूलिका उपधानादि निर्माण और वितान वंधन लिखते हैं—वस्त्रधारणोक्त नक्षत्रोंमें रुईका काम, तकिया बनवाना, चँदोवा आदि वांधना शुभ होता है और ऊर्ध्वकर्म ऊर्ध्वमुख नक्षत्रोंमें शुभ होता है ॥ ३३ ॥

अथ वस्त्रमयगेहादिनिर्माणम् ।

श्रवयेऽश्विनीपुष्येऽनुराधारोहिणीमृगे ॥ हस्तत्रये पुनर्भेन्त्ये
श्युत्तरे पटवेश्म सत् ॥ ३४ ॥

अब वस्त्रमय गेहादि निर्माण लिखते हैं—श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, अश्विनी, पुष्य, अनुराधा, रोहिणी, मृगशिरा, हस्त, चित्रा,

स्वाती, पुनर्वसु, रेवती, तीनों उत्तरा इन नक्षत्रोंमें वस्त्रका घर अर्थात् डेरा बनवाना शुभ होता है ॥ ३४ ॥

अथ सुगंधभोगः ।

अवत्रयेऽशिवनीपुष्ये पूर्वापाढानुराधयोः ॥ हस्तत्रये पुनर्भेन्त्ये
मृगभे च शुभेहनि ॥ ३५ ॥ चन्दनागरुकस्तूरीपुष्पाणी
धारणं शुभम् ॥ ३६ ॥

अब सुगंधभोग लिखते हैं—अवण, धनिष्ठा, शतभिषा, अश्विनी
पुष्य, पूर्वापाढा, अनुराधा, हस्त, चित्रा, स्वाती, पुनर्वसु, रेवती,
मृगशिरा वे नक्षत्र और शुभ वारोंमें ॥ ३५ ॥ चंदन, अगरु, कस्तूरी,
पुष्प इनका धारण करना शुभ होता है ॥ ३६ ॥

अथ शश्यासनादिभोगः ।

अवणे चानुराधायां त्र्युत्तरे रोहिणीमृगे ॥ पुनर्वसुद्वये हस्ते
चित्रायां रेवतीत्रये ॥ भोगः शश्यासनादीनां शुभे वारे
शुभे तिथी ॥ ३७ ॥

अब शश्यासनादिभोग लिखते हैं—अवण, अनुराधा, तीनों उत्तर,
रोहिणी, मृगशिर, पुनर्वसू, पुष्य, हस्त, चित्रा, रेवती, अश्विनी,
भरणी इन नक्षत्रोंमें, शुभवार और शुभ तिथिमें शश्या और आस,
नादिका भोग शुभ होता है ॥ ३७ ॥

अथ भूषणघट्टनम् ।

त्रिपुष्कराभिषे योगे त्र्युत्तरे रेवतीद्वये ॥ अवत्रये मृगे पुष्ये
पुनर्वस्त्वनुराधयोः ॥ हस्तत्रयेथ रोहिण्यां भूषा कार्या शुभे-
हनि ॥ ३८ ॥

अब भूषणघट्टन लिखते हैं—त्रिपुष्करत्योगमें और तीनों उत्तरा-
रेवती, अश्विनी, अवण, धनिष्ठा, शतभिषा, मृगशिर, पुष्य-

र्वसु, अनुराधा, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, रोहिणी नक्षत्र और शुभ दिनमें आभूपण गढ़वाना शुभ होता है ॥ ३८ ॥

अथ रत्नयुक्तभूपाघटनम् ।

कृत्तिकादित्रये हस्तपंचके रेवतीद्वये ॥ श्रवणये पुनर्वस्वोः पुष्ये भे चोत्तरात्रये ॥ कुजेऽके रत्नयुग्मभूपाघटनं शुभवासरे ॥ ३९ ॥

अब रत्नयुक्त भूपाघटन लिखते हैं—कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, रेवती, अश्विनी, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पुनर्वसु, पुष्य, तीनों उत्तरा इन नक्षत्रोंमें तथा मंगल, रवि, और शुभ वारमें रत्नयुक्त आभूपण गढ़वाना शुभ होता है ॥ ३९ ॥

अथ रौप्यमयमुक्तावज्जयुक्तभूपणनिर्माणम् ।

रत्नयुग्मपूर्णं ऋक्षे विशाखां कृत्तिकां विना ॥ शुक्रेज्ये भूपणं रौप्यवज्रमुक्तामयं हि सत् ॥ ४० ॥

अब रौप्यमयमुक्ता वज्रयुक्त भूपण निर्माण लिखते हैं—रत्नयुक्त आभूपण वनवानेमें जो नक्षत्र कहे हैं उनमें से विशाखा, और कृत्तिका को त्यागकर शेष नक्षत्रोंमें तथा शुक्र, वृहस्पति के दिन चाँदी, हीरा, मोती के जडाऊका आभूपण वनवाना शुभ होता है ॥ ४० ॥

अथ पात्रभोगः ।

रोहिणीयुगुले हस्तवितये रेवतीद्वये ॥ श्रवणवितये पुष्ये पुनर्वस्वनुराधयोः ॥ ४१ ॥ व्युत्तरं वृधशुक्रेज्यवारे चामृतयोगके ॥ सुवर्णरौप्यपात्रेषु भोजनादिशुभ्रप्रदम् ॥ ४२ ॥

अब पात्रभोग लिखते हैं—रोहिणी, मृगशिरा, हस्त, चित्रा, स्वाति, रेवती, अश्विनी, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पुष्य, पुनर्वसु,

अनुराधा, ॥ ४१ ॥ तीनों उत्तरा ये नक्षत्र; बुध, शुक्र, वृहस्पति वार अमृतयोग इनमें सुवर्ण, चांदीके पात्रोंमें भोजन बनाना, खाना, शुभदायक होता है ॥ ४२ ॥

अथ श्मशुकर्म ।

थ्रवणत्रितये हस्तत्रितये रेवतीद्वये ॥ ज्येष्ठायां मृगशीर्पे च
पुनर्वसुद्वये तथा ॥ ४३ ॥ क्षुरकर्म बुधैः प्रोक्तं त्यक्त्वा भौमं
शनि रविम् ॥ अनुराधामुफां चैव कृत्तिकां रोहिणीं
मधाम् ॥ ४४ ॥

अब श्मशुकर्म लिखते हैं--थ्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, हस्त,
चित्रा, स्वाति, रेवती, अद्विनी, ज्येष्ठा, मृगशीर्प, पुनर्वसु, पुष्य,
इन नक्षत्रोंमें पंडितोंने क्षुरकर्म करना शुभ कहा है परन्तु भौम,
शनि, रविवार और अनुराधा, उत्तराफाल्गुनी, कृत्तिका, रोहिणी,
मधा नक्षत्र त्याग देवे ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

अथ क्षुरकृत्ये वारफलम् ।

भानुर्मासं शनिः सप्त भौमोष्टै नाशयेत्सुखम् ॥ वर्धयेद्वोधनः
पञ्च मासान्सप्त निशापतिः ॥ शुक्रस्त्वेकादश क्षेमं क्षौरे
वाचस्पतिर्दश ॥ ४५ ॥

अब क्षुरकृत्यमें वारफल लिखते हैं--रविवारको क्षौर बनवावे तो
एक महीनेका और शनि सात महीनेका, मंगल आठ महीनेका सुख
नाश करदेते हैं। और बुध पांच महीनेका चंद्रमा सात महीनेका, शुक्र
ग्यारह महीनेका और वृहस्पति दश महीनेका सुख बढ़ाते हैं ॥ ४५ ॥

अथ क्षौरकार्ये त्याज्यास्तिथयः ।

अष्टमी प्रतिपत्पष्टी रिक्ता पर्वाणि संत्यजेत् ॥ चतुर्दशी
त्तमावास्या क्षौरे त्याज्या तु सर्वथा ॥ ४६ ॥

अब क्षौरकार्यमें त्याज्य तिथिको लिखते हैं—आठें, पडवा, छठि, रिक्ता ४ । ९ । १४ पर्व ये सब क्षौरकार्यमें त्याग देने चाहिये और चतुर्दशी, अमावास्या विशेष करके सर्वथा त्याज्य है ॥ ४६ ॥

अथ निन्द्यतिथिनक्षत्राणां दुष्टफलम् ।

पंचकृत्वो मधायां च पट्कृत्वः कृत्तिकास्त्वपि ॥ त्रिवारं
चानुराधायां रोहिण्यामष्टवारकम् ॥ ४७ ॥ उत्तराफाल्गुनी-
संज्ञे चतुर्वें क्षौरमाचरेत् ॥ स वेधसा समानोपि यावदब्दं
न जीवति ॥ ४८ ॥

अब निन्द्यतिथि और नक्षत्रोंका दुष्टफल लिखते हैं—मधामें पांच-
वार, कृत्तिकामें छहवार, अनुराधामें तीनवार, रोहिणीमें आठवार
॥ ४७ ॥ उत्तराफाल्गुनीमें चारवार क्षौर वनवानेसे ब्रह्माके समान
होय तोभी वर्षभर नहीं जीवता है ॥ ४८ ॥

अथ क्षौरनिषेधेपि तदपवादः ।

आज्ञाया विप्रराज्ञोर्वाम्याधाने वन्धमोक्षणे ॥ मृताशौचे च
दीक्षायां मुंडनं सर्वभेष्वपि ॥ ४९ ॥

अब क्षौरनिषेधमें भी उसका अपवाद लिखते हैं—ब्राह्मण और
राजाकी आज्ञासे, अग्न्याधानमें, वन्धनसे छूटनेमें, मृतकके आशौ-
चमें, मंत्रदीक्षामें मुंडन कराना सब नक्षत्रोंमें ग्राह्य है ॥ ४९ ॥

अथ राजां श्मशुकर्म ।

क्षौरभस्योदये राजाः पंचमेऽहनि चैव हि ॥ श्मशुकर्म समा-
ख्यातं निपिद्धा तारका न चेत् ॥ ५० ॥

अब राजाका श्मशुकर्म लिखते हैं—क्षौर वनवानेमें जो नक्षत्र
कहे हैं तिनमें और सदैव पांचवें दिनमें राजाके लिये (क्षौर) हजा-
मत वनवाना कहा है यदि निपिद्धा तारा नहीं होय तो ॥ ५० ॥

अथ नखदंतकृत्यम् ।

ऋक्षेषु क्षौरकर्मोक्तं येषुयेषु मनीषिभिः ॥ तेषुतेषु च कर्तव्या
नखदंतादिकाः क्रियाः ॥ ५१ ॥

अब नखदंत कृत्य लिखते हैं—जिनजिन नक्षत्रोंमें पंडितोंने
क्षौरकर्म कहा है उन उन नक्षत्रोंमें नख और दंत आदिकी क्रिया
करनी चाहिये ॥ ५१ ॥

अथ क्षौरनिषेधः ।

भुक्तोऽभ्यक्तो व्रती यात्रारणोद्योगी कृतात्तिकः ॥ उत्कटा-
भरणो रात्रौ संध्ययोरुभयोरपि ॥ ५२ ॥ शुभेषुर्नवमे
चाऽहि क्षुरकर्म न कारयेत् ॥ प्राग्वयाः स्नातको राजा
योगींद्रो गर्भिणीपतिः ॥ सजीवत्पितृको नैते सुंब्याः प्राक-
थिता अपि ॥ ५३ ॥

अब क्षौरनिषेध लिखते हैं—भोजन और उवठन करनेके पीछे,
व्रतमें, यात्रा और युद्धके समय, आहिक कर्म करनेके पीछे (उत्कट)
कठोर आभूपण पहिरे हुए, रात्रिमें, दोनों संध्याओंमें तथा हजार
मतके दिनसे नौवें दिनमें शुभ चाहने वाला मनुष्य क्षौरकर्म न
करावे (प्राग्वयाः) पहिली अवस्थावाला अर्थात् थोड़ी उमरका
अस्नातक, राजा, योगींद्र, गर्भिणीका पति, जिसका पिता जीताहो
और प्रथम कहेहुए मनुष्यभी इन सबको संपूर्ण शिरोमुण्डन
कराना नहीं चाहिये ॥ ५२ ॥ ५३ ॥

अथ क्षुरकर्मणि शुभावहं वाक्यम् ।

केशवमानर्त्तपुरं पाटलिपुत्रं पुरीमहिच्छत्रां च ॥ दिति-
मदितिं च स्मरतां क्षौरविधौ भवति कल्याणम् ॥ ५४ ॥

अब क्षुरकर्ममें शुभावह वाक्य लिखते हैं—केशव, आनर्त्तपुर, पाट-
लिपुत्र, अहिच्छत्रापुरी, दिति, आदिति इन सबोंका क्षौर करनेके समय
स्मरण करनेसे क्षौरकरानेवाले पुरुषोंका कल्याण होता है ॥ ५४ ॥

अथ विद्यारंभः ।

मृगादिपञ्चके मूले हस्तादित्रियेश्वर्भे ॥ श्रवणत्रयपूर्वासु
विद्यारंभः प्रशस्यते ॥ ५५ ॥ रवौ शुक्रे बुधे जीवे वारे
लग्नवले शुभे ॥ दशम्यादित्रिके पष्ठीतृतीयापञ्चमीपु च
॥ ५६ ॥ विद्यारंभे गुरुः शुक्रो बुधः सर्वार्थसिद्धिदः ॥
मध्योक्तों जाव्यकृचंद्रो भौमाकीं मृत्युदौ स्मृतौ ॥ ५७ ॥

अब विद्यारंभ लिखते हैं—मृगशिर, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा,
मूल, हस्त, चित्रा, स्वाती, अश्विनी, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, तीनों
पूर्वा इन नक्षत्रोंमें विद्यारम्भ श्रेष्ठ कहा है ॥ ५५ ॥ रवि, शुक्र, बुध,
बृहस्पति वार और वलवान शुभ लग्न. दशमी, एकादशी, द्वादशी,
पष्ठी, तृतीया, पञ्चमी तिथि इन स्वर्में विद्यारम्भ शुभ होता है ।
॥ ५६ ॥ विद्यारम्भमें बृहस्पति, शुक्र, बुध सर्वार्थसिद्धिके देनेवा-
ले हैं । रविवार मध्यम है । चंद्रवार जडता करनेवाला है । मंगल,
शनैश्वर मृत्यु देनेवाले हैं ॥ ५७ ॥

अथ गणितारंभः ।

शतद्वयेऽनुराधाद्रारोहिणीरेवतीकरे ॥ पुष्ये जीवे बुधे कुर्या-
त्वारंभं गणितादिषु ॥ ५८ ॥

अब गणितारम्भ लिखते हैं—शतभिषा, पूर्वभाद्रपदा, अनुराधा,
आद्रा, रोहिणी, रेवती, हस्त, पुष्य नक्षत्र और बृहस्पति, बुधवारके
दिन गणितादिके पठनेका प्रारम्भ करे ॥ ५८ ॥

अथ व्याकरणारंभः ।

रोहिणीपञ्चके हस्तात्पुनर्भे मृगभेऽश्विभे ॥ पुष्ये शुक्रे-
ज्यविडारं शत्र्यशास्त्रं पठेत्सुधीः ॥ ५९ ॥

अब व्याकरणारंभ लिखते हैं—रोहिणी, हस्त, चित्रा, स्वानि,
पित्रामा, अनुराधा, मृगशिरा, अश्विनी, पुष्य नक्षत्र और शुक्र,

वृहस्पति, वृद्धवारमें दुष्टिमान् (शब्दशास्त्र) व्याकरण पढनेका प्रारंभ करै ॥ ५९ ॥

अथ न्यायादिशास्त्रारंभः ।

ऋतरे रोहिणी पुष्ये पुनर्भेद श्रवणे करे ॥ अश्विन्यां शतभेद स्वातो न्यायशास्त्रादिकं पठेत् ॥ ६० ॥

अब न्यायादिशास्त्रारंभ लिखतेहैं—तीनों उत्तरा, रोहिणी, पुष्य, पुनर्वसु, श्रवण, हस्त, अश्विनी, शतभिपा, स्वाती इन नक्षत्रोंमें न्याय शास्त्रादिको पढ़े ॥ ६० ॥

अथ धर्मशास्त्रपुराणारंभः ।

हस्तादिपंचके पुष्ये रेवतीद्वितये मृगे ॥ श्रवणये शुभारंभो धर्मशास्त्रपुराणयोः ॥ ६१ ॥

अब धर्मशास्त्र पुराणारंभ लिखतेहैं—हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, पुष्य, रेवती, अश्विनी, मृगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिपा इन नक्षत्रोंमें धर्मशास्त्र और पुराणका आरंभ शुभ होताहै ॥ ६१ ॥

अथ वैद्यविद्यागारुडीविद्यारंभः ।

हस्तत्रयेऽनुराधायां पुनर्भेद श्रवणत्रये ॥ मूले चांत्येऽश्विनी-पुष्ये ज्येष्ठाल्लेपाद्र्द्वभे मृगे ॥ वैद्यविद्याकुञ्जेवजेकं ज्येष्ठाही-नेत्र गारुडी ॥ ६२ ॥

अब वैद्यविद्या और गारुडीविद्यारंभ लिखतेहैं—हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिपा, मूल, रेवती, अश्विनी, पुष्य, ज्येष्ठा, आश्लेषा, आद्र्द्वा, मृगशिरा इन नक्षत्रोंमें वैद्यविद्याका आरंभ शुभ होताहै और मंगल, सोमवार, रविवार, और ज्येष्ठविना शेष इन्हीं नक्षत्रोंमें गारुडी विद्या सर्पोंके पकड़ने और खिलाने, विष झाड़नेकी विद्याका प्रारम्भ करे ॥ ६२ ॥

अथ जैनविद्यारंभः ।

श्रवत्रये मघापूर्वानुराधारेवतीत्रये ॥ पुनर्भे स्वातिभे सूर्ये
शुक्रे जैनागमं पठेत् ॥ ६३ ॥

अब जैन विद्यारंभ लिखते हैं—श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, मघा,
पूर्वा तीनों, अनुराधा, रेवती, अश्विनी, भरणी, पुनर्वसू, स्वाति
नक्षत्र और रवि शुक्रवारमें जैनशास्त्रको पढे ॥ ६३ ॥

अथ पारशीतुरुष्कशास्त्रारंभः ।

ज्येष्ठाश्लेषपामघापूर्वारेवतीभरणीद्वये ॥ विशाखाद्र्दोत्तरापाढा-
शतभे पापवासरे ॥ ६४ ॥ लग्ने स्थिरे सचंद्रे च पारसी-
मारबीं पठेत् ॥

अब पारसी तुरुष्क शास्त्रारंभ लिखते हैं—ज्येष्ठा, आश्लेषा, मघा,
पूर्वा तीनों, रेवती, भरणी, कृत्तिका, विशाखा, आद्रा, उत्तरापाढा,
शतभिषा, इन नक्षत्रोंमें और पापश्रहोंके वारोंमें ॥ ६४ ॥ चंद्रमायुक्त
स्थिरलग्नमें पारसी, अरबी, तुर्की विद्याके पढनेका आरंभ करै ॥

अथ लिप्यारंभः ।

शुभे तिथौ शुभे वारे रेवतीयुगुले तथा ॥ श्रवणे चानुरा-
धार्या तथैवाद्र्दीदिषु त्रिषु ॥ ६५ ॥ हस्तादित्रितये कुर्या-
छेखनारंभणं सुधीः ॥ ६६ ॥

अब लिप्यारंभ लिखते हैं—शुभतिथि, शुभवार, रेवती, अश्विनी,
श्रवण, अनुराधा, आद्रा, पुनर्वसू, पुष्य ॥ ६५ ॥ हस्त, चित्रा, स्वाती
नक्षत्र इन्होंमें वुच्छिमान् लिखनेका आरंभ करै ॥ ६६ ॥

अथ रत्नपरीक्षा ।

पुनर्भे शतहस्तक्षें श्रवोज्येष्ठे परीक्षणम् ॥ रत्नानामएमीं
भूतां हित्वा भौमं शनैश्चरम् ॥ ६७ ॥

अब रत्नपरीक्षा लिखते हैं—पुनर्वसु, शतभिषा, हस्त, श्रवण, ज्येष्ठा इन नक्षत्रोंमें रत्नोंकी परीक्षा करै परन्तु अष्टमी चौदश तिथि और मंगल, शनिवारको त्याग देवे ॥ ६७ ॥

अथ शिल्पविद्यारंभः ।

हस्तत्रये श्रवणहक्षेण्युत्तरे रोहिणीमृगे ॥ रेवत्यामधिनीपुष्ये
पुनर्वस्वनुराधयोः ॥ हस्ते तिथौ शुभे वारे शिल्पविद्यां
समारभेत् ॥ ६८ ॥

अब शिल्पविद्यारंभ लिखते हैं—हस्त, चित्रा, स्वाति, श्रवण,
धनिष्ठा, शतभिषा, तीनों उत्तरा, रोहिणी, मृगशिरा, रेवती, अश्विनी,
पुष्य, पुनर्वसु, अनुराधा, हस्त नक्षत्र शुभतिथि शुभवारमें शिल्प-
विद्याका आरंभ करै ॥ ६८ ॥

अथ राजदर्शनम् ।

युत्तरे श्रवणद्वंद्वे मृगे पुष्याऽनुराधयोः ॥ रोहिण्यां रेवती-
युग्मे चित्राहस्ते शुभेहनि ॥ वलिन्यकेर्कवारेपि राजदर्श-
नमीरितम् ॥ ६९ ॥

अब राजदर्शन लिखते हैं—तीनों उत्तरा, श्रवण, धनिष्ठा, मृगशिर,
पुष्य, अनुराधा, रोहिणी, रेवती, अश्विनी, चित्रा, हस्त नक्षत्र, वलवान्
सूर्य तथा रविवारमें राजाका दर्शन करना कहा है ॥ ६९ ॥

अथ राजसेवा ।

हस्तद्वयेऽनुराधायां रेवतीयुग्मले मृगे ॥ पुष्ये वृधे गुरी शुक्रे
सत्तिथौ रविवासरे ॥ ७० ॥ योनिराशिपयोर्मैत्र्यां स्वामी
सेव्योऽनुजीविभिः ॥

अब राजसेवा लिखते हैं—हस्त, चित्रा, अनुराधा, रेवती, अश्विनी,
मृगशिरा, पुष्य नक्षत्र, वृध, वृहस्पति, शुक्र, रविवार तथा शुभ

तिथिमें ॥ ७० ॥ और योनि तथा राशिके स्वामियोंकी मित्रता होय तो सेवकोंके लिये स्वामीकी सेवा करना उचित होताहै ॥

अथ दासीसंग्रहः ।

उत्तरासु च रोहिण्यां दासदास्यादिसंग्रहः ॥ ७१ ॥

अब दासीसंग्रह लिखतेहैं—उत्तरा तीनों, रोहिणी नक्षत्रमें दास दासियोंका संग्रह करना शुभ होताहै ॥ ७१ ॥

अथ राजां छत्रचामरसिंहासनादिकृत्यम् ।

चामरच्छत्रदोलादीन्द्रीपिसिंहासनादिकम् ॥ पट्टाभिषेकमे
सर्वे विदध्याच्छोभने दिने ॥ ७२ ॥

अब राजाओंका छत्र, चामर, सिंहासनादिकृत्य लिखतेहैं—चौर,
छत्र, हिंडोला इत्यादि गेंडेके आकारका आसन वा सिंहासन
इत्यादि सब कार्य राजगदीमें कहे हुए नक्षत्रोंमें तथा शुभ दिनमें
करें ॥ ७२ ॥

अथ मुद्राकरणम् ।

शुत्तरे चानुराधायां श्रवणवितये तथा ॥ पुनर्वसुद्यये हस्त-
वितये रेवतीयुगे ॥ ७३ ॥ मृगशीर्पे च रीहिण्यामष्टमीपंच-
मीदिने ॥ तृतीयायां ब्रजोदश्यां दृशम्यां पूर्णिमातिथौ ॥ ७४ ॥

त्यक्त्वा शनैश्चरं सोमं मुद्राकार्यं प्रशस्यते ॥ ७५ ॥

अब मुद्राकरण लिखतेहैं—तीनों उत्तरा, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा,
शतभिषा, पुनर्वसू, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, रेवती, अश्विनी
॥ ७३ ॥ मृगशिरा, रोहिणी, नक्षत्र; अष्टमी, पंचमी, तृतीया, ब्रयो-
दशी, दशमी, पूर्णिमा तिथिमें और शनैश्चर, सोमवारको छोड़कर
अन्य वर्तोंमें (मुद्रा) टकसालमें रूपया ढालना शुभ होता
है ॥ ७४ ॥ ७५ ॥

अथ गजाश्वायारोहणम् ।

रेवतीयुग्मे हस्तव्रये कर्णव्रये मृगे ॥ पुनर्वसुद्रये कुर्याच्छ-
निभौमान्यवासरे ॥ गजाश्वरथमुख्यानामारोहं च शुभे
. तिथौ ॥ ७६ ॥

अब गजाश्वायारोहण लिखते हैं—रेवती, अश्विनी, हस्त, चित्रा,
स्वाती, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिपा, मृगशिरा, पुनर्वसू पुष्य नक्षत्र
और शानि, संगल विना अन्य वारोंमें, शुभ तिथियोंमें हाथी घोड़े
रथ आदिपर चढ़ना शुभ होता है ॥ ७६ ॥

अथ शिविकारोहणं तत्कृत्यं च ।

उत्तरारेवतीयुग्मे त्रिभे हस्तात्रिभे श्रुतेः ॥ पुनर्वस्वोस्तथा
पुष्येऽनुराधाद्वितये मृगे ॥ रोहणं शिविकायास्तु सछग्ने
चटनं तथा ॥ ७७ ॥

अब शिविकारोहण और उसका कृत्य लिखते हैं—तीनों उत्तरा,
रेवती, अश्विनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिपा,
पुनर्वसू, पुष्य, अनुराधा, ज्येष्ठा, मृगशिरा इन नक्षत्रोंमें पालकीपर
चढ़ना तथा इन्ही नक्षत्रों और शुभ लक्ष्में पालकीका चनवाना शुभ
होता है ॥ ७७ ॥

अथ गजकृत्यम् ।

श्रवणादित्रये हस्तव्रये वा रेवतीद्रये ॥ मृगे पुष्येऽनुराधायां
रोहिण्यां त्र्युत्तरे तथा ॥ ७८ ॥ पुनर्वस्वोः शुभे वारे गजकार्यं
शनैर्दिने ॥ ७९ ॥

अब गजकृत्य लिखते हैं—श्रवण, धनिष्ठा, शतभिपा, हस्त, चित्रा,
स्वाती, रेवती, अश्विनी, मृगशिरा, पुष्य, अनुराधा, रोहिणी, तीनों
उत्तरा ॥ ७८ ॥ पुनर्वसू इन नक्षत्रोंमें तथा शुभवार और शनिवारमें
भी गजकार्य शुभ होता है ॥ ७९ ॥

अथ गजस्यांकुशः ।

शुभवारे शुभे लगे शुभांशे शोभने तिथौ ॥ अंकुशाः करिणां
योज्याः शनेल्ये शनेदिने ॥ ८० ॥

अब गजके अंकुशके कृत्य लिखते हैं—शुभवार, शुभलग, शुभ-
नवांशक, शुभ तिथिमें तथा शनिकी लग (मकर, कुंभ) और शनि-
वारमें हाथियोंका अंकुश बनवाना और चलाना शुभ होता है ॥ ८० ॥

अथाश्वकृत्यम् ।

शुभेहनि तथा हस्ते धनिष्ठारेवतीयुगे ॥ पुनर्वसुद्रये स्वाति-
मृगशीर्पे शताभिधे ॥ वर्जयित्वा कुजं रिक्तामश्वकार्यं
शुभावहम् ॥ ८१ ॥

अब अश्वकृत्य लिखते हैं—शुभ तिथिमें तथा हस्त, धनिष्ठा,
रेवती, अश्विनी, पुनर्वसु, पुष्य, स्वाती, मृगशीर्प, शतभिपा इन
नक्षत्रोंमें और रिक्ता तथा मंगलको छोड़कर अन्य वारोंमें अश्वकार्य
शमकारक होता है ॥ ८१ ॥

अथ पल्याणादिनिर्माणम् ।

अवणे शतभे हस्ते पुष्ये मूले मृगेश्विभे ॥ पुनर्वस्वोर्गजा-
श्वोद्रूपल्याणकरणं शुभम् ॥ ८२ ॥

अब पल्याणादि निर्माण लिखते हैं—श्रवण, शतभिपा, हस्त, पुष्य,
मूल, मृगशिरा, अश्विनी, पुनर्वसु इन नक्षत्रोंमें हाथी, घोडा ऊंटका
पलान बनवाना शुभ होता है ॥ ८२ ॥

अथाश्वस्य विशेषकृत्यानि ।

चौलोक्ते खरकृत्यादि शिक्षाविद्योक्तभादिपु ॥ वासग्रासा-
दिकं त्वन्नाशनोक्तक्षेष्ठु वाजिनाम् ॥ ८३ ॥

अब अश्वका विशेष कृत्य लिखते हैं—मुँडनकर्ममें जो नक्षत्रादि
कहें हैं तिनमें गधेका कार्य करना चाहिये और विद्यारंभमें जो

नक्षत्रादि कहेहैं तिनमें घोडेका (शिक्षा) सिखाना शुभ होताहै और अन्न प्राशनोक्त नक्षत्रोंमें घोडोंको धास दाना आदि खिलाना शुभ होताहै ॥ ८३ ॥

अथ रथकृत्यम् ।

पुष्ये पुनर्वसुज्येष्ठाऽनुराधारेवतीद्ये ॥ अवणादित्रिभे हस्त-
वितये रोहिणीमृगे ॥ ८४ ॥ साकें सौम्यदिने सौम्यविलग्ने
रथकर्म सत् ॥ ८५ ॥

अब रथकृत्य लिखतेहैं—पुष्य, पुनर्वसु, ज्येष्ठा, अनुराधा, रेवती,
अश्विनी, अवण, धनिष्ठा, शतभिषा, हस्त चित्रा, स्वाति, रोहिणी,
मृगशिर ॥ ८४ ॥ रवि तथा शुभ वार और शुभलग्नमें रथका कर्म
शुभ होताहै ॥ ८५ ॥

अथ शस्त्रघट्नम् ।

कृत्तिकायां विशाखायां भौमार्कशनिवासरे ॥ सँलग्ने धटिं
शस्त्रं नृपाणां जयदायकम् ॥ ८६ ॥

अब शस्त्र घट्न लिखतेहैं—कृत्तिका, विशाखा नक्षत्र, मंगल, रवि,
शनि वार, शुभलग्न इनमें शस्त्र वनवाना राजाओंके लिये जयदायक
होताहै ॥ ८६ ॥

अथ शस्त्रधारणम् ।

पुनर्वसुद्ये हस्ते चित्रायां रोहिणीद्ये ॥ विशाखादित्रये
कुर्यात्युत्तरे रेवतीद्ये ॥ ८७ ॥ रिक्तां विना तिथौ सूर्यशु-
क्रजीविदिने तथा ॥ सप्त्राहच्छुरिकाखड़कुंतशस्त्रादि-
धारणम् ॥ ८८ ॥

अब शस्त्र धारण करना लिखतेहैं—पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा,
रोहिणी, मृगशिर, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, तीनों उच्चरा, रेवती,

(११६)

मुहूर्तगणपतिः— [नवाम्बरालङ्घनारथा०—

आश्विनी ॥ ८७ ॥ नक्षत्र और रिक्ताविना अन्य तिथि; तथा रवि, शुक्र, वृहस्पति वारमें खखतर, शुरी, तलवार, भाला, शस्त्रादि धारण करै ॥ ८८ ॥

अथ धनुर्विद्यारंभः ।

अनुराधामघापुष्यमृगशीपेष्टमीतिथौ ॥ धनुर्विद्यादिकं कार्य द्वादश्यां शुभवासरे ॥ ८९ ॥

अब धनुर्विद्यारंभ लिखते हैं—अनुराधा, मघा, पुष्य, मृगशीर्ष नक्षत्र; अष्टमी, द्वादशी तिथि, शुभवारमें धनुर्विद्यादिका आरंभ करना शुभ होता है ॥ ८९ ॥

अथ कुन्तादिसर्वशस्त्राभ्यासः ।

हस्तत्रयोत्तरेश्विन्यां पुनर्भेदं श्रवेष्टुप्ययोः ॥ शुभाहे विवुधे खड्ग-
कुन्तादीश्वरं समभ्यसेत् ॥ ९० ॥

अब कुन्तादि सर्वशस्त्राभ्यास लिखते हैं—हस्त, चित्रा, स्वाती, उत्तरा, आश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण, पुष्य नक्षत्र और वृद्धविना शुभ, दिनमें खड्ग कुन्तादि शस्त्रोंका अभ्यास करै ॥ ९० ॥

अथाग्निशस्त्रघट्टनं धारणं च ।

विशाखाकृत्तिकापूर्वामघाश्लेषाश्विनीमृगे ॥ मूलाद्र्द्वभरणी-
ज्येष्ठे सजीवे शूरवासरे ॥ घट्टनं धारणं प्रोक्तं वह्निशस्त्रस्य
शोभनम् ॥ ९१ ॥

अब अग्निशस्त्रघट्टन और धारण लिखते हैं—विशाखा, कृत्तिका, पूर्वा, मघा, आश्लेषा, अश्विनी, मृगशीर, मूल, आद्र्द्वभरणी, ज्येष्ठा नक्षत्र और वृहस्पतिसहित क्रूर वारमें (अग्निशस्त्र) घंटूक, तोप, तमंचा आदिका बनवाना और धारण करना शुभ होता है ॥ ९१ ॥

अथ नालिकाख्याग्निशस्त्रकृत्यम् ।

आश्लेषाकृत्तिकामूलज्येष्ठाद्र्द्वभरणीथ्रव ॥ पूर्वाहस्तचतुर्पूर्वत्ये

पुनर्वंसु मधाद्ये ॥ ९२ ॥ रिक्ताजयासु पापाहे नालिकाश्च-
विधिः शुभः ॥ ९३ ॥

अब नालिकाश्च अस्मिन्शब्द कृत्य लिखते हैं-आश्लेषा, कृत्तिका,
मूल, ज्येष्ठा, आर्द्धा, भरणी, थवण, तीनों पूर्वा, हस्त, चित्रा, स्वाति,
विशाखा, रेती, पुनर्वंसु, मधा, पूर्वाफालगुनी नक्षत्र ॥ ९२ ॥ और
रिक्ता ४ । ९ । १४ जया ३ । ८ । १३ तिथि; पापवारमें (नालि-
काश्च) तोप वंदूक बनवाना शुभ होता है ॥ ९३ ॥

अथ शत्रुचोरवंधनं ताडनं च ।

ज्येष्ठाद्वार्द्धभरणीपूर्वामूलाऽश्लेषामधाद्ये ॥ क्रूरखेट्युते लग्ने
क्रूरमंदारवासरे ॥ शत्रूणां वंधनं कुर्यात्कशाभिस्ताडनं
तथा ॥ ९४ ॥

अब शत्रु तथा चोरका वंधन और ताडन लिखते हैं-ज्येष्ठा, आर्द्धा,
भरणी, ३ पूर्वा, मूल, आश्लेषा, मधा नक्षत्र और क्रूरयह युक्त लग्न
तथा क्रूरवार शनैश्चर, मंगल वारमें ॥ अनुओंका वंधना,
कोड़ेसे ताडना (पीटना) शुभ होता है ॥ ९४ ॥

अथ शत्रुसंधिः ।

अनुराधामधापुष्ये तिथ्यद्वें तैतिलाभिधे ॥ लग्ने सहृष्टिगे-
इम्यां द्वादश्यां संधिरिष्यते ॥ ९५ ॥

अब शत्रुसंधि लिखते हैं-अनुराधा, मधा, पुष्य नक्षत्र. तैतिल
करण. शुभग्रहसे दृष्ट लग्न. अष्टमी, द्वादशी तिथि इनमें शत्रुओंके
साथ मिलाप करना शुभ होता है ॥ ९५ ॥

अथ मत्तारंभः ।

मूलाद्वार्द्धशतभज्येष्ठापूर्वाश्लेषामधासु च ॥ भरण्यां क्रूरवारे
च मध्यकर्मेण तुष्येः ॥ ९६ ॥

(११६)

मुहूर्तगणपतिः— [नवाम्बरालङ्घनरथा०—

अश्विनी ॥ ८७ ॥ नक्षत्र और रिक्ताविना अन्य तिथि; तथा रवि, शुक्र, वृहस्पति वारमें वखतर, शुरी, तलवार, भाला, शख्तादि धारण करै ॥ ८८ ॥

अथ धनुर्विद्यारंभः ।

अनुराधामघापुष्यमृगशीर्पेष्टमीतिथौ ॥ धनुर्विद्यादिकं कार्यं
द्वादश्यां शुभवासरे ॥ ८९ ॥

अब धनुर्विद्यारंभ लिखते हैं—अनुराधा, मघा, पुष्य, मृगशीर्प नक्षत्र; अष्टमी, द्वादशी तिथि, शुभवारमें धनुर्विद्यादिका आरंभ करना शुभ होता है ॥ ८९ ॥

अथ कुन्तादिसर्वशस्त्राभ्यासः ।

हस्तव्रयोत्तरे शिवन्यां पुनर्भे श्रवपुष्ययोः ॥ शुभाहे विवृधे खड्ड-
कुन्तादीश्च समभ्यसेत् ॥ ९० ॥

अब कुन्तादि सर्वशस्त्राभ्यास लिखते हैं—हस्त, चित्रा, स्वाती, उत्तरा, अश्विनी, पुनर्वसु, श्रवण, पुष्य नक्षत्र और वृधविना शुभ, दिनमें खड्ड कुन्तादि शस्त्रोंका अभ्यास करै ॥ ९० ॥

अथाग्निशस्त्रघट्टनं धारणं च ।

विशाखाकृत्तिकापूर्वामघाश्लेषपाश्विनीमृगे ॥ मूलाद्र्द्वभरणी-
ज्येष्ठे सजीवे क्रूरवासरे ॥ घट्टनं धारणं प्रोक्तं वह्निशस्त्रस्य
शोभनम् ॥ ९१ ॥

अब आग्निशस्त्रघट्टन और धारण लिखते हैं—विशाखा, कृत्तिका, पूर्वा, मघा, आश्लेषा, अश्विनी, मृगशिर, मूल, आद्र्द्वभरणी, ज्येष्ठा नक्षत्र और वृहस्पतिसहित क्रूर वारमें (आग्निशस्त्र) वंदूक, तोप, तमंचा आदिका वनवाना और धारण करना शुभ होता है ॥ ९१ ॥

अथ नालिकाख्याग्निशस्त्रकृत्यम् ।

आश्लेषपाश्लिकामूलज्येष्ठाद्र्द्वभरणीश्च ॥ पूर्वाहस्तचतुर्पूर्वत्ये

पुनर्वसुमधाद्ये ॥ ९२ ॥ रिक्ताजयासु पापाहे नालिकाख्य-
विधिः शुभः ॥ ९३ ॥

अब नालिकाख्य अस्मिन्नख्य कृत्य लिखते हैं—आश्लेषा, कृत्तिका,
मूल, ज्येष्ठा, आद्रा, भरणी, श्रवण, तीनों पूर्वा, हस्त, चित्रा, स्वाति,
विशाखा, रेवती, पुनर्वसु, मधा, पूर्वफालगुनी नक्षत्र ॥ ९२ ॥ और
रिक्ता ४ । ९ । १४ जया ३ । ८ । १३ तिथि; पापवारमें (नालि-
काख्य) तोप बंदूक वनवाना शुभ होता है ॥ ९३ ॥

अथ शत्रुचोरवंधनं ताडनं च ।

ज्येष्ठाद्र्द्वाभरणीपूर्वामूलाश्लेषामधाद्ये ॥ क्रूरवेट्युते लग्ने
कूरमंदारवासरे ॥ शत्रूणां वंधनं कुर्यात्कशाभिस्ताडनं
तथा ॥ ९४ ॥

अब शत्रु तथा चोरका वंधन और ताडन लिखते हैं—ज्येष्ठा, आद्रा,
भरणी, ३ पूर्वा, मूल, आश्लेषा, मधा नक्षत्र और क्रूरग्रह युक्त लग्न
तथा क्रूरवार शनैश्चर, मंगल वारमें ॥ अत्रुओंका वांधना,
कोडेसे ताडना (पीटना) शुभ होता है ॥ ९४ ॥

अथ शत्रुसंधिः ।

अनुराधामधापुष्ये तिथ्यद्वे तैतिलाभिधे ॥ लग्ने सहस्रिगे-
ष्टम्यां द्वादश्यां संधिरिष्यते ॥ ९५ ॥

अब शत्रुसंधि लिखते हैं—अनुराधा, मधा, पुष्य नक्षत्र. तैतिल
करण. शुभग्रहसे दृष्ट लग्न. अष्टमी, द्वादशी तिथि इनमें शत्रुओंके
साथ मिलाय करना शुभ होता है ॥ ९५ ॥

अथ मद्यारंभः ।

मूलाद्र्द्वाशतभज्येष्ठापूर्वाश्लेषामधासु च ॥ भरण्यां क्रूरवारे
च मद्यकर्मेति शुद्धैः ॥ ९६ ॥

(११८)

मुहूर्तगणपतिः— [नवाम्बरालङ्कारथा ०—

अब सद्यारम्भ लिखते हैं—मूल, आद्रा, शतभिषा, ज्येष्ठा, पूर्वा
तीनों, आश्लेषा, मधा, भरणी नक्षत्र और क्रूरवारम्भ मध्यकर्ता करना
पंडितोंने शुभ कहा है ॥ ९६ ॥

अथ मादकवस्तुभक्षणम् ।

आद्राल्लेपामधापूर्वज्येष्ठामूलशताभिषे ॥ भरण्यां सुदिने
मंदे चाऽश्रीयान्मादकं मधु ॥ ९७ ॥

अब मादकवस्तु भक्षण लिखते हैं—आद्रा, आश्लेषा, मधा, तीनों
पूर्वा, ज्येष्ठा, मूल, शतभिषा, भरणी इन नक्षत्रोंमें और शुभदिन
तथा शनैश्चरके दिन नदा करनेवाली मदिरादि वस्तुका भक्षण
करै ॥ ९७ ॥

अथ नवांगनाभोगः ।

प्रथमाभिगमः शस्तो नववध्वा: शुभेहनि ॥ गर्भाधानोक्त-
नक्षत्रे शस्ते ज्योत्स्नाकरे निशि ॥ ९८ ॥

अब नवांगनाभोग लिखते हैं—शुभवारम्भमें और गर्भाधानमें जो
नक्षत्र कहे हैं तिनमें श्रेष्ठ चंद्रमामें तथा रात्रिके समय नवीन वधूका
प्रथमाभिभूतोग शुभ होता है ॥ ९८ ॥

अथ गीतनृत्यारंभः ।

रेवत्यामनुराधायां धनिष्ठादिद्वये करे ॥ रोहिणीयुगुले पुण्ये
ऋत्तरे गीतनर्तने ॥ ९९ ॥

अब गीतनृत्यारम्भ लिखते हैं—रेवती, अनुराधा, धनिष्ठा, शत-
भिषा, हस्त, रोहिणी, मृगशिरा, पुण्य, तीनों उत्तरा इन नक्षत्रोंमें
गाने नाचनेका आरम्भ शुभ होता है ॥ ९९ ॥

अथ नटनर्तकीकृत्यम्

मृगाद्रारोहिणीपुण्ये पुनर्भे

त्यं शृंगारजीविनाम् ॥

अब नटनर्तकी कृत्य लिखते हैं—मृगशिरा, आर्द्धा, रोहिणी, पुष्य, पुनर्वसु, अवण, धनिष्ठा, शतभिषा, चित्रा, तीनों उत्तरा, मूल इन नक्षत्रोंमें शृंगारद्वारा आजीविका करनेवाले नटनटनियोंका कृत्य शुभ होता है ॥ १०० ॥

अथ दुंदुभीमृदंगादिकरवाद्यम् ।

हस्तव्रयेनुराधांत्ये पुनर्वसुयुगेश्विभे ॥ अवव्रये मृगेऽकेहि
शुभे पूर्णाजयासु च ॥ शुभं दुंदुभिभेर्यादिकरवाद्यं समी-
रितम् ॥ १०१ ॥ पूर्वोक्तेष्वथं वंशाद्यं मुखवाद्यं समी-
रितम् ॥ १०२ ॥

अब दुंदुभी मृदंगादि करवाद्य लिखते हैं—हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, रेती, पुनर्वसु, पुष्य, अश्विनी, अवण, धनिष्ठा, शतभिषा, मृगशिर इन नक्षत्रोंमें, रवि तथा शुभ वारोंमें, पूर्णा और जया तिथिमें दुंदुभी भेरी आदि (हस्तवाद्य) हाथसे बजानेका बजा बजाना शुभ होता है और पूर्वोक्त इसी मुहूर्तमें वंशी आदि सुखवाद्यका बजानाभी शुभ होता है ॥ १०१ ॥ १०२ ॥

अथ मृगया ।

आळेपाभरणीज्येष्टापूर्वार्द्धस्वातिमूलभे ॥ विंशाखायां च
पापेहि यायादाखेटके नृपः ॥ १०३ ॥

अब मृगया लिखते हैं—आळेपा, भरणी, ज्येष्टा, तीनों पूर्वा, आर्द्धा, स्वाति, मूल, विंशाखा, इन नक्षत्रोंमें और पाप वारोंमें राजा शिकारके निमित्त जाय ॥ १०३ ॥

अथ जलयंत्रमार्गक्रिया ।

पूर्वाळेपामवामूलशतपुष्येवुचारिणि ॥ लग्ने व्यार्किङुजे
वारे जलयंत्रक्रिया शुभा ॥ १०४ ॥ वा रोहिणीतो दिनभंक्रमेण

मध्यादिरुद्रांतदिशं व्रिभिर्भैः॥ मध्येद्रपाश्युत्तररुद्रदिग्भैःशुभं
च वह्नित्रयवायुदिक्ष्वसत् ॥ १०६॥ इति ज्योतिर्विदाभरणे ॥

अब जलयंत्रमार्गक्रिया लिखते हैं—पूर्वा, आश्लेषा, मध्या, मूल,
शतभिया, पुष्य, इन नक्षत्रोंमें और जलचारी लग्नोंमें। शनि, मंगल
विना शुभ वारोंमें जलयन्त्र बनाना शुभ होता है॥ १०७॥ अथवा रोहिणीसे दिनके नक्षत्रतक गिने। क्रमसे तीन २ नक्षत्र जलयंत्रके मध्य
और पूर्वादि दिशासे लेकर ईशान दिशातक स्थापित करे जिनमें
मध्य ३, पूर्व ३, पश्चिम ३, उत्तर ३, ईशान ३, दिशाओंके तीन २
नक्षत्र जलयंत्र बनानेमें शुभ और अग्निकोणसे तीन दिशा अर्थात्
अग्निकोण, दक्षिण, नैऋत्य और वायव्य दिशाओंमें तीन २ नक्षत्र
अशुभ होते हैं ऐसा ज्योतिर्विदाभरण नामक ग्रंथमें लिखा है॥
नीचे लिखे चक्रसे स्पष्ट विदित होता है ॥ १०४॥

अथ जलयन्त्रकरणचक्रम् ।

मध्य	पूर्व	आश्लेषा	दीर्घणि	नैऋत्य	पश्चिम	वायव्य	उत्तर	ईशान	दिशानामानि
३	३	३	३	३	३	३	३	३	नक्षत्राणि
शुभ	शुभ	अशुभ	अशुभ	अशुभ	शुभ	अशुभ	शुभ	शुभ	शुभाशुभमस्तुनि

अथ वापीकूपतडागादीनामारंभः ।

अनुराधामवाहस्तरेवतीपूत्तरात्रये ॥ रोहिणीयुगुले पुष्ये
धनिष्ठाद्वितये तथा ॥ १०६॥ पूर्वपाढाभिधे चैव शुभे मासि
शुभे दिने॥ वापीकूपतडागानामारंभः कथितो द्वुधेः॥ १०७॥

अब वापी कूप तडागादिकोंका आरम्भ लिखते हैं—अनुराधा,
मध्या, हस्त, रेवती, तीनों उत्तरा, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, धनिष्ठा,
शतभिया ॥ १०८॥ पूर्वपाढा इन नक्षत्रोंमें शुभ मासमें, शुभ दिनमें
पंटितोने वावडी, कुआ, तालाब आदिका घनाना शुभ
कहा है ॥ १०७॥

अथ वृक्षलतादिरोपणमारामकृत्यम् ।

हस्तचित्रोत्तरामूलेऽनुराधारेवतीद्वये ॥ विशाखारोहिणीपु-
ष्येष्यारामोत्तिर्मृगे शुभा ॥ १०८ ॥

अब वृक्ष लतादि रोपण और वर्गीचेके कृत्य लिखते हैं—हस्त,
चित्रा उत्तरा, मूल अनुराधा, रेवती, आश्विनी, विशाखा, रोहिणी,
पुष्य, मृगशिर इन नक्षत्रोंमें वाग लगाना शुभ होता है ॥ १०८ ॥

अथ नौकाकृत्यम् ।

ज्येष्ठोभयं विशाखाद्वारोहिणीभरणीद्वयम् ॥ आश्लेषां च
विहायान्यनक्षत्रेऽकें गुरौ मृगे ॥ १०९ ॥ सल्लग्ने सत्तिथौ
नावो घट्टनं तारणं शुभम् ॥ ११० ॥

अब नौकाकृत्य लिखते हैं—ज्येष्ठा, मूल, विशाखा, आद्रा,
रोहिणी, भरणी, कृत्तिका, आश्लेषा इन नक्षत्रोंको छोड़कर अन्य
नक्षत्रोंमें और रवि, वृहस्पति वारमें भक्त तथा शुभ लग्नमें शुभ तिथिमें
नावका बनवाना तथा जलमें चलाना शुभ होता है ॥ १०९ ॥ ११० ॥

अथ सामान्यतः पशुकृत्यं रक्षा च ।

त्यक्त्वाएष्मीममां रिक्तां रोहिणीमुत्तराध्ययम् ॥ १११ ॥ चि-
त्राख्यं श्रवणं भौमं पशुनां सर्वकर्म च ॥ प्रवेशनिर्गमो
चापि न त्याज्यं निजयोनिभम् ॥ ११२ ॥

अब सामान्यतः पशुकृत्य और रक्षा लिखते हैं—एष्मी, अमा-
वास्या, रिक्ता तिथि, रोहिणी, तीनों उत्तरा ॥ १११ ॥ चित्रा, श्रवण
ये नक्षत्र तथा मंगलवार इन सबको छोड़कर पशुओंके सब कर्म
और पशुओंका प्रवेश तथा निर्गम शुभ होते हैं । परन्तु पशुकर्ममें
निजयोनिका नक्षत्र त्याज्य नहीं होता है ॥ ११२ ॥

अथोप्तमहिष्यादिकृत्यम् ।

धनिष्ठाद्वितये पूर्वापादातिर्यद्भुखोङ्गुपु ॥ अजाविमहिषो-
पूर्णां कृत्यं चाथरीशुनाम् ॥ ११३ ॥

अब उष्ट्रमहिष्यादिकृत्य लिखते हैं—धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वापादा और तिर्यङ्गसुख नक्षत्रोंमें वकरी, भेड़, भैंस, ऊँट, खच्चरी, कुत्ता इन सबका कृत्य शुभ होता है ॥ ११३ ॥

अथ मृगादिवनचारिशृंगिकृत्यम् ।

ज्येष्ठास्वात्यश्विनीपुष्ये पुनर्भेदे रोहिणीकरे ॥ उत्तरासु शुभं कृत्यं शृंगिणां वनचारिणाम् ॥ ११४ ॥

अब मृगादि वनचर और शृंगियोंके कृत्य लिखते हैं—ज्येष्ठा, स्वाती, अश्विनी, पुष्य, पुनर्वसु, रोहिणी, हस्त, तीनों उत्तरा इन नक्षत्रोंमें शृंगवाले वनचारियोंका कृत्य शुभ होता है ॥ ११४ ॥

अथ नखिकृत्यम् ।

ज्येष्ठाद्वारा रोहिणीहस्ते विशाखापुष्यमेश्विभे ॥ क्रूराहे व्याघ्र-
सुख्यानां कृत्यं नखवलीयसाम् ॥ ११५ ॥

अब नखिकृत्य लिखते हैं—ज्येष्ठा, आद्रा, रोहिणी, हस्त, विशाखा, पुष्य, धनिष्ठा, शतभिषा, अश्विनी इन नक्षत्रोंमें और क्रूर बारोंमें नखोंसे अतिवली व्याघ्रादि जीवोंका कृत्य शुभ होता है ॥ ११५ ॥

अथ पशुनां क्रयविक्रयौ ।

विशाखारेवतीपुष्ये धनिष्ठाशतभेऽश्विभे ॥ हस्ते चैवादिता-
विन्द्रे पशुनां क्रयविक्रयौ ॥ ११६ ॥

अब पशुओंका क्रयविक्रय लिखते हैं—विशाखा, रेवती, पुष्य, धनिष्ठा, शतभिषा, अश्विनी, हस्त, पुनर्वसु, ज्येष्ठा इन नक्षत्रोंमें पशु-
ओंका खरीदना, बेचना शुभ होता है ॥ ११६ ॥

अथ पक्षिकृत्यम् ।

शुभाहे सरवो तिर्यङ्गसुखे चोर्ध्वमुखेपि भे ॥ सारिकाशुक-
सुख्यानां पक्षिणां कृत्यमुत्तमम् ॥ ११७ ॥

अब पक्षिकृत्य लिखते हैं—रविवारसहित शुभवारमें और तिर्य-
द्धमुख, उर्जमुख नक्षत्रोंमें मैना, शुआ आदि पक्षियोंका कृत्य उत्तम
होता है ॥ ११७ ॥

अथ सर्ववस्तुक्रयः ।

शतताराश्विनीचित्राश्रवणस्वातिभेषु च ॥ रेवत्यां च क्रयः
श्रेष्ठो विक्रयो न कदाचन ॥ ११८ ॥

अब सर्ववस्तुक्रय लिखते हैं—शतभिपा, अश्विनी, चित्रा, श्रवण,
स्वाती, रेवती इन नक्षत्रोंमें खरीदना श्रेष्ठ होता है और बेचना
कभी श्रेष्ठ नहीं होता ॥ ११८ ॥

अथ सर्ववस्तुविक्रयः ।

विशाखाकृत्तिकाश्लेषपाभरणीपूर्विकात्रये ॥ विक्रयः सत्तिथा-
वेषु कर्त्तव्यो न क्रयः शुभः ॥ ११९ ॥

अब सर्ववस्तु विक्रय लिखते हैं—विशाखा, कृत्तिका, आश्लेषा,
भरणी, तीनों पूर्वा इन नक्षत्रोंमें और शुभ तिथिमें बेचना शुभ
होता है और खरीदना शुभ नहीं होता ॥ ११९ ॥

अथ गृहक्षेत्रादिभूमिक्रयविक्रयौ ।

जीवे शुक्रेच नंदासु पूर्णायां मूलभे मृगे ॥ पूर्वाऽश्लेषपाम-
घांत्ये च विशाखाद्वितये तथा ॥ १२० ॥ पुनर्भैं सुनिभिः
प्रोक्तं क्रयविक्रयं भुवः ॥ १२१ ॥

अब गृहक्षेत्रादिभूमिक्रयविक्रयको लिखते हैं—वृहस्पति, शुक्र
वार, नंदा और पूर्णा तिथि; मूल, मृगशिरा, तीनों पूर्वा, आश्लेषा,
मधा, रेवती, विशाखा, अनुराधा ॥ १२० ॥ पुनर्वसु इन नक्षत्रोंमें
सुनियोंने भूमि, घर, खेत आदिका बेचना शुभ कहा है ॥ १२१ ॥

अथ वाणिज्यम् ।

अनुराधोत्तरापुष्ये रेवतीरोहिणीमृगे॥ हस्तचित्राश्चिभेकुर्याद्वाणिज्यं दिवसे शुभे ॥ १२२ ॥

अब वाणिज्य लिखते हैं—अनुराधा, उत्तरा, पुष्य, रेवती, रोहिणी, मृगशिर, हस्त, चित्रा, अश्विनी इन नक्षत्रोंमें और शुभ दिनमें वाणिज्य कर्म करें ॥ १२२ ॥

अथ निधिद्रव्यादिवृद्धिसंग्रहौ ।

पुष्ये मृगेऽनुराधायां श्रवणत्रितयेऽश्चिभे ॥ पुनर्भूत्ये विशाखायां निधेवृद्धिश्च संग्रहः ॥ १२३ ॥

अब निधिद्रव्यादि वृद्धिसंग्रह लिखते हैं—पुष्य, मृगशिर, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, आश्विनी, पुनर्वसु, रेवती, विशाखा इन नक्षत्रोंमें (निधि) खजानेकी वृद्धि और संग्रह करना शुभ होता है ॥ १२३ ॥

अथ द्रव्यनिधीनां गुप्तस्थाने स्थापनम् ।

धनिष्ठोफाविशाखारब्ये पूर्वपाढाऽभिधेत्यभे ॥ रोहिण्यां च निधेभूमो स्थापनं शुभमीरितम् ॥ १२४ ॥

अब द्रव्य और निधियोंका गुप्तस्थानमें स्थापन लिखते हैं—धनिष्ठा, उत्तराफालगुनी, विशाखा, पूर्वपाढा, रेवती, रोहिणी इन नक्षत्रोंमें खजानेका पृथ्वीमें गाड़ना शुभ कहा है ॥ १२४ ॥

अथ द्रव्यप्रयोगः ।

श्रवणादित्रिभे चित्राचतुष्के रेवतीद्वये ॥ पुनर्वसुमृगे पुष्ये शुभो द्रव्यप्रयोगकः ॥ १२५ ॥ संकांतां वृद्धियोगे तु हस्तक्षेत्रं रविभूमयोः ॥ न च ग्राह्यमृणं यस्मात्तद्रंशे तत्स्थिरं भवेत् ॥ १२६ ॥ ऋणच्छेदं तथा कुर्याद्विनं देयं न वै वृथे ॥

अब द्रव्यप्रयोग लिखते हैं—श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, रेवती, आश्विनी, पुनर्वसु, मृगशिर, पुष्य इन नक्षत्रोंमें (द्रव्यका प्रयोग) क्रण देना शुभ होता है ॥ १२५ ॥ संकाति, वृद्धि योग, हस्त नक्षत्रमें, रवि मंगल वारमें क्रण नहीं लेना चाहिये क्योंकि, इनमें जो क्रण लेगा तो उसके बंशमें वह क्रण सदैव बना रहेगा नहीं और इसी पूर्वोक्त मुहूर्तमें (क्रणच्छेद) कर्जा निवटाना शुभ होता है ॥ १२६ ॥ और बुधवारमें धन नहीं देना चाहिये ॥

अथ धान्यविक्रयः ।

रोहिण्यां विक्रयोन्नस्य धनिष्ठाशतभोत्तरे ॥ १२७ ॥

अब धान्य विक्रय लिखते हैं—रोहिणी, धनिष्ठा, शतभिषा, तीनों उत्तरा इन नक्षत्रोंमें अन्नका वेचना शुभ होता है ॥ १२७ ॥

अथ रससंग्रहः ।

रससंग्रहणं श्रेष्ठं तोयारंभोदितोडुपु ॥ १२८ ॥

अब रससंग्रह लिखते हैं—जलाशयारम्भोक्त अर्थात् अनुराधा, मधा, हस्त, रेवती, तीनों उत्तरा, रोहिणी, मृगशिर, पुष्य, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वांशदा इन नक्षत्रोंमें रसका लेना शुभ होता है ॥ १२८ ॥

अथ वृद्ध्यर्थं धान्यप्रयोगः ।

विशाखारोहिणीज्येष्ठापुनर्भेष्वशतत्रये ॥ श्युत्तरे स्वातिपुष्ये
तु धान्यवृद्धिः शुभेरिता ॥ १२९ ॥

अब वृद्ध्यर्थ धान्यप्रयोग लिखते हैं—विशाखा, रोहिणी, ज्येष्ठा, पुनर्वसु, आश्विनी, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, तीनों उत्तरा, स्वाति, पुष्य इन नक्षत्रोंमें धान्यवृद्धि शुभ कही है ॥ १२९ ॥

अथ हलप्रवाहः ।

पुनर्वसुद्रये मूले श्युत्तरे रोहिणीद्रये ॥ हस्तत्रयेऽनुराधाऽ-

रेवत्यां श्रवणत्रये ॥ तिथौ वारे शुभेश्चन्यां हलप्रवहणं
शुभम् ॥ १३० ॥

अब हलप्रवाह लिखते हैं—पुनर्वसु, पुष्य, मूल, तीनों उत्तरा,
रोहिणी, मृगशिर, हस्त, चित्रा, स्वाति; अनुराधा, रेवती, श्रवण,
धनिया, शतभिषा, आश्विनी इन नक्षत्रोंमें शुभ तिथि और शुभ
वारमें हल चलाना शुभ होता है ॥ १३० ॥

अथार्कस्य भुक्तनक्षत्राळ्लचकम् ।

सूर्यस्य भुक्तनक्षत्राद्रामा ३७ष्टक ८ नवा ९ एकम् ८ ॥

अभुक्तं च शुभं ज्ञेयं हलचके क्रमेण भम् ॥ १३१ ॥

अब सूर्यका भुक्त नक्षत्रसे हलचक लिखते हैं—हलचकमें सूर्यके
भुक्त नक्षत्रसे तीन, आठ, नौ, आठ नक्षत्र क्रमसे अशुभ और
शुभ जानने ॥ १३१ ॥

अथ वीजोस्तिस्तचकं राहुनक्षत्रात् ।

हस्तत्रये मध्यापुष्यञ्चुत्तरे रोहिणीद्वये ॥ धनिष्ठारेवतीयुग्मे
तथा मूलाऽनुराधयोः ॥ १३२ ॥ शुभे वारे तिथौ श्रेष्ठा वीजो-
स्तिस्तचकं राहुभात् ॥ अष्टाश्रीं ३ दु १ त्रयं ३ चैकं १ त्रये
३ दु १ त्रि ३ चतुष्प्रयम् ४ ॥ १३३ ॥ असच्छुभं क्रमा-
ज्ञेयं दिनक्षं फणिचकगम् ॥ १३४ ॥

अब वीजोस्ति और उसके चक राहुनक्षत्रसे लिखते हैं—हस्त,
चित्रा, स्वाति, मध्या, पुष्य, तीनों उत्तरा, रोहिणी, मृगशिर, धनिया,
रेवती, आश्विनी मूल, अनुराधा इन ॥ १३२ ॥ नक्षत्रोंमें शुभवार
और शुभतिथिमें वीज घोना शुभ होता है और राहुके नक्षत्रसे
दिनके नक्षत्र तक गिनै आठ ८, तीन, ३ एक १, तीन ३, एक १,
तीन ३, एक १, तीन ३, चार ४, ये नक्षत्र क्रमसे अशुभ और शुभ
जानने इसका नाम फणिचक है जैसा कि, चकमें लिखा है ॥ १३४ ॥

राहुभाद्रीजोत्तिंचक्रम् ।

८	३	१	३	१	३	१	३	४	नक्षत्राणि
अशुभ	शुभ	अशुभ	शुभ	अशुभ	शुभ	अशुभ	शुभ	अशुभ	फलानि

अथ सस्यारोपणम् ।

हस्तत्रयोत्तरामूले धनिष्ठारोहिणीमृगे ॥ पुष्येश्वन्यऽनुराधायां मधायां शुभवासरे ॥ १३५ ॥ त्यक्त्वा रिक्तां शनिं भौमं सस्यस्यांकुररोपणम् ॥ १३६ ॥

अब सस्यारोपण लिखते हैं—हस्त, चित्रा, स्वाति, तीनों उत्तरा, मूल, धनिष्ठा, रोहिणी, मृगशिर, पुष्य, अश्विनी, अनुराधा, मधा इन नक्षत्रोंमें और शुभ वारोंमें ॥१३५॥ खेती फलादिक पोद लगाना शुभ होता है परन्तु रिक्ता तिथि शनि, मंगल वारको त्याग देय ॥१३६॥

अथ सस्यवृक्षलतादीनां वापनं जलेन सेचनं च ।

सस्यारोपोदिते काले हित्वा ज्ञाऽर्कमधां करम् ॥ वृक्षसस्य-लतादीनां प्रशस्तं जलसेचनम् ॥ १३७ ॥

अब सस्यवृक्षलतादियोंका वपन और जलसे सेचनको लिखते हैं—वृुध, रविवार, मधा, हस्त नक्षत्र इनको छोड़कर सस्यारोपणोक्त नक्षत्रोंमें सस्य वृक्ष लता आदिका बोना जलसे सींचना शुभ होता है ॥ ३७ ॥

अथ धान्यच्छेदः ।

पूर्वोऽत्तरामधाल्लेपाज्येषाद्र्वाथ्रवणद्वये ॥ भरणीद्वितये मूले मृगे पुष्ये करवये ॥१३८॥ धान्यच्छेदः शुभो रिक्तां हित्वा भौमशनैश्वरौ ॥ १३९ ॥

अब धान्यच्छेदन लिखते हैं—तीनों पूर्वा, उत्तरा, मधा, आश्लेषा, ज्येष्ठा, आद्रा, थ्रवण, धनिष्ठा, भरणी, कृत्तिका, मूल, मृगशिर,

पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाती इन्हें नक्षत्रोंमें ॥ १३८ ॥ रिक्तावर्जित तिथिमें और मंगल, शनैश्चर वर्जित वारोंमें धान्य काटना शुभ होताहै ॥ १३९ ॥

अथ कणमर्दनम् ।

अनुराधाश्रवोमूले रेवत्यां च मधात्रिभे ॥ ज्येष्ठायां चैव रोहिण्यां शुभं स्यात्कणमर्दनम् ॥ १४० ॥

अब कणमर्दन लिखतेहैं—अनुराधा, श्रवण, मूल, रेवती, मधा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, ज्येष्ठा, रोहिणी इन नक्षत्रोंमें (कण-मर्दन) दाँय चलाना, गाहना शुभ होताहै ॥ १४० ॥

अथ धान्यानयनं फलपुष्पोत्तारणं च ।

रोपणोदितनक्षत्रे वासरे मंदभौमयोः ॥ अन्नस्यानयनं पुष्प-फलाद्युत्तारणं च सत् ॥ १४१ ॥

अब धान्यानयन और फलपुष्पोत्तारण लिखतेहैं—सस्यारोपणोक्त अर्थात्—हस्त, चित्रा, स्वाती, तीनों उत्तरा, मूल, धनिष्ठा, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, अश्विनी, अनुराधा, मधा इन नक्षत्रोंमें शनि, मंगल वारोंमें अन्नका लाना और फलपुष्पादिकोंका उतारना शुभ होताहै ॥ १४१ ॥

अथ सूपाद्यन्नादिपाकक्रिया ।

मूलचित्रानुराधासु विशाखाकृत्तिकामृगे ॥ उत्तरारोहिणी-ज्येष्ठारेवतीपु पचिक्रिया ॥ १४२ ॥ त्यक्त्वा ह्यंबुचरं लग्नं पक्षरंभतिथि शनिम् ॥ १४३ ॥

अब सूपान्नादि पाकक्रिया लिखतेहैं—मूल, चित्रा, अनुराधा, विशाखा, कृत्तिका, मृगशिर, उत्तरा तीनों; रोहिणी, ज्येष्ठा, रेवती इन नक्षत्रोंमें दाल, भात, अन्नादि पकानेकी क्रिया शुभ होतीहै ॥ १४२ ॥ परन्तु जलचर लग्न, पक्षरंभ तिथि, शनिवारको छोड़देना चाहिये ॥ १४३ ॥

अथ नवान्नविधिर्नवान्नप्राशनं फलमूलाशनं च ।

हस्तचित्रानुराधांत्ये रोहिणीश्रवणद्वये ॥ मृगाश्चिन्युत्तरा-
स्वके शुभे वारे तिथावपि ॥ नवान्नस्य विधानं । च प्राशनं
फलमूलयोः ॥ १४४ ॥

अब नवान्नविधि नवान्नप्राशन और फलमूल प्राशन लिखते हैं—
हस्त, चित्रा, रेवती, रोहिणी, श्रवण, धनिष्ठा, मृगशिर, अश्विनी,
तीनों उत्तरा, इन नक्षत्रोंमें रविवार शुभवारमें; शुभ तिथिमें नवीन
अन्नकी विधि, नवीन अन्नका प्राशन तथा फलमूलका भोजन शुभ
होता है ॥ १४४ ॥

अथ कोष्ठादौ धान्यस्थितिः ।

पुनर्भे मृगशीर्पेन्त्येऽनुराधाश्रवणवये ॥ हस्तत्रयेऽश्विनी-
पुष्ये रोहिण्यामुत्तरात्रये ॥ १४५ ॥ गुरो शुक्रे रवींद्रोः स-
त्कोष्ठादौ धान्यरक्षणम् ॥ १४६ ॥

अब कोष्ठादियोंमें धान्यस्थिति लिखते हैं—पुनर्वसु, मृगशीर्प, रेवती,
अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, हस्त, चित्रा, स्वाति, अश्विनी,
पुष्य, रोहिणी, तीनों उत्तरा इन नक्षत्रोंमें ॥ १४५ ॥ बृहस्पति,
शुक्र, रवि, चंद्र वारोंमें कोठे आदि स्थानोंमें धान्यका भरना शुभ
होता है ॥ १४६ ॥

अथ वीजसंग्रहः ।

हस्तत्रये पुनर्वस्वो रोहिण्यां श्रवणद्वये ॥ स्थिरलग्ने शुभे
वारे विचंद्रे वीजसंग्रहः ॥ १४७ ॥

अब वीजसंग्रह लिखते हैं—हस्त, चित्रा, स्वाति, पुनर्वसु, रोहिणी;
श्रवण, धनिष्ठा इन नक्षत्रोंमें; स्थिरलग्नमें और चंद्र विना शुभवारमें
वीज इकट्ठा करना शुभ होता है ॥ १४७ ॥

अथ तृणरज्जुभिर्धन्यवंधनम् ।

स्वातो मूले च हस्तेत्ये भाद्रपादाद्वये मृगे ॥ रोहिण्यां
काशकोष्ठांतर्धान्यसंरक्षणं शुभम् ॥ १४८ ॥

अब तृणरज्जुओं करके धान्यवंधन लिखते हैं—मूल, हस्त, रेवती,
पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, पूर्वापादा, उत्तरापादा, मृगशिर, रोहिणी
इन नक्षत्रोंमें काश मूँज आदिकी रस्सियोंमें धान्यके पूले वाँधना
रक्षा करना शुभ होता है ॥ १४८ ॥

अथ धर्मक्रिया ।

रेवतीद्वितये हस्तवितये रोहिणीद्वये ॥ श्रवस्त्रयोत्तरापुष्ये
पुनर्वस्वनुराधयोः ॥ १४९ ॥ ज्ञेज्यशुक्रेंदुसूर्येषु ज्ञेज्यपृथ्वे-
र्गशालिनि ॥ लग्ने जीवयुते जीवे बलिष्टे धर्ममाचरेत् १५० ॥

अब धर्मक्रिया लिखते हैं—रेवती, अश्विनी, हस्त, चित्रा, स्वाति,
रोहिणी, मृगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, तीनों उत्तरा, पुष्य,
पुनर्वसु, अनुराधा ॥ १४९ ॥ इन नक्षत्रोंमें वुध, वृहस्पति, शुक्र,
चंद्र, रवि इन वारोंमें; वुध और वृहस्पतिके पड़गमें वर्तमान जो
लघ सो वृहस्पतिसे युक्त होय तथा वृहस्पति बलिष्ट होय तो धर्म
कर्म करै ॥ १५० ॥

अथ शांतिकपौष्टिककर्म ।

पुनर्वसुद्वये स्वातो त्र्युत्तरे श्रवणव्यये ॥ रेवतीद्वितीये हस्तेऽ-
नुराधारोहिणीद्वये ॥ शांतिकं पौष्टिकं कर्म पुण्याहे कीर्तिंतं
वुधैः ॥ १५१ ॥

अब शांतिक और पौष्टिक कर्म लिखते हैं—पुनर्वसु, पुष्य, स्वाति,
तीनों उत्तरा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती, अश्विनी, अनुराधा,
ज्येष्ठा, रोहिणी, मृगशिरा इन नक्षत्रोंमें और पुण्य दिनमें शान्तिक
तथा पौष्टिक कर्म करना पण्डितोंने कहा है ॥ १५१ ॥

अथ होमादौ खेटाहुतिफलं सूर्यनक्षत्रात् ।

रवौ शु वृथे दि भूगौ ९ मन्दे १२ चन्द्रे १५ भौमे १८
गुरा २१ वगौ २४ ॥ केतौ २७ च सूर्यभाज्ञेयं प्रत्येकं
भवत्यं क्रमात् ॥ होमाहुतिः खलेऽनिष्टा शुभदा शुभ-
खेचरे ॥ १५२ ॥

अब सूर्यनक्षत्रसे ग्रहोंके भागमें होमाहुतिका फल लिखतेहैं—
सूर्यके नक्षत्रसे दिनके नक्षत्र गिने क्रमसे प्रत्येक ग्रहके तीन २
नक्षत्र जानने यथा प्रथम तीन सूर्यके, फिर तीन वृथके, तीन
शुक्रके, तीन शनैश्चरके, तीन चंद्रमाके, तीन मंगलके, तीन वृह-
स्पतिके, तीन राहुके, तीन केतुके इस प्रकार नौ ग्रहोंके सत्ताङ्गस
नक्षत्रोंका विभाग कहाहै. होमकी आहुती पापग्रहोंके नक्षत्रोंमें अशुभ
और शुभ ग्रहके नक्षत्रोंमें शुभदायिनी होतीहै ॥ १५२ ॥

अथ हवने प्रहाणां नक्षत्रचक्रम् ॥

सूर्य	वु	शु	श	चं	मं	वृ	रा	फे	ग्र.
३	३	३	३	३	३	३	३	३	नक्षत्रा.
अशुभ	शु	शु	अशुभ	शुभ	अशुभ	शुभ	अशुभ	अशुभ	फलम्

. अथ होमादौ वह्निवासफलम् ।

तिथिवारयुतिं सेकां चतुर्भिर्भाजयेदिमाम् ॥ शेषेऽध्रे० च
गुणे ३ भूमौ वह्निहोमे शुभप्रदः ॥ नेष्ठः स्वर्गं त्वेकशेषे
द्विशेषेऽधोप्यनिष्टकृत् ॥ १५३ ॥

अब होमादिमें अग्निवासफल लिखतेहैं—शुक्लप्रतिपदासे लेकर गत
तिथियोंमें बार जोड़कर एक १ और मिलावे उसमें चारका भाग
देय शेष तीन वा शून्य बचे तो अग्निका निवास पृथ्वीपर जानना
जिसका फल शुभदायक है और जो एक १ शेष बचे तो अग्निका

(१३२)

मुहूर्तगणपतिः— [नवाम्बरालङ्घारथा०—

निवास स्वर्गमें जिसका फल अशुभ और दो शेष वचै तो अग्निका
निवास पातालमें इसका फल अशुभ जानना ॥ १५३ ॥

अथ मंत्रादिदीक्षा ।

रोहिण्यां श्युत्तरे मौंजीवंधनोदितभादिषु ॥ मंत्रदीक्षाशुभे
चाहि ग्रहणेप्यागमोदिता ॥ १५४ ॥

अब मंत्रादिदीक्षा लिखतेहैं—रोहिणी, तीनों उत्तरा और (मौंजी
वंधन) यज्ञोपवीतोक्त नक्षत्रोंमें शुभदिन तथा ग्रहणमें मंत्रदीक्षा
लेनी शास्त्रमें शुभ कहीहै ॥ १५४ ॥

अथ दीक्षाकुण्डलीयं वृहन्नरपतौ ।

पट्टद्वेकादशमोदितो दिनकरस्त्रिव्यायपष्ठे शशी लग्नात्सौ-
म्यकुजों शुभाबुपचये केंद्रत्रिकोणे गुरुः ॥ शुक्रः पट्टविन-
वांत्यगोष्टमसुत्तद्वेकादशे सूरजो लग्नांशादिगुरुज्ञचंद्रमहसां
सौरेश्व दीक्षाविधौ ॥ १५५ ॥

अब दीक्षाकुण्डली वृहन्नरपतिमेंसे लिखतेहैं—मंत्रदीक्षाकी लम्से
छठे, दूसरे, ग्यारहवें सूर्य स्थित होय; तीसरे, दूसरे, ग्यारहवें,
चौथे, चंद्रमा होय; बुध और मंगल (उपचय) तीसरे, छठे, दशवें,
ग्यारहवें होय; वृहस्पति केंद्र १ । ४ । ७ । १० त्रिकोण ९ । ५ वें होय,
शुक्र छठे, तीसरे, नौवें, बारहवें होय; शनैश्चर आठवें, पांचवें;
दूसरे ग्यारहवें होय; वृहस्पति, बुध, चंद्रमा, शनैश्चरकी लम्स तथा
नवांशादिक होय तो मंत्रदीक्षा लेनी शुभ होतीहै ॥ १५५ ॥

अथ मंत्रग्रहणचक्रम् ।

सेनक्षादव्यरीन्द्रात्यप्येकविंशतिभानि वै ४ । ६ । १४
१७ । २१ ॥ त्रिवनक्ष २७ च शस्तानि मन्त्रग्रहणचक्रके १५६ ॥

अब मंत्रग्रहणचक्र लिखतेहैं—सूर्यके नक्षत्रसे दिनके नक्षत्रतक
गिनें चौथा ४, छठा ६, चौदहवाँ १४, सत्रहवाँ १७, इक्कीसवाँ २१,
सत्रार्द्दसवाँ २७ नक्षत्र मंत्रग्रहण चक्रमें शुभ होताहै ॥ १५६ ॥

अथ मंत्रयंत्रव्रतोपवासादि ।

उफाहस्ताश्विनीकर्णविशाखामृगभेहनि ॥ शुभे सूर्ययुते
शस्तं मंत्रयंत्रव्रतादिकम् ॥ १५७ ॥

अब मंत्र, यंत्र, व्रतोपवासादि लिखते हैं—उत्तराफालगुनी, हस्त,
अश्विनी, श्रवण, विशाखा, मृगशिरा इन नक्षत्रोंमें; रविसहित शुभ
चारोंमें; मंत्र, यंत्र, व्रतादिक धारण करना शुभ होता है ॥ १५७ ॥

अथ वीरसाधनम् ।

मधार्द्वभरणीमूले मृगेंगे सबुधे घटे ॥ शुद्धेऽष्टमे भृगौ तुयें
वीरवेतालसाधनम् ॥ १५८ ॥

अब वीरसाधन लिखते हैं—मधा, आर्द्वा, भरणी, मूल, मृगशिरा
इन नक्षत्रोंमें और बुधयुक्त कुंभ लग्न होय, आठवाँ स्थान शुद्ध होय,
शुक्र चौथे घरमें होय तो वीरवेताल साधन करना शुभ होता है ॥ १५८ ॥

अथौपधकरणं तत्सेवनं च ।

हस्तव्रयेऽनुराधायां मूले पुष्ये श्रवस्त्रये ॥ मृगभे रेवतीयुग्मे
पुनर्वस्वोर्विजन्मभे ॥ १५९ ॥ ज्येष्ठशुक्रेज्यसूर्याणां वासरे
सत्तिथावपि ॥ द्विःस्वभावे शुभे लग्ने शुद्धे धूनमृतिव्यये ॥
भैषज्यं शुभदं प्रोक्तं योग एषां तु पुष्टि दे ॥ १६० ॥

अब औपध करण और सेवन लिखते हैं—हस्त, चित्रा, स्वाति,
अनुराधा, मूल, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, मृगशिरा, रेवती,
अश्विनी, पुनर्वसु इन नक्षत्रोंमें ॥ १५९ ॥ बुध, चंद्र, शुक्र, वृहस्पति,
रवि इन चारोंमें; शुभ तिथिमें; द्विस्वभाव लग्नमें वा शुभ लग्नमें और
लग्न, सातवाँ, आठवाँ, वारहवाँ स्थान शुद्ध होय तथा जन्मनक्षत्र
नहीं होय तथा पुष्टिदायक योग होय तो औपध वनाना, सेवन करना
शुभदायक होता है ॥ १६० ॥

अथ रसोत्पादनम् ।

विशाखाकृत्तिकामूले धनिष्ठाश्विकरे मृगे ॥ ज्येष्ठायासुद्रभे
सीम्यवासरेषु रसक्रिया ॥ १६१ ॥

अब रसोत्पादन लिखते हैं—विशाखा, कृत्तिका, मूल, धनिष्ठा-
अश्विनी, हस्त, मृगशिरा, ज्येष्ठा, आर्द्धा इन नक्षत्रोंमें शुभः
वारोंमें रसक्रिया शुभ होतीहै ॥ १६१ ॥

अथ रससेवनम् ।

हस्तवयेऽश्विनीपुष्येऽनुराधांत्ये अवस्थये ॥ अदितौ मृगशी-
पेंके भौमेज्ये रसभक्षणम् ॥ १६२ ॥

अब रससेवन लिखते हैं—हस्त, चित्रा, स्वाति, अश्विनी, पुष्य,
अनुराधा, रेती, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पुनर्वसु, मृगशीर्ष
इन नक्षत्रोंमें और रवि, मंगल, वृहस्पति इन वारोंमें रसका सेवन
शुभ होता है ॥ १६२ ॥

अथ वातरोगादौ तैलोपवेशनम् ।

हित्वाल्लेपामधामूलं द्रीशाद्र्वभरणीद्रयम् ॥ मंदेवजे ज्ञे स्थि-
तिस्तेले तृतीयादिविके तिथौ ॥ १६३ ॥

अब वातरोगादिमें तैलोपवेशन लिखते हैं—आश्लेषा, मधा,
मूल, विशाखा, आर्द्धा, भरणी, कृत्तिका इन नक्षत्रोंको छोड़कर शेष
अन्य नक्षत्रोंमें; शनि, चंद्र, मुध इन वारोंमें; तीज, चौथ, पंचमी;
तिथियाँ तैलमें वैठना शुभ होताहै ॥ १६३ ॥

अथ रक्तमोक्षणं विरेकवमनं च ।

हस्तवयेऽश्विनीपुष्ये शतभे रोहिणीद्रये ॥ श्रवणे चानुरा-
धायां ज्येष्ठायां रक्तमोक्षणम् ॥ १६४ ॥ गुरुभौमार्कवारेषु
कायं शुभतिथौ तथा ॥ विरेको वमनं शुक्रे चंद्रे चैवोत्त-
भादिषु ॥ १६५ ॥

अब रक्तमोक्षण और विरेक तथा वमन लिखते हैं—हस्त, चित्रा, स्वाति, अश्विनी, पुष्य, शतभिषा, रोहिणी, मूरगशिर, श्रवण, अनुराधा, ज्येष्ठा इन नक्षत्रोंमें रुधिर छुड़ाना अर्थात् फस्त खुलवाना शुभ होता है ॥ १६४ ॥ और इन्हीं उक्त नक्षत्रोंमें वृहस्पति, मंगल, रवि वारोंमें; शुभ तिथिमें (विरेक) जुलाव लेना शुभ होता है और उन्हीं उक्त नक्षत्रादिकोंमें तथा चंद्र, शुक्र वारमें (वमन) कराना शुभ होता है ॥ १६५ ॥

अथ तस्त्वलोहदाहः ।

पाशिचित्राश्विनीमूले विशाखाकृत्तिकेशमे ॥ ज्येष्ठाऽहिमे
कुजेऽकेंगे क्रूरे लोहाग्निभैपजम् ॥ १६६ ॥

अब तस्त्वलोहदाह लिखते हैं—शतभिषा, चित्रा, अश्विनी, मूल, विशाखा, कृत्तिका, आर्द्रा, ज्येष्ठा, आश्लेषा इन नक्षत्रोंमें; मंगल तथा रविवारमें, क्रूर लग्नमें तस्त्वलोहेसे दाग देनेकी औपचि शुभ होती है ॥ १६६ ॥

अथ धनसंग्रहः ।

त्रह्नानलार्कमघमूलशिवत्रिपूर्वापौष्णानुराघगुरुविष्णुविशा-
खयुक्ते ॥ वारे कुजार्कभृगुनंदनसोमजानामित्यं शुभं
धनचयय्रहणं नराणाम् ॥ १६७ ॥ एवमुक्तकेषु पूर्वाभाद्ररेव-
त्योर्धनिष्ठादिपंचकेषु संग्रहः कार्यः ।

अब धनसंग्रह लिखते हैं—रोहिणी, कृत्तिका, हस्त, मधा, मूल, आर्द्रा, तीनों पूर्वा, रेतती, अनुराधा, पुष्य, श्रवण, विशाखा इन नक्षत्रोंमें मंगल, रवि, शुक्र, वृध इन वारोंमें मनुष्योंको धनसंग्रह करना शुभ होता है. इसीप्रकार उक्त नक्षत्रोंमें तथा पूर्वाभाद्रपद, रेतती, धनिष्ठादि पांच नक्षत्रोंमें धनका संग्रह करना चाहिये ॥ १६७ ॥

(१३६).

मुहूर्तगणपतिः— [नवाम्बरालङ्घारथा०—

अथ रोगोत्पत्तौ नक्षत्रवशात्पीडादिनसंख्या ।

अश्विनीकृत्तिकामूले ज्वरात्तो नववासराः ॥ रोहिण्यामुक्त-
राभाद्रे पुनर्वस्वोश्च पुष्प्यभे ॥ १६८ ॥ उफायां वासराः सप्त
७ मघायां विंशतिस्तथा ॥ शतभे मरणीचित्राश्रवे चैकादश
११ स्मृताः ॥ १६९ ॥ धनिष्ठायां विशाखायां हस्तभे पक्ष
१६ एव च ॥ मासं मृगोत्तगपाढे ३० कृच्छ्रादंत्यातुराध
योः ॥ पीडां भुक्त्वा दिनैरुक्तैः सुखीस्यात्तदनंतरम् ॥ १७० ॥

अब रोगोत्पत्तिमें नक्षत्रवशसे पीडाकी दिनसंख्या लिखते हैं—
अश्विनी, कृत्तिका, मूल नक्षत्रमें ज्वरसे पीडित होय तो ९ नौ
दिन. रोहिणी, उत्तराभाद्रपद, पुनर्वसु, पुष्प्य ॥ १६८ ॥ उत्तराफालगुनी
इन नक्षत्रोंमें ज्वर आवे तो ७ सात दिन. मघामें ज्वर आवे तो
२० वीस दिन. शतभिषा, भरणी, चित्रा, श्रवण इनमें ज्वर
आवे तो ११ ग्यारह दिन ॥ १६९ ॥ धनिष्ठा, विशाखा, हस्त इन
नक्षत्रोंमें ज्वर आवे तो १५ पंद्रह दिन. मृगशिर, उत्तराषाढामें
ज्वर आवे तो १ एकमास, रेवती, अनुराधा नक्षत्रोंमें ज्वर आवे
तो बहुतदिन पीडा भोगकर सुखी होता है ॥ १७० ॥

अथ रोगोत्पत्तौ अशुभफलम् ।

पूर्वाऽत्रये तथाऽश्लेषाज्येष्टाद्र्गस्वातिभेष्वपि ॥ रोगोत्पत्ति-
भवेद्यस्य मरणं तस्य निश्चितम् ॥ १७१ ॥

अब रोगोत्पत्तिमें अशुभफल लिखते हैं—तीनों पूर्वा, आश्लेषा,
ज्येष्ठा, आद्रा, स्वाति इन नक्षत्रोंमें जिस मनुष्यको रोगोत्पत्ति होय
उसका निश्चय मरण होता है ॥ १७१ ॥

अथ रोगोत्पत्तौ अनिष्टयोगः ।

आश्लेषाभरणीमूले स्वातीपूर्वाद्रिभे तथा ॥ शतभे पापवारे

च प्रतिपद्मादशीदिने ॥ १७२ ॥ चतुर्दश्यां तथाष्टम्यां पूर्णि-
मायां ज्वरोदयः ॥ स नरो मृत्युमाप्नोति स्वर्वेद्येनापि
रक्षितः ॥ १७३ ॥

अब रोगोत्पत्तिमें अनिष्टयोग लिखते हैं—आश्लेषा, भरणी, मूल,
स्वाती, तीनोंपूर्वा आर्द्रा, शतभिषा इन नक्षत्रोंमें; पापचारमें; प्रति-
पदा, द्वादशी ॥१७२॥ चतुर्दशी, अष्टमी, पौर्णमासी इन तिथियोंमें
यदि मनुष्यको ज्वर आवै तो (स्वर्वेद्य) अश्विनीकमारभी उसकी
रक्षा करें तो भी न बचे मृत्युको ग्रास होय ॥ १७३ ॥

अथ रोगाद्युपद्रवे सति दोपज्ञानं प्रश्नलग्नात् ।

मेपे तु पित्तदोपः स्यादुण्णः शोथो विवर्णता ॥ वृपे खदे-
वताभूतो दुःस्वप्नो नेत्ररुग्ज्वरः ॥ १७४ ॥ महामायाभवोदोपो
द्विंदे वेलानिलज्वरः ॥ कर्कटे शाकिनीदोपो मौनं हास्यं च
रोदनम् ॥ १७५ ॥ सिंहे प्रेतजदोपस्तु वैमनस्यं हिमज्वरः ॥
कन्यायां खेदजो दोपो व्यथा क्रोधोरुचिर्भवेत् ॥ १७६ ॥
तुलायां क्षेत्रपालस्य दोपः संततपीडनम् ॥ नागदोपोऽ-
लिभे दाहो देहेस्मिन्द्विद्विनाशनम् ॥ १७७ ॥ दोपो
धनुषि देहोत्थः शोकोदर्यरुजां ज्वरः ॥ शंपादोपो मृगे
देहभंगोत्रानिलजो ज्वरः ॥ १७८ ॥ दुष्टप्रेतभवो दोपो
देहपीडा घटे भवेत् ॥ दोपो मीने तु योगिन्या ज्वरो
मानसविभ्रमः ॥ तछम्भे तत्र चंद्रे वा ज्येयं फलमुदा-
ह्तम् ॥ १७९ ॥

अब रोगादि उपद्रवमें दोपज्ञानप्रश्नलग्नसे लिखते हैं—यदि रोगीके
विषयमें मेपलग्नमें प्रश्न करे तो पित्तका दोप होता है और
गरमीः सूजनः विवर्णता होती है. वृप लग्नमें प्रश्न करे तो आकाश-
देवता वा भूतका दोप होता है, दुःखम्, नेत्रोंमें पीडा तथा ज्वर

होय ॥ १७४ ॥ मिथुन लग्नमें पूछे तो महामायादेवीका दोष होता है (वैला) समयपर बात ज्वर होय. कर्क लग्नमें पूछे तो शाकिनीका दोष होता है; मौन, हास्य, रोदनकी चेष्टा होय ॥ १७५ ॥ सिंहलग्नमें प्रश्न करै तो रोगीके शरीरमें प्रेतका कियाहुआ दोष होता है—(वैमनस्य) उदासीनता, शीतज्वर होय, यह लक्षण होता है; कन्यालग्नमें प्रश्न करै तो अहका कियाहुआ दोष होता है; व्यथा, क्रोध, अरुचि ये लक्षण होय ॥ १७६ ॥ तुलालग्नमें प्रश्न करै तो क्षेत्रपालका दोष होता है, निरन्तर पीड़ा होय. बृश्चिकलग्नमें प्रश्न करै तो (नाग), सर्पका दोष होता है, देहमें दाह होय, बुद्धिका नाश होय ॥ १७७ ॥ धनुलग्नमें पूछे तो देहोत्पन्न दोष होता है, शोक, उदररोगकृत ज्वर होय. मकरलग्नमें प्रश्न करै तो शाकिनीका दोष होता है, देहभंग होय, बातज्वर होय ॥ १७८ ॥ कुंभलग्नमें प्रश्न करै तो दुष्ट प्रेतका किया दोष होता है, देहमें पीड़ा होय. भीनलग्नमें पूछे तो योगिनीका दोष होता है, ज्वर, मनमें ऋम यह लक्षण होय इन पूर्वोक्त लग्नोंमें चंद्रमा होय तो यह कथित फल सत्य होता है ऐसा जानलेना ॥ १७९ ॥

अथ प्रश्नलघ्ने ग्रहवशादोषज्ञानम् ।

क्षेवपालभवो दोपो लघ्नेत्ये चाएमे ख्वौ १।१२।८ ॥
 लग्नारिनिवनांत्ये १।८।८।१२।८जे दोपो देवीसमुद्द्रवः ॥ १८० ॥ शाकिन्या दूषणं भौमे द्वादशैकादशे तथा १२।१। ॥ सप्तमे ७ द्वादशे १२ सौम्ये वनदेवीसमुद्द्रवः ॥ १८१ ॥ देवदोपस्तु जामित्रे ७ रिष्फे १२ चित्र शिखंडिजे ॥ अंत्ये १२ वा सप्तमे ७ शुक्रे दोपो भूदे-वतोद्द्रवः ॥ १८२ ॥ वातामयस्तु शारीरो रिष्फ १२ जामित्रे शनौ ७। सिंहिकानन्दने रिष्फे १२ सप्तमे ७प्रेत-

संभवः ॥ १८३ ॥ लग्नाद्वयरिधर्मात्ये शादा११२ पापैः
खेटैः स्वके कुले ॥ विपश्चाद्वैर्जले मृत्युभीयुपां दोप ईरितः
॥ १८४ ॥ सूर्ये हालहलैमौमे शाद्वैर्मदे जलोर्मिभिः ॥
राहौ रोगैर्मृतानां स्युदोषा आयान्तिमस्थिते ॥ १८५ ॥
दशमस्थे बुधे मार्गे देव्याः प्रेतभवो गुरो ॥ शुक्रे दोपस्तु
देवोत्थः पापे दुःशाकिनीभवः ॥ १८६ ॥ स्वर्णे स्वगोत्रतो
दोषो मित्रक्षें स्वजनोद्गवः ॥ वैरभे शत्रुजो दोपः समे
त्वन्यकुलोद्गवः ॥ १८७ ॥

अब प्रश्न लग्नमें ग्रहवशसे दोप ज्ञान लिखतेहैं—लग्न, वारहवें,
आठवें स्थानमें सूर्य होय तो क्षेत्रपालका दोप होताहै । लग्नमें,
छठे, आठवें, वारहवें स्थानमें चंद्रमा होय तो आकाशदेवीका दोप
होताहै ॥ १८० ॥ वारहवें, ग्यारहवें मंगल होय तो शाकिनीका दूषण
होताहै । सातवें, वारहवें, स्थानमें बुध होय तो वनदेवीका दोप होताहै
॥ १८१ ॥ सातवें, वारहवें घरमें वृहस्पति होय तो देवदोप होताहै ।
वारहवें, सातवें स्थानमें शुक्र होय तो पृथ्वीसंवंधी देवताका दोप
होताहै ॥ १८२ ॥ वारहवें, सातवें शनैश्चर होय तो शरीरमें वातका
रोग होताहै । वारहवें, सातवें राहु होय तो प्रेतका दोप होताहै ॥ १८३ ॥
लग्नसे तीसरे, छठे, नौवें, वारहवें पापग्रह होयें तो अपने कुलमें
जो मनुष्य विषसे, शख्ससे तथा जलमें ढूककर मरेहैं उनका दोप
है ऐसा वतावै ॥ १८४ ॥ यदि आपोक्तिम् ३ । ६ । ९ । १२ वें
स्थानमें सूर्य स्थित होय तो (हालहल) विषसे मरेहुएका दोप
जानना । उक्त स्थानोंमें मंगल होय तो शख्ससे मरेहुओंका दोप
जानना और शनैश्चर होय तो जलमें ढूकेहुओंका दोप जानना
राहु होय तो रोगसे मरेहुओंका दोप जानना ॥ १८५ ॥ दशवें
स्थानमें बुध स्थित होय तो मार्गदेवीका दोप, दशवें घरमें वृहस्पति
होय तो प्रेतका दोप, शुक्र होय तो देवका दोप, पापग्रह होयें

दुष्टशाकिनीका दोष ॥ १८६ ॥ यदि पापग्रह अपनी राशिके होय तो अपने गोत्रके प्रेतका दोष और मित्रकी राशिका होय तो अपने घरके मरेहुए जनका दोष, शत्रुकी राशिका होय तो शत्रुका दोष. सभ राशिका होय तो अन्य कुलके मृतक मनुष्यका दोष होताहै ॥ १८७ ॥

अथ रव्यादिषु वलिष्ठेषु वासरेषु वा दोषः ।

कुटृपिसंभवः सूर्ये पितृदोषो निशाकरे ॥ मंगले शाकिनी-
दोषो व्योमदेवीभवो बुधे ॥ १८८ ॥ गोत्रदेवीभवो जीवे जलदे-
व्यास्तु भार्गवे ॥ प्रेतपीडा शनौ सर्वं शांत्या शांतिमुपैति
तत् ॥ १८९ ॥ साध्या दोषाः स्वकीयक्षेण स्वोच्च चंद्रे वला-
न्विते ॥ असाध्या विवले नीचस्थिते शत्रुगृहं गते ॥ १९० ॥
साध्याः सौम्यग्रहैदोषाः वलिभिः केंद्रसंस्थितैः ॥ अ-
साध्याः स्वेच्छरैः पापैः केंद्रगैर्वलशालिभिः ॥ १९१ ॥ यदोपः
पूजनं तस्य कुर्यात्तदोपशांतये ॥ जलदेव्या जले व्योम-
देव्या व्योम्नि वलिं त्यजेत् ॥ १९२ ॥ शाकिनीडाकिनी-
भूतदोषे तत्त्वरे तथा ॥ तदुद्देशेन हृष्टोपे चत्वरे धारये-
द्वलिम् ॥ १९३ ॥ गोत्रदेव्युद्धवो दोषो कुलदेवीं प्रपूजयेत् ॥
पितृदोषे तु कर्त्तव्यो नारायणवलेविधिः ॥ प्रेतश्राद्धं त्रिपिं-
डाख्यं विष्णोस्तर्पणमेव च ॥ १९४ ॥ इति दोपज्ञानम् ।

अब रव्यादिकोंके वलिष्ठ होनेसे वार दोष लिखतेहैं—यदि प्रश्न
कुंडलीमें सर्य वलवान् होय तो कुटृपिका होप होताहै अर्थात्
नजर लगाहै ऐसा कहे, चंद्रमा वलवान् होय तो पितृदोष, मंगल
वलवान् होय तो शाकिनीदोष, बुध वलवान् होय तो आकाशदेवी
का दोष ॥ १८८ ॥ वृहस्पति वलवान् होय तो गोत्रदेवीका दोष,
शुक्र वलवान् होय तो जलदेवीका दोष, शनेश्वर वलवान् होय तो

प्रेतका दोष होताहै, शान्ति करनेसे यह सब दोष शान्त होजाते हैं॥ १८९॥ यदि चंद्रमा अपनी राशिका होय अथवा उच्चका वलवान् होय तो सब दोष साध्य होते हैं और चंद्रमा निर्वल और नीचका होय अथवा शत्रुके घरका होय तो सब दोष असाध्य होते हैं। यदि वलवान् सौम्यग्रह केंद्रोंमें स्थिथ होय तो सब दोष साध्य होते हैं और जो वलवान् पापग्रह केंद्रोंमें होय तो सब दोष असाध्य होते हैं॥ १९१॥ जिसका दोष होय उसीका पूजन करनेसे वह दोष शान्त होजाताहै। जलदेवीका दोष होय तो जलमें और आकाशदेवीका दोष होय तो आकाशमें वालि चढ़ावै॥ १९२॥ और जो शाकिनी, डाकिनी, भूतका दोष होय तो चौराहेमें वलि चढ़ावै, जिसका दोष होय उसीके नामसे वलि चौराहेमें देय, और दृष्टिका दोष होय तो भी चौराहेमें वालि रखवै॥ १९३॥ और जो गोत्रदेवीका कियाहुआ दोष होय तो कुलदेवीकी पूजा करे और पितरोंका दोष होय तो नारायणवलिकी विधि करे, त्रिपिण्डनामक प्रेतश्राद्ध करे और विष्णुका तर्पण करे॥ १९४॥ इति दोपज्ञानम् ॥

अथ सर्पदंशो अनिष्टम् ।

विशाखाकृत्तिकामूले रेवत्याद्र्गमवासु च ॥ कक्षेऽसार्प-
भिधाने च सर्पदण्ठो न जीवति ॥ १९५ ॥

अब सर्पदंशमें अनिष्ट लिखते हैं—विशाखा, कृत्तिका, मूल, रेवती, आर्द्धा, मधा, आश्लेषा इन नक्षत्रोंमें सर्पका काटाहुआ नहीं जीताहै॥ १९५ ॥

अथ रोगनिर्मुक्तस्तानम् ।

मधापुनर्वसुस्वातीरोहिणीपूत्तराघये ॥ आश्लेषायां च रेवत्यां
भार्गवे चंद्रवासरे ॥ १९६॥ न स्त्रायाद्रोगनिर्मुक्तः शुभे चंद्रे

तथैव च ॥ रिक्तायां निशि भौमार्कवासरे चरलघ्नके ॥ १९७ ॥
दुष्टचंद्रे तथा विष्टयां पाताद्यैर्दृपितेहनि ॥ रोगमुक्तो नरः
स्यायादानं कुर्यादनंतरम् ॥ १९८ ॥

अब रोगनिर्मुक्त स्नान लिखते हैं—मधा, पुनर्वसु, स्वाती, रोहिणी, तीनों उत्तरा, आश्लेषा, रेवती इन नक्षत्रोंमें और शुक्र तथा चन्द्रवारमें ॥ १९६ ॥ जब चंद्रमासें रोगसे निवृत्त हुआ मनुष्य स्नान नहीं करे और रिक्तातिथिमें, रात्रिमें संगल तथा रविवारके दिन चर लघ्नमें ॥ १९७ ॥ दुष्ट चंद्रमासें, भद्रासें, उत्पाताद्विकोंसे दृपित दिनमें रोगमुक्त मनुष्य स्नान करे तदनन्तर दान करे ॥ १९८ ॥

अथ रक्तमोक्षणानंतरं स्नानम् ।

पौष्टिके रक्त ऋक्षे तु स्नानं काले शुभं मतम् ॥ रोगिणो
रुधिरस्नाने निंद्यकाले तु तत्स्मृतम् ॥ १९९ ॥

अब रक्तमोक्षणानन्तर स्नान लिखते हैं—उग्रसंज्ञक नक्षत्रोंमें तथा पुष्टिकारक समयमें फस्त खुलवानेके पश्चात् रोगीका स्नान निर्दित कालमेंही शुभ कहाहै ॥ २०० ॥

अथ रोगनिर्मुक्तस्य वहिर्गमनम् ।

सद्वारे गमनोक्तक्षें सत्तिथौ शोभने विधौ ॥ सङ्घेये रोगमु-
क्तस्य वहिर्निःसरणं शुभम् ॥ २०० ॥

अब रोगमुक्तका वहिर्गमन लिखते हैं—शुभवार, यात्रोक्त नक्षत्र, शुभतिथि, शुभचंद्रमा, शुभलघ्नमें रोगमुक्त मनुष्यका घरसे वाहिर निकलना शुभ होताहै ॥ २०० ॥

अथ होलिकोत्सवस्नानम् ।

राज्ञः पुरोपि सञ्चंद्रे शोभनक्षें शुभे तिथौ ॥ होलिकानंतरं
स्यायाद्विमंदारदिने प्रजा ॥ २०१ ॥

अब होलिकोत्सवस्थान लिखते हैं—शुभचंद्रमा, शुभनक्षत्र, शुभ-
तिथियोंमें और शनैश्चर मंगलको छोड़कर अन्य वारोंमें होलीके
पीछेका स्थान राजाके सामने सब प्रजा करै ॥ २०१ ॥

अथ मल्लक्रिया ।

ज्येष्ठाद्र्द्वाभरणीपूर्वामूलाश्लेषामधाभिधे ॥ जयापूर्णासु सद्वारे
सार्केशीपोदयोंगके ॥ सत्खेटैः केंद्रगैः सार्केमल्लक्रीडा शुभा-
वहा ॥ २०२ ॥

अब मल्लक्रिया लिखते हैं—ज्येष्ठा, आद्र्द्वा, भरणी, तीनों पूर्वा,
मूल, आश्लेषा, मधा इन नक्षत्रोंमें; जया तथा पूर्णा तिथियोंमें;
शुभवारमें और सूर्यसहित शीपोदय (मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक,
कुंभ) लग्नोंमें तथा सूर्यसहित शुभग्रह केंद्रोंमें होय तो मल्लक्रीडा
(कुश्ती कसरत आदि) शुभकारक होती है ॥ २०२ ॥

अथ दिव्यपरीक्षा ।

द्विःस्वभावे चरे लग्ने वलिष्ठेऽब्जे सतारके ॥ जीवे च श्रव-
णज्येष्ठापुनर्वस्वभिधे शते ॥ २०३ ॥ त्यक्त्वा शनैश्चरं भौमं
भूतां १४ च तिथिमष्टमीम् ८ ॥ भद्रां जन्मक्षमासौ च
विलग्ने चाप्तमे रविम् ॥ नाडीभं च यथायोग्यं कुर्यादिव्य-
परीक्षणम् ॥ २०४ ॥

अब दिव्यपरीक्षा लिखते हैं—द्विस्वभाव अथवा चर लग्नमें और
चंद्रमा, तारा, वृहस्पति वलिष्ठ होय, श्रवण, ज्येष्ठा, पुनर्वसु,
शतभिषा इन नक्षत्रोंमें ॥ २०३ ॥ और शनैश्चर, मंगल, चौदस,
आठें तिथि, भद्रा, जन्मका नक्षत्र, जन्मका मास, जन्मका लग्न, जन्म
लग्नसे आठवें घरमें सूर्य तथा एकनाडीस्थ नक्षत्र इन सबको
छोड़कर चौरादिकी यथायोग्य दिव्यपरीक्षा करे ॥ २०४ ॥

अथ सर्पग्रहणम् ।

भरण्याद्र्वमधाश्लेपापूर्वज्येष्ठाख्यमूलभे ॥ करेऽहि केंद्रगैः
पापैहित्वा कालमहिग्रहः ॥ २०५ ॥

अब सर्पग्रहण लिखते हैं—भरणी, आद्र्व, मधा, आश्लेपा, तीनों
पूर्वा, ज्येष्ठा, मूल, हस्त इन नक्षत्रोंमें और केंद्रस्थित पापग्रहोंका
समय त्यागकर अर्थात् केंद्रोंमें पापग्रह न होय तो सर्पका पकड़ना
शुभ होता है ॥ २०५ ॥

अथाऽश्वपश्चनां दमनम् ।

कृत्तिकारेवतीपुष्ये स्वातीहस्ते श्रवद्वये ॥ मृगेऽकारे विपुं-
स्कत्वं दमनं पशुवाजिनाम् ॥ २०६ ॥

अब पशुओंका दमन लिखते हैं—कृत्तिका, रेवती, पुष्य, स्वाती,
हस्त, श्रवण, धनिष्ठा, मृगशिर इन नक्षत्रोंमें, रवि तथा मंगल
वारमें पशुओं और घोड़ोंका वधिया कराना वा नाथवाना, वा
फिराना, नाल बाँधना आदि शुभ होता है ॥ २०६ ॥

अथ सेतुवंधः ।

च्युत्तरे रोहिणीस्वातीमृगेके मंगले गुरो ॥ सेतूनां बंधनं
शस्तं शुभे लघे शुभेक्षिते ॥ २०७ ॥

अब सेतुवंध लिखते हैं—तीनों उत्तरा, रोहिणी, स्वाती, मृगशिरा
इन नक्षत्रोंमें और रवि, मंगल, वृहस्पति वारोंमें; शुभग्रहसे दृष्ट
शुभ लघमें (सेतु) पुलोंका बांधना शुभ होता है ॥ २०७ ॥

अथ लवणकृत्यम् ।

लवणारंभकृत्यं तु भरणीरोहिणीश्रवे ॥ शनिवारे दिवा-
श्रेष्ठं जन्मराशोः शनैर्यले ॥ २०८ ॥

अब लवणकृत्य लिखते हैं—भरणी, रोहिणी, श्रवण इन नक्षत्रोंमें

प्रकरणम् ११.] भाषाटीकासमेतः । (१४६)

शनिवारमें, दिनमें और जन्मराशिसे शनैथर वलवान होय तो लवण वनानेका कार्य शुभ होताहै ॥ २०८ ॥

अथ जिनचार्वाकपाखंडक्रिया ।

उपाश्विनीमृगे स्वातो पुनर्भे श्रवणत्रये ॥ जयापूर्णासु
शुक्रेऽब्जे शुभेहनि चरोदये ॥ चार्वाकजिनपाखंडमंडली-
करणं शुभम् ॥ २०९ ॥

अब जिन चार्वाक पाखंडक्रिया लिखतेहैं—उत्तरापाठा, अश्विनी,
मृगशिर, स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा इन नक्षत्रोंमें;
जया और पूर्णा तिथियोंमें; शुक्र, चंद्रमा, शुध इन वारोंमें; चर लग्नमें;
चार्वाक, जैन, तथा पाखण्डयोंकी (मंडली) सभा करना शुभ होताहै ॥ २०९ ॥

अथ शैलूपनटकर्म ।

चित्रार्द्धरोहिणीपुष्ये श्युत्तरे श्रवणत्रये ॥ शुभाहेऽके च
शैलूपनटकृत्यं समीरितम् ॥ २१० ॥

अब शैलूप नटकर्म लिखतेहैं—चित्रा, आर्द्धा, रोहिणी, पुष्य
तीनों उत्तरा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा इन नक्षत्रोंमें; शुभ दिन
और रवि वारमें वाजीगर तथा नटका कर्म शुभ कहाहै ॥ २१० ॥

अथ तैलिकयंत्रकृत्यम् ।

धनिष्ठाऽश्विकरे चित्रानुराधापुष्यमे तथा ॥ ज्येष्ठायां च
पुनर्वस्वो रेवत्यां शुभवासरे ॥ २११ ॥

अब तैलिक यन्त्रकृत्य लिखतेहैं—धनिष्ठा, अश्विनी, हस्ता,
चित्रा, अनुराधा, पुष्य, ज्येष्ठा, पुनर्वसु, रेवती इन नक्षत्रोंमें; शुभ
वारमें (तैलिकयन्त्र) कोलहू वनाना चलाना तथा तैल और सुगन्ध
वनानाभी शुभ होताहै ॥ २११ ॥

(१४६)

सुहृत्तिगणपतिः— [नवाम्बरालङ्घास्थां०—

अथ कुंभकारकृत्यम् ।

पुनर्वसुद्वये हस्तव्रयेत्ये रोहिणीमृगे ॥ अनुराधाश्रवोज्येष्टे
ससूर्ये सौम्यवासरे ॥ तथा चरोदये प्रोक्ता कुंभकारकिया
बुधैः ॥ २१२ ॥

अब कुंभकारकृत्य लिखते हैं—पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति,
रेवती, रोहिणी, मृगशिर, अनुराधा, श्रवण, ज्येष्ठा इन नक्षत्रोंमें
रविवार तथा शुभवारोंमें चर लग्नमें पंडितोंने कुम्हारका कर्म शुभ
कहा है ॥ २१२ ॥

अथ काष्ठशिल्पकृत्यम् ।

हस्तपट्केऽश्विनीपुष्ये रेवत्यां श्रवणत्रये ॥ पुनर्भैं रोहिणी-
युग्मे सूत्रधारकियोत्तमा ॥ २१३ ॥

अब काष्ठशिल्पकृत्य लिखते हैं—हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा,
अनुराधा, ज्येष्ठा, अश्विनी, पुष्य, रेवती, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा,
पुनर्वसु, रोहिणी, मृगशिरा इन नक्षत्रोंमें वर्ढ़ी और कारीगरका
कार्य शुभ होता है ॥ २१३ ॥

अथ स्वर्णकारकृत्यम् ।

श्रवणेश्विनीपुष्ये मृगे हस्तचतुष्प्रये ॥ कृत्तिकायां पुन-
र्वस्वोः शुभे लग्ने तिथावपि ॥ हेमकारकिया शस्ता हित्वा
बुधशनैश्वर्यो ॥ २१४ ॥

अब स्वर्णकारकृत्य लिखते हैं—श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, अश्वि-
नी, पुष्य, मृगशिर, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, कृत्तिका, पुन-
र्वसु इन नक्षत्रोंमें; तथा शुभ लग्न और शुभ तिथिमें; बुध, शनिको
छोड़कर अन्य वारोंमें स्वर्णकारकी किया शुभ होती है ॥ २१४ ॥

अथ लोहारम्मणीनां कृत्यानि ।

स्वातां ज्येष्ठाहये मूले चित्राद्र्मभरणीत्रये ॥ मणिलोहाऽशमनां
कृत्ये पापे चाह्नि स्थिरोदये ॥ २१५ ॥

अब लोह प्रस्तर और मणियोंका कृत्य लिखते हैं—स्वाति, ज्येष्ठा,
मूल, चित्रा, आद्र्मा, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी इन नक्षत्रोंमें; पापवा-
रोंमें, स्थिर लग्नमें; मणि, लोहा, पत्थरका कृत्य शुभ होता है ॥ २१५ ॥

अथ नापितकृत्यम् ।

ज्येष्ठाहस्तत्रये कर्णवितयेऽश्विमृगेत्यभे ॥ पुनर्वसुद्वये हित्वा
रिक्तापष्टचष्टमीतिथिम् ॥ सद्वारे नापितानां च क्षुरादिस-
कला किया ॥ २१६ ॥

अब नापितकृत्य लिखते हैं—ज्येष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वाति, अवण,
धनिष्ठा, शतभिषा, अश्विनी, मृगशिर, रेवती, पुनर्वसु, पुष्य इन
नक्षत्रोंमें और रिक्ता, पष्टी, अष्टमी तिथियोंको छोड़कर शुभ वारमें
नाईयोंका छुरा आदिकी सब कियाएँ शुभ होती हैं ॥ २१६ ॥

अथाभीरजनकृत्यम् ।

विशाखायां पुनर्भेत्ये ज्येष्ठाहस्ताऽश्विनीमृगे ॥ पूर्वाकर्णवये
पुष्ये ज्ञेऽर्केऽजे वल्लवक्रिया ॥ २१७ ॥

अब अहीरोंका कृत्य लिखते हैं—विशाखा, पुनर्वसु, रेवती, ज्येष्ठा,
हस्त, अश्विनी, मृगशिरा, पूर्वाभाद्रपदा, अवण, धनिष्ठा, शतभिषा,
पुष्य इन नक्षत्रोंमें; चुध, रवि, चन्द्र इन वारोंमें अहीर चनवासी
भीलोंकी क्रिया शुभ होती है ॥ २१७ ॥

अथ चौरकृत्यम् ।

विशाखाकृत्तिकापूर्वामूलाद्र्मभरणीमधे ॥ आश्वेषाज्येष्ठयो-

मंदभौमयोः शकुने वले ॥ लग्ने वा दशमे भौमे चाँये
- सद्व्यव्यलब्धये ॥ २१८ ॥

अब चौरकृत्य लिखते हैं—विशाखा, कृत्तिका, पूर्वा, मूल, आर्द्रा,
भरणी, मध्या, आश्लेषा, ज्येष्ठा इन नक्षत्रोंमें; शनि, मंगल वारमें;
वलवान् शकुन होय; लग्नमें अथवा दशवें मंगल होय तौ चोरी
करनेमें चोरोंको बहुत ब्रव्य मिलता है ॥ २१८ ॥

अथ मुहूर्तादौ लग्नादितिथ्यंतानां वलाऽवल- ज्ञानार्थं गुणः ।

सहस्रगुणभूलग्नं चंद्रः शतगुणो बली ॥ तारा पष्टिगुणा योगो
द्वात्रिंशद्वाणभागभवेत् ॥ २१९ ॥ तदर्धं करणं विद्याद्वारस्त्वप्तिगुणः
स्मृतः ॥ ऋक्षं चतुर्गुणं ज्ञेयं तिथिरेकगुणा स्मृता ॥ २२० ॥

इति श्रीमद्देवज्ञरावलहरिशंकरसूरिसूत्रगणपतिकृते
मुहूर्तगणपतो नवाम्बरालङ्गारधारणाद्यनेकका-
र्याणां मुहूर्तानां प्रकरणमेकादशम् ॥ ११ ॥

अब मुहूर्तादिमें लग्नसे लेकर तिथिपर्यन्तोंका वलाऽवलज्ञानार्थ
गुण खिलते हैं—लग्नमें सहस्र गुण, बली चंद्रमामें सौ गुण, तारामें
साठी गुण, योगमें वत्तीस गुण ॥ २१९ ॥ करणमें १६ सोलह
गुण, वारमें आठ गुण, नक्षत्रमें चार गुण, तिथिमें एक गुण
कहा है ॥ २२० ॥

इति श्रीमद्देवज्ञरावलहरिशंकरसूरिसूत्रगणपतिकृते मुहूर्तगण
पतो श्रीयुतपंडितवर्यवेणीरामात्मजपंडितरामदयालु-
शर्मकृतभाषाटीकासमलंकृतं नवाम्बरालङ्गार-
धारणाद्यनेककार्याणां मुहूर्तानां प्रकरण-
मेकादशम् ॥ ११ ॥

अथ संकांतिप्रकरणम् तत्रादौ संकान्तिनामानि ।
 संकांतिर्भानुवारे स्याद्वोराख्या भरणीमधे ॥ पूर्वात्रये च नक्षत्रे
 शूद्राणां सुखदा स्मृता ॥ १ ॥ सोमवारेऽभिजित्पुष्याऽश्विनी-
 हस्ते तथैव च ॥ संकांतिः कथिता ध्वांकी विशां सौख्यप्रदा-
 यिनी ॥ २ ॥ श्रवणादित्रिमे स्वात्यां पुनर्वस्वोः कुजेहनि ॥ या
 भवेत्सा तु चोरणां सौख्यदात्री महोदरी ॥ ३ ॥ बुधाहे या च
 रेवत्यां मृगे चित्रानुराघयोः ॥ सा तु मंदाकिनी नामा
 नृपाणां सौख्यदायिनी ॥ ४ ॥ वृहस्पतौ यदा जाता
 रोहिण्यां चोत्तरात्रये ॥ तदा मंदाभिधा ज्ञेया विप्राणां
 हितकारिणी ॥ ५ ॥ भृगोवर्णे विशाखायां कृत्तिकायां च
 या भवेत् ॥ सा तु मिश्रेति विख्याता पशुनां प्रीतिदायिनी
 ॥ ६ ॥ शनौ मूले तथाद्र्दीयामाश्लेषाज्येष्ठयोरपि ॥
 या भवेद्राक्षसी सा स्यादंत्यजानां सुखावहा ॥ ७ ॥ आद्ये-
 हित्यंशके राज्ञो द्वितीये हंति वै द्विजान् ॥ तृतीये वैश्य-
 कानप्रांत्ये संकांतिः शूद्रवर्णकान् ॥ ८ ॥ प्रतियामं क्र-
 माद्रात्री पिशाचात्राक्षसाम्रद्यान् ॥ पशुपालगणं हंति प्रभाते
 सर्वलिंगिनः ॥ ९ ॥

अब संकान्तिप्रकरण लिखते हैं—तहाँ पहिले संकांतिका नाम
 रखते हैं—रविवारमें और भरणी, मृगशिरा, तीनों पूर्वा
 नक्षत्रोंमें संकान्ति लगे तो घोरानाम्नी होतीहै
 शूद्रोंको सुख देनेवाली कहीहै ॥ १ ॥ सोमवारमें तथा
 गजित, पुष्य, अश्विनी, हस्त इन नक्षत्रोंमें संकान्ति लगे तो
 जी नाम और वैश्योंको सुख देनेवाली होतीहै ॥ २ ॥ श्रवण,
 एषा शतभिषा, स्वाति, पुनर्वसु इन नक्षत्रोंमें तथा मंगलवारके
 जो संकान्ति लगे तो महोदरी नामवाली और चौरांको
 देनेवाली होतीहै ॥ ३ ॥ बुधवारके दिन रेवती, मृगशिरा,

चित्रा, अनुराधा इन नक्षत्रोंमें संक्रान्ति लगै तो मंदाकिनी नामकी राजाओंको सुख देनेवाली होतीहै ॥ ४ ॥ वृहस्पतिके दिन तथा रोहिणी, तीनों उत्तरा इन नक्षत्रोंमें संक्रान्ति लगे तो मंदा नामकी ब्राह्मणोंका हित करनेवाली होतीहै ॥ ५ ॥ शुक्रवारके दिन विश्वाखा, कृत्तिका नक्षत्रोंमें जो संक्रान्ति लगै सो मिथ्रानामकी पशुओंको सुख देनेवाली होतीहै ॥ ६ ॥ शनैश्चरके दिन मूल, आर्द्धा, आश्लेषा, ज्येष्ठा इन नक्षत्रोंमें जो संक्रान्ति लगै सो राक्षसी नामकी अन्त्यजोंको सुख देनेवाली होतीहै ॥ ७ ॥ दिनके पहिले ऋयंशमें जो संक्रान्ति लगै तो राजाओंका नाश करतीहै और दूसरे ऋयंशमें लगै तो ब्राह्मणोंका नाश करतीहै और सूर्यके अस्तकालमें लगै तो शूद्र वर्णका नाश करतीहै ॥ ८ ॥ रात्रिमें प्रत्येक प्रहरके क्रमसे संक्रान्ति लगनेका यह फल है कि, प्रथमप्रहरमें संक्रान्ति लगै तो पिशाचोंका नाश करती है और दूसरे प्रहरमें लगै तो राक्षसोंका, तीसरे प्रहरमें लगै तो नटोंका चौथे प्रहरमें लगै तो पशुपालोंके सम्रूहोंका और प्रभातमें लगै तो समस्त संन्यासियोंका नाश करतीहै ॥ ९ ॥

अथ संज्ञान्तरम् ।

वृथिके ८ वृपमे २ सिंहे ५ कुंभे ११ विष्णुपदी स्मृता ॥
पडशीतिमुखा मीने १२ कन्या ६ मिथुन ३ धनि॒ष्ठु ९
॥ १० ॥ प्रोक्तं याम्यायनं कर्के ४ मङ्गरे १० चोत्तरा-
यणम् ॥ विपुवाख्या तुले ७ मेरे १ संक्रान्तिः समुदा-
हता ॥ ११ ॥

अय संज्ञान्तर लिखतेहैं—वृथिक, वृप, सिंह, कुंभ राशियोंमें
जो संक्रान्ति लगतीहै सो विष्णुपदी कहातीहै. मीन, कन्या, मिथुन,

धन इन राशियोंमें संकांतिका नाम पड़शीतिमुखाहै ॥ १० ॥
कर्ककी संकांति दक्षिणायन और मकरकी उत्तरायण कहातीहै
तुला, मेषकी संकान्तिका नाम विपुव कहाहै ॥ ११ ॥

अथ पुण्यसमयः ।

पुण्याः पोडशनाव्यस्तु पराः पूर्वास्तु संकमात् ॥ व्रिंश-
त्कर्कटके पूर्वाश्वत्वारिंशत्परा मृगे ॥ १२ ॥ मध्याह्ना-
दुत्तरं पुण्यं प्राङ्गिशीथात्तु संकमे ॥ निशीथादूर्ध्वकाले तु
मध्याह्नात्प्राक्परेहनि ॥ चेन्निशीथे व्यहे पुण्यं परपूर्वविभा-
गयोः ॥ १३ ॥

अब पुण्यसमय लिखतेहैं—संकांति लगनेसे पहिली और
पिछली सोलह २ घडीका पुण्यकाल होताहै और कर्ककी संकां-
तिमें तीस ३० घडी पहिली, तथा मकरकी संकांतिमें
चालीस ४० घडी पिछली पुण्यकाल होताहै ॥ १२ ॥ आधी-
रातसे पहिले संकांति लगे तो पूर्वदिनके मध्याह्नसे पीछे पुण्य-
काल होताहै और आधीरातसे पीछे संकांति लगे तो परदिनके
मध्याह्नसे पहिले पुण्यकाल होताहै और यदि टीक आधीरातके
लमय संकांति लगे तो पहिले और पिछले दोनों दिनोंके क्रमसे
पूर्व और पर भागमें पुण्यकाल होताहै ॥ १३ ॥

अथायनयोविशेषः ।

अस्तादूर्ध्वं तु मकरे रात्रौ संकमणं रवेः ॥ तदोत्तरदिने
पुण्यं मध्याह्नात्प्राक्प्रकीर्तितम् ॥ १४ ॥ यदा सूर्योदयात्पूर्वं
कर्के संकमते रविः ॥ तदा पूर्वदिने पुण्यं परतश्वेत्परे-
हनि ॥ १५ ॥

अब अयनोंमें विशेष लिखतेहैं—सूर्यास्तके पीछे रात्रिमें
मकर राशिपर सूर्यकी संकांति लगे तो परदिनके मध्याह्नसे पहिले

पुण्यकाल होता है ॥ १४ ॥ और यदि सूर्योदयसे पहिले कर्क राशिपर सूर्यकी संक्रान्ति होय तो पहिले दिनमें पुण्यकाल होता है और जो सूर्योदयसे पीछे कर्क संक्रान्ति होय तो पिछले दिनमें पुण्यकाल होता है ॥ १५ ॥

तत्रापि विशेषः ।

मकरेऽस्तमितादूर्ध्वं संक्रमे प्राग्घटीत्रयम् ॥ तदा पूर्वदिने पुण्यं परतश्चेत्परेहनि ॥ १६ ॥ कर्कसंक्रमणं सूर्योदयात्प्राग्घटिकात्रयम् ॥ तदा परदिने पुण्यं तत्पूर्वं तदिनैस्मृतम् ॥ १७ ॥ आदौ विषुपदे याम्ये मध्ये तु विपुवामिधे ॥ पडशीतिसुखे सौम्येऽयने पुण्यं तदुत्तरम् ॥ १८ ॥

अब तहाँ विशेष लिखते हैं— सूर्यास्तसे पीछे तीन घडीके भीतर जो मकरकी संक्रान्ति लगे तो पूर्वदिनमें पुण्यकाल होता है और जो सूर्यास्तसे तीन घडीके पश्चात् लगे तो परदिनमें पुण्यकाल होता है ॥ १६ ॥ और यदि कर्ककी संक्रान्ति सूर्योदयसे पहिले तीन घडीके भीतर लगे तो परदिनमें पुण्यकाल होता है यदि सूर्योदयसे पहिले तीन घडीसे भी पूर्वमें लगे तो पूर्वदिनमें पुण्यकाल होता है ॥ १७ ॥ विष्णुपद नामकी संक्रान्ति तथा कर्क संक्रान्तिकी प्रथमकी सोलह घडी अतिपुण्यदायक हैं और विपुव नामक संक्रान्तिके मध्यकी सोलह घडी अति पुण्यदायक हैं और, पडशीतिसुख (मिथुन, कन्या, धन, मीन) तथा मकरकी संक्रान्तिकी मिछली सोलह घडी अतिपुण्यदायक होती हैं ॥ १८ ॥

अथ सायनार्कसंक्रान्तिः ।

सायनस्य रवेर्वापि यदा संक्रमणं भवेत् ॥ तदा स्यादधिकं पुण्यं रहस्यं विदुपां हि तत् ॥ १९ ॥

अब सायनार्कसंक्रान्ति लिखते हैं—जब अयनांशासहित सूर्यकी संक्रान्ति होती है नवभी अधिक पुण्य होता है यह विद्वानोंकारहस्य है ? ॥

अथ संकांतिमुहूर्तास्तत्फलं च ।

पुनर्वसु विशाखा च रोहिणी चोत्तरा वृहत् ॥ सुभिक्षं तत्र
संकांतो वाणवेद ४५ मुहूर्तकाः ॥ २० ॥ भरण्याद्र्ग्नि तथा
अश्लेषा स्वाती ज्येष्ठा जघन्यभम् ॥ संकांतो तत्र दुर्भिक्षं
मुहूर्ता वाणभूमिताः १५ ॥ २१ ॥ शेषभानि समाख्यानि
संकांतावर्षसाम्यताम् ॥ मुहूर्ताविंशति ३० दत्रोक्ताः फलं
चंद्रोदयेऽपि तत् ॥ २२ ॥

अब संकांतिमुहूर्त और उसका फल लिखते हैं—पुनर्वसु, विशाखा, रोहिणी, तीनों उत्तरा ये नक्षत्र वृहत्संज्ञक हैं; इनमें संकान्ति लगे तो पंतालीस ४५ मुहूर्त तथा सुभिक्ष होता है ॥ २० ॥ भरणी, आद्र्ग्नि, आश्लेषा, स्वाती, ज्येष्ठा ये नक्षत्र जघन्यसंज्ञक हैं; इनमें संकान्ति लगे तो पंद्रह १५ मुहूर्त तथा दुर्भिक्ष होता है ॥ २१ ॥ और शेष नक्षत्र मृगशिर, रेवती, चित्रा, अनुराधा, हस्त, अडिवनी, पुष्य, अभिजित्, अवण, धनिष्ठा, कृत्तिका इन नक्षत्रोंकी समसंज्ञा है; इनमें संकान्ति लगे तो तीस मुहूर्त ३० तथा भावकी समता होती है और इन्हीं पूर्वोक्त तीन संज्ञावाले नक्षत्रोंमें चंद्रमाका उदय होय तो पूर्वोक्त फलही जानलेना चाहिये ॥ २२ ॥

अव्दविंशोपकाः ।

अव्दविंशोपकाः कर्कसंकमो दिव्विता १० रवी ॥ चंद्रे नखा २०

गजा ८ भौमे वृथेऽकाः १२ सायकाः ५ शनौ ॥ अष्टादश-
१८ मिताः शुक्रे तत्संख्या १८ गुरुवासरे ॥ २३ ॥

अब अव्दविंशोपका लिखते हैं—यदि कर्ककी संकांति रविवारके दिन लगे तो दश १० (अव्दविंशोपक) विश्वा होती है । सोमवारको लगे तो वीस २०, मंगलवारको लगे तो आठ ८, वृथको लगे तो चारह १२, शनैश्वरको लगे तो पांच ५, शुक्रको लगे तो अटा-

रह १८, और वृहस्पतिको लगे तो भी अठारह १८, विश्वा होतीहै ॥ २३ ॥

अथ संक्रांतेः स्थित्युपवेशनशयनानि तत्फलं च ।
नेष्टः सुप्तो रविर्नागे तौतिलेऽथ चतुष्पदे ॥ किंस्तुमे कौलवे
तिष्ठञ्चकुनौ संकमे शुभः ॥ गरादिपंचके मध्यश्वोपविष्टोऽ
घर्वर्षणे ॥ २४ ॥

अब संक्रांतिके स्थित्युपवेशनशयनादि और उसका फल लिखतेहैं—नाग, तौतिल, चतुष्पद इन करणोंमें सूर्यकी संक्रांति लगे तो सूर्यकी (सुसावस्था) अर्थात् सूर्य सोतेहैं जिसका फल नेष्ट है और किंस्तुम, कौलव, शकुनि इन करणोंमें संक्रान्ति लगे तो सूर्य खडे होतेहैं जिसका फल शुभ होताहै और गरादि पांच करण अर्थात् गर, वणिज, विष्टि, वव, वालवमें संक्रांति लगे तो सूर्य वैठे हुए होतेहैं जिसका फल मध्यम होताहै । उक्तफल अन्नादिके भावमें तथा वर्षामें विचारना चाहिये ॥ २४ ॥

अथ संक्रांतेर्वाहनानि ।

सिंहो व्याघ्रो वराहश्च खरेभमहिषा हयः ॥ श्वाजौ गौः
 . कुम्भकुटो वाहाः संक्रांतौ ववतो रवेः ॥ २५ ॥

- अब संक्रांतिके वाहन लिखतेहैं—सिंह ३, व्याघ्र २, वराह ३, गर्दभ ६, भैसा ५, हाथी ६, घोडा ७, कुत्ता ८, वकरा ९, गौ १०, मुर्गा ११ ये ववादि करणोंके क्रमसे सूर्यकी संक्रान्तिके वाहन हैं ॥ २५ ॥

अथ वस्त्राणि ।

श्वेतं पीतं हरित्पांडुरक्तं श्यामं च मेचकम् ॥ चित्रं कंव-
 लदिङ्गमेवसन्निभं क्रमतोऽवरम् ॥ २६ ॥

अब वस्त्र लिखतेहैं—श्वेत १, पीत २, हरित ३, पांडु ४, लाल ५,
 गला ६. (मेचक) कृष्णवर्ण ७, चित्र ८, कंवल ९, दिशा १०,

मेघके तुल्य ११ ये ववादि करणोंके क्रमसे संक्रान्तिके वर्ण हैं ॥ २६ ॥

अथ शस्त्राणि ।

भुशुंडी च गदा खड्डो दंडः कोदंडतोमरां ॥ कुंतः पाशों-
कुशोऽस्त्रं च वाणश्चैवायुधं क्रमात् ॥ २७ ॥

अब शस्त्र लिखते हैं—भुशुंडी १, गदा २, खड्ड ३, दंड ४, धनुष ५,
तोमर ६, भाला ७, पाश ८, अंकुश ९, अस्त्र १०, वाण ११ ये ववादि
करणोंके क्रमसे संक्रान्तिके आयुध हैं ॥ २७ ॥

अथ भक्ष्याणि ।

अन्नं च पायसं भैक्ष्यं पक्कान्नं च पयो दधि ॥ चिवान्नं गुड-
मध्वाज्यं शर्करा भक्षणं क्रमात् ॥ २८ ॥

अब भक्ष्य लिखते हैं—अन्न १, खीर २, भिक्षान्न ३, पक्कान्न ४,
दूध ५, दधि ६, चिवान्न ७, गुड ८, शहत ९, धी १०, खांड ११ ये
क्रमसे भक्ष्य हैं ॥ २८ ॥

अथ विलेपनानि ।

कस्तूरी कुंकुमं चैव चंदनं मृच्छ रोचनम् ॥ यावश्चोतुमदो
वापि हरिद्रांजनकोऽगरुः ॥ कर्पूरश्चेति विज्ञेयं संक्रान्तेश्च
विलेपनम् ॥ २९ ॥

अब विलेपन लिखते हैं—कस्तूरी १, केसर २, चंदन ३, मृत्तिका ४,
गोरोचन ५, महावर ६, विलावका मद ७, हरिद्रा ८, अंजन ९,
अगर १०, कर्पूर ११ ये क्रमसे संक्रान्तिके विलेपन जानने ॥ २९ ॥

अथ जातयः ।

देवभूतोरगाः पक्षी पशुरेणो द्विजः क्रमात् ॥ शत्रियो
वैश्यकः शूद्रः संकरो जातयस्त्विमाः ॥ ३० ॥

अब जाति लिखते हैं—देवता १, भृत २, सर्प ३, पश्ची ४, पशु ५, हरिण ६, ब्राह्मण ७, क्षत्रिय ८, वैश्य ९, शृङ्ग १०, संकर ११ ये क्रमसे जाति हैं ॥ ३० ॥

अथ पुष्पाणि ।

पुन्नागजातिवकुलकेतकीविल्वकार्कजम् ॥ दूर्वाब्जमछिका-
पुष्पं पाटला च जपा क्रमात् ॥ ३१ ॥

अब पुष्प लिखते हैं—नागकेसर १, चमेली २, मौलसिरी ३, केतकी, ४, विल्व ५, आक ६, दूर्वाऊ, कमल ८, सोगरा ९, पोटर १०, दुपहरिया ११ ये क्रमसे संक्रान्तिके पुष्प हैं ॥ ३१ ॥

अथाभरणानि ।

नूपुरः किंकिणी मुक्ता विद्वुमः कंकणं मणिः ॥

गुंजा वराटका नीलो वज्रः स्वर्णं यथाक्रमम् ॥ ३२ ॥

अब आभूपण लिखते हैं—नूपुर १, किंकिणी २, मोती ३, मूँगा ४, कंकण ५, मणि ६, चौटनी ७, कोडी ८, नीलम ९, हीरा १०, सुवर्ण ११ ये क्रमसे आभूपण हैं ॥ ३२ ॥

अथ वयांसि ।

वाला कुमारिका रंडा मध्या प्रोटा प्रगल्भिका ॥ वृद्धा वं-
ध्याऽतिवंध्या स्यादसूता योगिनी वयः ॥ ३३ ॥

अब वय लिखते हैं—वाला १, कुमारिका २, रंडा ३, मध्या ४, प्रोटा ५, (प्रगल्भिका,) विशेषतरुणा ६, वृद्धा ७, वंध्या ८, अति-
वंध्या ९, (असूता) जिसके वालक नहीं हुआ १०, योगिनी ११ ये वयादिके क्रममें संक्रान्तिकी अवस्थाएँ हैं ॥ ३३ ॥

करणानुसारसंकांतिचक्रम् ।

करणा०	व्र	वालव	कोलव	तैनेल	गर	बोणज	विठि	शारुनि	चतु.	नाग	किस्तुप्र
स्थिति०	वैठा	वैठा	खडी	सुपा	खडी	खडी	वैठा	सुपा	खडी	सुपा	खडी
फल	मध्यम	मध्यम	महर्व	ममर्व	मध्यम	महर्व	मध्यम	महर्व	ममर्व	ममर्व	महर्व
वाहन	मिह	उग्राप्र	वराह	गर्दन	दहर्ती	महिप	घाडा	कुता	वकरा	वैल	मुर्गा
उपवा०	वज	अथ	यैल	मेडा	गर्दम	लेट	मिह	शारुल	महिप	व्याप्र	जानवर
फड	भव	भव	पिडा	सुभिक्ष	लक्ष्मी	हेरा	स्थैर्य	सुभिक्ष	हेत	स्थैर्य	मृत्यु
वक्र	षित	पीन	हरित	पांडु	रक	इयम	कला	वित्र	केवल	नेमी	मेघवर्ण
आयुध	सुशुर्दी	गदा	लहू	दंड	वनुप	तोमर	ईत	पाश	थंडुक्ष	तलवार	दाण
पात्र	सुवर्ण	स्पा	तौना	वाँसी	लोह	खपरि.	पत्र	वश्व	कर	भूमि	क्राए
भक्ष्य	अन्न	पाथय	भक्ष्य	पक्काम	पद	दधि	चिनाम	गुड	मधु	पून	खांड
लेन	वस्त्री	कर	चेन	माटी	गोमेचन	महाव.	विर्जिम	हाँदा	मुग्मा	अगर	कायूर
वर्ण	देव	भा	मर्य	फटी	पगु	सुग	विप्र	क्षरो	वैश्य	शृद	अन्त्यन
पुष्प	पुत्राग	ज नी	बुन्न	केतसी	वेल	वके	कमल	दूरा	मालिका	पाटल	जगा
भूरण	तूपुर	व कण	मोती	यैगा	कैउण	मणि	गुंजा	कौडी	नोलम	वज्र	मुरण
वरः	चाला	दुमार्ग	रडा	मध्या	प्रैडा	प्रगम्भ	झडा	वैंपा	अनिर.	अग्नुरा	येगिना

अथ संक्रातेर्वाहनादीनां दुष्टफलम् ।

वाहजात्यायुधाहारादीनां तद्वत्जीविनाम् ॥ विनाशः
स्याच्च संक्रातेर्वस्त्रादीनां महर्वता ॥ स्थितोपविष्टुप्रानां
तथा ज्ञेयं विनाशनम् ॥ ३४ ॥

अव संक्रान्तिके वाहनादिकोंका दुष्टफल लिखते हैं—संक्रातिके वाहन, जाति, आयुध, भोजन आदिका तथा तिसतिस वस्तुसे जीविका करनेवालोंका विनाश होता है और संक्रान्तिके वस्त्रादिक महँगे होते हैं। इसी प्रकार खडेहुए, वैठेहुए, सोतेहुए, पुरुपोंका विनाश होता है। यह फल पूर्वोक्त सृष्टिवस्थासे ज्ञानलेना

अथ प्रतिमासे संकान्तिपूर्वभवशाजन्म- भस्य फलम् ।

संकांतिदिनभात्पूर्वनक्षत्रात्रिषु चेत्स्वभम् ॥ मार्गोदयस्ततः
पद्मसु द्व सौख्यं पीडा ततस्त्रिभे ३ ॥ ३५ ॥ ततोङ्गभे
सुखं ज्ञेयमर्थहानिस्त्रिभे ३ तथा ॥ शेषैःपद्मि द्व धन-
प्राप्तिरेवं मासफलं सदा ॥ ३६ ॥ यस्य चेजन्मनक्षत्रं शुभ-
वारे भवेच्छुभम् ॥ पापवारे त्वसत्प्रोक्तं मासिमासि फलं
त्विदम् ॥ ३७ ॥

अब संकान्तिके पूर्वनक्षत्रके वशसे फल लिखते हैं—संकान्ति
लगनेके नक्षत्रसे प्रथमके नक्षत्रसे गिनै यदि तीन नक्षत्रके भीतर
जन्मनक्षत्र आजाय तो मार्ग चलावै, उससे आगे छह नक्षत्रके भीतर
जन्मनक्षत्र आजाय तौ सौख्य होय और फिर तीन नक्षत्रके
मध्यमें आवै तो पीडा होय ॥ ३५ ॥ फिर छह नक्षत्रमें सुख, फिर
तीन नक्षत्रमें द्रव्यहानि, शेष छह नक्षत्रोंमें जन्मनक्षत्र आजाय
तो द्रव्यप्राप्ति होती है इस प्रकार सर्वेषां संकांतिद्वारा मासफलका
विचार करें ॥ ३६ ॥ जिसका जन्मनक्षत्र जिसमासमें शुभवारके
दिन होय तो शुभफल और यदि अशुभवारके दिन आजाय तो
अशुभ फल होता है इस प्रकारभी महीने २ में फल जानें ॥ ३७ ॥

अथ दुष्टसंकांतौ दानस् ।

संकांतिदोपशांत्यर्थं विकोणं विविशूलकम् ॥ तिलेपु संलि-
खेच्चकं दद्यात्तत्सहिरण्यकम् ॥ ३८ ॥

अब दुष्टसंकान्तिमें दान लिखते हैं—संकांतिके दोपकी शान्तिके
लिये तिलोंपर विकोणाकार तीन विशूल लिखें उसपर सुवर्ण रखके
दान करें तो शुभ फल होता है ॥ ३८ ॥

अथाधिमासक्षयमासकौ ।

असंकांतिरमांतो यो मासश्वेत्सोऽधिमासकः ॥ परमासाह्वयो
ज्ञेयः प्रायश्चैत्रादिसप्तसु ॥ ३९ ॥ द्विसंकांतिः क्षयाख्यः
स्यान्कदाचित्कार्त्तिकव्रये ॥ युग्माख्यः स तु तत्रावदे ह्याधि-
मासद्वयं भवेत् ॥ मलमासाविति प्रोक्तौ गर्हितौ
सर्वकर्मसु ॥ ४० ॥

अब आधिमास और क्षयमास लिखते हैं— जो अमावास्यान्त
महीना संकांति रहित होय तो वह अधिकमास होता है उसीका
नाम मलमासभी है, वहुधा चैत्रादि सात महीनोंमें आपड़ता है ॥ ३९ ॥
और जिस महीनेमें दो संकान्ति होय तो वह क्षयमास होता है
कार्त्तिकादि तीन महीनोंमें कभी २ आपड़ता है और जिस वर्षमें
क्षयमास होता है उसी वर्षमें दो अधिमास होते हैं, क्षयमास और
अधिमास दोनों मलमास कहाते हैं सब शुभकर्मोंमें निंदित हैं ॥ ४० ॥

अथ तारादिवलादन्येषां वलस् ।

ताराया वलतश्चांद्रवलं सूर्यस्य चंद्रतः ॥ सूर्यतः सर्वखेटानां
वलं ज्ञेयं शुभाशुभम् ॥ ४१ ॥

इति श्रीमदैवज्ञरावलहरिशंकरसूरिसूनुगणपतिकृते मुहूर्तग-
णपतों संकांतिप्रकरणं द्वादशम् ॥ १२ ॥

अब तारादिवलसे अन्योंका वल लिखते हैं— ताराके वलसे चंद्र-
माका और चंद्रमाके वलसे सूर्यका और सूर्यवलसे सकल ग्रहोंका
शुभ अशुभ वल जानलेना चाहिये ॥ ४१ ॥

इति श्रीमदैवज्ञरावलहरिशंकरसूरिसूनुगणपतिकृते मुहूर्त-
गणपतों श्रीयुतपंडितवर्यवेणीरामात्मजपंडितराम-
दयालुशम्र्मकृतभाषाटीकासमलंकृतं
संकांतिप्रकरणं द्वादशम् ॥ १२ ॥

अथ गोचरप्रकरणम्, तत्रादौ ग्रहाणां स्थानफलानि ।

गमो हानिर्धनं रोगो दैन्यं सौख्यं गती रुजः ॥ पापं सौख्यं
धर्मपीडा फलं भानोः स्वजन्मभात् ॥ १ ॥ पुष्टिर्वित्तं श्रियो
रोगः सुखं लाभो धनं रुजः ॥ मानं सौख्यं श्रियः पीडा
चंद्रस्यैतत्फलं क्रमात् ॥ २ ॥ भीतिर्हानिः श्रियो वैरं
रुग्लाभौ काश्यमेव च ॥ पापं रोगः सुखं शोको हानिभाँ-
मस्य संस्मृतम् ॥ ३ ॥ वंधो लाभो भयं वित्तं शोको
लक्ष्मीः क्षयं धनम् ॥ रोगो भोगः सुखं वाधा फलं चैतद्वृ-
धस्य तु ॥ ४ ॥ भीर्वित्तं रुग्ययो लाभः शोकः सौख्यं
रुजस्तथा ॥ मानं दैन्यं धनं रोगः फलं चैतद्वृहस्पतेः ॥ ५ ॥
सुखं वित्तं धनं सौख्यं रोगपीडा विपत्सुखम् ॥ धर्मो दुःखं
धनं लाभः फलं शुक्रस्य कीर्तिम् ॥ ६ ॥ भीतिः शोकः
श्रियो दुःखं हानिः सौख्यं भयं रुजः ॥ पापं शोको धनं
कष्टं शनेरेतत्फलं क्रमात् ॥ ७ ॥ हानिर्व्ययो धनं वैरं
शोको वित्तं विपद्वुजः ॥ पापं वैरं सुखं हानी राहुकेत्वोः
फलं क्रमात् ॥ ८ ॥

अब गोचर प्रकरण लिखते हैं—तहां पहिले जन्मराशिसे प्रत्येक
स्थानोंमें ग्रहोंका फल लिखते हैं—यात्रा १, हानि २, धन ३, रोग
४, दीनता ५, सौख्य ६, यात्रा ७, रोग ८, पाप ९, सौख्य १०,
धर्म ११, पीडा १२ अपनी जन्मराशिसे जन्म, दूसरे, तीसरे
आदि वारहवें तक सूर्यका यह उक्त फल क्रमसे जाने ॥ १ ॥
पुष्टि १, धन २, लक्ष्मी ३, रोग ४, सुख ५, लाभ ६, धन ७,
रोग ८, मान ९, सौख्य १०, लक्ष्मी ११, पीडा १२ क्रमसे यह
जन्मादि वारहों चंद्रमाका फल है ॥ २ ॥ भय १, हानि २, लक्ष्मी ३,

वैर ४, रोग ५, लाभ ६, दुर्वलता ७, पाप ८, रोग ९, सुख १०, शोक ११, हानि १२ यह फल क्रमसे जन्मादि मंगलका है ॥ ३ ॥ वंधन १, लाभ २, भय ३, धन ४, शोक ५, लक्ष्मी ६, नाश ७, धन ८, रोग ९, भोग १०, सुख ११, रोग १२ यह फल क्रमसे जन्मादि वुधका है ॥ ४ ॥ भय १, धन २, रोग ३, व्यय ४, लाभ ५, शोक ६, सौख्य ७, रोग ८, मान ९, दीनता १०, धन, ११, रोग १२ क्रमसे यह फल जन्मादि वृहस्पतिका है ॥ ५ ॥ सुख १, धन २, धन ३, सौख्य ४, रोग ५, पीड़ा ६, विष्ट ७, सुख ८, धर्म ९, दुःख १०, धन ११, लाभ १२ क्रमसे यह फल शुक्रका है ॥ ६ ॥ भय १, शोक २, लक्ष्मी ३, दुःख ४, हानि ५, सौख्य ६, भय ७, रोग ८, पाप ९, शोक १०, धन ११, कष्ट १२ क्रमसे यह फल जन्मादिक शनिका है ॥ ७ ॥ हानि १, व्यय २, धन ३, वैर ४, शोक ५, धन ६, विष्ट ७, रोग ८, पाप ९, वैर १०, सख ११, हानि १२ क्रमसे यह फल राहु और केतुका है ॥ ८ ॥

अथ ग्रहाणां जन्मराशेः सकाशात्प्रत्येकस्थानफलचक्रम् ।

स्थानानि	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
सूर्योदयका फ.	यात्रा	हानि	धन	रोग	दीनता	सौख्य	यात्रा	रोग	पाप	पीटव	धर्म	पीड़ा
चूर्चका फ.	पुष्टि	धन	लक्ष्मी	रोग	सुख	लाभ	धन	रोग	मान	सौख्य	लक्ष्मी	पीड़ा
मंगलचक्र क	भय	हानि	लक्ष्मी	वैर	रोग	लाभ	दुश्शति ^१	पाप	रोग	सुख	शोक	हानि
बुधचक्र क	दधन	लाभ	भय	धन	शोक	लक्ष्मी	नाश	धन	रोग	भोग	सुख	रोग
वृहस्पति का फ.	धर्म	धन	रोग	व्यय	लाभ	शोक	सौख्य	रोग	मान	शीनता	धन	रोग
शुक्रचक्र क	सुख	धन	धन	सौख्य	रोग	पीड़ा	विष्ट	सुख	धर्म	दुःख	धन	लाभ
शनैर्वरका फ.	धय	शोक	लक्ष्मी	दुःख	हानि	सौख्य	भय	रोग	पाप	शोक	धन	कष्ट
रा. के. फ.	हानि	व्यय	धन	वैर	शोक	धन	विष्ट	रोग	पाप	वैर	सुख	हानि

अथ शुभफलदा ग्रहाः ।

शुभा एकादशे ११ सर्वे विद्युपद्म ददशगो १० रविः ॥
पद्म दद्विद्युपद्म संस्था धरापुत्रराहुकेतुशनेश्वराः ॥ ११ ॥ दश १०

सप्त ७ त्रि ३ पद्मका ६ द्य १ संस्थितश्चंद्रमाः शुभः ॥
 शुक्रपक्षे तु नवमो ९ द्वितीयः २ पंचमो ८ इषि वा ॥ १० ॥
 दिग् १० एष ८ श्वि २ चतुः ४ पष्ठो ६ गोचरे शुभदो बुधः
 बृहस्पतिः शुभः प्रोक्तो द्वि २ पंच ५ नव ९ सप्त ७ गः
 ॥ ११ ॥ एक १ द्वि २ त्रि ३ चतुः ४ पंच ५ नवा ९ ए ८
 व्यय १२ गो भृगुः ॥ १२ ॥

अब शुभफलदग्धह लिखतेहैं—ग्यारहवें स्थानमें सब ग्रह शुभ होतेहैं; तीसरे, छठे, दशवें स्थानमें सूर्य शुभ होतेहैं; तीसरे छठे स्थानमें मंगल, राहु, केतु, शनैश्चर शुभ होतेहैं ॥ ९ ॥ दशवें, सातवें, तीसरे, छठे, प्रथम स्थानमें चंद्रमा शुभ होता है और शुक्रपक्षमें नौवां, दूसरा, पाँचवाँ चंद्रमा शुभ होताहै ॥ १० ॥ गोचरमें दशवां, आठवां, दूसरा, चौथा, छठा बुध शुभदायक होताहै और दूसरा, पाँचवां, नौवां, सातवां, बृहस्पति शुभ कहा है ॥ ११ ॥ आदिका, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, नौवां, आठवां, चारहवां शुक्र शुभ होताहै ॥ १२ ॥

अथ ग्रहाणां शुभस्थानचक्रम् ।

सूर्य	३	६	१०	११	६	०	०	०	०	०	०	शुभस्थानानि
चंद्रमा	१०	७	३	६	१	शुक्र	९	२	५	१२		शुभत्वा ।
मंगल	३	६	११	०	०	०	०	०	०	०	०	शुभस्था ।
बुध	१०	८	२	४	६	११	०	०	०	०	०	शुभस्था ।
बृहस्प.	२	५	९	७	११	०	०	०	०	०	०	शुभस्था ।
शुक्र	१	२	३	४	५	९	८	१२	११	०	०	शुभस्था ।
शनि	३	६	११	८	५	६	११	०	०	०	०	शुभस्था ।

अथ ग्रहाणां क्रमवेधः, तत्र प्रथमं रवेः ।
 पष्ठ ६ द्वादश १२ गो विद्वो दशम १० स्तुर्यगो ४ ग्रहः ॥

तृतीयो ३ नवमः ९ सूर्यो लाभस्थः ११ पंचम ८
स्तथा ॥ १३ ॥

अब ग्रहोंका क्रमवेध लिखते हैं—छठे और वारहवें स्थानमें सूर्यका वेध होता है अर्थात् छठे स्थानमें सूर्य शुभ होते हैं यदि वारहवें घरमें कोई ग्रह न होय तो इसी प्रकार दशवें स्थानमें सूर्य शुभ होते हैं, यदि चौथे स्थानमें कोई ग्रह न होय तो तीसरे स्थानमें सूर्य शुभ होते हैं यदि नौवें स्थानमें कोई ग्रह न होय तो चतुर्वें स्थानमें सूर्य शुभ होते हैं यदि पांचवें स्थानमें कोई ग्रह न होय तो और यदि जन्म राशिसे वारहवें, चौथे, नौवें, पांचवें घरमें कोई ग्रह होय तो छठे, दशवें, तीसरे, चतुर्वें घरमें स्थित सूर्य विद्ध होजाते हैं जिसका फल अशुभ होता है, शुभफल नहीं रहता । इसी प्रकारसे सब ग्रहोंका वेध जानलेना चाहिये ॥ १३ ॥

अथ चंद्रमसः ।

द्वितीयः २ सप्तम ७ श्वंद्रः प्रथमः १ पंचमस्तथा ८ ॥ पष्ठ-

द द्वादश १२ गो विद्धो ह्यष्टमो ८ लाभ ११ संस्थितः ॥

तृतीयो ३ नवम ९ स्तुर्यो ४ दशमस्थानगः १० सदा १४ ॥

अब चंद्रमाका लिखते हैं—चंद्रमाको दूसरे, सातवें घरका वेध होता है अर्थात् दूसरे घरमें चंद्रमा शुभ होता है यदि सातवें घरमें कोई ग्रह नहीं होय तो और जो सातवें घरमें कोई ग्रह होगा तो चंद्रमा विद्ध और उसका अशुभ फल होजाता है । इसीप्रकार प्रथम और पांचवेंका, छठे और वारहवें स्थानका, आठवें और चतुर्वें स्थानका, तीसरे और नौवें स्थानका, चौथे और दशवें स्थानका सदैव चंद्रमाका वेध होता है ॥ १४ ॥

अथ भौमशनिराहुकेतूनाम् ।

तृतीयं ३ द्वादशं १२ पष्ठं ६ नवम ९ मर्थरलाभं ११ गम् ॥

विध्येत्पंचमतो ८ भौमं राहुं केतुं शनैश्चरम् ॥ १५ ॥

अब भौम शनि राहु केतुओंका लिखते हैं—तीसरे तथा वारहवें स्थानका, छठे और नौवेंका, ग्यारहवें और पांचवें स्थानका, मंगल, राहु, केतु, शनैश्चर इन चारोंका वेध होता है ॥ १५ ॥

अथ वुधस्य ।

द्वितीयं २ पंचमं ६ तुर्यं ४ तृतीयो ३ नवमो ९ रसः ६ ॥
आद्ये १ षष्ठमं ८ वुधं खस्थ १० मष्टमो ८ त्यग १२
माय ११ गम् ॥ १६ ॥

अब वुधका लिखते हैं—दूसरे और पांचवेंका, चौथे और तीसरेका, नौवें और सातवें स्थानका, पहिले और आठवें स्थानका, दशवें और आठवें स्थानका, ग्यारहवें और वारहवें स्थानका वुधका वेध होता है १६

अथ गुरोः ।

द्वितीयं २ गुरुमन्त्यस्थं १२ पंचमं ६ तुर्यगोऽ४ षष्ठमः ८ ॥
लाभगं ११ सप्तमं ७ व्रिस्थं ३ नवमं ९ दशमो १०
ग्रहः ॥ १७ ॥

अब गुरुका लिखते हैं—दूसरे और वारहवेंका, पांचवें और चौथेका, आठवें और ग्यारहवेंका, सातवें और तीसरेका, नौवें और दशवें स्थानका वृहस्पतिका वेध होता है ॥ १७ ॥

अथ भृगोः ।

भार्गवं वाद्य॑ मष्टस्थ॒ त्रिंशि ३ माद्यो॑ रिगो॒ द्युत्यगम्॑ २ ॥
खस्थं १० तुर्यं च ४ लाभस्थो ११ नवमं त्रिंशि३ मायगम्॑
११ ॥ १८ ॥ द्वितीयं २ सप्तमं ७ खेटो॑ नवमः ९ पञ्चमं
तथा ॥ पंचमं ६ श्वाष्टमं ८ विद्ध्येत्कमवेष उदाहृतः ॥ १९ ॥
अविद्धः शुभदः खेटो॑ न वेधस्तात्पुत्रकः ॥ निंद्यस्थानग-
तोप्याद्यो॑ विद्ध्येत्स विलोमतः ॥ २० ॥

अब भृगुका लिखते हैं—पहिले और आठवें स्थानका, तीसरे और पहिले स्थानका, छठे और वारहवें स्थानका, दशवें और चौथे स्थानका,

ग्यारहवें और नौवें स्थानका, तीसरे और ग्यारहवें स्थानका ॥ १८ ॥
दूसरे और सातवें स्थानका, नौवें और पांचवेंका, पांचवें और आठवेंका क्रमसे शुक्रका वेध कहाँ है ॥ १९ ॥ (अविद्ध) वेधराहित ग्रह शुभ फलदायक होता है और पिता पुत्र ग्रहोंका वेध नहीं होता जैसे सूर्य और शनैश्चरका, चंद्रमा और वुधका वेध नहीं होता और यदि निन्दित स्थानमें ग्रह स्थित होय तो विलोम वेध होता है; जैसे छठे, दशवें, तीसरे, ग्यारहवें स्थानमें स्थित सूर्य शुभ होते हैं और शेष आठ स्थानोंमें अशुभ होते हैं जिनमेंसे चार स्थान जो कि, पहिले सूर्यके वेधके कह आये हैं वारहवां, चौथा, नौवां, पांचवां स्थान अशुभ और निन्दित हैं इन निन्दित स्थानोंमें सूर्य स्थित होय और छठे, दशवें, तीसरे, ग्यारहवें स्थानमें कोई ग्रह होय तो सूर्य विद्ध होते हैं और यदि कोई ग्रह नहीं होय तो शुभ होते हैं यही विलोम वेध कहाता है इसी प्रकार प्रथम, द्वितीय, सप्तम, अष्टम स्थानमें भी सूर्यका वेधावेध जानै ॥ २० ॥

अथ ग्रहाणां शुभविद्धस्थानचक्रम् ।

सूर्यस्य	६	१०	३	११	०	०	०	०	०	०	शुभस्थानानि
	१२	४	१	५	०	०	०	०	०	०	विद्धस्थानानि
चंद्रस्य	२	१	६	८	३	४	०	०	०	०	शुभस्थानानि
	७	५	१२	११	१	१०	०	०	०	०	विद्धस्थानानि
मं. श.	३	६	११	०	०	०	०	०	०	०	शुभस्थानानि
रा. के.	१३	९	५	०	०	०	०	०	०	०	विद्धस्थानानि
वुधस्य	२	४	९	१	१०	१२	०	०	०	०	शुभस्थानानि
	५	३	७	८	८	११	०	०	०	०	विद्धस्थानानि
ब्रह्मस्य	२	५	८	७	९	०	०	०	०	०	शुभस्थानानि
तेः	१२	४	११	३	१०	०	०	०	०	०	विद्धस्थानानि
गुरुस्य	१	३	६	१०	११	३	२	१	५	५	शुभस्थानानि
	८	१	११	४	१	१२	७	५	८	८	विद्धस्थानानि

अथ देशविभागेन जन्मतो वा ग्रहतो वेधगणना ।

हिमाद्रिविध्ययोर्मध्ये खेटक्षाद्वेष्टको भवेत् ॥

अन्यत्र जन्मराशेस्तु विज्ञेयौ वेध्यवेष्टकौ ॥ २१ ॥

अब देशविभागसे जन्मसे वा ग्रहसे वेधगणना लिखते हैं—
हिमालय और विन्ध्याचलके नीचमें ग्रहकी राशिसे वेध होताहै
और अन्य देशोंमें जन्मराशिसे वेध्य तथा वेष्टक ग्रह जाने ॥ २१ ॥

अथाष्टकवर्गानुसारेण ग्रहफलम् ।

स्वाष्टवर्गे यदा खेटोऽधिकरेखस्तु राशितः ॥

तदा गोचरदुष्टोऽपि श्रेष्ठो नाल्पकरेखगः ॥ २२ ॥

अब अष्टकवर्गानुसारसे ग्रहफल लिखते हैं—अपनी जन्मराशिसे
गोचरमें दुष्टफलदायक भी ग्रह यदि अपने अष्टकवर्गमें अधिक
रेखावाला होय तो शुभ फलदायक होताहै और अन्य रेखावाला ग्रह
शुभफलदायक नहीं होता ॥ २२ ॥

अथ ग्रहाणां निष्फलत्वम् ।

संत्फलोपीक्षितः पापैः सौम्यैर्द्योप्यस्त्फलः ॥ तादुभौ
निष्फलां ज्ञेयौ गोचरे जातकेषि च ॥ २३ ॥ शत्रुक्षेत्रगतः
खेटो नीचगोप्यस्तगोपि वा ॥ निष्फलः सोऽपि विज्ञेयः
शत्रुदुष्टोऽपि तादृशः ॥ २४ ॥

अब ग्रहोंका निष्फलत्व लिखते हैं—यदि शुभफलका देनेवाला
ग्रह पापग्रहोंसे दृष्ट हो और अशुभफल देनेवाला ग्रह शुभग्रहोंसे
दृष्ट हो तो इस प्रकारके दोनों ग्रह गोचर और जातकमें निष्फल
जानने ॥ २३ ॥ जो ग्रह शत्रुक्षेत्री होय अथवा नीचका होय वा
अस्तका होय वा शत्रुसे दृष्ट होय तो वह भी उसी प्रकार निष्फल
जानना ॥ २४ ॥

अथ ग्रहाणां राशिभोगमानस् ।

मासं शुक्रो वृधः सूर्यः सार्द्धमासं महीसुतः ॥ गुरुरचंद्रं
तमस्सार्द्धं शनिः सार्द्धचंद्रकद्यम् ॥ सपादद्विदिनं चंद्रः
प्रायः खेटभभोगकः ॥ २५ ॥

अब ग्रहोंका राशिभोगमान लिखते हैं—एकमास एकराशिपर
शुक्र, वृध, सूर्य भोग करते हैं और डेढ़मासमें मंगल एक राशि
भोगते हैं, वृहस्पति एक वर्षमें, राहु डेढ़वर्षमें, शनि ढाई वर्षमें और
चंद्रमा सत्रादो दिनमें एकराशि भोगता है यही ग्रहोंका राशि-
भोग है ॥ २५ ॥

अथ ग्रहाणां फलसमयः ।

राशेरादो कुजः सूर्यो मध्ये शुक्रवृहस्पती ॥ अंत्ये चंद्रः
शनिज्ञेयः फलदः सर्वदा वृधः ॥ २६ ॥ सूर्यः पंचदिनात्पूर्वं
शीतरश्मिर्घटीत्रयात् ॥ भौमो धत्ताएकादर्वाकशुक्रज्ञो सत-
वासरात् ॥ २७ ॥ गुरुर्मासद्वयाचैव पण्मासात् शनै-
श्वरः ॥ राहुर्मासत्रयादेव राशेस्तु फलदाः स्मृताः ॥ २८ ॥
राशिनक्षत्रसंधिस्था फलदा ध्रुवमेष्ययोः ॥ राशिनक्षत्रयोः
खेटाः पूर्वयोश्चेद्विलोमगाः ॥ २९ ॥

अब ग्रहोंका फल समय लिखते हैं—राशिके आदिमें मंगल, सूर्य
फल देते हैं, शुक्र, वृहस्पति राशिके मध्यमें; चंद्रमा, शनैश्वर राशिके
अन्तमें और वृध राशिके सब कालमें फलदायक जानना ॥ २६ ॥
सूर्य राशिपर जानेके समयसे पांचदिन पहिलेसे फल देने लगते हैं,
चंद्रमा राशिपर जानेसमयसे तीनघडी पहिलेसे फल देनेलगता है
मंगल आठदिन पहिले; शुक्र, वृध सातदिन पहिले ॥ २७ ॥ वृहस्पति
दोमास पहिलेसे; शनैश्वर छहमास पहिलेसे; राहु तीनमास पहिलेसे
फल देनेलगता है ॥ २८ ॥ राशि और नक्षत्रकी संधिमें जो

अह स्थित होय तो अग्रिम राशि और नक्षत्रके फल देतेहें, और यदि ग्रह वक्ती हों तो पूर्वकी राशिं और नक्षत्रके फल देतेहें अर्थात् जिस राशिसे ग्रह वक्ती होय उसीका फल देताहै और वर्तमान राशिका फल नहीं देता ॥ २९ ॥

अथ जन्मराशितो ग्रहणफलम् ।

ग्रहणं जन्मभाच्छेष्टं दशौ१० कादश ११ पट्टद्विकम् ३ ॥
मध्यमं पंच ६ सप्ता ७ श्वि २ नवम ९ स्थान संस्थितम् ॥ ३० ॥ नेष्टमंत्या १२ ए८ तुर्य ४ स्थं जन्मक्षेत्रं चेन्मृति-
र्भवेत् ॥ जपात्सुवर्णगोदानाच्छान्तिश्वादर्शनाच्छुभम् ॥ ३१ ॥

अब जन्मराशिसे ग्रहण फल लिखते हैं—जन्मराशिसे दशवीं, ग्यारहवीं, छठी, तीसरी राशिपर ग्रहण पड़े तो शुभ होता है और पांचवीं, सातवीं, दूसरी, नौवीं राशिपर ग्रहण पड़े तो मध्यम होता है ॥ ३० ॥ तथा बारहवीं, आठवीं, चौथी राशिपर ग्रहण पड़े तो नेष्ट होता है और जन्मराशिपर ग्रहण पड़े तो मृत्यु होती है जप करने तथा सुवर्ण और गऊदान करनेसे शान्ति होती है और ग्रहण न देखनेसे भी शुभ फल होता है ॥ ३१ ॥

अथ विपमस्थे ग्रहे विवर्ज्यानि ।

आदावकालयात्रा च दूरदेशगमो नृपैः ॥ दुष्टवाजिगजा-
रोहो गमनं परमंदिरम् ॥ न कार्यं साहसं कर्म विपमेषु
ग्रहेषु च ॥ ३२ ॥

अब दुष्टस्थानस्थितग्रहमें वर्ज्य लिखते हैं—यदि अशुभ स्थानमें ग्रह होय तो राजा प्रथमही असमयमें यात्रा करना, दूरदेशका जाना, दुष्ट हाथी घोडेपर चढ़ना, परायेपर जाना और साहस कर्म ये सब न करे ॥ ३२ ॥

अथ ग्रहाणां दानानि ।

ये खेटा गोचरे दुष्टा दशायां स्वाएवर्गके ॥ जपदानादिना
ते स्युः प्रसन्नाः शांतितोऽपि वा ॥ ३३ ॥ माणिक्य-
धेनुगोधूमा हेम ताम्रं गुडोंबुजम् ॥ चंदनं चांवरं रक्तं देवं
भास्त्रन्मुदे नृपैः ॥ ३४ ॥ मुक्तां रौप्यं सितं ताम्रं शंखं
वंशस्थतंडुलान् ॥ कर्पूरं गोयुगं दद्याद्रत्नं कुंभं विधोर्मुदे
॥ ३५ ॥ प्रवालं हेमगोधूमात्रकं वासोरुणं वृपम् ॥
करवीरं गुडं ताम्रं मसूरान्भौमतुष्टये ॥ ३६ ॥ कांस्यं
नीलांवरं हेम गजदंतं गरुत्मकम् ॥ मुद्राज्यस्त्वर्णकापुष्पं
दद्यात्प्रीत्यै बुधस्य च ॥ ३७ ॥ हरिद्राश्वः सिता हेम पीतं
धान्यं तथांवरम् ॥ लवणं पुष्परागश्च देयो वाचस्पतेर्मुदे
॥ ३८ ॥ धेनुं चित्रांवरं चाज्यं श्रेताश्वो हेम तंडुलाः ॥
सुगंधी रजतं वज्रं प्रदेयं प्रीतये भूगोः ॥ ३९ ॥ तिलतैलं
तथा मापानिंद्रनीलसितांवरम् ॥ कृष्णां गां महिपीदानं
स्वर्णं दद्याच्छन्नेर्मुदे ॥ ४० ॥ गोमेदं तुरगं खड्डं नीलवस्त्रं
च कंवलम् ॥ स्वर्णं तैलं तिलान्दद्यात्सेहिकेयमुदे नृपः
॥ ४१ ॥ कस्तूरी कंवलं शस्त्रं छागो वैदूर्यकांचनम् ॥
तिलास्तैलं महीपालैः प्रदेयं केतुतुष्टये ॥ ४२ ॥

अब ग्रहोंका दान लिखतेहैं—जो ग्रह गोचरमें, दशामें, अपने अप्त-
वर्गमें अशुभ फल दायक होयें तो वे सब ग्रह जप दानादि तथा
शान्ति करनेसे प्रसन्न होतेहैं ॥ ३३ ॥ माणिक्य, गज, गेहूं, सुवर्ण,
तांवा, गुड, कमल, चंदन, रक्तवस्त्र इतनी वस्तुएँ राजालोग सूर्यकी
प्रीतिके लिये दान करें ॥ ३४ ॥ मोती, चांदी, इवेत वस्त्र, ताँवा,
शंख, वाँसकी छवरियामें भरेहुए चावल, कपूर, दो गज, रत्न,
कुंभ ये वस्तु चंद्रमाकी प्रीतिके लिये दान करें ॥ ३५ ॥ मूँगा,

सुवर्ण, गेहूं, रक्तवस्त्र, लाल वैल, कनेरके फूल, गुड, ताँवा, मसूर अन्न ये सब वस्तु मंगलकी प्रसन्नताके लिये दान करें ॥ ३६ ॥ कांसी, नीला कपडा, सुवर्ण, हाथीका दांत, पन्ना, मूँग, धी, पीले फूल बुधकी प्रीतिके लिये दान करें ॥ ३७ ॥ हलदी, घोडा, शर्करा, सुवर्ण, पीला अन्न, पीला वस्त्र, लंवण, पुखराज ये वस्तु वृहस्पतिकी प्रसन्नतार्थ दान करें ॥ ३८ ॥ गड, चित्राम्बर, धी, श्वेत घोडा, सुवर्ण, चावल, सुगंधि, चांदी, वस्त्र, हीरा ये वस्तु शुक्रकी प्रीत्यर्थ दान करें ॥ ३९ ॥ तिल, तैल, उडद, इंद्रनील मणि, इयाम वस्त्र, काली गड, भैंस, सुवर्ण ये वस्तु शनैश्चरकी प्रीतिके अर्थ दान करें ॥ ४० ॥ गोमेद रत्न, घोडा, तलवार, नीला वस्त्र, कस्वल, सुवर्ण, तैल, तिल ये वस्तु राहुकी प्रीतिके अर्थ राजा दान करें ॥ ४१ ॥ कस्तूरी, कस्वल, शस्त्र, वकरी, वैदूर्य मणि, सुवर्ण, तिल, तैल ये वस्तु केतुकी प्रसन्नताके लिये दान करें ॥ ४२ ॥

अथ ग्रहदोषहरमौषधीस्नानम् ।

एलापष्टीमधूशीरताम्रपुष्पाव्जकुंकुमैः ॥ स्नानं मनःशिला-
देवदारुभी रवितुष्टये ॥ ४३ ॥ पंचगव्येनदंतांशुशंखस्फटिक-
मौक्तिकैः ॥ कुमुदैर्मिश्रितं स्नानं चन्द्रदोपापनुत्तये ॥ ४४ ॥
हिंगूलविल्वफलिनीमांसीवकुलचंदनैः ॥ रक्तपुष्पेर्बलामिश्रैः
स्नानं भौमार्त्तिनुत्तये ॥ ४५ ॥ गोमयाक्षतमुक्ताभी रोच-
नामधुहेमभिः ॥ फलमूलैर्युतं स्नानं वोधनार्त्तिविनाश-
नम् ॥ ४६ ॥ मालतीकुसुमैः श्वेतसंर्पपक्षौद्रसंयुतैः ॥ मल्व
लैर्मदयंत्या च स्नायाद्ग्रसुदे ततः ॥ ४७ ॥ फलामनः-
शिलामूलफलकुंकुमवारिभिः ॥ स्नानं शुक्रकृतां वाधा-
नाशयत्येव भूमुजाम् ॥ ४८ ॥ बलांजनैः कृष्णतिलैर्लोध्रेण
मिश्रितरपि ॥ शतपुष्पान्वितैः स्नायान्मंदवाधापनुत्तये ॥ ४९ ॥

अब ग्रहदोपहरण करनेवाला औपधीस्नान लिखते हैं—इलायची, साठी, शहत, उशीर, ताम्र रंगके फूल, कमल, केसर, देवदारु, मैनशिल इन औपधियोंसे सूर्यकी प्रसन्नताके अर्थ स्नान करे ॥४३॥ पंचगव्य (गौका दधि, दूध, घृत, मूत्र, गोवर) दंती औपधिका जल, स्फटिक, मोती, कुमुद इन सबको जलमें मिलाकर स्नान करे तो चंद्रमाका दोप दूर होजाता है ॥ ४४ ॥ हींग, विल्व, गोदनी, जटामाँसी, मौलसिरी, चंदन, लाल फूल, खिरहटी इन सब औपधियोंके जलसे मंगलकी पीडा दूर करनेके लिये स्नान करे ॥ ४५ ॥ गोवर, अक्षत, मोती, गोरोचन, शहत, सुवर्ण, फल, मूल इन औपधियोंके जलसे बुधकी पीडा निवारण करनेके अर्थ स्नान करे ॥ ४६ ॥ चमेलीके फूल, ढेत सरसों, शहत, गूलर, मदयंती और नवीन यत्तोंके जलसे वृहस्पतिकी प्रसन्नताके अर्थ स्नान करौ ॥४७॥ त्रिफला, मैनशिल, मूल, फल, मूलीका बीज, केसर, इन औपधियोंके सहित जलसे स्नान राजाओंकी शुक्र कृत वाधाका नाश करता है ॥ ४८ ॥ खिरहटी, सुरमा, काले तिल, लोध, सोंफ इन औपधियोंके जलसे शनिकृत वाधा दूर करनेके लिये स्नान करे ॥ ४९ ॥

अथ सर्वग्रहदोपाणां दोपापनुत्तये सामान्य-
मौपधीस्नानम् ।

लाजाकुष्ठवलाभिश्च प्रियंगुघनसर्पणैः ॥ देवदारुहरिद्राभिः
युंखलोत्रेण संयुतेः ॥ ५० ॥ वारिभिः स्नानमुक्तं हि प्रोक्तं
दानपुरः सरम् ॥ एतत्सामान्यतः सर्वग्रहपीडोपशांतये ॥५१॥
यथा सिद्धोपयै रोगानश्येयुर्मत्रतो भयम् ॥ तथा स्नानवि-
धानेन ग्रहदोपः प्रणश्यति ॥ ५२ ॥

अब सब ग्रहोंके दोपोंका नाशके लिये सामान्य औपधीस्नान लिखते हैं—साठीकी खीलें कूट, खिरहटी, मालकाँगनी, वनस्पती

देवदास, हलदी, सरफोका, लोध ॥ ५० ॥ इन औपधियोंके जलसे स्नान करना तथा पूर्वोक्त दान करना सब ग्रहोंकी पीड़ा शान्त होनेके लिये यह यत्न सामान्यतासे कहाहै ॥ ५१ ॥ जैसे सिद्ध औपधियोंसे रोग और मंत्रसे भय नाश होताहै । इसी प्रकार स्नान करनेसे ग्रहदोष नाश होजाताहै ॥ ५२ ॥

अथ ग्रहप्रीतये रत्नादिधारणम् ।

शुक्रेन्द्रो रजतं चैव विद्वुमं भानुभौमयोः ॥ ज्ञस्य हेम शने-
लौंहं गुरोर्मुक्तापलं नरः ॥ प्रीतये धारयेदंगे लाजावर्त्त ततो-
न्ययोः ॥ ५३ ॥

अब ग्रहोंके प्रीतिके लिये रत्नादि धारण लिखतेहैं—शुक्र और चंद्रमाकी प्रसन्नताके अर्थ चांदी, सूर्य तथा मंगलकी प्रसन्नताके अर्थ सूंगा, बृहकी प्रसन्नताके अर्थ सुवर्ण, शनैश्चरकी प्रीतिके अर्थ लोह, वृहस्पतिकी प्रीतिके अर्थ मोती और राहु केतुकी प्रीतिके अर्थ लाजावर्त्त नामक मणि अंगमें धारण करें ॥ ५३ ॥

अथ नवग्रहमुद्रिका ।

माणिक्यं तरणेर्मध्ये प्राच्यां वज्रं भृगोर्विधोः ॥ आग्नेयां
मौक्तिकं याम्यां प्रवालं मंगलस्य च ॥ ५४ ॥ गोमेदं
राक्षसे राहोः पश्चिमे नीलकं शनेः ॥ वायौ वैदूर्यकं केतो-
रुदीच्यां पुष्पकं गुरोः ॥ ५५ ॥ गारुत्मतं तथैशान्यां सोम-
पुत्रस्य तुष्टये ॥ मुद्रिकायां नरैर्धायं ग्रहाणां प्रीतये
सदा ॥ ५६ ॥

अब नवग्रहोंकी मुद्रिका लिखतेहैं—वीचमें सूर्यका माणिक्य, पूर्वमें शुक्रका हीरा, आग्नेयमें चंद्रमाका मोती, दक्षिणमें मंगलका मूँगा ॥ ५७ ॥ नैऋत्यमें राहुका गोमेद रत्न, पश्चिममें शनै-
श्चरका नीलम, वायव्यमें केतुका वैदूर्य, उत्तरमें वृहस्पतिका

पुखराज ॥ ५५ ॥ ईशानमें बुधका पन्ना ये रत्न (सुद्रिका) अंगू-
ठीमें जड़वायकर ग्रहोंकी प्रसन्नताके अर्थ सब लोग सदैव
धारण करें ॥ ५६ ॥

अथ ग्रहपीडोपशमनोपायाः ।

धावनाद्गुरुवस्त्राणां देवत्राह्मणवंदनात् ॥ वेदादिश्रवणाद्वापि
साधुनामभिभापणात् ॥ ५७ ॥ मनःशुद्धया जपादाना-
द्वोमादध्वरदर्शनात् ॥ नो कुर्वति ग्रहाः पीडां दुष्टस्थान-
स्थिता अपि ॥ ५८ ॥

इति श्रीमद्वज्ञरावलहरिशंकरसूरिसूनुगणपतिकृते मुहूर्तं
गणपतौ गोचरप्रकरणं त्रयोदशम् ॥ १३ ॥

अब ग्रहपीडाके नाशका उपाय लिखते हैं— गुरुके वस्त्र धोनेसे,
अर्थात् सेवा करनेसे, देवता और व्राह्मणोंको वंदना करनेसे,
वेदादि शास्त्रोंके सुननेसे, साधुओंके साथ संभापण करनेसे ॥ ५७ ॥
मनकी शुद्धिसे, जप और दान तथा होम करनेसे, यज्ञके दर्शनसे,
दुष्टस्थानमें भी स्थित ग्रह पीडा नहीं करते हैं ॥ ५८ ॥

इति श्रीमद्वज्ञरावलहरिशंकरसूरिसूनुगणपतिकृते मुहूर्तं
गणपतौ श्रीयुतपंडितवर्यवेणीरामात्मजपंडितराम-
दयालुशम्र्मकृतभाषाटीकासमलङ्घतं गोचर-
प्रकरणं त्रयोदशम् ॥ १३ ॥

अथ संस्कारप्रकरणम् तत्रादौ प्रथमरजोदर्शनम् ।
वैशाखे फाल्गुने माघे मार्गाल्यव्राचणाथिने ॥ पक्षे शुक्ले
शुभाहे च सद्विलये तथा दिवा ॥ १ ॥ त्रवस्त्रये तुराधायां
रेवतीद्वितये मृगे ॥ हस्तव्रये च रोहिण्यां पुष्यमे चोत्तरासु

च ॥ २ ॥ सितवस्त्रे शुभं स्त्रीणां प्रथमं पुण्यदर्शनम् ॥ मध्यं
ज्येष्ठापुनर्वस्त्रोर्मूले चान्यत्र निंदितम् ॥ ३ ॥ अष्टम्यां
द्वादशीपष्ठयो रिक्तादर्शेऽथ संक्रमे ॥ भद्रानिद्राव्यतीपाते
अहणे रुजि वैधृतौ ॥ ४ ॥ परतातगृहे संध्याकुदेशे कृष्ण-
वाससि ॥ प्राग्रजोदर्शनं नेष्टं शांत्या तु शुभदं भवेत् ॥ ५ ॥
प्रागुक्ता विलयं यांति रजोदर्शनसंभवाः ॥ ॥ सर्वदोपास्तु
सल्लभे सितेज्ययुतवीक्षिते ॥ ६ ॥

अब संस्कारप्रकरण लिखते हैं—तहाँ पहिले प्रथम रजोदर्शन
लिखते हैं—वैशाख, फाल्गुन, माघ, मार्गशीर्ष, श्रावण, आश्विन
इन महीनोंमें; शुक्रपक्ष, शुभदिन, शुभलघ्नमें तथा दिनके समय
॥ ३ ॥ और श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, अनुराधा, रेती, अश्विनी,
मृगशिरा, हस्त, चित्रा, स्वाति, रोहिणी, पुण्य, तीनों उत्तरा,
इन नक्षत्रोंमें ॥ २ ॥ और द्वेतवस्त्र पहिने रहनेमें प्रथम रजो-
दर्शन शुभ होता है तथा ज्येष्ठा, पुनर्वसु, मूल इन नक्षत्रोंमें
प्रथम रजोदर्शन मध्यम होता है और अन्य नक्षत्रोंमें निंदित
होता है ॥ ३ ॥ अष्टमी, द्वादशी, पष्ठी, रिक्ता, अमावास्या इन,
तिथियोंमें, संक्रांति, भद्रा, निद्रा, व्यतीपात, अहण, रोग, वैधृति
योग ॥ ४ ॥ इनमें तथा परायेघर और पिताके घरमें, संध्यामें,
कुदेशमें, काले वस्त्र पहिने हुएमें प्रथम रजोदर्शन नेष्ट होता है
शांति करनेसे शुभदायक होता है ॥ ५ ॥ यदि शुभलघ्न शुक्र
अथवा वृहस्पतिसे युक्त वा दृष्ट होय तो पूर्वोक्त रजोदर्शनसे उत्पन्न
हुए सब दोप नाशको प्राप्त होजाते हैं ॥ ६ ॥

अथ ऋतुमत्याः स्नानम् ।

पुनर्वस्त्रोस्तथा चित्राज्येष्ठापुण्याभिधेपु च ॥

स्नायाद्वतुमती नारी शुभे वारे शुभे तिथी ॥ ७ ॥

अब ऋतुमतीका स्नान लिखते हैं—पुनर्वसु, चित्रा, ज्येष्ठा, पुष्य
इन नक्षत्रोंमें और शुभवार तथा शुभ तिथिमें ऋतुमती स्नी
स्नान करै ॥ ७ ॥

अथ शीघ्रगर्भधारणम् ।

रोहिणीद्वितये स्वात्यां हस्तक्षें रेवतीद्वये ॥

स्नाता तु युवती गर्भं विधत्ते शीघ्रमेव हि ॥ ८ ॥

अब शीघ्र गर्भधारण लिखते हैं—रोहिणी, कृत्तिका, स्वाति, हस्त,
रेवती, अश्विनी इन नक्षत्रोंमें स्नान करनेवाली युवती शीघ्रही
गर्भको धारण करती है ॥ ८ ॥

अथ गर्भाधानम् ।

जन्मक्षमरणीमूलं दुष्टेद्वं रेवतीं मधाम् ॥ पर्वाहं च व्यतीपातं
वैधृतिं परिघार्धकम् ॥ ९ ॥ पित्रोः श्राद्धदिनं संध्यां दिवा
पट्टीं च पर्वं च ॥ आर्तवाहश्वतुष्कं च विद्यरिक्तार्कसंक्र-
मान् ॥ १० ॥ तथैव कूरवाराँशं गर्भाधाने विवर्जयेत् ॥
स्वातो हस्तेऽनुराधायां रोहिण्यां वा श्रवस्त्रये ॥ ११ ॥
श्वतरे मृगशीर्णे च शुभाहे समरात्रिषु ॥ गर्भाधानं प्रशस्तं
स्याच्छस्ते चंद्रे युगांशके ॥ १२ ॥ केंद्रकोणस्थिते सौम्ये
पापे च त्रिपडायगे ॥ पुण्ड्रमे पुणवारोशं च तथा पुण्यहवी-
क्षिते ॥ १३ ॥ चित्रापुनर्वसुपुष्ये अश्विन्यां मध्यमं
स्मृतम् ॥ १४ ॥

अब गर्भाधान लिखते हैं—जन्मनक्षत्र, भरणी, मूल दुष्ट, चंद्रमा,
रेवती, मधा, (पर्वदिन) अहणादि दिन, व्यतीपात, वैधृति, आधा
परिघ योग ॥ ९ ॥ माता पिताका श्राद्धदिन, संध्या तथा दिनका
समय, छठी (पर्व) अमावास्या, पौर्णमासी, ऋतु होनेके चारदिन,
भद्रा, रिक्ता तिथि, सूर्यकी संक्रांति ॥ १० ॥ तथा कूरवार ये सब

गर्भाधानमें त्वाग देवे, स्वाति, हस्त, अनुराधा, रोहिणी, श्रवण,
धनिष्ठा, शतभिषा ॥ ११ ॥ तीनों उत्तरा, मृगशीर्ष, शुभदिन,
ऋतुकी सम रात्रियोंमें तथा चौथे नवांशामें शुभ चंद्रमा होय तो
गर्भाधान श्रेष्ठ होताहै ॥ १२ ॥ केंद्रोंमें ३ । ४ । ७ । १० त्रिकोण
१५ में सौम्यग्रह होंय और तीसरे, छठे, ग्यारहवें स्थानमें पापग्रह
होय पुरुषलक्ष और पुरुष नवांशा ये दोनों पुरुषग्रहोंसे दृष्ट होंय
॥ १३ ॥ चित्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्विनी ये नक्षत्र होंय तो गर्भाधान
मध्यम कहाहै ॥ १४ ॥

अथ पुंसवनसीमंतोन्नयने ।

द्वितीये वा तृतीये वा मासि पुंसवनं स्मृतम् ॥ मासे पष्टेष्टमे
वायगमें सीमंतकं विदुः ॥ १५ ॥ पुनर्वसुद्वये मूले श्रवणे
मृगहस्तयोः ॥ गुरुभौमार्कवारेषु प्रोक्तं पुंसवनादिकम् ॥ १६ ॥
रेवत्यां त्रुत्तरे पुष्ये शुक्रे चंद्रे बुधे गुरौ ॥ मासेशे सबले
चंद्रे लग्ने पुंभांशके शुभे ॥ सौम्ये केंद्रत्रिकोणस्थे पापे लाभ
त्रिपद्मे ॥ १७ ॥

अब पुंसवन और सीमन्तोन्नयन लिखतेहैं—प्रथमगर्भसे दूसरे
वा तीसरे मासमें पुंसवन कहाहै और छठे आठवें मासमें सीमन्त
कर्म कहाहै ॥ १५ ॥ पुनर्वसु, पुष्य, मूल, श्रवण, मृगशिर, हस्त,
इन नक्षत्रोंमें और मंगल, वृहस्पति, रविवारोंमें पुंसवनादिक कर्म
शुभ होतेहैं ॥ १६ ॥ रेवती, तीनों उत्तरा, पुष्य इन नक्षत्रोंमें
और शुक्र, चंद्रमा, बुध इन वारोंमें तथा मासाधिप ग्रह घलवान्
होय शुभ चंद्रमा तथा लग्न पुरुषग्रहके नवांशकमें होय, शुभग्रहकेंद्र
और त्रिकोणमें होय और पापग्रह ग्यारहवें, तीसरे, छठे स्थानमें
होय तो पुंसवनादि कर्म करनेसे जय होती है ॥ १७ ॥

अथ मासेश्वराः ।

मासाधिपा भृगुभैर्मो गुरुः सूर्येदुसूर्यजाः ॥

बुधो लग्नपतिश्चंद्रो सूर्यश्चैते यथाक्रमम् ॥ १८ ॥

अब मासेश्वर लिखते हैं—गर्भके प्रथम मासका स्वामी शुक्र, दूसरे मासका स्वामी मंगल, तीसरे मासका वृहस्पति, चौथे मासका सूर्य, पांचवें मासका चंद्रमा, छठे मासका शनैश्चर, सातवें मासका बुध, आठवें मासका स्वामी लग्नपति, नौवें मासका चंद्रमा और दशवें मासका सर्य स्वामी हैं ये यथाक्रमसे मासाधिप कहे हैं ॥ १८ ॥

अथ गर्भसंस्कारे विशेषः ।

विवाहे गर्भसंस्कारे चंद्रशुद्धिः त्रिया अपि ॥ भूपांवरादि-
कायेंपु भर्तुश्चैवेद्वं वलम् ॥ १९ ॥ गर्भाधानादिसंस्कारे
तथाऽन्नप्राशने शिशोः ॥ न तत्र गुरुशुक्रास्तमलमासादि-
दूषणम् ॥ २० ॥

अब गर्भसंस्कारमें विशेष लिखते हैं—विवाह और गर्भसंस्कारमें खीके लिये भी चंद्रमाकी शुद्धि देखनी चाहिये और भूषण वस्त्रादिकोंके कायोंमें भर्त्ताके लिये चंद्रमाका वल देखना चाहिये ॥ १९ ॥ गर्भाधानादि संस्कारोंमें तथा वालकके अन्न प्राशनमें वृहस्पति और शुक्रका अस्त तथा मलमासादिका दूषण नहीं होता है ॥ २० ॥

अथ विष्णुपूजा ।

सीमंतोर्ध्वं सिते पक्षे रोहिण्यां श्रवणे तथा ॥

द्वादशीसप्तमीयुग्मे हर्यच्चा गर्भतुष्टये ॥ २१ ॥

अब विष्णुपूजा लिखते हैं—सीमन्तकर्मके पश्चात् शुक्रपक्षमें रोहिणी, श्रवण नक्षत्रोंमें और द्वादशी, सप्तमी तिथिमें गर्भतुष्टिके अर्थ विष्णुकी पूजा करें ॥ २१ ॥

अथ सूतिकागृहप्रवेशः ।

श्रवस्त्रयोत्तराहस्तत्रये पुष्प्याऽनुराधयोः ॥ पुनर्भेद रोहिणी-
युग्मे रेवतीद्वितये तथा ॥ २२ ॥ शुभाहेऽप्रसवायुक्ता सूतिका
मंदिरं विशेष ॥ २३ ॥

अब सूतिकागृहप्रवेश लिखते हैं—श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, तीनों
उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वाति, पुष्प्य, अनुराधा, पुनर्वसु, रोहिणी,
मृगशिरा, रेवती, अश्विनी इन नक्षत्रोंमें ॥ २२ ॥ और शुभवारमें
प्रसवयुक्ता स्त्री सूतिकागृहमें प्रवेश करें ॥ २३ ॥

अथ जातकर्म ।

जातकर्म शिशौ जाते पिता तत्कालमाचरेत् ॥ एकादशे हि
वा कुर्याद्वादशे वा यथाविधि ॥ २४ ॥ रेवतीद्वितये पुष्प्ये
पुनर्वस्त्रनुराधयोः ॥ श्रवणादित्रिभे हस्तत्रितये रोहिणी-
मृगे ॥ २५ ॥ अनुत्तरे जातकर्माद्यं कालातिक्रमणे विदुः ॥

अब जातकर्म लिखते हैं—पिता बालकका जन्महोनेपर उसी
समय जातकर्म करें अथवा जन्मसे र्घारहवें वा वारहवें दिन
यथाविधिसे करें और (कालातिक्रमण) अर्थात् उक्त समयपर
न वनपड़े तो ॥ २४ ॥ रेवती, अश्विनी, पुष्प्य, पुनर्वसु, अनुराधा,
श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, हस्त, चित्रा, स्वाति, रोहिणी, मृगशिरा
॥ २५ ॥ तीनों उत्तरा इन नक्षत्रोंमें जातकर्म करें ऐसा पूर्वाचार्य
कहते हैं ॥

अथ जननसमये दुष्टकालनिर्णयः; तत्राभुक्तमूलम् ।
ज्येष्ठांत्ये घटिकायुग्मं मूलादौ घटिकाद्यम् ॥ अभुक्तमू-
लमेतत्स्यादित्येवं नारदोऽत्रवीत् ॥ २६ ॥ वसिष्ठस्तु तयो-
रंत्याद्ययोरेकद्विनाडिकम् ॥ अंगिरा घटिकामेकामन्ये

पदचाए तत्र तु ॥ २७ ॥ जातं शिशुं त्यजेत्तातो न पश्ये-
द्वाष्टहायनम् ॥ २८ ॥

अब जन्मसमयमें दुष्टकाल निर्णय लिखते हैं—तहाँ अभुक्त मूल लिखते हैं—ज्येष्ठा नक्षत्रके अंतकी दो घड़ी और मूलके आदिकी दो घड़ी अभुक्त मूल होते हैं ऐसा नारदजीने कहा है ॥ २६ ॥ और ज्येष्ठाके अंतकी एकघड़ी और मूलके आदिकी दोघड़ी अभुक्त मूल होते हैं ऐसा वसिष्ठजीने कहा है और अंगिरा क्षणिका ऐसा मत है कि, ज्येष्ठाके अंतकी एकघड़ी और मूलके आदिकी एकघड़ी अभुक्त-मूल होते हैं और अन्य आचार्योंका ऐसा मत है कि, ज्येष्ठाके अंतकी छह घड़ी और मूलके आदिकी आठ घड़ी अभुक्त मूल होते हैं ॥ २७ ॥ अभुक्त मूलोत्पन्न चालकको पिता ल्यागदेवे अथवा आठ वर्षतक उस चालकको न देखें ॥ २८ ॥

अथ मूलजनने पादफलम् ।

मूलाद्यचरणे तातो द्वितीये जननी तथा ॥

तृतीये तु धनं नश्येच्चतुर्थोऽपि शुभावहः ॥ २९ ॥

अब मूलमें पादफल लिखते हैं—मूल नक्षत्रके प्रथम चरणमें चालकका जन्म होय तो पिताका नाश होता है, दूसरे चरणमें माताका, तीसरेमें धनका नाश होता है और चौथा चरण शुभ-कारक है ॥ २९ ॥

अथ मूलवासः ।

माघापाढाश्विने भाद्रपदे मूलं वसेद्विवि ॥ कार्त्तिके श्रावणे चैत्रे पौषमासे तु भूतले ॥ ३० ॥ वैशाखे फाल्गुने ज्येष्ठे मार्गे पातालवर्ति तत् ॥ भूतले वर्तमाने तु ज्येष्ठो दोपोऽन्यथा नहि ॥ ३१ ॥

अब मूलका वास लिखते हैं—माघ, आपाद, आश्विन, भाद्रपद
 इन महीनोंमें मूल नक्षत्रका वास स्वर्गमें होता है और कार्त्तिक,
 आवण, चैत्र, पौष इन महीनोंमें मूलका वास पृथ्वीपर होता है
 ॥ ३० ॥ वैशाख, फालगुन, ज्येष्ठ, मार्गशीर्ष इन महीनोंमें मूल
 पातालमें रहता है यदि मूल पृथ्वीपर वर्तमान होय तो दोप होता है
 अन्यथा दोप नहीं होता ॥ ३१ ॥

अथाऽऽश्लेषाज्येष्टागंडांतयमलजननादौ नेष्टफलम् ।

यदुकुं मूलपादेषु फलं तत्स्याद्विलोमकम् ॥ आश्लेषायां तु
 विज्ञेयं शांतिस्तस्माद्विधीयते ॥ ३२ ॥ गंडांतत्रितये चापि
 ज्येष्टायामशुभा जनिः ॥ तथा यमलजन्मादिविकृतिर्न
 शुभावहा ॥ ३३ ॥

अब आश्लेषा, ज्येष्ठा, गंडान्त आदिमें तथा यमलजननादिमें
 नेष्टफल लिखते हैं—मूल नक्षत्रके चरणोंका जो फल कहाहै वही
 फल आश्लेषा नक्षत्रमें (विलोम) विपरीत जानना अर्थात्
 पहिला चरणमें जन्म हो तो शुभ, दूसरे चरणमें धनका नाश,
 तीसरे चरणमें माताका नाश चौथेमें पिताका नाश होता है इसी
 कारणसे शांति करनी चाहिये ॥ ३२ ॥ (गंडांतत्रितय) तिथिगं-
 डान्त, लग्नगंडान्त, नक्षत्रगंडान्तमें, अथवा ज्येष्ठा नक्षत्रमें वालकका
 जन्म अशुभ होता है तथा दो वालकोंका एक साथ जन्म अथवा
 विकृतका जन्म शुभ नहीं होता है ॥ ३३ ॥

अथ ज्येष्टायाश्वरणफलम् ।

आद्ये पादेऽग्रजं हंति ज्येष्टायामशुजं द्विके ॥

तृतीये जननीं जातः स्वात्मानं च तुरीयके ॥ ३४ ॥

अब ज्येष्ठाके चरणफल लिखते हैं—ज्येष्ठा नक्षत्रके प्रथम पादमें
 वालकका जन्म होय तो घडे भाईका, दूसरे चरणमें जन्म होय

तो छोटे भाईका, तीसरेमें जन्म होय तो माताका और चौथेमें जन्म होय तो अपने आत्माका नाश करताहै ॥ ३४ ॥

अथ पूर्वोक्ता अन्ये च जनने दुष्टकालाः शांत्या शुभावहास्तानाह ।

गंडान्तः परिघः शूलं व्यतीपातोऽथ वैधृतिः ॥ सूलाऽश्लेषा-
व्यमा ज्येष्ठा यमवंटोर्कसंक्रमः ॥ ३५ ॥ वत्रगंडौ मृतिर्भद्रा
व्याधातो दग्धवासरः ॥ कृष्णा चतुर्दशी पातस्तातसोदर-
जन्मभम् ॥ ३६ ॥ तथाऽवमं दिनं निंद्यं जन्मकाले शिशो
स्त्रिकम् ॥ तद्वोपपरिहाराय शांतिं कुर्याद्यथाविधि ॥ ३७ ॥

अब पूर्वोक्त और अन्य भी दुष्टकालमें जन्महो तो शांति करनेसे,
शुभ होताहै सो लिखतेहैं—तीनप्रकारका गंडान्त, परिघ योग,
शूल योग, व्यतीपात, वैधृति योग, सूल, आश्लेषा, अमावास्या
ज्येष्ठा, यमवंटक योग, सूर्यकी संक्रांति ॥ ३५ ॥ वज्र, गंड योग
मृत्युयोग, भद्रा, व्याधात योग, दग्धवार, कृष्णपक्षकी चतुर्दशी,
पात दोप, पिता भ्राताका जन्मनक्षत्र ॥ ३६ ॥ और अबमादिन,
तथा त्रिकदोप यह सब दोप बालकके जन्ममें निंदितहैं तिनका
परिहार करनेके लिये विधिपूर्वक शांति करै ॥ ३७ ॥

अथ त्रिकदोषः ।

यदि पुत्रव्यादूध्वं चतुर्थी कन्यका भवेत् ॥

एवं कन्यात्रयात्पुत्रस्तदा दोपस्त्रिकाभिधः ॥ ३८ ॥

अब त्रिकदोप लिखतेहैं—यदि तीनपुत्रोंके जन्म पीछे कन्याका
जन्म होय तथा तीन कन्याओंके पीछे चौथे पुत्रका जन्म होय
तो त्रिक नामक दोप होताहै ॥ ३८ ॥

अथ स्तन्यपानम् ।

जातकमोक्तनक्षत्रे थ्रवणे च पुनर्वसौ ॥

त्यक्त्वा स्वातीं स्तन्यपानं शुभं प्रोक्तं शुभेऽहनि ॥ ३९ ॥

अब स्तनपान लिखते हैं—जातकर्म में जो नक्षत्र कहे हैं तिनमें और अवण, पुनर्वसु नक्षत्र में, शुभवार में वालक को स्तनपान कराना शुभ कहा है परन्तु स्वाति नक्षत्र को त्याग देवे ॥ ३९ ॥

अथ सूतिकाकाथः ।

भैपञ्यगदिते विष्ण्ये वारे दुर्योगवर्जिते ॥

आरोग्यहेतवे काथः सूतिकायाश्च तच्छशोः ॥ ४० ॥

अब सूतिकाके लिये काथ लिखते हैं—जो नक्षत्रवार औपधी सेवनमें कहे हैं तिनमें और दुर्योगवर्जित सुयोगमें सूतिका त्वी और उसके वालककी आरोग्यताके अर्थ (काथ) काढ़ा देना शुभ होता है ॥ ४० ॥

अथ सूतिकापथ्यम् ।

अन्नशनोक्तनक्षत्रे शुभाहे सांशुमालिनि ॥

हित्वा रिक्तां च दुर्योगं सूतिकापथ्यमीरितम् ॥ ४१ ॥

अब सूतिकाके पथ्य लिखते हैं—अन्नप्राशनोक्त नक्षत्रोंमें तथा रविवारसहित शुभवारोंमें रिक्ता और दुर्योगको छोड़कर सूतिकाके लिये पथ्य देना शुभ कहा है ॥ ४१ ॥

अथ पंचमीपष्टीपूजा ।

जन्मतः पंचमे घस्ते जीवन्त्याः पूजनं निशि ॥

पष्टेहि पष्टिका पूज्या गीतेर्जागरणादिभिः ॥ ४२ ॥

अब पंचमी पष्टीपूजा लिखते हैं—जन्मसे पांचवें दिन रात्रिमें जीवन्ती देवीका पूजन करे, छठे दिन गीत जागरणादिसे पष्टिकाका पूजन करे ॥ ४२ ॥

अथ सूतिकास्नानम् ।

हस्ते मृगेऽनुराधायां रोहिण्यां रेवतीद्वये ॥ उत्तरात्रितये स्वार्ता जीवार्कुजवासरे ॥ ४३ ॥ सूतिस्नानं प्रशस्तं स्याद्वि-

हायाद्र्वत्रयं श्रवम् ॥ विशाखां भरणीं मूलं चित्राख्यं कृत्तिका
मधाम् ॥ रिक्तां बुधशनी पष्ठीं द्वादशीमष्टमीं तथा ॥ ४४ ॥

अब सूतिकाल्लान लिखते हैं—हस्त, मृगशिरा, अनुराधा, रोहिणी,
रेवती, अश्विनी, उत्तरा तीनों, स्वाति इन नक्षत्रोंमें वृहस्पति, रवि,
मंगल इन वारोंमें ॥ ४३ ॥ सूतिकाका ल्लान शुभ होता है परन्तु
आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्रवण, विशाखा, भरणी, मूल, चित्रा, कृत्तिका,
मधा ये नक्षत्र और रिक्ता तिथि, बुध, शनैश्चर वार तथा पष्ठी
द्वादशी, अष्टमी तिथि इन सबको ल्याग देवे ॥ ४४ ॥

अथ प्रसंगात्सर्वेषां नित्यस्नानम् ।

पुत्रजन्मनि संकांतौ सिद्धजन्मदिने तथा ॥

नित्यस्नानं च कर्तव्यं तिथिदोपो न विद्यते ॥ ४५ ॥

अब प्रसंगसे सबोंका नित्य ल्लान लिखते हैं—पुत्रके जन्म सम-
यमें, संकांतिमें, सिद्धपुरुषोंके जन्मदिनमें नित्य ल्लान कर्तव्य
है उसमें तिथिका दोप नहीं रहता है ॥ ४५ ॥

अथ प्रसंगात्स्त्रीणां शतभिपाल्लानं निपिद्धं श्रीपतिनिवंधे ।

स्नानं कुर्यात् या नारी चंद्रे शतभिपां गते ॥ सप्तजन्म
भवेद्विंध्या विधवा दुर्भगा ध्रुवम् ॥ ४६ ॥ यदा शतभिपा-
ल्लानं नारीणां खलु जायते ॥ पूजयेत्स्वामिनं तत्र ह्यात्मनः
सर्वसत्कृतम् ॥ ४७ ॥

अब प्रसंगसे स्त्रियोंके शतभिपा ल्लान निपिद्ध लिखते हैं—शत-
भिपा नक्षत्रस्य चंद्रमामें स्त्री ल्लान करै तो सात जन्मतक वंध्या वा
विधवा तथा दुर्भगा रहती है ॥ ४६ ॥ और यदि शतभिपां नक्षत्रमें

खियोंका स्नान होभीजाय तो उस दिन अपने स्वामीका सर्व-
सत्कारसे पूजन करै ॥ ४७ ॥

अथर्वकस्य दंतोत्पत्तेः फलम् ।

स्वात्मानं प्रथमे मासि द्वितीये चानुजाँस्तथा ॥ तृतीये
भगिनीं तुर्ये मातरं पञ्चमेऽयजान् ॥ ४८ ॥ निहन्यादशनो-
त्पत्तौ सदंतस्त्वर्भकोऽखिलान् ॥ पष्टादौ लभते भोगानधः
पंक्तावसत्सदा ॥ ४९ ॥

अब बालकको दन्तोत्पत्तिका फल लिखतेहैं—यदि बालकके
प्रथम मासमें दांत निकलें तो अपने आत्माका नाश करताहै और
दूसरे मासमें निकलें तो छोटे भाइयोंका नाश करताहै, तीसरे
मासमें दांत निकलें तो बहिनका, चौथे मासमें दांत निकलें तो
माताका और पंचमें मासमें दांत निकलें तो बड़े भाइयोंका नाश
करताहै ॥ ४८ ॥ और जो दाँतोंसहित बालकका जन्म हो तो सब
कुदुंचका नाश करताहै, छठे महीनेसे लेकर किसी महिनेमें दांत
निकलें तो भोग प्राप्त होताहै और प्रथम नीचेकी पंक्तिमें दांत
निकलें तो सदैव अशुभ फल होताहै ॥ ४९ ॥

अथ जलपूजा ।

पुनर्वसुद्वये हस्ते मृगे मूलानुराधयोः ॥ श्रवं गुरौ बुधे चंद्रे
सत्तिथौ जलपूजनम् ॥ ५० ॥ गुरौ शुक्रेऽस्तगे चैत्रे पौषे वा
मलमासके ॥ मासपूर्त्तौ विरुद्धाहेन कुर्यात्तु जलार्चनम् ॥ ५१ ॥

अथ दोलारोहणम् ।

स्तन्यपानोक्तनक्षत्रे कुर्यादोलाधिरोहणम् ॥ धृत्य १८ कं-
१२ नृप १६ दिक् १० दंत ३२ वासरे जन्मतः शिशोः ॥ ५२ ॥
रविभात्पंचभे ६ सौख्यं ततः पञ्चदशस्व १६ पि ॥ अशुभं
च ततः शेषे ७ शुभं दोलाधिरोहणम् ॥ ५३ ॥

अब दोलारोहण लिखते हैं—जो नक्षत्र स्तनपानमें कहें हैं तिनमें
झूला झुलाना शुभ होता है और वालकके जन्मदिनसे आठवें,
वारहवें, सोलहवें, दशवें, वत्तीसवें दिन दोलाधिरोहण शुभ होता है
॥ ५२ ॥ सूर्यके नक्षत्रसे दिनके नक्षत्रतक गिनै पहिले पंच नक्ष-
त्रोंमें सुख और फिर पंद्रह नक्षत्रोंमें अशुभ और शेष सात नक्षत्रोंमें
दोलाधिरोहण शुभ होता है ॥ ५३ ॥

अथ खट्टारोहणम् ।

दोलोक्तमेसुपर्यके जननी वासुवासिनी ॥

योगशार्यिं हरिं ध्यात्वा स्वापयेत्प्राक्शिरः शिशुम् ॥ ५४ ॥

अब खट्टारोहण लिखते हैं—दोलारोहणोक्त नक्षत्रोंमें माता
'अथवा सौभाग्यवती स्त्री योगशार्यी विष्णुका ध्यान करके पलंगपर
वालकको पूर्वादिशामें शिर करके सुलावै ॥ ५४ ॥

अथार्भकदुर्धपानम् ।

एकत्रिंशत्तमेघसे ऋक्षे चान्नाशनोदिते ॥

पूर्वोल्हे च शुभे वारे पयःपानं शिशोः स्मृतम् ॥ ५५ ॥

अब वालकका दुर्धपान लिखते हैं—जन्मदिनसे इकतीसवें
दिनमें अन्नप्राशनोक्त नक्षत्रोंमें दुपहरसे पहिले शुभवारमें वाल-
कको गऊ आदिका दुध पिलाना शुभ कहा है ॥ ५५ ॥

अथ निष्क्रमणम् ।

तुयें निष्क्रमणं मासि यात्रोक्तदिवसे स्मृतम् ॥

जन्मतो द्वादशाहे वा कुर्यान्मंगलपूर्वकम् ॥ ५६ ॥

अब निष्क्रमण लिखते हैं—चौथे महीने में और यात्राके सुहृत्तम् कहे हुए वार नक्षत्रोंमें अथवा जन्मसे वारहमें दिन मंगलपूर्वक वालकको घरसे बाहिर निकालै ॥ ५६ ॥

अथ कच्छावंधनं गणकमंडने

कच्छावंधः सिते पक्षे सुदिने करपंचके ॥

ध्रुवक्षेऽदितियुग्मेऽश्विपितृपौष्णेऽदुवासरे ॥ ५७ ॥

अब कच्छा वंधन लिखते हैं—शुक्रपक्ष और शुभवारमें, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, (ध्रुवसंज्ञक नक्षत्र) तीनों उत्तरा, रोहिणी, पुनर्वसु, पुष्य, अश्विनी, मधा, रेवती इन नक्षत्रोंमें तथा चंद्रवारमें वालकको कछनी बांधना शुभ होता है ॥ ५७ ॥

अथ कटिसूत्रं भूम्युपवेशनम् ।

पुष्यहस्ताश्विनीमूलञ्जुत्तरे रोहिणीमृगे ॥ ज्येष्ठायामनुराधायां शुभाहे मासि पंचमे ॥ ५८ ॥ कुजे शुद्धे समभ्यर्च्य वाराहं धरणीं भुवि ॥ कटिसूत्रमथो वद्धा वालकं चोपवेशयेत् ॥ ५९ ॥ पुस्तकं लेखनीं शस्त्रं रौप्यं च कांचनं तथा ॥ तस्मिन्काले यदादत्त तदृत्या जीवनं शिशोः ॥ ६० ॥

अब कटिसूत्र और भूम्युपवेशन लिखते हैं—पुष्य, हस्त, अश्विनी, मूल, तीनों उत्तरा, रोहिणी, मृगशिरा, ज्येष्ठा, अनुराधा इन नक्षत्रोंमें शुभवारमें; जन्मसे पांचवें महीने में मंगल शुद्ध होय; वारह भगवान् की मूर्ति तथा पृथ्वीका पूजन करके वालकके कोंधनी बाँधै और फिर पृथ्वीपर बैठावे ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ उस समय वालकके सामने पुस्तक,

कंलम, शख्ब, चांदी, सुवर्ण धरै इनमेंसे वालक जिस वस्तुका ग्रहण करै उसी वस्तुके द्वारा वालककी आजीविका जानै ॥ ६० ॥

अथान्नप्राशनम् ।

रेवतीद्वितये पुष्ये पुनर्वस्त्वनुराघयोः ॥ अवणादित्रये हस्त-
चितये रोहिणीमृगे ॥ ६१ ॥ उत्तरायां शुभे लघे मीन-
मेपालिभिन्नभे ॥ पष्टान्मासि समे पुंसः पंचमा-
द्विपमे स्थियाः ॥ ६२ ॥ अन्नप्राशनकं प्रोत्तं शुभाहे सर्वसं-
मतम् ॥ नेत्येके शतमे स्वातीचानुराधाख्यजन्मभे ॥ ६३ ॥

अब अन्नप्राशन लिखतेहं—रेवती, अश्विनी, पुष्य, पुनर्वसू, अनु-
राधा, अवण, धनिष्ठा, शतभिषा, हस्त, चित्रा, स्वाति, रोहिणी,
मृगशिरा ॥ ६३ ॥ तीनों उत्तरा इन नक्षत्रोंमें; मीन, मेष और वृथिक
लघ विना अन्य शुभलक्ष्मोंमें; पष्टादि सम मासोंमें पुरुषके लिये और
पंचमादि विषम मासोंमें खीके लिये तथा शुभवारोंमें अन्न प्राशन
सब आचायोंने शुभ कहाहै तथा कुछ आचायोंका ऐसा मत है कि,
शतभिषा, स्वाति, अनुराधा, जन्मका नक्षत्र इनमें अन्न प्राशन
नहीं करे ॥ ६२ ॥ ६३ ॥

अथ तांवूलभक्षणम् ।

अनुराधावये हस्तचितये रेवतीद्वये ॥ उत्तरासु च रोहिण्यां
अवणद्वितये मृगे ॥ ६४ ॥ पुनर्वस्त्वोस्तथा पुष्ये शनिभौ-
मान्यवासरे ॥ तांवूलभक्षणं सार्द्धद्विमासेनाशनेऽथवा ॥
ज्ञाकीज्यानां वृषे लघे कायं तांवूलभक्षणम् ॥ ६५ ॥

अब तांवूल भक्षण लिखतेहं—अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल हस्त, चित्रा,
स्वाति, रेवती, अश्विनी, तीनों उत्तरा, रोहिणी, अवण, धनिष्ठा, मृगशिर
॥ ६४ ॥ पुनर्वसू, पुष्य इन नक्षत्रोंमें, शनि मंगल विना अन्यवारोंमें;
जन्मसे ढाई महीने पश्चात् अथवा अन्नप्राशनके समय वृष लक्ष्में
तांवूल भक्षण शुभ होताहै ॥ ६५ ॥

अथ कर्णवेधः ।

रेवतीद्वितये पुष्ये पुनर्वस्वनुराधयोः ॥ अवणद्वितये चित्रा-
मृगे हस्ते शुभे तिथौ ॥ ६६ ॥ शुभे वारे हि जन्माहाद्वा-
दशे पोडशे दिने ॥ कर्णवेधोथ वा मासे पष्टसप्ताष्टमेषि
वा ॥ ६७ ॥ युग्मावं जन्ममासं च पांपं चैत्रं हरेः शयम् ॥
जन्मतारां विहायाथ त्युत्तरेषि च केचन ॥ ६८ ॥

अब कर्णवेध लिखते हैं—रेवती, अश्विनी, पुष्य, पुनर्वसु, अमृ-
राधा, अवण, धनिष्ठा, चित्रा, मृगशिरा, हस्त इन नक्षत्रोंमें, शुभ
तिथि और शुभवारोंमें और जन्म दिनसे वारहवें और सोलहवें
दिन अथवा छठे, सातवें, आठवें मासमें कर्णवेध शुभ होता है
॥ ६६ ॥ ६७ ॥ युग्म वर्ष, जन्मका महीना, पौष, हरिश्यान, जन्मतारा
इन सबको छोड़कर तीनों उत्तराओंमें कोई भी आचार्य कर्णवेधको
शुभ कहते हैं ॥ ६८ ॥

अथं कन्याया नासिकावेधः ।

कर्णवेधोक्तभे शस्तं कन्याया ग्राणवेधनम् ॥

त्युत्तराजलपस्वातौ पूर्वाङ्गे शुक्लपक्षके ॥ ६९ ॥

अब कन्याके नासिकावेध लिखते हैं—कर्णवेधोक्त नक्षत्रोंमें
तथा तीनों उत्तरा, शतभिपा, स्वाति इन नक्षत्रोंमें और पूर्वाङ्गमें
शुक्लपक्षमें कन्याकी नासिकाका वेधना शुभ होता है ॥ ६९ ॥

अथावदपूर्तिकृत्यम् ।

प्रतिवर्षं तु जन्माहे रमायास्तवपूर्वकम् ॥ गणेशमम्बामभ्य-
र्च्य देवताश्विरजीविनः ॥ ७० ॥ कृष्णायुप्यं च विध्युक्तं
कर्मदानान्यनेकशः ॥ वद्वा मंगलसूत्रं च भुक्ते शिष्टद्विजैः
सह ॥ ७१ ॥ जन्माहे जन्मनक्षत्रे वारो मंदारयोस्तदा ॥
तस्मिन्वर्षे महात्कष्टं कार्यहानिः पदेष्ट ॥ ७२ ॥

अब वर्षपूर्णिमे लिखते हैं—प्रतिवर्ष जन्मके दिनविषें लक्ष्मी, गणेश, पार्वती देवता, तथा चिरजीवियोंका स्तूतिपूर्वक पूजन करके विधिपूर्वक कृपणायुध्य कर्म तथा अनेक प्रकारके वस्तुओंका दान करे और फिर मंगलसूत्र वांधकरके श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके साथ भोजन करे ॥ ७० ॥ ७१ ॥ जन्मके दिन तथा जन्मके नक्षत्रमें यदि शनि और मंगलवार होय तो उस वर्षमें महान् कष्ट होता है और पदपदपर कार्यकी हानि होती है ॥ ७२ ॥

अथ प्रतिष्ठादि विचारः ।

जलाशयसुरारामप्रतिष्ठा व्रतवन्धनम् ॥ अम्बाधानं विवाहं
च चौलं राज्याभिपेचनम् ॥ ७३ ॥ नवगेहप्रवेशादीन्न
कुर्यादक्षिणायने ॥ गुरुभार्गवयो रिके वाल्यवार्षकयो-
रपि ॥ ७४ ॥ दशाहं पश्चिमे वाल्यं पंचाहं वार्ष्कं भृगोः ॥
प्राच्यां तु त्रिदिनं वाल्यं पश्चं वार्ष्कमुच्यते ॥ ७५ ॥
पश्चं वाल्यं च वार्ष्कयं गुरोस्त्याज्यं शुभे सदा ॥ दशाहं
पश्चिमे वाल्यं परे सप्ताहमूर्चिरे ॥ ७६ ॥ व्यहं चावश्यके कृत्ये
केचिद्गार्गवजीवयोः ॥ अद्वाहं वाल्यमञ्जस्य वार्ष्कं त्रिदिनं
विदुः ॥ ७७ ॥ अवंतिदेशे सप्ताहं पहुँगे दश विध्यके ॥
पंच हूणे द्वयोरेते शेषदेशे दिनवयम् ॥ ७८ ॥

अब प्रतिष्ठाकर्म लिखते हैं—जलाशय अर्थात् कुआ, चावडी आदि-
देवप्रतिष्ठा, घागकी प्रतिष्ठा, यज्ञोपवीतधारणकर्म, अभिहोत्र, विवाह,
मुंडन, राज्याभिपेक ॥ ७३ ॥ नवीन यहप्रवेश इत्यादि कार्य दक्षिणायनमें
नहीं करे तथा वृहस्पति और शुक्रके अस्त, वालत्व तथा वृद्ध-
त्वमेंभी उक्त कार्य नहीं करे ॥ ७४ ॥ पश्चिममें शुक्रका उदय होय
तो दश १० दिन वालपन और ५ दिन वृद्धपन रहता है और जो
पूर्वमें शुक्रका उदय होय तो तीनदिन वालभाव और पंद्रह

दिन वृद्धभाव रहता है ॥ ७५ ॥ और वृहस्पति के अस्तमें चाल और वृद्धभाव पंद्रह दिन का होता है शुभकार्यमें सदैव त्यज्य है. कुछ आचार्यों का ऐसा मत है कि, वृहस्पति और शुक्र के अस्तमें दश दिन चालत्व और वृद्धत्व रहता है. अन्य आचार्यों का ऐसा मत है कि, सात दिन चालत्व और वृद्धत्व रहता है. कोई ज्योतिर्विद् ऐसा कहते हैं कि, आवश्यक कार्यमें वृहस्पति और शुक्र का चालत्व वृद्धत्व तीन दिन मानना चाहिये और चंद्रमा का आधा दिन चालत्व तथा तीन दिन वृद्धत्व मानना चाहिये. वृहस्पति और शुक्र का चालत्व तथा वृद्धत्व अवंतीदेशमें सात दिन, बङ्गदेशमें छः दिन विष्वाचल के देशमें दश दिन, हूणदेशमें पांच दिन और शेष देशोंमें तीन दिन रहता है ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥

अथ शुक्रोदयास्तमानम् ।

प्राङ्मनेत्रेषुहृद्भिर्मितैश्च २५२ हृश्यो भवति भार्गवः ॥ वसुशैल-
मितै ७८ स्तत्र यातोऽस्तं नैव हृश्यते ॥ ७९ ॥ खबाणाश्चि-
२५० मितान्धस्तान्प्रतीच्यां हृश्यते भृगुः ॥ तत्र वार्क-
करग्रस्तो नवाऽहानि न हृश्यते ॥ ८० ॥

अब शुक्रोदयास्तमान लिखते हैं—जब शुक्र पूर्वदिशामें उदय होते हैं तब २५२ दोसौ चावन दिन उदय रहकर दीखते रहते हैं और फिर अठत्तर ७८ दिन अस्त रहकर नहीं दीखते हैं ॥ ७९ ॥ और जब पश्चिममें उदय होते हैं तब दोसौ पचास २५० दिन उदय रहकर दीखते रहते हैं और फिर सूर्य किरणों से अस्त होकर नौ ९ दिन नहीं दीखते हैं ॥ ८० ॥

अथ गुरुदयास्तमानम् ।

प्रायो वाचस्पतिर्मासं भवत्यक्षणामगोचरः ॥

प्राच्यामुदयते मासं याति पश्चात्तु वत्सरात् ॥ ८१ ॥

अब गुरुद्यास्तमान लिखते हैं—वृहस्पति पूर्व दिशामें जब अस्त होते हैं तो प्रायः एक मास नहीं दीखते हैं। इसके पश्चात् पश्चिममें उदय होते हैं तो एक वर्षतक उदय रहते हैं इसके पीछे एक महीनेके लिये अस्त रहते हैं फिर एक मास पूर्वमें उदय रहते हैं ॥ ८१ ॥

अथ चूडाकर्म ।

चौलं संवत्सरे पूर्णे तृतीयाद्विपमे चरेत् ॥ सौम्यायने विचैत्रे ये ज्ञेयगुकेंदुवासरे ॥ ८२ ॥ चरक्षिप्रेदुचित्रेद्रपौष्णे च शुभवा-सरे ॥ अथवा ब्राह्मणस्यार्कं क्षत्रियस्य कुजेहनि ॥ ८३ ॥ मंदाहे वैश्यशूद्राणां क्षौरोक्ततिथिभादिषु ॥ लग्ने खेटवलोपेते चंद्र-तारावलान्विते ॥ ८४ ॥ ज्येष्ठस्य ज्येष्ठे नो मासे मार्ग-शीर्षेऽपि केचन ॥ मातुर्गम्भे न सञ्चौलं पंचमासाधिके शिशोः ॥ पंचवर्षाधिकस्येषु गर्भिण्यामपि मातारि ॥ ८५ ॥

अब चूडाकरण लिखते हैं—संवत्सर पूर्ण होनेपर अथवा तीसरे वर्षसे लेकर विषम वर्षमें उत्तरायणमें, चैत्र वर्जित मासोंमें, शुध, वृह-स्पति, शुक्र, चंद्रवारोंमें सुंडन शुभ होता है ॥ ८२ ॥ चर नक्षत्र (स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा) क्षिप्र (हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित्, मृगशिरा, चित्रा, ज्येष्ठा, रेवनी, डन नक्षत्रोंमें, शुभवारमें सुंडन शुभ होता है अथवा ब्राह्मणका रविवारमें, अत्रियका मंगलके दिन ॥ ८३ ॥) वैद्यशूद्रोंका शनेश्वरके दिन क्षौरोक्त तिथि नक्षत्रोंमें, अहवलयुक्त लग्नमें, वली चंद्रमा नथा नारामें सुंडन शुभ होता है ॥ ८४ ॥ प्रथमोत्पन्न वालकका सुंडन ज्येष्ठमासमें नहीं करावे और कोई आचार्योंका मतहै कि, मार्गशीर्षमें भी नहीं करावे और यदि माताका गर्भ पांचमहीनेसे अधिक होय तो सुंडन शुभ नहीं होता है और जो वालक पांच वर्षसे अधिक अवस्थाका होय तो माताके गर्भवती होनेपरभी सुंडन शुभ होता है ॥ ८५ ॥

अथाक्षरलेखनारंभः ।

सौम्यायने शुभे मासि स्वाध्यायदिवसे शुभे ॥ स्वस्थे
जीवबुधे शुक्रे लघे खेटबलान्विते ॥ ८६ ॥ रेवतीद्वितये
पुष्ये पुनर्वस्वनुराधयोः ॥ आर्द्धाख्ये श्रवणे हस्ते स्वाती
चित्राभिधे तथा ॥ ८७ ॥ हेरंबविष्णू वाग्देवीं तथाभ्यच्येष्ट-
देवताः ॥ पंचमावृदे नरः कुर्याल्लिप्यारंभं सदा बुधैः ॥ ८८ ॥

अब अक्षर लेखनारंभ लिखते हैं—उत्तरायण, शुभमास, स्वाध्यायका शुभदिन अर्थात् अनध्याय न होय, वृहस्पति, बुध, शुक्रबलवान् होकर अपनी राशियोंपर स्थित होय, अहवलयुक्त लग्न होय ॥ ८६ ॥ रेवती, अश्विनी, पुष्य, पुनर्वसू, अनुराधा, आर्द्धा, श्रवण, हस्त, स्वाती, चित्रा, ॥ ८७ ॥ इन नक्षत्रोंमें गणेश, विष्णु, सरस्वती इष्ट देवताका पूजन करके पांचवें वर्षमें अक्षर लिखनेका आरंभ करें ॥ ८८ ॥

अथोपनयनम् ।

त्रतवंयस्तु विप्राणां गर्भाद्वा जन्मतोऽष्टमे ॥ पष्ठेऽदे सप्तमे
मध्यो विद्याकामस्य पंचमे ॥ ८९ ॥ पष्ठे चैकादशोऽदे वा
क्षत्रियाणामुदीरितः ॥ वैश्यानां द्वादशोऽदे स्यादष्टमे गर्भतो-
पि वा ॥ ९० ॥ विप्रस्यापोडशाद्वर्षादाद्विंशात्तु भूमुजाम् ॥
वैश्यानामाचतुर्विंशाद्वौणः काल उदाहृतः ॥ ९१ ॥
निजवर्णेशशास्त्रेशभास्वद्वागीश्वरेन्दुषु ॥ वीर्यवत्सु द्विजा
तीनां त्रतवंयः शुभप्रदः ॥ ९२ ॥

अब उपनयन लिखते हैं—त्राह्णणोंका यज्ञोपवीत गर्भसे वा
जन्मसे आठवें वर्षमें उत्तम होता है; छठे और सातवें वर्षमें मध्यम
होता है और विद्याकी इच्छा करनेवालेको पांचवें वर्षमें शुभ
होता है ॥ ९३ ॥ और छठे अथवा ग्यारहवें वर्षमें क्षत्रियोंका और

वैश्योंका वारहवें वर्षमें अथवा गर्भसे आठवें वर्षमें यज्ञोपवीत शुभ होता है ॥ १० ॥ ब्राह्मणोंका सोलह वर्षतक, क्षत्रियोंका वार्ष्ण्य वर्षतक, वैश्योंका चौबीस वर्षतक यज्ञोपवीत धारण करनेमें गौणकाल कहा है ॥ ११ ॥ अपना वर्णेश तथा शाखेश और वृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा वलवान् होयें तो द्विजातियोंका व्रतवंध शुभदायक होता है ॥ १२ ॥

अथ वर्णेशः ।

जीवशुक्रो तु विप्रेशौ भूमुजां रविमंगलौ ॥

विशोव्जो ज्ञश्च शूद्राणामत्यजानां पतिः शनिः ॥ १३ ॥

अब वर्णेश लिखते हैं—वृहस्पति, शुक्र ब्राह्मणोंके स्वामी हैं, सूर्य मंगल क्षत्रियोंके; चंद्रमा वैश्योंके; बुध शूद्रोंके और शनैश्चर अंत्यजोंके स्वामी हैं ॥ १३ ॥

अथ वेदाधीशः ।

ऋग्वेदेशो गुरुः प्रोक्तो यजुपां भार्गवः पतिः ॥

सामवेदेश्वरो भौमः पतिश्चार्थर्वणो बुधः ॥ १४ ॥

अब वेदाधीश लिखते हैं—ऋग्वेदका पति वृहस्पति, यजुर्वेदका पति शुक्र, सामवेदका पति मंगल, अर्थर्वणका पति बुध कहा है ॥ १४ ॥

अथ गुर्वादिवलम् ।

गुरुसूर्यवलं ज्ञेयं विवाहे यद्विवक्ष्यते ॥

चंद्रतारावलं पूर्वसुक्तं ग्राह्यं वटोः शुभम् ॥ १५ ॥

अब गुर्वादिवल लिखते हैं—जिसप्रकार चिवाहमें वृहस्पति और सूर्य वल देखना कहा है इसी प्रकार यज्ञोपवीतमें भी देखना चाहिये और चंद्रमा तथा ताराका वल जो कि, पूर्वमें कह आये हैं (वटु) व्रहचारीके लिये शुभ ग्रहण करना चाहिये ॥ १५ ॥

अथ मासादिः ।

माघात्पञ्चसु मासेषु शुक्रे जीवज्ञभास्करे ॥ केचिच्छु कृष्ण-
पक्षेऽपि प्रथमत्रिलवे जगुः ॥ १६ ॥ जनुर्मासभलग्नादौ विप्रा-
णां व्रतवंधनम् ॥ वहुविद्याप्रदं विद्यादाद्यगर्भभुवामपि ॥ १७ ॥

अब मासाद लिखते हैं—माघ, फालगुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ,
मासोंमें; शुक्रपक्षमें; वृहस्पति, वृध, रविवारोंमें और कोई आचार्य
कृष्णपक्षके प्रथम त्रिलवमें अर्थात् पंचमीतक तिथियोंमें जन्मके
मास और जन्मकी लग्नादिकोंमें व्राह्मणोंके प्रथम गर्भोत्पन्न वाल-
कोंका भी व्रतवंध बहुत विद्यादायक होता है ॥ १६ ॥ १७ ॥

अथ तिथयः ।

द्वित्येकादशदिवपञ्चद्वादशप्रमिते २ । ३ । ११ । १० । ९ ।
१२ तिथौ ॥ शुक्रपक्षे तथा कृष्णे पञ्चमीद्वित्रिके ६ । २ ।
३ शुभम् ॥ १८ ॥

अब तिथि लिखते हैं—दूज, तीज, एकादशी, दशमी, पंचमी,
द्वादशी ये तिथि, शुक्रपक्षमें और पंचमी, दूज, तीज ये तिथि
कृष्णपक्षमें शुभ हैं ॥ १८ ॥

अथोत्तमानि नक्षत्राणि ।

हस्तत्रये मृगे पुष्ये श्रवणद्वितयेऽश्विभे ॥

रेवत्यां च प्रशस्तं स्यान्मेखलावंधनं वटोः ॥ १९ ॥

अब उत्तम नक्षत्र लिखते हैं—हस्त, चित्रा, स्वाति, मृगशिरा,
पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, अश्विनी, रेवती इन नक्षत्रोंमें वटुका
मेखलावन्धन श्रेष्ठ होता है ॥ १९ ॥

अथ मध्यमानि ।

पष्टयकेदुकुजे मूले पूर्वाऽऽश्लेषोत्तराशते ॥

पुनर्वस्वनुराधार्द्दरोहिण्यां केचिदिष्यते ॥ १०० ॥

अब मध्यम लिखते हैं—पृष्ठी तिथि; रवि, चंद्र मंगलवार; मूल, तीनों पूर्वा, आश्लेषा, तीनों उत्तरा, शतभिषा, पुनर्वसू, अनुराधा, आर्द्धा, रोहिणी नक्षत्र ये सब किसी आचार्योंने शुभ माने हैं ॥ १०० ॥

अथ प्रतिवेदनक्षत्राणि ।

आर्द्धाहस्तत्रये मूले पूर्वाऽश्लेषाश्रवे तथा ॥ ऋग्वेदाध्यायिनां जीवे प्रशस्तं ब्रतवंधनम् ॥ १०१ ॥ श्युत्तरे रेवतीपुष्ये पुनर्वस्वनुराधयोः ॥ मृगे हस्ते च रोहिण्यां भार्गवे यजुर्पां ब्रतम् ॥ १०२ ॥ अश्विन्यां श्रवणे पुष्ये धनिष्ठाद्रोत्तरात्रये ॥ हस्ते भूमिसुते श्रेष्ठं सामगानां ब्रतं तथा ॥ १०३ ॥ मृगे हस्तेऽश्विनीपुष्ये धनिष्ठारेवतीमृगे ॥ पुनर्वस्वनुराधायां बुधे शस्तमर्थवणाम् ॥ १०४ ॥

अब प्रतिवेद नक्षत्र लिखते हैं—आर्द्धा, हस्त, चित्रा, स्वाति, मूल, तीनों पूर्वा, आश्लेषा, श्रवण इन नक्षत्रोंमें तथा वृहस्पति वारमें ऋग्वेदपाठियोंका ब्रतवंध श्रेष्ठ होता है ॥ १०५ ॥ तीनों उत्तरा, रेवती, पुष्य, पुनर्वसू, अनुराधा, मृगशिरा, हस्त, रोहिणी नक्षत्र और भूगुवारमें यजुर्वेदियोंका ब्रतवंध शुभ होता है ॥ १०६ ॥ अश्विनी, श्रवण, पुष्य, धनिष्ठा, आर्द्धा, तीनों उत्तरा, हस्त इन नक्षत्रोंमें और मंगलवारमें सामवेदियोंका ब्रतवंध शुभ होता है ॥ १०७ ॥ मृगशिरा, हस्त, अश्विनी, पुष्य, धनिष्ठा, रेवती, श्रवण, पुनर्वसू, अनुराधा इन नक्षत्रोंमें और बुधवारमें अर्थवेदियोंका ब्रतवंध शुभ होता है ॥ १०८ ॥

अथ साधारणनक्षत्रे दिशेषः ।

पुनर्वस्वोर्वतं नेष्ठं शतभे चेति केचन ॥ १०९ ॥

अब साधारण नक्षत्रमें विशेष लिखते हैं—पुनर्वसुमें व्रतवंध अशुभ होता है कोई आचार्य शतभिपा नक्षत्रमें भी व्रतवंध अशुभ कहते हैं ॥ १०५ ॥

अथ व्रते निषिद्धानि ।

कृष्णपक्षे शनौ रात्रौ प्रदोषे वा गलय्रहे ।

अनध्यायेऽपराह्ने च न कुर्याद्व्रतवंधनम् ॥ १०६ ॥

अब व्रतमें निषिद्ध लिखते हैं—कृष्णपक्ष, शनिवार, रात्रिका समय, प्रदोष, गलय्रह, अनध्याय, अपराह्न इनमें व्रतवंध नहीं करे ॥ १०६ ॥

अथानध्यायाः ।

संक्रांतियुगमन्वादि द्वितीया ज्येष्ठशुक्लजा ॥ चैत्रकृष्णतृ-
तीया च द्वादशी माघशुक्लजा ॥ १०७ ॥ प्रतिपक्षेऽष्टमी
चैव चतुर्दश्या दिनव्रयम् ॥ रिक्ता च व्रतवंधादावप्तौ वर्ज्या
गलय्रहाः ॥ १०८ ॥

अब अनध्याय लिखते हैं—संक्रांति, युगादि और मन्वादि तिथि, ज्येष्ठशुक्ला द्वितीया, चैत्रकृष्णा तृतीया, माघ शुक्ल, द्वादशी ॥ १०७ ॥ दोनों पक्षोंकी अष्टमी और चतुर्दशी, पौर्णमासी, प्रतिपदा, रिक्ता तिथि ये आठ तिथि गलय्रह कहाती हैं व्रतवंधादि कार्योंमें वॉजत हैं ॥ १०८ ॥

अथात्र लग्नवलम् ।

त्रिपद् ३ । ६ संस्थाः खलाः सर्वे चंद्रो द्विद्यूनदिक्षत्रिगः ॥
२ । ७ । १० । ३ ॥ सोम्याः केंद्रत्रिकोणस्था १।४।७।१०।
९।८ लाभे ११ सर्वे व्रते शुभाः ॥ १०९ ॥ जीवेदुभृगुल-
शेशा व्रते नेष्टाः पडपृगाः द्वा८ ॥ शुक्रेद्व व्यय १२ गो-
नेष्टो खला लग्नापतंचमाः १।८।९ ॥ ११० ॥ व्रते

सौम्याः शुभाः प्रोक्ताः पदपूर्णत्य द्वा । १२ विवर्जिताः ॥
शुक्रे स्वकर्णच्चिगच्छंद्रो लग्ने श्रेष्ठो रविः कच्चित् ॥ १११ ॥
ज्ञेयशुक्रांशगे लग्ने चंद्रः शस्तो व्रते मतः ॥ नान्यत्राथ
निजांशेऽजः पुनर्वस्वोः श्रवे शुभः ॥ ११२ ॥

अब यहाँ लग्नवल लिखते हैं—तीसरे, छठे स्थानमें सब पापग्रह होय और दूसरे, सातवें, दशवें, तीसरे स्थानमें चंद्रमा होय और केंद्र ११४। ७। १० त्रिकोण ९। ५ लाभ ११ स्थानमें सब शुभग्रह होय तो व्रतवंध शुभ होता है ॥ १०९ ॥ वृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र, लग्नेश छठे, आठवें स्थानमें हों तो व्रतवंधमें शुभ नहीं होते. शुक्र चंद्रमा वारहवें स्थानमें शुभ नहीं होते हैं और लग्न, पांचवें, आठवें स्थानमें पापग्रह शुभ नहीं होते ॥ ११० ॥ शुभग्रह छठे, आठवें, वारहवें स्थानको छोड़कर अन्य शेष स्थानोंमें होय तो व्रतवंधमें शुभ होते हैं. शुक्रपक्षमें चंद्रमा अपनी राशि (कर्क) वा उच्च (वृष) राशिका होकर लग्नमें स्थित होय तो शुभ होता है और कहीं कहीं सूर्यको भी लग्नमें शुभ माने हैं ॥ १११ ॥ बुध, वृहस्पति, शुक्र इन ग्रहोंके नवांशामें प्राप्त चंद्रमा लग्नस्थित होय तो व्रतवंधमें श्रेष्ठ माना है और अन्य ग्रहोंके नवांशामें प्राप्त होकर अन्य स्थानमें स्थित होय तो शुभ नहीं माना है और चंद्रमा अपने नवांशामें तथा पुनर्वस्तु, श्रवण नक्षत्रपर स्थित होय तो शुभ माना है ॥ ११२ ॥

अथ केंद्रस्थखेटस्य फलम् ।

भूपसेवी वणिगवृतिः शस्त्रभृत्याठकोत्तमः ॥ पंडितशार्थवा-
न्म्लेच्छसेवी केंद्रेर्कतः क्रमात् ॥ ११३ ॥ लग्ने गुरुर्भृगुः
कोणे शुक्रांशेऽजः शुभो व्रते ॥ गुरुश्वंद्रो भृगुर्नेष्ठो रविभौ
मार्किंसंयुतः ॥ ११४ ॥

अब केंद्रस्थ ग्रहोंका फल लिखते हैं—केंद्रमें सूर्यादि ग्रहोंके क्रमसे यह अधिम फल जानना चाहिये अर्थात् केंद्रमें सूर्य होय तो वालक राजाकी सेवा करनेवाला होता है और केंद्रमें चंद्रमा होय तो वैश्यवृत्ति होता है और मंगल होय तो शत्रु धारण करनेवाला, बुध होय तो उच्चम पढ़नेवाला, वृहस्पति होय तो पंडित, शुक्र होय तो द्रव्यवान्, शनैश्चर होय तो बटु म्लेच्छोंकी सेवा करनेवाला होता है ॥ ११३ ॥ लग्नमें वृहस्पति, त्रिकोणमें ९। ५ शुक्र होय, शुक्रके नवांशामें चंद्रमा होय तो व्रतवंधमें शुभ होता है। वृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र ये तीनों ग्रह रवि वा मंगल या शनैश्चरके साथ होयें तो व्रतवंध नेष्ट होते हैं ॥ ११४ ॥

अथ चैत्रप्राशस्त्यम् ।

चैत्रे मासि रवौ मीने विवलेपि गुराँ बटोः ॥

व्रतवंधः प्रशस्तः स्याचैत्रे मीने यतः शुभः ॥ ११५ ॥

अब चैत्रप्रशंसा लिखते हैं—चैत्रमासमें मीनके सूर्य होय तो वृहस्पतिके निर्वल होनेपर भी बटुका व्रतवंध शुभ होता है क्योंकि, चैत्रमासमें मीनके सूर्य शुभ होते हैं ॥ ११५ ॥

अथ केशांतसमावर्त्तनम् ।

चौलोक्तसमये कार्यः केशांतः पोडशेइवद्के ॥

व्रतवंधोक्तकाले तु समावर्त्तनमीरितम् ॥ ११६ ॥

अब केशान्त समावर्त्तन लिखते हैं—मुङ्डनोक्त मुहूर्तमें सोलहवें वर्षमें केशान्त अर्थात् दाढ़ी बनवावै और व्रतवंधोक्त कालमें समावर्त्तन करना कहा है ॥ ११६ ॥

अथात्र मातृ रजोदोपे विशेषः ।

मातृ रजस्वलादोपे नांदीश्राद्धोत्तरं तदा ॥

आवश्यके व्रतं चौलं शान्त्या पाणिग्रहं चरेत् ॥ ११७ ॥

अब माताके रजो दोषमें विशेषलिखते हैं—नांदीश्राद्धके उपरांत माताका रजस्वला दोष होय तो आवश्यक यज्ञोपवीत और सुंडन तथा विवाह शान्ति करके करै ॥ ११७ ॥

अथ राजां छूरिकावंधनम् ।

ब्रतोक्तमासतिथ्यादौ विचैत्रे सवले कुजे ॥

विभौमे छूरिकावंधः प्राक्षविवाहान्महीयुजाम् ॥ ११८ ॥

इति श्रीमद्वैवज्ञरावलहरिशंकरसूरिसूनुगणपतिकृते मुहूर्त-
गणपतौ संस्कारप्रकरणं चतुर्दशम् ॥ १४ ॥ ४ ॥

अब राजाका छूरिकावन्धन लिखते हैं—यज्ञोपवीतमें कहेहुए मास तथा तिथि होय, चैत्रका महीना नहीं होय, मङ्गल वलवान् होय, मंगलविना अन्यवार होय तो विवाहसे प्रथम राजाओंको कटारका वाँधना शुभ होता है ॥ ११८ ॥

इति श्रीमद्वैवज्ञरावलहरिशंकरसूरिसूनुगणपतिकृते मुहूर्त-
गणपतौ श्रीयुतपंडितवर्यवेणीरामात्मजपंडितराम-
दयालुशम्भुकृतभापाटीकासमलंकृतं संस्कार-
प्रकरणं चतुर्दशम् ॥ १४ ॥

अथ विवाहप्रकरणम् ।

योपा धर्मार्थकामानां साध्वी चेत्साधनं भवेत् ॥ शीलं
लग्नवशात्तस्याः शुभं लग्नमतो शुभे ॥ १ ॥ देवज्ञः सुदिने-
भ्यर्च्य तांवृलश्रीफलादिभिः ॥ विज्ञाप्य भं तयोः पृच्छे-
द्विवाहं वरकन्ययोः ॥ २ ॥ प्रश्नेलयादि १० गीशा ११-
ग्नि ३ वाण ६ शैल ७ स्थिते विधां ॥ सद्यः परिणयो
जीवद्वैस्याद्वकन्ययोः ॥ ३ ॥ गो २ तुला ७ कर्क ४
लग्ने वा शुभेक्षितयुते तथा ॥ विपमक्षे स्थितां शुकचंद्रां

चेत्पश्यतस्तनुभं ॥ ४ ॥ वरदो तत्र शुक्रेन्दू समभांशगतौ
यदा ॥ चंद्रः पष्टेष्टमे द् । ८ पक्षे बहुले समराशिगः ॥ ५ ॥
क्ररेक्षितो विवाहस्य भंगदः परिकीर्तिः ॥ द्यूने ७ सेंदुभृगी
रंडा भौमेषि कुलटा शनौ ॥ ६ ॥ सुशीला सुभगा जीवे
बुधे च प्रश्नलज्जतः ॥ याद्वसंतानसंयुक्ता योपित्तव्र समा-
व्रजेत् ॥ ७ ॥ तां विलोक्य तथाऽपत्यं तस्याः प्रश्ने वदे-
त्सुधीः ॥ ८ ॥ शंखभेर्वादिनादश्वेत्पश्चे स्यान्मंगलं तदा ॥
वायसश्वासृगालानां नादश्वेत्वशुभं चरेत् ॥ ९ ॥ दंपत्यो-
रंतरा मैत्री विवाहो न शुभावहः ॥ सत्यां मैत्र्यां शुभस्तेन
बुवे मैत्रीमनेकधा ॥ १० ॥ घटितं प्रथमं ज्ञात्वा शुभदं
वरकन्ययोः ॥ उद्वाहस्तु विधातव्यस्तेनादौ वच्चिम ते
तथा ॥ ११ ॥ युंजी १ वर्ग २ स्तथा वर्णो ३ वश्य ४
स्तारा ६ थ योनिका द् ॥ ग्रहमैत्री ७ गणो ८ राशेभं ९
नाडी १० हीति वै दश ॥ १२ ॥ यथोत्तरखलाश्वेति विज्ञे-
यास्तु परस्परम् ॥ गुणाधिके समुद्राहः कर्त्तव्यो वरक-
न्ययोः ॥ १३ ॥

अब विवाहप्रकरण लिखते हैं—यदि द्वी शुभशीलयुक्त पतिव्रता
होय तो धर्म, अर्थ, काम की साधन होतीहै और लक्ष्यवशसे उस
स्त्रीका शील होताहै इसी कारणसे शुभ लक्ष्यको कहताहूँ ॥ १ ॥
शुभदिनमें तांवूल नारियल आदि वस्तुओंसे ज्योतिषीका पूजन
करके उसे वरकन्या दोनोंका नक्षत्र बतावे, तदनन्तर विवाह पूछे
(ज्योतिषी प्रश्नलम्भसे विचारकर कहे सो आगे लिखतेहै) ॥ २ ॥ प्रश्न
लम्भसे दशवें, ग्यारहवें, तीसरे, पांचवें, सातवें स्थानमें स्थित
चंद्रमाको वृहस्पति देखते होयं तो वरकन्याका विवाह शीघ्र होताहै
॥ ३ ॥ शुभप्रहोंसे दृष्ट वा युक्त प्रश्नलम्भ वृप, तुला, कर्क होय

अथवा विपरीतश्चिंगत चंद्रमा और शुक्र लम्बको देखते होय ॥ ४ ॥ तो कन्याके लिये वरदायक होते हैं और यदि वे ही शुक्र चंद्रमा समराशिके नवांशमें होय तो वरके लिये कन्यादायक होते हैं और कृष्णपक्षमें समराशिंगत चंद्रमा प्रश्नलम्बसे छठे आठवें स्थानमें ॥ ५ ॥ क्रूरघ्रहोंसे दृष्ट होय तो विवाहका भंग करता है और यदि सातवें स्थानमें शुक्र और चंद्रमा युक्त मंगल होय तो रुदा होय और जो सातवें स्थानमें शुक्र, चंद्रमा युक्त शनैश्चर होय तो व्यभिचारिणी होय ॥ ६ ॥ और प्रश्नलम्बसे सातवें स्थानमें शुक्र चंद्रमा युक्त वृहस्पति अथवा वुध होय तो सुशीला और सौभाग्यवती होती है, प्रश्नकरनेके समय जैसी सन्तानको साथ लेकर कोई स्त्री आवै ॥ ७ ॥ वैसीही सन्तान (पुत्र वा कन्या) उसके भी उत्पन्न होगा कि, जिसके लिये प्रश्न कियागया है ऐसा ज्योतिषी वतावै ॥ ८ ॥ यदि प्रश्नके समय शंख, भेरी, वीणा आदि वाजेका शब्द होय तो मंगल होता है और जो कौआ, कुत्ता, गीदर शब्द करें तो अशुभ होता है ॥ ९ ॥ स्त्री और पुरुषकी मैत्रीके विना विवाह शुभ नहीं होता है और जो दोनोंमें मैत्री होय तो विवाह शुभ होता है इसी कारणसे अनेक प्रकारकी मैत्रीको कहताहूँ ॥ १० ॥ प्रथम (घटिन) मैत्री शकुनादिको शुभ विचारकर वरकन्याका विवाह करना चाहिये इसी कारणसे पहिले उसीको कहताहूँ ॥ ११ ॥ युंजी १, वर्ग २, वर्ण ३, वश्य ४, तारा ५, योनि ६, ग्रहमैत्री ७, गण ८, भकूट ९, नाडी १० ये दश प्रकारकी प्रीति कहींहैं ॥ १२ ॥ इनमें परस्पर उत्तरोत्तर बलवान् जाननी, अधिक गुण मिलें तो वरकन्याका विवाह करना चाहिये ॥ १३ ॥

अथ युंजीप्रीतिः ।

पूर्वभागस्तु रेत्याः पड्भे चार्द्धादितस्तथा ॥ द्वादशस्त्रिपि
मध्योयं ज्येष्ठातो नवकेत्यकः ॥ १४ ॥ प्राग्भागे जन्मभं

तस्याः कन्याया वल्लभः पतिः ॥ नृणामपरभागे तु कन्या पत्युर्हि वल्लभा ॥ १६ ॥ मध्यभागे तु दंपत्योः प्रीतिरुक्ता परस्परम् ॥ १६ ॥

अब यंजीप्रीति लिखते हैं—रेवती, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा ये छह नक्षत्र पूर्वभागके हैं और आद्रा, पुनर्वसू, पुष्य, आश्लेषा, मधा, पूर्वाफालगुनी, उत्तराफालगुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा ये धारह नक्षत्र मध्यभागके हैं ज्येष्ठा, मूल, पूर्वापादा, उत्तरापादा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद ये नौ नक्षत्र अन्त्यभागके हैं ॥ १४ ॥ पूर्वभागके नक्षत्रोंमें वरकन्याका जन्मनक्षत्र होय तो कन्याको पति प्यारा होता है और जो मध्यभागके नक्षत्रोंमें दोनोंका जन्म नक्षत्र होय तो ख्रीपुरुपमें परस्पर प्रीति रहती है तथा परभागके नक्षत्रोंमें दोनोंका जन्मनक्षत्र होय तो पतिको कन्या प्यारी होती है ॥ १५ ॥ १६ ॥

अथ वर्गप्रीतिः ।

अवर्गो गरुडः प्रोक्तो मार्जारस्तु कवर्गकः ॥ चवर्गः केसरी ज्ञेयो टवर्गः था प्रकीर्तिः ॥ १७ ॥ तवर्गः सर्पसंज्ञः स्यात्पवर्गो मूपको मतः ॥ यवर्गो हरिणाख्यश्च शवर्गो मेष उच्यते ॥ १८ ॥ गरुडोरगयो वैरं मिथ आखुविडालयोः ॥ शार्दूलमृगयो वैरं तथा मेषशुनोरपि ॥ १९ ॥ वर्गेऽरित्वे महदुःखं वर्गक्यं प्रीतिरुक्तमा ॥ कन्यकावरयोश्चैव स्वामि- सेवकयोरपि ॥ २० ॥

अब वर्गप्रीति लिखते हैं—अवर्ग गरुडवर्ग है, कवर्ग मार्जार, चवर्ग सिंह, टवर्ग कुत्ता ॥ १७ ॥ तवर्ग सर्प, पवर्ग मूपक, यवर्ग मृग, शवर्ग मेंढा वर्ग कहा है ॥ १८ ॥ गरुड़ और सर्पका परस्पर वैरहे, मूपक

और विडालका, सिंह और मृगका, मेढा और कुत्ताका आपसमें वैरहैं ॥ १९ ॥ वर्गवैरसें महान् दुःख होताहै, दोनोंका एक वर्ग होय तो उच्चम प्रीति रहतीह जिस प्रकार कन्या और वरकी वर्गप्रीति विचारते हैं उसी प्रकार स्वामी और सेवककीभी वर्ग प्रीति विचारनी चाहिये ॥ २० ॥

वर्गचक्रम्.

अ—आ—इ—ई—उ—ऊ—ऋ—ऋ—ए—ऐ—ଓ—ঔ—গরুডবর্গহৈ়	
ক—খ—গ—ঘ—ঙ	যে বিডাল বর্গহৈ়
চ—ছ—জ—ঝ—ঙ	যে সিংহ বর্গহৈ়
ট—ঠ—ড—ঢ—ণ	যে কুত্তা বর্গহৈ়
ত—থ—দ—ধ—ন	যে সর্প বর্গহৈ়
প—ফ—ব—ভ—ম	যে সূপক বর্গহৈ়
চ—র—ল—ব	যে মৃগ বর্গহৈ়
শ—ষ—স—হ	যে মেঢা বর্গহৈ়

अथ वर्णप्रीतिः ।

कर्कवृथिकमीनाख्या ब्राह्मणास्त्वथ वाहुजाः ॥ मेषसिंह
धनुष्काख्या वृपकन्यामृगा विशः ॥ २१ ॥ तुलाद्वंद्वघटाः
शूद्राश्वेते वर्णाश्च राशिजाः ॥ वर्णाधिक्ये वरः श्रेष्ठो न
कन्या वर्णतोऽधिका ॥ २२ ॥

अब वर्णप्रीति लिखते हैं—कर्क, वृथिक, मीन राशि ब्राह्मण वर्ण हैं.
मेष, सिंह, धनु ये राशि क्षत्रिय वर्ण हैं. वृप, कन्या, मकर ये
राशि वैद्यवर्ण हैं ॥ २१ ॥ तुला, मिथुन, कुंभ ये राशि शूद्रवर्ण

वर्णचक्रम् ।

प्रोद्धेणवर्णं	कर्क	वृश्चिकः	मीन	राशय
स्त्रियवर्णं	मेष	सिंह	धनुष	राशय
वैद्यवर्णं	वृष	कन्या	मरु	राशय
शहूवर्णं	तुला	मिथुन	कुंभ	राशय

हैं. अधिक वर्णका वर थ्रेष होताहै और वरके वर्णसे कन्याका वर्ण अधिक नहीं होना चाहिये ॥२३॥

अथ वश्यावश्यम् ।

युग्मं कुंभस्तुला कन्या प्राग्दलं धनुपो द्विपात् ॥ परार्द्धं धनुपश्चैव पूर्वार्द्धं मकरस्य च ॥ २३ ॥ केसरी वृषभाख्यश्च मेषश्चैते चतुष्पदाः ॥ नकोत्तरदलं मीनो जलचारी प्रकीर्तिः ॥ २४ ॥ ॥ कर्कः कीटकसंज्ञश्च वृश्चिकस्तु सरीसुपः ॥ द्विपदानां वशाः सर्वे हित्वा केसरिणं तथा ॥ २५ ॥ भक्ष्यो वारिचरस्तेपां भयस्थानं तु वृश्चिके ॥ लोकाद्विषयमन्यतु सिंहवश्या विवृश्चिकाः ॥ २६ ॥

अब वश्यावश्य लिखतेहैं—मिथुन, कुंभ, तुला, कन्या, धनुका पूर्वार्द्ध द्विपद संज्ञक हैं और धनुका परार्द्ध, मकरका पूर्वार्द्ध ॥ २३ ॥ सिंह, वृष, मेष ये राशि चतुष्पद संज्ञक हैं. मकरका उत्तरार्द्ध और मीन राशि जलचर संज्ञक हैं ॥ २४ ॥ कर्ककी कीट संज्ञा है, वृश्चिक राशिकी सरीसुप संज्ञा है, सिंहराशिके विना, अन्य सब राशियों द्विपद राशियोंके वशमें हैं ॥ २५ ॥ और द्विपदोंके जलचर भक्ष्य हैं, वृश्चिक राशि भयका स्थान है, वृश्चिकोंको छोड़कर सिंहके वशमें सब राशि हैं और शेषपराशियोंमें भक्ष्य भक्षकको छोड़कर वश्यावश्य लोकव्यवहारसे जानलेना चाहिये ॥ २६ ॥

देशद	पूर्वार्द्ध	जलचर	वृष्ट	एष	शेष
कुंभ, मि	मिथुन, वृष	मंशरसा	—	—	—
ज, दण्डा	मेष, पृष्ठ	उत्तरार्द्ध	वृक्ष	मिथुन	राशय
वृष	ता पार्वती	मीन	—	—	—
भवाः	महत्तर्त्त्वा	—	—	—	—
एष	दूष्ट	—	—	—	—

राशि भयका स्थान है, वृश्चिकोंको छोड़कर सिंहके वशमें सब राशि हैं और शेषपराशियोंमें भक्ष्य भक्षकको छोड़कर वश्यावश्य लोकव्यवहारसे जानलेना चाहिये ॥ २६ ॥

अथ तारामैत्री ।

कन्याभं वरभाद्रण्यं वधूभाद्ररभं तथा ॥

नवहच्छेषभं नेष्टुं सप्तपञ्चत्रिसंख्यकम् ॥ २७ ॥

अब तारामैत्री लिखते हैं—कन्याके नक्षत्रसे वरके नक्षत्रतक और वरके नक्षत्रसे वधूके नक्षत्रतक गिनै दोनों जगह नौका भाग देनेसे शेष सात, पांच, तीन वर्षों तो नेष्टुं तारा होती है ॥ २७ ॥

अथ योनिमैत्री ।

अश्विन्याः शतभस्याश्वो महिपः स्वातिहस्तयोः ॥ पूर्वभा-
धनिष्ठयोः सिंहो भरण्यंत्यभयोर्गजः ॥ २८ ॥ कृत्तिकापु-
ष्ययोर्मेषः श्रुतिपूपादयोः कपिः ॥ उपाभिजिद्योर्वधू रोहि-
णीमृगयोरहिः ॥ २९ ॥ ज्येष्ठानुराधयोरेणः श्वा मूलांद्र-
भयोस्तथा ॥ पुनराश्लेषयोरोतुराखुः पूर्वामर्घक्षयोः ॥ ३० ॥
विशाखाचिवयोर्व्याघ्रो गौरुफोत्तरभाद्रयोः ॥ मैत्री वैरं
विचार्येवं भानां प्रोक्तास्तु योनयः ॥ ३१ ॥

अब योनिमैत्री लिखते हैं—अश्विनी और शतभिपा नक्षत्रकी अश्वयोनि है, स्वाती और हस्तकी महिपयोनि, पूर्वभाद्रपद और धनिष्ठाकी सिंहयोनि, भरणी और रेतीकी गजयोनि ॥ २८ ॥ कृत्तिका और पुष्यकी मेंढायोनि, श्रवण और पूर्वपादाकी वानरयोनि, उत्तरापादा और अभिजितकी नकुलयोनि, रोहिणी और मृगशीर्पकी सर्पयोनि ॥ २९ ॥ ज्येष्ठा और अनुराधाकी मृगयोनि, मूल और आर्द्राकी कुत्तायोनि, पुनर्वसू और आश्लेषाकी मार्जारयोनि, पूर्वाफालगुनी और मधाकी मूषकयोनि ॥ ३० ॥ विशाखा और चित्राकी व्याघ्रयोनि, उत्तराफालगुनी और उत्तरभाद्रपदकी गौयोनि हैं ये नक्षत्रोंकी योनि कही हैं इस प्रकार मैत्री और वैर विचारना चाहिये जिसको आगे कहते हैं ॥ ३१ ॥

अथ परस्परं महद्वैरम् ।

गोव्याग्रं महिपाशं च श्वेण मार्जारमूपकम् ॥ सिंहेभं
कपिमेपं च वैरं तु नकुलोरगम् ॥ ३२ ॥ त्याज्यं परस्परं
चैतदंपत्योः स्वामिभृत्ययोः ॥ ३३ ॥

अब परस्पर महद्वैर लिखते हैं—गौ और व्याघ्र का महद्वैर हैं
महिप और अश्वका, कुत्ता और मृगका, मार्जार और मूपका
सिंह और हाथीका, वानर और मेडेका, नकुल और सर्पका
महावैर है ॥ ३२ ॥ वर और कन्याकी योनियोंका तथा स्वामी
और सेवककी योनियोंका परस्पर वैर त्याज्य है ॥ ३३ ॥

अथ ग्रहमैत्री ।

मित्राणि कुजचंद्रेज्याः शत्रू शनिसितौ रवेः ॥ मित्रे सूर्यद्व-
धावेतौ रिषुः कोपि न शीतगोः ॥ ३४ ॥ जीविंदुरवयो
भूमिसूनोर्मित्राणि विद्विषुः ॥ सूर्यशुक्रौ हितौ शत्रुचंद्रमा
घोधनस्य तु ॥ ३५ ॥ मित्राणि सूर्यभौमाव्जा विच्छुक्रौ
त्वहितौ गुरोः ॥ मित्रे सौम्यशनी शत्रू भर्गवस्येंदुभा-
स्करो ॥ ३६ ॥ सुहृदौ वित्सितौ सौरेः शत्रवोर्कुजेंदवः ॥
सर्वेषामेव खेटानामनुकृतास्ते समाः स्मृताः ॥ ३७ ॥
दंपत्यो राशिपोर्मैत्री मिथः स्याच्छोभनं तदा ॥ अहिते
त्वहितं विद्यक्त्समे वे मध्यमं स्मृतम् ॥ ३८ ॥

अब ग्रहमैत्री लिखते हैं—सूर्यके मंगल, चन्द्रमा, वृहस्पति मित्र हैं;
शनैश्वर, शुक्र शत्रु हैं; शेष वृषभ समझे और चन्द्रमाके सूर्य, वृषभ मित्र हैं;
शत्रु कोई नहीं है; मंगल, वृहस्पति, शुक्र, शनैश्वर समझे ॥ ३९ ॥ मंगलके
वृहस्पति, चन्द्रमा, सूर्य मित्र हैं; वृषभ शत्रु है, शुक्र, शनैश्वर समझे

और वुधके सूर्य, शुक्र मित्रहैं; चंद्रमा शत्रुहै; वृहस्पति, शनैश्चर, मंगल; समहैं ॥ ३५ ॥ वृहस्पतिके सूर्य, मंगल, चंद्रमा मित्रहैं; वुध शुक्र शत्रुहैं; शनैश्चर समहै और शुक्रके वुध, शनैश्चर मित्रहैं; चंद्रमा, सूर्य, शत्रुहैं; मंगल, वृहस्पति समहैं. शनैश्चरके वुध, शुक्र, मित्र हैं; सूर्य, मंगल, चंद्रमा शत्रुहैं और वृहस्पति समहै ॥ ३७ ॥ श्रीपुरुष दोनोंके राशीश्वरोंकी परस्पर मित्रता होय तो विवाह शुभ होताहै और जो शत्रुता होय तो अशुभ होताहै और दोनोंके राशीश्वरोंमें समता होय तो मध्यम होताहै ॥ ३८ ॥

अथ ग्रहमैत्रीचक्रम् ।

सू	चं	मं	वु	वृ	शु	श	प्रदा:
मं वृ. चं.	सू. वु.	कु. चं.	श	मं चं	वु श	वृ वु	मित्राणि
वु	मं वृ	शु	वृ	श	मं वृ	वृ	समाः
शु. श	००	वु	चं	वु	शू	सू. चं	शत्रवः

अथ गणमैत्री ।

हस्तः स्वाती श्रुतिः पुष्पोऽनुराधा रेवतीद्वयम् ॥ पुनर्वसू मृगश्वेव प्रोच्यते देवतागणः ॥ ३९ ॥ रोहिणीभरणीपूर्वोत्तराद्र्वा मानुषो गणः ॥ चित्राऽश्लेषा मधा मूलं धनिष्ठा शततारका ॥ ४० ॥ विशाखा कृत्तिका ज्येष्ठा एष रक्षोगणो मतः ॥ गणैक्ये परमा प्रीतिर्देवमानुपयोः समः ॥ देवराक्षसयोर्वर्णं मृत्युर्मानवरक्षसोः ॥ ४१ ॥

अब गणमैत्री लिखते हैं—हस्त, स्वाति, श्रवण, पुष्प, अनुराधा, रेवती, अश्विनी, पुनर्वसू, मृगश्विर ये नक्षत्र देवतागण कहेहैं ॥ ३९ ॥

रोहिणी, भरणी, तीनों पूर्वा,
तीनों उत्तरा, आद्रा ये नक्षत्र म-
नुव्यगण कहेहैं. चित्रा, आश्लेषा,
मधा, मूल, धनिया, शतभिया ॥४०॥
विशाखा, कृतिका, ज्येष्ठा ये नक्षत्र
राक्षसगण कहेहैं. कन्यावर दोनोंका
एक गण होय तो परम प्रीति रहतीहै.
देव मनुव्यमें समताहै; देव राक्षसोंमें
वैरं रहताहै; मनुव्य और राक्षसमें
मृत्यु होतीहै ॥ ४१ ॥

अथ गणदोपापवादः ।
मैत्र्यां राशीशयोरंशस्त्वामिनोर्व-
रकन्ययोः ॥ न तत्र गणदोपः
स्याद्विवाहः शुभदो मतः ॥४२॥
यदि रक्षोगणा कन्या, वरश्वेष्टु-
गणो भवेत् ॥ तदोद्घातो गुणा-
धिक्ये कार्यस्त्वावश्यके सति
॥ ४३ ॥ रक्षोमरणा नारी
चेत्तदोद्घातनं तयोः ॥ योनिमे-
त्र्यादिना कार्यमिति गर्गेण
भापितम् ॥ ४४ ॥

अब गणदोपापवाद लिखते हैं-
वर और कन्याके राशीश्वरोंमें अ-
थवा राशिनवांशके स्वामियोंमें मि-
त्रता होय तो गणका दोप नहीं

अथ नक्षत्राणां योन्यादिचक्रम् ।

अथ नक्षत्राणि	योनि	वैरयेनि	गण	मात्रा
अश्विनी	अच	भूष	देव	आदि
भरणी	मज	सिंह	मनुव्य	मध्य
इतिरा	मेषा	वानर	राक्षस	शत्र
रोहिणी	र.पं	नकुल	मनुव्य	शत्र
मृगशिरा	सर्प	नकुल	देव	मध्य
आद्रा	क्षान	शूण	मनुव्य	आदि
उत्तरवंशु	नार्जीर	मूरा	देव	आदि
मुख्य	मेषा	वानर	देव	मध्य
आश्लेषा	विलाप	मूरा	राक्षस	शत्र
मधा	शूण	विलाप	राक्षस	शत्र
पूर्वाफालनुभी	मूरा	विलाप	मनुव्य	मध्य
उत्तराफालनुभी	गौ	व्याघ्र	मनुव्य	आदि
हस्त	मैत्रा	शच	देव	आदि
चित्रा	व्याघ्र	गौ	राक्षस	मध्य
स्वाती	भेस	शच	देव	शत्र
विशाखा	व्याघ्र	गौ	राक्षस	शत्र
अनुराधा	शूण	क्षान	देव	मध्य
ज्येष्ठा	शूण	क्षान	राक्षस	आदि
मूल	क्षान	शूण	राक्षस	आदि
दूर्जीपादा	वानर	मेषा	मनुव्य	मध्य
उत्तरापादा	नकुल	सर्प	मनुव्य	शत्र
शतभिजित्	नकुल	सर्प	मनुव्य	००
ध्रवण	वानर	मेषा	देव	शत्र
धनिष्ठा	सिंह	गज	राक्षस	मध्य
शतभिया	अश	मैत्र	राक्षस	आदि
पूर्वाभाद्रपदा	सिंह	गज	मनुव्य	आदि
उत्तराभाद्रपदा	गौ	व्याघ्र	मनुव्य	मध्य
रेती	गज	मिद	देव	शत्र

हाताहे और विवाह शुभदायक होताहे ॥ २२ ॥ यदि कन्याका गण राक्षस और वरका मनुष्य गण होय तो अधिक गुण होनेपर आवश्यकतामें विवाह करलेना चाहिये ॥ २३ ॥ और यदि स्त्रीका देवता वा राक्षसगण होय तो योनि आदिकी मित्रता होनेपर वर कन्या दोनोंका विवाह करदेना चाहिये ऐसा गर्गचार्यने कहाहो ॥ २४ ॥

अथ राशिकृटकम् ।

राश्योः पट्काष्टके मृत्युखिकोणे त्वनपत्यता ॥ नैःस्वं द्विद्वादशे ज्येष्ठं सौन्यमन्यव्र चोभयोः ॥ ४५ ॥ कुमार्या विषमाद्वाशेः पष्टं तु वरम् तथा ॥ समराशेः शुभं पष्टं विष-रीतमसत्स्मृतम् ॥ ४६ ॥

अब राशिकृट लिखतेहे—वर और कन्या दोनोंकी परस्पर छठी आठवीं राशि होय तो मृत्यु होय, नौवीं पांचवीं राशि होय तो संतान नहीं होय और इसरी वारहवीं राशि होय तो निर्धनता होय और अन्यप्रकारसे होय तो दोनोंमें मुख होय ॥ ४७ ॥ कन्याकी विषम राशिसे वरकी छठी राशि होय और वरका समराशिसे कन्याकी छठी राशि होय तो शुभ और इससे विपरीन होय तो अशुभ होताहे ॥ ४८ ॥

अथ दुष्टकृटापवादः ।

प्रोक्ते दुष्टभूटेषि राश्योरिकाधिपत्यके ॥ मैत्र्यां चोद्राहनं श्रेष्ठं ह्येकनाडी न चेत्तयोः ॥ ४९ ॥ तुला ७ वृष्ट २ भयो-मीन १२ सिंहयोः ५ कुंभ ११ कन्ययोः ६ ॥ धनुःकर्क-टयोर्नक्युग्मयोश्चालिमेपयोः ॥ ५० ॥ ग्रीतिपद्माष्टकं चैत-दन्यं संत्याज्यमेव हि ॥ राशिपोर्वेरभावेषि मैत्री चेत्स्या-तदंशयोः ॥ ५१ ॥ नाडी शुद्धी च तागणां शुद्धावुद्धनं शुभम् ॥

अब दुष्टकूटापवाद लिखते हैं—(दुष्टभक्ट) छठी आठवीं राशिमें वर कन्या दोनोंकी राशियोंका स्वामी एक होय अथवा दोनोंके राशियोंकी मित्रता होय तो विवाह श्रेष्ठ होता है परन्तु वर-कन्याकी एक नाड़ी नहीं होय ॥ ४७ ॥ तुला और वृषभका, मीन और सिंहका, कुंभ और कन्याका, धनु और कर्कका, मकर और मिथुनका वृश्चिक और सेष राशिका ग्रीतिपदष्टक होता है विवाहमें शुभ है और अन्य प्रकारका मृत्युपदष्टक विवाहमें त्याज्य है वरकन्याके राशि-स्वामियोंका वैर भी होय परन्तु दोनोंकी राशि-नवांशाके स्वामियोंकी मित्रता होय और नाड़ी तारा शुद्ध होय तो विवाह शुभ होता है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥

अथ नाडीशुद्धिः ।

ज्येष्ठामूलाश्विनार्द्धख्यद्वयं शतभिपक्षद्वयम् ॥ उत्तराफा-
ल्गुनीयुग्ममाद्यनाडीयमीरिता ॥ ५० ॥ चित्रालुराधा
भरणी मृगः पुष्यो धनिष्ठिका । अहिर्द्विश्यो भगः पूर्वापादा
मध्यमनाडिका ॥ ५१ ॥ रोहिणी कृत्तिकाश्लेषा मधा स्वाती-
द्वयं तथा ॥ रेवती चोत्तरापादा श्रवणश्वात्यनाडिका ॥
॥ ५२ ॥ दंपत्योरेकनाडीस्थ ऋक्षे नेष्टः करग्रहः ॥ मध्य-
नाडीगते मृत्युस्तस्मातां सर्वथा त्यजेत ॥ ५३ ॥

अब नाडीशुद्धि लिखते हैं—ज्येष्ठा, मूल, अश्विनी, आर्द्धा, पुन-
र्वसु, शतभिपा, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराफाल्गुनी, हस्त ये नक्षत्र
आदिनाडी कहते हैं ॥ ५० ॥ चित्रा, अलुराधा, भरणी, मृगशिर
धनिष्ठा, पुष्य, पूर्वापादा, पूर्वाफाल्गुनी उत्तराभाद्रपदा ये नक्षत्र
मध्यनाडी कहते हैं ॥ ५१ ॥ रोहिणी, कृत्तिका, आश्लेषा, मधा, स्वाति,
विश्वामी, रेवती, उत्तरापादा, श्रवण ये नक्षत्र अन्त्यनाडी कहते हैं ॥
॥ ५२ ॥ ग्रीष्मपुरुष दोनोंके जन्मनक्षत्र एकनाडीमें स्थित होय तो विवाह

नेष्ट होता है, मध्यनाडीमें होय तो मृत्युहोती है इस कारण मध्यनाडी
सर्वथा त्यज्य है ॥ ५३ ॥

अथ नाडीदोषापवादः ।

राश्यैकये भिन्नभेदप्येकभेन्यराशीं तथैकभे ॥

भिन्नेत्री न द्वयोदांपा गणनाडीभक्टजाः ॥ ५४ ॥

अब नाडी दोषापवाद लिखते हैं—यदि वर और कन्याकी राशि
एक होय और नक्षत्र अलग अलग होय, वा दोनोंका नक्षत्र एक
होय और राशि अलगअलग होय, अथवा नक्षत्र एक होय और
अलग अलग चरणोंमें दोनोंका जन्म होय तो गण और नाडी
तथा भक्टका दोष नहीं होता है ॥ ५४ ॥

अथैकभेषि विशेषः ।

विशाखाद्र्ग्नि श्रवः पुष्यो रोहिण्युत्तरभाद्रपादः ॥

रेती च मधा श्रेष्ठा नेतरश्चैकभद्रयोः ॥ ५५ ॥

अब एक नक्षत्रमें भी विशेष लिखते हैं—विशाखा, आद्रा, श्रवण,
पुष्य, रोहिणी, उत्तरभाद्रपात, रेती, मधा इन नक्षत्रोंमें से वर
और कन्याका जन्मनक्षत्र होय तो श्रेष्ठ होता है अर्थात् नाडी,
गण, भक्टका दोष नहीं होता और उक्त नक्षत्रोंसे अन्य नक्षत्रोंमें
दोनोंका जन्म होय तो अशुभ होता है अर्थात् नाड्यादि दोष
माने जाते हैं ॥ ५५ ॥

अथ नाड्यादिदोषपदानानि ।

हेमाद्यरक्तगोदानं मृत्युंजयजपस्तथा ॥ कुर्यादावश्यको-
द्वाहे नाडीदोषाऽपनुत्ये ॥ ५६ ॥ तात्र द्विद्वादशी दद्यात्सु-
वर्णं च पड़एके ॥ गोयुगं नवपंचाख्ये स्वर्णं वर्णादिदूपणे ॥
हेमान्नं वमनं धेनुं सर्वदोषापनुत्ये ॥ ५७ ॥

अब नाड्यादि दोषोंमें दान लिखते हैं—सूर्वण, धी, रत्न, गौका दान और मृत्युजयमन्त्रका जप करें तो आवश्यक विवाहमें नारीका दोष नहीं होता है ॥ ५६ ॥ और दूसरी बारहवीं राशि होय तो ताप्रदान करें. छठी आठवीं राशि होय तो सुवर्ण दानकरें. नौवीं पांचवीं राशि होय तो दो गोदान करें और यदि वर्णादिका दूषण होय तो सुवर्ण दान करें. सर्व दोष दूर करनेके लिये सुवर्ण, अन्न, वस्त्र, गऊ दान करें ॥ ५७ ॥

अथ वर्णादिगुणः ।

एकेकवृद्धितो ज्ञेया वर्णादीनां गुणाः क्रमात् ॥

विवाहः शुभदस्तेषां गुणे त्वष्टादशाऽधिके ॥ ५८ ॥

अब वर्णादिगुण लिखते हैं—क्रमसे वर्णादिके गुण एक एक वृद्धि करके जानने चाहिये अर्थात् वर्णका १ एक गुण, वश्यके २ दो गुण, ताराके ३ तीन गुण, योनिके चार ४ गुण, ग्रहमैत्रीके पांच ५ गुण. गणमैत्रीके ६ छह गुण. भकूटके सात ७ गुण, नारीके आठ ८ गुण होतेहैं इन सबका जोड़ ३६ छत्तीस होता है, इनके आधे अनाग्रहसे अधिक गुण मिलें तो विवाह शुभ होता है ॥ ५८ ॥

अथ प्रकारांतरेण वर्णादीनां च गुणाः ।

एको वर्णोत्तमे तुल्यवर्णक्ये कथितो वरे ॥ हीने शून्यं गुण-
श्रैके वदंति सदृशी दलम् ॥ ५९ ॥ वश्यभक्ष्ये दलं वश्यवैरे
द्योको गुणः स्मृतः ॥ गुणद्रव्यं द्रव्योः सख्ये वैरभक्ष्ये च खं
स्मृतम् ॥ ६० ॥ शुभा चेदेकतस्तारा तदा सार्वगुणो द्रव्योः ॥
शुभे चेत्स्युख्यः शून्यं चोभयोस्तारकेऽशुभे ॥ ६१ ॥
अतिमैत्र तु चत्वारो योन्योमैत्रे त्रयो गुणाः ॥ औदासीन्ये
द्रव्यं चैकं वैरे खं चातिशावै ॥ ६२ ॥ मिथोवैरे तु शून्यं
स्यात्समवैरे गुणार्थकम् ॥ एकं शात्रवमैत्रे च द्रव्योः साम्ये

त्रयो गुणाः ॥ द३ ॥ सममैत्रे तु चत्वारः पंचैवैकेश्वरे
तथा ॥ मित्रत्वे चोभयोस्तद्वाशिपोर्वरकन्ययोः ॥ द४ ॥
मनुष्ये च स्त्रिया देवे वरे तुल्यगणेषि पद् ॥ पंचान्यथा
स्त्रिया देवे तथा रक्षोगणे वरे ॥ द५ ॥ रक्षोगणा यदा कन्या
वरो देवस्तदा तु खम् ॥ रक्षोमानुपयोः खं स्यादन्योन्यं-
वरकन्ययोः ॥ द६ ॥ द्वयोरेकपदाभावे भक्तृटे योनिमैत्रतः ॥
कन्यादूरेषि चत्वारो ह्येकोप्यकचरे तयोः ॥ द७ ॥ सत्कृटे
योनिवैरत्वे नरदूरे पडीरिताः ॥ राश्यैक्ये भिन्नभे पंच
सप्तान्यव सकृटके ॥ द८ ॥ कन्याया वरम् दूरं कन्यादूरं
हि तच्छुभम् ॥ वरभाद्वीरुदूरं तद्विवाहेन शुभप्रदम् ॥ द९ ॥
नाडीमेदे गुणाश्वास्तो तदेवान्येषि सार्थकाः ॥ अजागल-
स्तनायंते नाडयैक्ये सकला गुणाः ॥ ७० ॥

अब प्रकारान्तरसे वर्णादिकोंका गुण लिखते हैं—वरका उत्तम
वर्ण होय अथवा वर कन्या दोनोंका एक वर्ण होय तो एक गुण
होताहै और यदि वर हीन वर्ण होय और कन्या उत्तम वर्ण होय
तो शून्यगुण होता है और कोई आचार्य कहते हैं कि, सम वर्णमें
आधागुण होताहै ॥ ५९ ॥ वरकन्या दोनोंका वश्य भक्ष्य होय
तो आधागुण और वश्य वैर होय तो एकगुण और यदि दोनोंके
वश्योंमें मित्रता होय तो दोगुण और दोनोंका वश्य वैर भक्ष्य
होय तो शून्य गुण होताहै ॥ ६० ॥ वरकन्या दोनोंमें एकके
तारा शुभ और एकके तारा अशुभ होय तो डेढ़ गुण होताहै
और जो दोनोंके शुभ तारा होय तो तीन गुण होते हैं और
दोनोंके अशुभ तारा होय तो शून्य गुण होताहै ॥ ६१ ॥ दोनोंकी
योनियोंमें अति मित्रता होय तो चार गुण और दोनोंकी योनि-
योंमें मित्रता होय तो तीन गुण और दोनों योनियोंमें उदा-

सीनता होय तो दो गुण और यदि दोनोंकी योनिमें वैर होय तो एक गुण और अतिशत्रुता होय तो शून्य गुण होताहै ॥ ६२ ॥ वरकन्या दोनोंके राशि स्वामियोंमें परस्पर वैर होय तो शून्य गुण होताहै और एकका राशीश सम और एकका शत्रु होय तो आधा गुण और शत्रुमित्रमें एक गुण और यदि दोनोंके राशीश्वर सम होय तो तीन गुण ॥ ६३ ॥ और सम मित्र होय तो चार गुण और दोनोंके राशिस्वामियोंमें मित्रता होय अथवा दोनोंका राशीश्वर एकही होय तो पांच गुण होतेहैं ॥ ६४ ॥ मनुष्यगणकी कन्या और देवता गणका वर होय अथवा दोनोंका एकगण होय तो छह गुण होतेहैं और यदि खी देवतागण होय और वर राक्षसगण होय तो पांच गुण होतेहैं ॥ ६५ ॥ और जो राक्षसगण कन्या होय और वर देवतागण होय तो शून्यगुण होताहै और वरकन्याका परस्पर राक्षस और मनुष्यगण होय तो शून्यगुण होताहै ॥ ६६ ॥ दोनोंमें एकपदका अभाव होय अर्थात् भक्ट शुद्धि न होय तो योनिकी मित्रतासे भक्ट शुभ होजाताहै वरकी राशिसे कन्याकी राशि दूर होय तो चारगुण होतेहैं इसी प्रकार तीनों दुष्ट भक्टोंमेंसे कोई एक भी भक्ट होय योनि मैत्री और वरसे कन्याको दूरत्व होनेपर, चारगुण होतेहैं ॥ ६७ ॥ और शुभभक्टमें यह विचार है कि दोनोंकी योनिमें वैर होय और कन्यासे वरकी राशि दूर होय तो छह गुण होतेहैं। राशि एकही होय और दोनोंके नक्षत्र मित्र होय तो पांचगुण होताहै। अन्य तीसरी, ग्यारहवीं राशिका शुभ भक्ट होय तो सातगुण होतेहैं ॥ ६८ ॥ कन्याकी राशिसे वरकी राशि दूर होय तो वह कन्यादूर कहाता है और शुभ होताहै और वरकी राशिसे कन्याकी राशि दूर होय तो विवाहमें शुभ नहीं होनाहै ॥ ६९ ॥ नाड़ी अलगअलग होय

तो आठ गुण होते हैं और जब नाड़ीके पूरे गुण मिल जाते हैं तो और के गुणभी सार्थक हो जाते हैं. यदि दोनोंकी नाड़ी एकही होय तो वकरीके गलस्तनके समान सर्वगुण निष्फल हो जाते हैं ॥ ७०॥

अथ जन्मकाले भौमदोपः ।

मूर्ती १ तुर्ये ४ एमे ८ भौमे सप्तमे ७ न्त्ये १२ च जन्मनि ॥

भर्त्योपिद्विनाशः स्यात्स्त्रिया भर्त्यविनाशनम् ॥ ७१ ॥

एवं विधे कुजे संख्ये विवाहो न कदाचन ॥ कार्यो वा गुणवाहुल्ये कुजे वा ताहशे द्वयोः ॥ ७२ ॥

अब जन्मकालमें भौमदोप लिखते हैं—पतिकी जन्मकुण्डलीमें मंगल लक्ष्मीमें वा सातवें अथवा बारहवें अथवा चौथे वा आठवें स्थानमें होय तो छीका विनाश करता है और जो छीकी जन्म कुण्डलीमें मंगल उक्त स्थानोंमेंसे किसी स्थानमें होय तो पतिका नाश करता है इस कारण उक्त स्थानोंमें मंगल होय तो विवाह कभी न करे और यदि बहुत गुण मिलें अथवा वर कन्या दोनोंकी जन्मकुण्डलीमें मंगल एकसा होय तो विवाह करलें ॥ ७१ ॥ ७२ ॥

अथ विषकन्यायोगः ।

सूर्यभौमार्किवारेषु तिथिभद्राशताभिधम् ॥ आश्लेषा कृतिका चेत्स्यात्तव जाता विपांगना ॥ ७३ ॥ जनुर्लभे रिषुक्षेत्रे संस्थितः पापखेचरः ॥ द्वौ सौम्यावपि योगेस्मिन्संजाता विषकन्यका ॥ ७४ ॥ लभे शनैश्चरो यस्याः सुतेऽकों नवमे कुजः ॥ विपाख्या सापि नोद्वाह्या विविधा विषकन्यका ॥ ७५ ॥

अब विषकन्यायोग लिखते हैं—रवि, मंगल, शनैश्चर इन वारोंमें भद्रातिथिमें, आश्लेषा कृतिका इन नक्षत्रोंमें कन्या उत्पन्न होय

तो वह विषकन्या कहाती है ॥ ७३ ॥ और जन्मलघ्नमें शत्रुक्षेत्री पापग्रह स्थित होय तथा दो शुभग्रहभी वहीं लघ्नमें स्थित होय तो भी विषकन्या कहानी है ॥ ७४ ॥ और जिस कन्याकी जन्मलघ्नमें शनैश्चर होय, पाचवें स्थानमें सूर्य, नौवें स्थानमें मंगल होय तो भी विषकन्या कहाती है इस प्रकारके योगोंसे अनेक विषकन्या होती हैं उनका विवाह नहीं करना चाहिये ॥ ७५ ॥

अथ विषकन्यादोपपरिहारः ।

सावित्र्यादिवतं कृत्वा वेधव्यविनिवृत्तये ॥

अथत्यादिभिरुद्धाय दद्यातां चिरजीविने ॥ ७६ ॥

अब विषकन्यादोपपरिहार लिखते हैं—वेधव्य दूर करनेके लिये सावित्र्यादिक व्रत करके पीपल आदि वृक्षोंके साथ विवाह करे फिर चिरजीवी वरको देवे ॥ ७६ ॥

अथ जन्मकालिकदुष्टनक्षत्रफलम् ।

आश्वेषाख्यसमुत्पन्नां श्वत्र कन्यासुतौ हृतः ॥ मूलजा शशुरं हंति ज्येष्ठोत्था स्वधवाग्रजम् ॥ ७७ ॥ कन्यका तु विशाखोत्था निहंति देवरं स्वकम् ॥

अब जन्मकालिक दुष्टनक्षत्रफल लिखते हैं—यदि कन्या अथवा पुत्र आश्वेषा नक्षत्रमें उत्पन्न होय तो दोनों सासांका नाश करते हैं और मूल नक्षत्रमें उत्पन्न हुई कन्या शशुरका नाश करती है और ज्येष्ठा नक्षत्रमें उत्पन्न हुई कन्या स्वपतिके घडेभ्राताका नाश करती है ॥ ७७ ॥ और विशाखा नक्षत्रमें उत्पन्न हुई कन्या देवरका नाश करती है—

अथास्यापवादः ।

आश्वेषाप्रथमः पादः पादो मूलांतिमस्तथा ॥ विशाखा-ज्येष्ठयोगद्याद्ययः पादाः शुभावद्धाः ॥ ७८ ॥ इनि वधूवर्योमेल्यापवादः ॥

अब इसका अपवाद लिखते हैं—आश्लेषाका पहिला चरण और सूलका अन्तिम चरण विशारदा तथा ज्येष्ठाके पहिले तीन चरण शुभकारक हैं ॥ ७८ ॥ इनि वधूवरयोर्मेलापवादः ॥

अथ वाग्दानं कुमारीवरणं च ।

विवाहोदितमे इर्वाधनिष्ठाकृत्तिकाश्रवे ॥

कुमारीवरयोः कार्यं चरणं च शुभेहनि ॥ ७९ ॥

अब वाग्दान और कुमारीवरण लिखते हैं—विवाहमें जो नक्षत्र कहों हैं निनमें और पूर्वी तीनों, धनिष्ठा, कृत्तिका, श्रवण इन नक्षत्रोंमें शुभवारमें कुमारी और वरका चरण करना शुभ होता है ॥ ७९ ॥

अथ विवाहादिकृत्ये निषिद्धसमयः ।

जलाशयगृहारामप्रतिष्ठारंभणे तथा ॥ ब्रतारंभसमाप्ती च
दीक्षा सोमाऽध्वरादिकम् ॥ ८० ॥ महादानमुपाकर्माग्रय-
णारंभमष्टकम् ॥ केशांतं वृपभौम्सर्गं देवतास्थापनं प्रपा-
॥ ८१ ॥ ब्रतवंधमथोद्राहं मुङ्डनं कर्णवेधनम् ॥ गर्भायाना-
दिसंस्कागन्कालातिकमणे शिरोः ॥ ८२ ॥ देवतीर्थेक्षणं
चाद्यं भृमिपालाभिषेचनम् ॥ अस्यावानं च संन्यासं
चातुर्मास्यमथो गम्मम् ॥ ८३ ॥ वेदवृत्तं ब्रतोसर्गमाद्यं
वध्वा: प्रवेशनम् ॥ अस्ते शुक्रेज्ययोर्वाल्ये वार्षिके सिंहगे-
गुर्गे ॥ ८४ ॥ ब्रयोदशदिने पञ्च मासे न्यूनेऽधिके त्यजेत् ॥
धार्यं नेति जगुः केचिदस्तादौ भूपणादिकम् ॥ ८५ ॥
सुवर्णग्रन्दतानां संधार्यमिति चापरे ॥ केनिद्रकेऽतिचा-
रेपि नीचराशिगते गुर्गे ॥ धनुर्मानगते सृङ् गुरुणा संयुतेषि
च ॥ ८६ ॥

अब विवाहादिकृत्यमें निषिद्धसमय लिखते हैं—जलाशय, सकान,
चर्णीचा इनका वनाना, तथा प्रतिष्ठा करना, बनका प्रारंभ और

समाप्ति, मंत्रदीक्षा सोमयज्ञादि करना ॥ ८० ॥ महादान, उपाकर्म, नवान्न भोजन, अष्टकाश्राद्ध (केशांत) डाढ़ी बनवाना, वृपोत्सर्ग, देवस्थापन, प्याऊ लगाना ॥ ८१ ॥ यज्ञोपवीत, विवाह, सुंडन, कर्णवेध, वालकका समय निकल जानेपर गर्भाधानादि संस्कार ॥ ८२ ॥ देवता और तीर्थका प्रथम दर्शन, राजाका अभिषेक, अग्निहोत्र, संन्यास लेना, चातुर्मास्यव्रत करना, प्रथमयात्रा करनी ॥ ८३ ॥ वेदपाठका व्रत करना, व्रतका उद्यापन करना, प्रथम वधूप्रवेश इतने कार्य शुक्र और वृहस्पतिके अस्त तथा वालत्व और वृद्धत्वमें, सिंहके वृहस्पतिमें ॥ ८४ ॥ तेरहदिनके पक्षमें, न्यूनाधिक मासमें त्यागदेने चाहिये और कोई आचार्य ऐसा कहते हैं कि, अस्तादिकमें भूपणादिक धारण नहीं करें ॥ ८५ ॥ और किन्हीं आचार्योंका ऐसा मत है कि, सुवर्ण, रत्न, हाथीदांतका पाहिरलेना अस्तादिकमें शुभ है तथा किन्हीं आचार्योंका ऐसा कथन है कि, वृहस्पति वक्रीहोंय अथवा अतिचारी होंय वा नीच राशि मकरके होंय अथवा वृहस्पतिसे युक्त धनु और मीनके सूर्य होंय तो भी सोना, रत्न, हाथीदांत आरण करलेना शुभ होता है ॥ ८६ ॥

अथ प्रकारांतरैर्मासद्वयमेव त्यज्यम् ।

हेयं मासद्वयं जीवे नक्षस्ये शुभमीप्युभिः ॥ ८७ ॥

अब प्रकारान्तरसे दो मासमें ही त्यज्य लिखते हैं—मकरके वृहस्पति होंय तो शुभ चाहनेवाले जन दो महीनेतक शुभकार्य न करें ॥ ८७ ॥

गुरोर्वकातिचारे विशेषः ।

वक्रातिचारगे जीवे त्वष्टविंशतिवासगन् ॥

परित्यज्य ततः कुर्याद्विद्वाहादिकं शुभम् ॥ ८८ ॥

अब गुरुके वक्रातिचारमें विशेष लिखते हैं वक्र अथवा अतिचारके वृहस्पति होय तो अष्टाईस दिनोंको त्यागकर यज्ञोपवीत विवाहादि कार्य करे तो शुभ होते हैं ॥ ८८ ॥

अथ वक्रातिचारदोपापवादः ।

त्रिकोणद्वयायसंस्थे तु जीवे वक्रातिचारिण ॥

न दोपस्त्रव विज्ञेयः कुर्यादुद्ग्राहनादिकम् ॥ ८९ ॥

अब वक्रातिचारके दोपापवाद लिखते हैं—नौवें पांचवें, दूसरे, न्यारहवें स्थानमें वृहस्पति होय तो वक्र और अतिचारका दोप नहीं होता है विवाहादि कर्म शुभ होते हैं ॥ ८९ ॥

अथ सिंहस्थगुरुर्दोपः ।

सिंहसिंहांशगे जीवे विवाहादि न कारयेत् ॥

गोदाया उत्तरं भागे भागीरथ्याश्च दक्षिणे ॥ ९० ॥

अब सिंहस्थ गुरुदोप लिखते हैं—सिंहराशि और सिंहराशि के नवांशमें वृहस्पति होय तो गोदावरीके उत्तर भाग और भागीरथी गंगाके दक्षिण भागमें विवाहादिक न करे ॥ ९० ॥

अथ देशविशेषेण सिंहस्थगुरुदोपाभावः ।

गोदाया याम्यदिग्भागे भागीरथ्यास्तथोत्तरे ॥

विवाहाद्यस्तिं कार्यं सिंहस्थेषि वृहस्पतौ ॥ ९१ ॥

अब देशविशेषसे सिंहस्थ गुरुदोपाभाव लिखते हैं—गोदावरी नदीके दक्षिण भागमें और भागीरथी नदीके उत्तर भागमें सिंहके वृहस्पति होनेपरभी विवाहादि समस्त कार्य करे ॥ ९१ ॥

अथ सिंहस्थगुरुर्सर्वदेशेषु दोपापवादः ।

सिंहराशिस्थिते जीवे मेषेके तु न दूषणम् ।

आवश्यके विवाहादौ सर्वदेशेष्वपि स्मृतम् ॥ ९२ ॥

अब सिंहस्थगुरुमें सर्वदेशमें दोपापवाढ़ लिखते हैं—सिंहराशिके वृहस्पति होंय तो मेषके सूर्यमें आवश्यक विवाहादि कार्य सब देशोंमें शुभ होते हैं अर्थात् मेषके सूर्य रहनेपर सिंहस्थ वृहस्पतिका दृपण नहीं होता है ॥ ९२ ॥

अथ मकरस्थे गुरो विशेषः ।

मगधे गौडदेशो च सिंधुदेशो च कौंकणे ॥

विवाहादिशुभे त्याज्यो नान्यस्मिन्नकगो गुरुः ॥ ९३ ॥

अब मकरस्थगुरुमें विशेष लिखते हैं—मकरके वृहस्पति विवाहादि शुभकम्भोंमें मगध, गौड़, सिंधु, कौंकण इन देशोंमें त्याज्य हैं अन्य देशोंमें शुभ हैं ॥ ९३ ॥

अथ लुप्तसंवत्सरः ।

देवपूज्योतिचारेण दशमासात्पुरा यदि ॥ राश्यंतरगते भूयो

ऋते कुंभचतुष्टयात् ॥ ११ ॥ १२ ॥ १ ॥ २ ॥ ९४ ॥

प्रायाशिं यदि नो याति लुप्तसंवत्सरस्तदा ॥ गंगानर्मदयो-

र्मध्ये देशो सोत्यंतर्निंदितः ॥ ३५ ॥

अब लुप्तसंवत्सर लिखते हैं—यदि वृहस्पति अतिचारकरके दश मासके भीतर कुंभ, मीन, मेष, वृष इन चार राशियोंको छोड़कर अन्य राशिपर चले जायें और अपनी पूर्वराशिपर न आवें तो लुप्त संवत्सर होता है सो गंगा और नर्मदा नदीके मध्य देशमें अत्यंत निंदित है ॥ ९४ ॥ ९५ ॥

अथ कार्यविशेषे नामजन्मर्धयोः प्राधान्यम् ।

देशग्रामगृहद्यूतव्यवहारे रणे ज्वरे ॥ दाने मंत्रे च सेवायां

काकिण्यां वर्गयाजने ॥ ९६ ॥ पुनर्भूमेलने ज्ञेया नामराशेः

प्रथानता ॥ अतोन्यत्र विवाहादो प्राधान्यं जन्मभस्य

हि ॥ ९७ ॥ अद्वातजनिविष्ण्ये तु नामभादेव चिंतयेत् ॥

जायापत्योर्भूट्याद्यं गोचराद्यं खिलं तथा ॥ ९८ ॥ एक-
स्यापि च दंपत्योरज्ञाते जन्मभेसति ॥ तदा तु गुरुरब्यां-
दिमेलनं नामभाव्योः ॥ ९९ ॥

अब कार्यविशेषमें जन्मक्षेत्र और नामधेनकों प्रधानता लिखते हैं—
देश, आम और वर्गके कार्योंमें, जुआमें, व्यवहारमें, युद्धमें, ज्वरमें,
दानमें, मंत्रमें, सेवामें, काकिणीमें, वर्गके मिलनेमें ॥ १०६ ॥
(पुनर्भूमेलन) अन्यकी व्याहीहुई श्रीका अन्यपुरुषके साथ सगाई
करनेमें नामराशिकी प्रधानता जाननी। इससे अन्यत्र विवाहादि
कार्योंमें जन्मराशिकी प्रधानता जाननी ॥ १०७ ॥ जिस श्री पुरुषका
जन्मनक्षत्र नहीं मालूम होय उनके नामकी राशिसेही सब भक्त
टाडि तथा गोचरादिका विचार करें ॥ १०८ ॥ श्रीपुरुषमें एकका भी
जन्मनक्षत्र अज्ञात होय तो जो वृहस्पति तथा सूर्यादिग्रहोंके मेल-
नमें जन्मराशिसे किया जाता है सो विचार सब ग्रहोंके मेलनका
दोनोंकी नामराशिसे ही करें ॥ १०९ ॥

अथ विवाहे संवत्सरादिशुद्धिः ।

गर्भाजन्मदिनाङ्गापि हायनात्पंचमात्परम् ॥ आदशाव्दं तु
कन्याया विवाहः समवत्सरं ॥ १०० ॥ गौरी स्यादप्तवर्षा
सा रोहिणी नववार्षिकी ॥ दशाङ्गा कन्यका ज्ञेया तस्मा-
दूध्वं रजस्वला ॥ १०१ ॥

अब विवाहमें संवत्सरादिशुद्धि लिखते हैं—गर्भ अथवा जन्म-
दिनसे पांच वर्षके पश्चात् दश वर्षके भीतर सम वर्षमें कन्याका
विवाह शुभ होता है ॥ १०० ॥ आठवर्षकी कन्याकी गौरी संज्ञा है।
नौवर्षकी कन्याकी रोहिणी संज्ञा, दशवर्षकी कन्याकी कन्या संज्ञा हैं
और दशवर्षके पीछे कन्याकी रजस्वला संज्ञा है ॥ १०१ ॥

तत्र विशेषः ।

देया गुरुवला गौरी रोहिणी भानुमद्धला ॥ कन्या चंद्रवला
आह्या ततो लम्बवलेतरा ॥ १०२ ॥

यहां विशेष लिखते हैं—गौरीको वृहस्पतिका वल, रोहिणीको सूर्यका
चल, कन्याको चंद्रमाका वल और रजस्वलाको लम्बवल देखना
चाहिये ॥ १०२ ॥

अथ विवाहे रविगुरुचंद्रवलम् ।

गुरोर्वलं तु कन्याया वरस्याथ वलं रवेः ॥

आह्यं परिणये प्राज्ञर्वलं चांद्रं तथोभयोः ॥ १०३ ॥

अब विवाहमें रवि गुरु चंद्रवल लिखते हैं—कन्याको वृहस्पतिका
चल और वरको सूर्यका वल और दोनोंके लिये चंद्रमाका वल
विवाहमें ग्रहण करना चाहिये ॥ १०३ ॥

अथ कन्याया वटोश्च गुरुवलम् ।

जन्मराशोर्गुरुः श्रेष्ठः पञ्चमो नवमो द्विगः ॥ एकादशः सप्तमस्थः

कन्यायाश्च वटोर्वते ॥ १०४ ॥ व्रि ३ पद् द दशाद्य १० । १

गो मध्यो नेष्टस्तुयोऽष्टमो च त्वयः ॥ एकत्रा पूजया

मध्यस्तुयोऽत्यो द्विगुणार्चया ॥ १०५ ॥ कालातिक्रमणे

त्विष्टो द्वयष्टमस्त्रिगुणार्चनात् ॥ गुरुः स्वोच्चे स्वमैच्चे वा स्वांशे

वगोंत्तमेषि वा ॥ १०६ ॥ शुभस्तुयोऽष्टमोऽत्योपि नीचारिस्थः

शुभोप्यसत् ॥ वकातिचार्गो वा पि यस्मिन्नाशां समा-

गतः ॥ १०७ ॥ तद्राशिजं फलं धत्ते जीवो नो पूर्वरा-

शिजम् ॥ १०८ ॥

अब कन्या और वटुके गुरुवल लिखते हैं—विवाहमें कन्याकी
जन्म राशिमें और यज्ञोपवीनमें वटुकी जन्मराशिमें वृहस्पति
पांचवं, नीचे, दूसरे, ग्यारहवं, मानवं होय नो श्रेष्ठ होनेहैं ॥ १०८ ॥

और तीसरे, छठे, दशवें, जन्मके होंय तो मध्यम होतेहें और चौथे, आठवें, बारहवें होंय तो नेष्ट होतेहें। मध्यम वृहस्पति एक गुणी पूजासे और चौथे, बारहवें वृहस्पति इनी पूजासे शुभ होतेहें और काल व्यतीत होनेपर आठवें वृहस्पति तिगुनी पूजासे शुभ होतेहें यदि वृहस्पति उच्चराशिके अथवा अपनी राशिके वा मित्रव्रहकी राशिके अथवा अपने नवांशकमें वा वर्गोत्तम नवांशकमें होंय ॥ ५ ॥ ६ ॥ तो चौथे, आठवें, बारहवें स्थानमें स्थित भी शुभ होतेहें तथा नीच राशि वा शत्रुकी राशिका होय तो शुभ भी अशुभ होजाताहै और वृहस्पति वक्र अथवा अतिचारी होके जिस राशिपर आताहै उसीका फल देताहै और पूर्वराशिका फल नहीं देता ॥ १०७ ॥ १०८ ॥

अथ वरस्य रविवलम् ।

रविव्यिपद्दशायस्थो वरस्योद्धहने शुभः ॥ मध्यः पञ्चम-
द्वादशतनवमः पूजयोत्तमः ॥ द्विरच्यां द्वादशः सूर्योऽथा-
एमस्त्रिगुणार्चनात् ॥ १०९ ॥

अब वरका रविवल लिखतेहें—सूर्य तीसरे, छठे, दशवें, बारहवें वरके लिये विवाहमें शुभ होतेहें। पांचवें, दूसरे, सातवें, नौवें पूजासे उत्तम होते हें और बारहवें सूर्य इनी पूजासे तथा आठवें तिगुनी पूजासे शुभ होतेहें ॥ १०९ ॥

अथोभयोश्चंद्रवलम् ।

ग्राह्यं प्रागुक्तमुद्गाहे द्वयोश्चांद्रवलं समम् ॥ ११० ॥

अब दोनोंके चन्द्रवल लिखतेहें—कन्या और वर दोनोंके लिये विवाहमें चंद्रमाका पूर्वोक्तसमानही वल ग्रहण करना चाहिये ॥ ११० ॥

अथ मासादिदोपापवादः ।

जन्ममासादिके ज्येष्ठे विवाहो वर्गकन्ययोः ॥ आद्यगर्भमु-
वोर्नेष्टो नानाद्यजनुपोस्तयोः ॥ १११ ॥ नेष्ट त्रिज्येष्टमुद्गाहे

द्विज्येषु मध्यमं स्मृतम् ॥ कृत्तिकास्थे रवौ केचिद्विज्येषु
तु शुभं जगुः ॥ ११२ ॥

अब मासादिदोषापवाद लिखते हैं—प्रथम गर्भसे उत्पन्न हुए
वरकन्याका विवाह जन्ममास, जन्मनक्षत्र, वार, तिथ्यादिसे
तथा ज्येष्ठमासमें नेष्ट होता है और अन्य महीनोंमें नेष्ट नहीं
होता अर्थात् शुभ होता है ॥ ११३ ॥ विवाहमें तीन ज्येष्ठ अशुभ
दो ज्येष्ठ मध्यम होते हैं, कोई आचार्य ऐसा कहते हैं कि, कृत्तिका
नक्षत्रपर सूर्य होय तो तीन ज्येष्ठ शुभ होते हैं ॥ ११४ ॥

अथात्र प्रसंगाद्विवाहाद्युपयुक्तः शास्त्रार्थः ।

नेष्ट शुद्धहनं केचिज्ज्येष्ठयोस्तु परस्परम् ॥ पुत्रोद्वाहात् ।
पृष्ठासात्र कन्याकरपीडनम् ॥ ११५ ॥ मंडनान्मुंडनं वापि
कुले शस्तमतोन्यथा ॥ सीमांतोद्वाहने चौलं केशांतं व्रतवं-
धनम् ॥ ११६ ॥ गुरुमंगलमेतत्स्यात्तदन्ये लघुमंगलम् ॥
गुरुमंगलयोनेष्ट पृष्ठासात्तद्वुमंगलम् ॥ ११७ ॥ शुभव्रयं
तथा पित्र्यं कृत्यं स्वीयकुले न सत् ॥ सहोदरप्रसृतानां
भातृणां च समक्रिया ॥ ११८ ॥ पृष्ठासाभ्यन्तरे नेष्टा
कन्यकानां तथैव च ॥ प्रागुक्तमंगलं कुर्याद्वदभेदेऽथवा
पुनः ॥ ११९ ॥ चतुर्दिनांतरे वापि संकटे तु दिनान्तरं ॥
एकाहेपि प्रकुर्वीत सरिद्विरिग्यहांतरे ॥ १२० ॥ तथा मंडप-
भेदेपि लघुभेदे यथोच्चितम् ॥ यमयोस्तु विशेषोयं कार्याः
सर्वाः सहक्रियाः ॥ १२१ ॥ एकोदरसमुत्पन्नमेकस्मै कन्य-
काद्यम् ॥ न देये नैव कुर्याच्च सोदराभ्यां सहोदरे ॥ १२२ ॥
विवाहनिश्चयादूर्ध्वं कुले वृच्छा वरस्य च ॥ पित्रादेवरणे
जाते विवाहो न तथा शुभः ॥ १२३ ॥ अथवा वत्सरादूर्ध्वं

मासपद्मादथापिवा ॥ मासोर्ध्वात्सूतकांते वा शांत्या शस्तः
करत्रहः ॥ १२२ ॥

अब यहाँ प्रसंगसे विवाहाद्युपयुक्तशास्त्रार्थ लिखते हैं—तीन ज्येष्ठोमें
विवाह अशुभ होता है । किन्हीं आचारोंका ऐसा मत है कि, जेठे
वर कन्या दोकाही परस्पर विवाह अशुभ होता है और पुत्रके
विवाहसे पीछे छह महीनेके भीतर कन्याका विवाह शुभ नहीं
होता ॥ ११३ ॥ और अपने कुलमें कन्या वा पुत्रके विवाहसे पीछे
छह महीनेके भीतर सुंडनभी शुभ नहीं होता है । सीमंतकर्म, विवाह,
सुंडन, केशान्त, यज्ञोपवीत ॥ ११४ ॥ ये कार्य गुरुमंगल कहाते हैं
इनसे अन्य लघुमंगल कार्य हैं । गुरु मंगल कार्यके पीछे छह महीनेके
भीतर लघुमंगलकार्य शुभ नहीं होता ॥ ११५ ॥ (तीन शुभकर्म) विवाह,
यज्ञोपवीत, सुंडन और (पितृकर्म) गयाश्राद्धादिक छह महीनेके
भीतर अपने कुलमें शुभ नहीं मानते हैं और सगेभाईयोंका विवाहा-
दिक छह मासके भीतर अशुभ होता है ॥ ११६ ॥ इसी प्रकार सगी-
वहिनोंका विवाहभी छह महीनेके भीतर अशुभ होता है । पूर्वोक्त
मंगलकार्य (वर्षभेद) साल घटल जानेपर छह महीनेके भीतरभी
शुभ हो जाता है । जैसे माघके महीनेमें विवाह होय तो वैशाखके
महीनेमें अन्य विवाहाद्यि कार्य अपने कुलमें करलेने शुभ होते हैं ।
अथवा आवश्यक संकट कार्यमें चारदिनके अंतरसे अथवा एकदि-
नके अंतरसे पूर्वोक्तकार्य करना शुभ होता है और एक दिनमेंभी
नदीके अंतर वा पर्वतके अंतर अथवा मक्जनके अन्तरसे शुभ होता
है ॥ ११७ ॥ ११८ ॥ और यदि एक घरमें ही करे तो मंडपभेदसे करे
अथवा लभ्मभेदसे करे अर्थात् दूसरा मंडप वा दूसरी लभ्ममें करे और
एकसाथ पेढ़ाहुए दोभाईयोंके तो सब कार्य एक संगही करने
चाहिये ॥ ११९ ॥ और सगी दो कन्याओंको एक वरके लिये नहीं

देवे और सगे दो भाइयोंके लिये सगी दो कन्याएंभी नहीं देवे ॥ १२० ॥ विवाह निश्चय करनेके उपरान्त वधू अथवा वरके कुलमें पिताआदि किसीका मरण होजावै तो विवाह शुभ नहीं होता है ॥ १२१ ॥ अथवा एकवर्षके उपरान्त शुभ होता है अथवा छह महीने पीछे वा एक मासपीछे अथवा सूतककी समाप्तिपर शान्ति करनेसे विवाह शुभ होता है ॥ १२२ ॥

अथ विवाहे शुभमासाः ।

मेपवृश्चिककुंभेषु मकरे मिथुने वृषे ॥ रवौ पाणिग्रहः श्रेष्ठो युग्मे विष्णुशयावधिः ॥ १२३ ॥ वैशाखः फाल्गुनो माघो ज्येष्ठश्चैते शुभप्रदाः ॥ मासा उद्ग्रहने मार्गो मध्योदन्ये त्वशुभा मताः ॥ १२४ ॥ वृश्चिके मकरे मेपे विद्य- माने दिवाकरे ॥ कार्त्तिकः पौपचैत्रो च विवाहे तेपि शोभनाः ॥ १२५ ॥ मार्गशीर्षे धनुष्यके मीनार्कः फाल्गुने शुभः ॥ सौरो व्रतविवाहादौ मासः सर्वत्र शस्यते ॥ १२६ ॥ चांद्रो मासस्तु विष्ण्याद्रेभागे दक्षिणके मतः ॥ योगस्तयो- विवाहादौ शोभनः सौरचांद्रयोः ॥ १२७ ॥

अब विवाहमें शुभमास लिखतेहैं—मेप, वृश्चिक, कुंभ, मकर, मिथुन, वृषके सूर्यमें और मिथुनके सूर्यमें देवशयनी एकादशीतक विवाह श्रेष्ठ होता है ॥ १२३ ॥ विवाहमें वैशाख, फाल्गुन माघ, ज्येष्ठ ये महीने शुभदायक हैं और मार्गशीर्ष मध्यम है. अन्य महीने अ- शुभ हैं ॥ १२४ ॥ वृश्चिक, मकर, मेपके सूर्य विद्यमान होंय तो विवाहमें क्रमसे कार्त्तिक, पौप, चैत्र मासभी शुभ होते हैं ॥ १२५ ॥ मार्गशीर्षमें धनुके और फाल्गुनमें मीनके सूर्य होंय तो अशुभ होते हैं. यज्ञोपवीत, विवाहादि कार्योंमें सौरमास श्रेष्ठ माना है ॥ १२६ ॥ और विष्ण्याचलके दक्षिण भागमें चांद्रमास मानाजाता है सौर और चांद्रमासका योग विवाहादिकमें शुभ माना है ॥ १२७ ॥

अथ विवाहे तिथिनक्षत्राणि ।

पष्ठी दशोंष्टमी रिक्ता कृष्णपक्षांत्यपंचके ॥ शुक्ला च प्रति-
पन्नेष्टस्तिथयोऽन्ये तु शोभनाः ॥ १२८ ॥ सौम्यवाराः
शुभा मध्यो सूर्यमंदौ कुजोऽधमः ॥ रोहिण्यासुत्तरे मूले
पितृमैत्रांतमे मृगे ॥ १२९ ॥ हस्ते स्वात्यां मृगाक्षीणां
शोभनं करपीडनम् ॥ सीतोढा पूर्वफाल्गुन्यां नो लेभे
शमतो न सत् ॥ १३० ॥

अब विवाहमें तिथि नक्षत्र लिखते हैं—पष्ठी, अमावास्या, अष्टमी,
रिक्ता तिथि और कृष्णपक्षके अंतकी पांच तिथि और शुक्लप्रतिपदा
इतनी तिथि विवाहमें नेष्ट हैं और अन्य तिथि शुभ हैं ॥ १२८ ॥
विवाहमें सौम्यवार शुभ हैं और सूर्य शनैश्वर मध्यम हैं; मङ्गल
अधम है. रोहिणी, तीनों उत्तरा, मूल, मधा, रेवती, मृगशिर ॥
॥ १२९ ॥ हस्त, स्वाति, इन नक्षत्रोंमें कन्याका विवाह शुभ होता है
और पूर्वफाल्गुनी नक्षत्रमें सीताका व्याह हुआ था उसको
सुख नहीं मिला इसीसे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र विवाहमें शुभ
नहीं है ॥ १३० ॥

अथ विवाहे दशमहादोपाः ।

वेधः पातो युतिः क्रांतिर्लक्ष्मीकार्गलपंचकम् ॥

दग्धोपग्रहजामित्रं दोपास्त्याज्या इमे दश ॥ १३१ ॥


अब विवाहमें दश महादोप लिखते हैं—वेध, पात, युति, क्रांति-
साम्य, लक्ष्मी, एकार्गल, पंचक, दग्धा, उपग्रह, जामित्र ये दश
महादोप विवाहमें त्याज्य हैं ॥ १३१ ॥

अथ वेधदोपः ।

रेखा पंचोर्ध्वतिर्यकस्या द्वेद्वे रेखे च कोणयोः ॥ चक्रं पंचश-
लाकाख्यं विवाहे वेघसाधनम् ॥ १३२ ॥ इति द्वितीयरेखातः ॥

सोभिजित्कृत्तिकादिक्रम् ॥ लिखेत्सव्यक्रमात्तत्र ग्रहा देया
यथायथम् ॥ १३३ ॥ विवाहक्षेपरेखस्थे ग्रहवेदो भवेदिह ॥
पापैर्विद्धं त्यजेत्सर्वमृक्षं तच्चरणं शुभैः ॥ १३४ ॥ उत्तरापाठ-
तुर्यात्रिराद्यस्तथंशकः १५ श्रुतेः ॥ सोभिजित्तद्रूतः खेदो
रोहिणीमत्र विध्यति ॥ १३५ ॥

अब वेधदोष लिखते हैं—पांचरेखा ऊंची पांचरेखा तिरछी और
फिर दो दो रेखा चारों कोणोंमें खेंचे तो यह पंचशलाकनाम चक्र



बनता है यह वि-
वाहमें वेधका सा-
धन कहा है ॥
॥ १३२ ॥ इशान
कोणकी दूसरी
रेखासे कृत्तिकादि
नक्षत्र अभिजित्
सहित सव्यक्रमसे
लिखे और जो ग्रह
जिस नक्षत्रपर हो

उसको उसी नक्षत्रकी रेखापर स्थापित करे ॥ १३३ ॥ विवाहका
नक्षत्र और ग्रह एकरेखामें पड़े तो वेध होता है, विवाहादि शुभ
कार्यमें पाप ग्रहोंसे विद्ध समस्त नक्षत्र त्याज्य होता है और शुभ-
ग्रहसे विद्ध हो तो जिस चरणको वेधता हो वही त्याज्य होता है ॥
॥ १३४ ॥ उत्तरापाठोंका चौथा चरण और श्रवणका पंद्रहवाँ
भाग अभिजित् कहाता है तिसपर कोई ग्रह होय तो रोहिणीको
वेधता है ॥ १३५ ॥

अथ विवाहक्षणां वेधस्योदाहरणम् ।

रेवत्युत्तरफालगुन्योर्भरण्याख्यानुराधयोः ॥ मध्याश्रवणयोर्वेधः स्वातीशतभिपाख्ययोः ॥ १३६ ॥ वेधो मूलपुनर्वस्वोरुफाख्यामृगयोरपि ॥ रोहिण्यभिजितोर्वेध उत्तराभाद्रहस्तयोः ॥ १३७ ॥ अन्यत्रोद्ग्राहनाज्ञेयो वेधः सप्तशलाकजः ॥ पापवेधे च नक्षत्रं संपूर्णं त्याज्यमेव च ॥ शुभवेधे च तुर्याद्यपादयोर्द्वितीययोः ॥ १३८ ॥

अब विवाह नक्षत्रोंमें वेधका उदाहरण लिखते हैं—रेवती और उत्तराफालगुन्नीका वेध होता है, भरणी और अनुराधाका, मधा और श्रवणका स्वाति और शतभिपाका वेध होता है ॥ १३६ ॥ मूल और पुनर्वसुका, उत्तरापाद और मृगशिराका, रोहिणी और अभिजितका, उत्तराभाद्रपद और हस्तका वेध होता है ॥ १३७ ॥ विवाहसे अन्य कायोंमें भी इसी प्रकार सब नक्षत्रोंका वेध सप्तशलाका चक्रमें जाने; पापग्रहका वेध होय तो संपूर्ण नक्षत्र त्याज्य होता है और शुभग्रहका वेध होय तो नक्षत्रके चौथे और पहिले चरणका, दूसरे और तीसरे चरणका वेध होता है; चौथे और दूसरे चरणका, तीसरे और पहिले चरणका वेध नहीं होता इससे शुभ जाने ॥ १३८ ॥

अथ वेधापवादः ।

लग्ने शुभग्रहो वाथ लग्नेशो लाभगोथ वा ॥ सौम्यैर्दप्तो युतो वापि कालहोरा शुभस्य वा ॥ वेधदोपस्तदा न स्याद्विवाहादौ सतां मतम् ॥ १३९ ॥

अब वेधापवाद लिखते हैं—लग्नमें शुभग्रह वेठा होय अथवा ग्रांरहवें स्थानमें लग्नेश सौम्यग्रहोंसे दृष्ट वा युक्त होय अथवा शुभ-अहकी कालहोरा होय तो विवाहादिकमें वेधदोप नहीं होता है ऐसा सत्पुरुषोंका मत है ॥ १३९ ॥

अथ पातदोपः ।

शूलहर्षणसाध्यानां वैधृतिव्यतिपातयोः ॥

गंडस्यांते-च यद्विषयां तच्चंडायुधपातितम् ॥ १४० ॥

अब पातदोप लिखतेहैं—शूल हर्षण, साध्य, वैधृति, व्यतीपात, गंड इन योगोंके तथा भद्राके अन्तमें जो विवाहका नक्षत्र होय तो चंडायुध पातदोप होताहै ॥ १४० ॥

अथ पातानयनं प्रकारांतरेण ।

अनुराधा मधाश्लेषा श्रवचित्रा च रेवती ॥ यत्रैतद्वक्ग
तत्र रेखा कार्या विचक्षणैः ॥ १४१ ॥ रविभाद्धानि विन्यस्य
त्वश्चिभाद्धणयेत्क्रमात् ॥ यत्र भे वक्गा रेखा तत्र पातो
भवेद्गुवम् ॥ १४२ ॥

अब पातानयन प्रकारान्तरसे लिखतेहैं—सूर्यके नक्षत्रसे अद्वाईस
रेखा सीधी खेंचे जहांपर अनुराधा, मधा, आश्लेषा, श्रवण, चित्रा,
रेवती इन नक्षत्रोंकी रेखा आवैं तहांपर उन रेखाओंको टेढ़ी लिखें,
फिर अश्विन्यादि नक्षत्रसे लेकर प्रथम रेखासे क्रमकरके गिनै जिस
नक्षत्रपर डेढ़ीरेखा आवै तो उसी नक्षत्रपर पातदोप जानै यदि
विवाहके नक्षत्रपर वक्र रेखा होय तो वहभी पातदोप सुक्त हो-
ताहै ॥ १४३ ॥ १४२ ॥

अथ युतिदोपः ।

राशौ सखेचरे चंद्रे दोपः स्यात्स ग्रहाभिधः ॥

स त्याज्यः शोभने केचिन्नेत्याहुः सञ्चुवेज्यके ॥ १४४ ॥

अब युतिदोप लिखतेहैं—जिस राशिपर चंद्रमा होय यदि उसी
राशिपर अन्य कोई ग्रह होय तो युतिदोप होताहै सो शुभकर्ममें
लौंग्यहै और किन्हीं आचार्योंका ऐसा कथन है कि, चुध और वृह-
स्पतियुक्त चंद्रमा होय तो युतिदोप नहीं होताहै ॥ १४३ ॥

अथ युतिदोपापवादः ।

स्वक्षेपस्थः स्वोच्चगच्छंद्रो मित्रक्षेपगतोपि वा ॥ गुरुर्वा स्वी-
यवर्गस्थो वली केन्द्रगतो विधुः ॥ विलोकयति चेद्वौपं
नाशयत्येव स ग्रहः ॥ १४४ ॥

अब युतिदोपापवाद लिखते हैं—चंद्रमा अपनी कर्कराशिका होय
अथवा उच्च (वृषका) होय अथवा मित्रक्षेत्री होय अथवा वृहस्पति
अपने नवांशकमें स्थित होय अथवा वलीचंद्रमा केंद्रमें स्थित होय
और उसको वृहस्पति देखता होय तो सब दोपोंका नाश
करता है ॥ १४४ ॥

अथ प्रकारान्तरेण युतिदोपः ।

चंद्रक्षेप पापयुक्तेत्स्याद्युतिदोपस्तदोदितः ॥

अब प्रकारान्तरसे युतिदोप लिखते हैं—चंद्रमाकी राशि पापग्रह
युक्त होय तो युतिदोप कहाता है

अथैतस्यापवादः ।

धिष्णयैक्ये राशिभेदे भं पापयुग्राशिगं त्यजेत् ॥ १४५ ॥

अब इसका अपवाद लिखते हैं—नक्षत्र एक होय—और राशिभेद
होय तो शुभ होता है—और पापयुक्तराशिका नक्षत्र होय तो त्यज्य
होता है ॥ १४५ ॥

अथ क्रांतिसाम्यदोपः ।

ऊर्ध्वरेखात्रयं चैव तिर्यग्रेखात्रयं तथा ॥ क्रांतिसाम्यं ऊर्ध्व-
ज्ञेयं मध्ये मीनं तु योजयेत् ॥ १४६ ॥ मेपसिंहो तुला-
कुंभो गोनक्रो कर्कवृश्चिको ॥ कन्यामीनो धनुर्मीने तवा-
न्योन्यं स्थिताद्युभ्यो ॥ १४७ ॥ रविचंद्रो तदा ज्ञेयः क्रांति-
साम्यस्य संभवः ॥ १४८ ॥

अब क्रान्तिसाम्यदोप लिखते हैं—तीन रेखा खड़ी और तीन रेखा ति-
रछी खेंचे तो यह चक्र क्रांतिसाम्यका बनता है मध्यरेखापर मीनराशि

लिखै ॥ १४६ ॥ मेष और सिंह राशिका, तुला और कुंभ राशिका, वृष्टि-
और मकरका, कर्क और वृथिका, कन्या और मीनका, धनु और
मिथुनका वेद होता है; परस्पर आमनेसामने सूर्यचंद्रमा एकरेखापर
स्थित होंय तो क्रांतिसाम्य दोपका संभव होता है ॥ १४७ ॥ १४८ ॥

अथ प्रकारांतरेण क्रांतिसाम्यसंभवः ।

वृद्धियोगचतुर्थेऽत्रौ ब्रह्मयोगादिमे तथा ॥

क्रांतिसाम्यस्य संभूतिस्तत्र प्रायो भवेदपि ॥ १४९ ॥

अब प्रकारान्तरसे क्रांतिसाम्यदोपसम्भव लिखतेहैं—वृद्धियोगके
चौथे चरण और ब्रह्मयोगके पहिले चरणमें वहुधा क्रांतिसाम्य दो-
पकी उत्पत्ति होती है ॥ १४९ ॥


अथ गणितागतमेव क्रांतिसाम्यं त्याज्यम् ।

प्राणुक्तसंभवस्येत्थं यदि स्याद्गणितागतम् ॥ क्रांतिसाम्यं
तदा नेष्ट मध्यमन्यत्र संभवे ॥ १५० ॥ त्रयस्त्रिंशत्कला-
ल्पत्वे दोपः कांत्यंतरे तयोः ॥ रवींद्रोः क्रांतिसाम्यस्य
नाधिको दोप ईरितः ॥ १५१ ॥

अब गणितागत क्रांतिसाम्यही त्याज्य लिखतेहैं—पूर्वोक्त क्रान्ति-
साम्यका संभव होनेपर यदि गणितागत क्रांतिसाम्यभी होय तो
नेष्ट होता है अन्य प्रकारसे क्रांतिसाम्य होय तो मध्यम होता है ॥
॥ १५० ॥ यदि सूर्यचंद्रमाकी तैतीसकलासे कम अन्तर होय तो
क्रांतिसाम्यका दोप होता है अधिक होनेसे नहीं होता है ॥ १५१ ॥

अथ लत्तादोपः ।

स्वराशोद्दर्दिशं सूर्यः पष्ठं जीवोऽष्टमं शनिः ॥ तृतीयं धरणी-
पुत्रः पुरो लत्तापरिग्रहः ॥ १५२ ॥ पश्चात्सप्तममं
सौम्यो नवमं सिंहिकासुतः ॥ द्वाविंशं पूर्णहिमगुः पञ्चमं
भृगुनन्दनः ॥ १५३ ॥



अब लक्षादोप लिखते हैं—सूर्यकी
अपने नक्षत्रसे आगे बारहवें नक्ष-
त्रपर लक्षा होती है, वृहस्पतिकी
आगे छठे नक्षत्रपर लक्षा होती हैं,
शनैश्चरकी आगे आठवें नक्षत्र-
पर लक्षा होती है और संगलकी
अपने नक्षत्रसे आगे तीसरेपर
लक्षा होती है वुधकी अपने नक्षत्रसे

पीछले सातवें नक्षत्रपर लक्षा होती है और राहुकी अपने नक्षत्रसे
पीछेवाले नौवें नक्षत्रपर लक्षा होती है, पूर्ण वली चंद्रमाकी अपने
नक्षत्रसे पिछले बाइसवें नक्षत्रपर और शुक्रकी अपने नक्षत्रसे पिछले
पाँचवें नक्षत्रपर लक्षा होती है ॥ १५३ ॥

अथैकार्गलदोपः ।

योगांके विषमे सैके साप्ताविंशतिके समे ॥

तद्वार्द्धसंख्ये भं मूर्धि चक्रे खार्जुरकं त्यजेत् ॥ १५४ ॥

अब एकार्गलदोप लिखते हैं—योगका अंक विषम होय तो उसमें
एक जोड़दे और जो सम होय तो अट्टार्द्धस जोड़दे फिर उस जोड़का
आधाकरै जो अंक होय तो विष्कुंभादियोगकी संख्या जानै ॥ १५५ ॥

अथैतस्योदाहरणम् ।

व्यतीपाते भमाश्लेपा व्याचाते तु पुनर्वैसु ॥ अतिगंडेऽनु-
राधा च मूर्धिभं परिघे मधा ॥ १५६ ॥ विष्कंभे चाश्विनी
पुष्प्यो वक्रे चिव्रा तु वैधृतौ ॥ तथा शूले मृगो गंडे मूलभं
मूर्धि विन्यसेत् ॥ १५८ ॥ योगेष्वेतेषु संख्यातिनीन्येष्वेकार्ग
लस्य च ॥ १५७ ॥

अब इसकाउदाहरण लिखते हैं—यदि व्यतीपात योग होय तो
आश्लेपानक्षत्र एकार्गलचक्रकी मूर्धीनामकी रेखापर स्थापितकरै और

जो व्याघात योग होय तो पुनर्वसु नक्षत्र मूर्ढापर लिखें, अतिगंड योग होय तो अनुराधा नक्षत्र लिखें, परिघ योग होय तो मूर्ढापर मध्या नक्षत्र स्थापित करें। १५५॥ विष्कुंभ योग होय तो अश्विनी नक्षत्र मूर्ढापर लिखें, वज्र योग होय तो पुष्य लिखें और वैधृति योग होय तो चित्रा लिखें और शूल योग होय तो मृगशिर, गंड योग होय तो मूल नक्षत्र मूर्ढापर लिखें। १५६॥ ये उक्त योग होयें तो एकार्गल दोपकी उत्पत्ति होती हैं और अन्य योग होय तो एकार्गल दोपकी उत्पत्ति नहीं होती। १५७॥

अथ तस्य चक्रम् ।

एका चोर्ध्वगता रेखा तिर्यकार्याल्पयोदश ॥ मूर्धि भं मूर्धि
विन्यस्य साभिजिच्च ततो न्यसेत् ॥ १५८॥ एकार्गलो
मिथश्चैकरेखागच्छेद्विधू रविः ॥ विवाहादिशुभे कायें नेष्ट-
स्त्वेकार्गलाभिधः ॥ १५९॥

अथैकार्गलचक्रम्

१	
२	२८
३	२७
४	२६
५	२५
६	२४
७	२३
८	२२
९	२१
१०	२०
११	१९
१२	१८
१३	१७
१४	१६
	१५

अब उसका चक्र लिखते हैं—एक रेखा ऊंची और तेरह रेखा तिरछी खेंचे, ऊंची रेखाके मूर्ढापर मूर्ढाका नक्षत्र लिखकर अभिजित्सहित अट्टाईस नक्षत्र क्रमसे रेखा-ओंपर स्थापित करें तो यह एकार्गल चक्र बनता है परस्पर एकरेखापर आमनेसामने चंद्रमा और सूर्य होंय तो यह एकार्गल-नाम दोप विवाहादि शुभकायोंमें नेष्ट होता है। १५८॥ १५९॥

अथ पंचकदोषः ।

पद्म द्वये इ का १ एट चतुः ४ संख्याः संकांत्यंशोर्गते-
र्युताः॥ पंचशेषे ६ ग्रहे ९ र्भक्ता विज्ञेयं बुधपंचकम्॥ १६०॥
रोगो वह्निर्नृपथ्योरो मृतिर्वं पंचकं क्रमात् ॥ शेषेष्वये नव-
भिर्भक्ते पंचशेषे सशल्यकम् ॥ १६१ ॥

अब पंचकदोष लिखते हैं—छह ६, तीन ३, एक १, आठ ८,
चार ४ इन अंकोंमें संक्रांतिसे वीतेभये सूर्यके अंश जोड़कर नौका
भाग देनेसे जहांपर पांच शेष वच्चें सो बुधपंचक होता है ॥ १६० ॥
ऋग्मसे रोग, अस्ति, राज, चौर, मृत्यु इन नामोंके पंचक होते हैं
और पांचों जगह जो अंक शेष वच्चे उन सवको जोड़कर फिर
नौका भाग देनेसे पांच ५ शेष वच्चें तो वाणसहित पंचक होता है
सो अति अशुभ है ॥ १६१ ॥

अथ दाक्षिणात्यप्रसिद्धपंचकम् ।

शुक्राद्यास्तिथयो याता लग्नादचाभाजिता ग्रहे: ॥ शेषेष्ट-
८ द्वि २ चतु ४ स्तर्कं ६ भू १ मिते वाणपंचकम् ॥ १६२॥
रोगोऽग्निरूपती चौरो मृत्युश्वेति यथाक्रमम् ॥ प्रसिद्धं
दाक्षिणात्यानां शुभकार्ये विवर्जयेत् ॥ १६३ ॥

अब दाक्षिणात्यप्रसिद्ध पंचक लिखते हैं—शुक्रपथकी प्रतिप-
दासे लेकर गत तिथियोंमें लग्न जोड़कर नौका ९ भाग देनेसे शेष
आठ ८, दो २, चार ४, छह ६, एक, वच्चे तो वाणपंचक होता है
॥ १६२ ॥ यथाक्रमसे रोग, अस्ति, राज, चौर, मृत्यु इन नामोंके
पंचक दाक्षिणात्योंमें प्रसिद्ध हैं और शुभकार्यमें त्याज्य हैं ॥ १६३ ॥

अथैतयोरपवादव्यवस्था ।

रात्रौ चोररुजो जद्याद्विवसे राजपंचकम् ॥ संध्ययोरुभयो-
मृत्युं सर्वदा वह्निपंचकम् ॥ १६४॥ र्वा रोगं नृपं मंदे बुधे

मृत्युं परित्यजेत् ॥ भौमे तु पावकं चौरं लघ्ने हीनवले न सत् ॥ १६५ ॥ लघ्ने पूर्णवलोपेते न दोपः पंचकस्य च ॥ व्रते रोगं गृहे वहिर्मार्गं तु चोरपंचकम् ॥ १६६ ॥ विवाहे मृत्युसंज्ञं च सेवायां राजकं त्यजेत् ॥

अब दोनोंकी अपवादव्यवस्था लिखतेहैं—रात्रिमें चोर और रोगपंचक त्याज्यहैं. दिनमें राजपंचक, दोनों संध्याओंमें मृत्युपंचक और सर्वदा अग्निपंचक त्याज्यहैं ॥ १६७ ॥ रविवारको रोगपंचक, शनै-श्वरके दिन राजपंचक, बुधको मृत्युपंचक, संगलको अग्निपंचक और चौरपंचक त्याज्य होताहै यदि लग्न हीनवल होय तो पंचक शुभ नहीं होताहै ॥ १६८ ॥ और जो लग्न वलकरके युक्त होय तो पंचकका दोप नहीं होताहै. व्रतमें रोगपंचक त्याज्यहै. घर बनानेमें अग्नि पंचक, मार्गयात्रामें चौरपंचक ॥ १६९ ॥ विवाहमें मृत्युपंचक, नौकरी करनेमें राजपंचक त्याज्यहै ॥

अथ दग्धास्तिथयः ।

द्वितीया धन्विमीनेके चतुर्थी वृपकुंभयोः ॥ पष्ठी कर्का-
जयोः प्रोक्ताऽप्यमी मिथुनकन्ययोः ॥ १६७ ॥ सिंहालयो-
र्देशमी ब्रेया द्वादशी तुलनकयोः ॥ इत्येतास्तिथयो दग्धा
विवाहादी न शोभनाः ॥ १६८ ॥

अब दग्धातिथि लिखतेहैं—धनु और मीनके सूर्यमें द्वितीया दग्धातिथि है वृष्ट और कुंभके सूर्यमें चतुर्थी दग्धातिथि है. कर्क और मेषके सूर्यमें पष्ठी दग्धा तिथि कहीहै, मिथुन और कन्याके सूर्यमें अष्टमी दग्धातिथि है ॥ १६७ ॥ सिंह और शूक्रिकके सूर्यमें दशमी दग्धातिथि है तुला और भकरके सूर्यमें द्वादशी दग्धातिथि कही है ये दग्धानिथि विवाहादि कार्यमें शुभ नहीं होनाहैं ॥ १६८ ॥

अथोपग्रहदोषः ।

अष्टमं ८ पञ्चमं ६ चाषादशं १८ वाथ चतुर्दशम् १४ ॥
 द्वाविंशे २२ कोनविंशे च १९ त्रयोविंशं २३ तथैव च
 ॥ १६१ ॥ चतुर्विंशं २४ तथैतानि नक्षत्राण्यष्ट सूर्यभात् ॥
 उक्तान्युपग्रहाख्यानि त्याज्यान्युद्गहनादिषु ॥ १७० ॥
 दिक् १० सप्त ७ तिथि १६ तत्त्वाख्य २६ स्वर्गसं-
 ख्यानि २१ भानि च ॥ एतान्यपि जगुश्चोपग्रहक्षणीति
 केचन ॥ १७१ ॥

अब उपग्रहदोष लिखते हैं—सूर्यके नक्षत्रसे चंद्रमाका नक्षत्र
 आठवां, पांचवां, अठारहवां, चौदहवां, वाईसवां, उन्नीसवां, तेझ-
 सवां, चौवीसवां होय तो यह आठ प्रकारके नक्षत्र उपग्रह कहते हैं
 विवाहादि कार्योंमें त्याज्य हैं ॥ १६९ १७० ॥ कोई आचार्य ऐसा
 कहते हैं कि, सूर्यके नक्षत्रसे चंद्रमाका नक्षत्र दशवां, सातवां, पंद्रहवां,
 पच्चीसवां इक्कीसवां होय तो भी उपग्रह दोष होता है ॥ १७१ ॥

अथ लक्षोपग्रहपातदोषदुष्टस्य त्यज्यः पादः ।

यत्संख्ये चरणे खेदस्तत्संख्यं चरणं त्यजेत् ॥

लक्षोपग्रहपातेषु त्यज्या नैवांड्ययो परे ॥ १७२ ॥

अब लक्षोपग्रहपातदोषदुष्टोंका त्यज्य पाद लिखते हैं—लक्षा, उप-
 ग्रह, पात इन दोपाँमें नक्षत्रके जिस चरणपर ग्रह स्थित होय
 वही चरण विवाहके नक्षत्रकाभी त्यज्य होता है अन्य चरण त्या-
 ज्य नहीं है ॥ १७२ ॥

अथ जामित्रदोषः ।

चंद्राद्विलग्नतो वापि सप्तमो यदि खेचरः ॥ तदा जामित्रदोषः
 स्यात्कुरोत्थस्त्वतिनिंदितः ॥ १७३ ॥ चतुर्दशो वा नक्षत्रे

जामित्रं कैश्चिदुच्यते ॥ नवांशे पंचपंचांशे ५५ सूक्ष्मं
जामित्रं परे ॥ १७४ ॥

अब जामित्र दोप लिखतेहें—चंद्रमासे अथवा लग्नसे सातवें
स्थानमें कोई ग्रह होय तो जामित्र दोप होताहै, यदि सातवें स्थानमें
कूरग्रह होय तो अतिनिंदित होताहै ॥ १७३ ॥ और विवाहसे चौदृ-
हवें नक्षत्रपर कोई ग्रह होय तोभी जामित्रदोप होताहै ऐसा मत
किन्हीं आचार्योंका है और पचपनवें नवांशमें कोई ग्रह होय तो सूक्ष्म
जामित्रदोप होताहै ऐसा अन्य आचार्योंका कथन है ॥ १७४ ॥

अथ लत्तोपग्रहजामित्रैकार्गलकर्त्तरी-

दोपाणामपवादः ।

लत्तोपग्रहजामित्रपतैकार्गलकर्त्तरी ॥

एते दोपा विनश्यन्ति लग्नेकेंदुबलान्विते ॥ १७५ ॥

अब लत्तोपग्रहजामित्रैकार्गलकर्त्तरी दोपोंका अपवाद लिखतेहें—
लग्नमें चलतान् सूर्य तथा चंद्रमा होय तो लत्ता, उपग्रह, जामित्र,
पात, एकार्गल, कर्त्तरी इतने दोप विनाशको प्राप्त होजातेहें ॥ १७५ ॥

अथ देशविशेषे दोपव्यवस्था ।

कुरुवाहिकयोदेशे त्यजेदुपग्रहक्षकम् ॥ सौराष्ट्रे मालवे
लत्तां पातं वंगकलिंगयोः ॥ एकार्गलं तु काश्मीरे विद्वं
भं सर्वदेशके ॥ १७६ ॥

अब देशविशेषमें दोपव्यवस्था लिखतेहें—कुरु और वाहिक
देशमें उपग्रहका नक्षत्र त्याज्यहै, सौराष्ट्र और मालव देशमें लत्ता-
दोप त्याज्यहै, वंग और कलिंग देशमें एकार्गलदोप त्याज्यहै और
वधका नक्षत्र सब देशोंमें त्याज्यहै ॥ १७६ ॥

अथेकविंशतिमहादोपाः ।

आदौ पञ्चाङ्गजो दोपः संकातिश्चेव कर्त्तरी ॥ संग्रहः कुनवा-
शाख्यो गंडतिकार्गलभिधी ॥ १७७ ॥ दुःक्षणो वारजो

दोपः पापभं विपनाडिकाः ॥ विद्धर्श कांतिसाम्यं च तथा
वृष्टिरकालजा ॥ १७८ ॥ ग्रहणोत्पातनक्षत्रं पापपडर्गक-
स्तथा ॥ जन्मलग्नेदुराशिभ्यामष्टमं लग्नमेव च ॥ १७९ ॥
पडर्गांत्यगतश्चंद्रो भृगुः पष्टः कुजोष्टमः ॥ लग्नास्तोत्य
इति प्रोक्ता एकविंशतिसंख्यकाः ॥ १८० ॥ महादोपा
विवाहादो शुभे त्याज्याः शुभेष्पुष्टिः ॥ विवाहादन्यकार्ये
तु जामित्रं नैव चिंतयेत् ॥ १८१ ॥

अब एकविंशति महादोप लिखते हैं—प्रथम पंचाग दोप, फिर संक्राति, कर्तरी दोप, संग्रह, कुनवांशक, गंडात, एकार्गल ॥ १७७ ॥ दुष्टक्षण, वारदोप, पापग्रहकी लग्न, विषघटी, वेधका नक्षत्र, कांतिसाम्य, अकालवृष्टि ॥ १७८ ॥ ग्रहणका नक्षत्र, उत्पातका नक्षत्र, पापग्रहका पडर्ग, जन्मलग्नसे और चंद्रमाकी राशिसे आठवाँ लग्न ॥ १७९ ॥ लग्नसे छठे, आठवें, वारहवें स्थानमें चंद्रमा; छठे स्थानमें शुक्र; आठवें स्थानमें मंगल; लग्नास्त ये इक्कीस दोप कहे हैं ॥ १८० ॥ विवाहादि शुभकार्योंमें ये इक्कीस महादोप शुभ चाहनेवाले पुरुषोंको त्यागदेने चाहिये. विवाहसे अन्य कार्योंमें जामित्रदोपका विचार न करें ॥ १८१ ॥

अथ पूर्वोक्तेभ्यो येऽवशिष्टास्ते लिख्यन्ते
तत्रादौ कर्तरीदोपः ।

द्रविणव्यययोर्लग्नाचंद्राद्वा पापखेचरौ ॥

यदि स्यातां तदा ज्ञेया कर्तरी तां परित्यजेत् ॥ १८२ ॥

अब अवशिष्टदोपोंको लिखते हैं—तहां कर्तरीदोप लिखते हैं—यदि लग्न अथवा चंद्रमासे दूसरे, वारहवें पापग्रह होंय तो कर्तरीदोप होताहै विवाहादि कार्योंमें त्याज्य है ॥ १८२ ॥

अथ कर्त्तरीदोपापवादः ।

लग्नं द्विरिः फग्नौ कूरौ ब्रयमेत्तसमांशकम् ॥ तदा कर्त्तरीजा
दोपा अन्यथा भावजं फलम् ॥ १८३ ॥ धने मार्गीं व्यये
वक्री वक्रो वा मार्गजावुभौ ॥ लग्ने सद्वादशे सौम्यो वदि
चेत्कर्त्तरी न सा ॥ १८४ ॥ शुक्रजीववुधेः केंद्रकोणेणः सा
न दुःखदा ॥ कर्त्तरीकारको पापो शत्रुनीचक्षणी यदि ॥
अथवाऽस्तमितौ तत्र ज दोपः कर्त्तरीभवः ॥ १८५ ॥

अब कर्त्तरी दोपापवाद लिखते हैं—ओर दूसरे वारहवें स्थानमें
दो कूरग्रह और लग्न ये तीनों समनवांशकमें होय तो कर्त्तरीकृत
दोप होते हैं और जो उक्तप्रकारसे कूरग्रह और लग्न समनवांशमें
नहीं होय तो उस भावका लफ हो जाहे कि, जिसमें कूरग्रह वठते हैं
॥ १८३ ॥ दूसरे स्थानमें मार्गीग्रह अर्द्ध वारहवें स्थानमें वक्रीग्रह
होय अथवा दोनोंही मार्गीं होय वा दोपाकालीने और लग्नमें अथवा
वारहवें स्थानमें शुभग्रह होय तो कर्त्तरीदोप नहीं होता है ॥ १८४ ॥
यदि शुक्र, वृहस्पति, वुध केंद्र वा त्रिकोण १५ में स्थित होय तो
कर्त्तरीदोप दुःखप्रद नहीं होता है और यदि कर्त्तरीकारक पापग्रह
शत्रुक्षेत्री वा नीचराशिके अथवा अस्तके होय तो कर्त्तरीकृत दोप
नहीं होता है ॥ १८५ ॥

जिना २४ द्विंश ३० दृश्वभाद्रटिकाः स्मृताः ॥ आभ्यश्च-
तुष्टयं त्याज्य घटिकानां विपाभिधम् ॥ १८८ ॥ सर्वर्क्ष-
घटिकाभिश्च प्रोक्तर्क्षघटिका हताः ॥ पष्टया भक्ताः
स्फुटा नाव्यस्तथा स्युर्विपनाडिकाः ॥ १८९ ॥

अब नक्षत्रविषयघटिका लिखते हैं—क्रमसे अश्विन्यादि नक्षत्रोंकी
विषयटी नीचे लिखेहुए चक्रसे जानलेनी चाहिये इन घटियोंसे
आगेकी चार विषयटीहैं वेत्याज्य हैं ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ १८८ ॥
सर्वर्क्षकी घटियोंसे नक्षत्रकी उक्त घटियोंको मुणा करे और ताठि
द०का भाग देनेपर जो लड्ड मिले वह स्पष्ट विषयटी होती है ॥ १८९ ॥

अथ नक्षत्रविषयघटीचक्रम् ।

अ	म	क	रे	मृ	आ'	पु	ु	आ	म	पृ	उ	ह	चिस्वा	वि	अनु	ज्ये	मू	पू	उ	थ	ध	श	पू	उ	रे	
५०	२५	३०	५०	१४	२१	३०	२०	३२	३०	२०	१८	२१	२०	१४	११	१०	१४	१६	२४	२१	१०	१०	१८	१६	२४	३०

अथ तिथिविषयघटिकाः ।

तिथि १६ वाणा ६ ए ८ सप्तां ७ ग ६ पंच ५ वेदा ४ ए-
८ भूधराः ७ ॥ दि १० ग्वह्न्य ३ के १२ मनु १४ क्षमाभृ
७ द्वसवो ८ घटिकाः क्रमात् ॥ १९० ॥ आभ्यो घटीच-
तुष्कं च विषं प्रतिपदादितः ॥ १९१ ॥

अब तिथिविषयघटिका लिखते हैं—प्रतिपदासे लेकर पूर्णिमातककी
विषयटी क्रमसे चक्रमें जानलेनी चाहिये इन घटियोंसे आगेकी चार
घटी विषसंज्ञक होती हैं ॥ १९० ॥ ११ ॥

अथ तिथिविषयघटीचक्रम् ।

प्रतिपदा	द्वितीया	तृतीया	चतुर्थी	पंचमी	षष्ठी	सप्तमी	अष्टमी	नवमी	दशमी	एकादशी	द्वादशी	त्रयोदशी	चतुर्दशी	पूर्णिमा	अमावास्या
१५	५	८	५	६	५	४	८	८	७	१०	३	१२	१४	८	८

अथ वारविष्पघटिकाः ।

नख २० युग्मा २ के १२ दिक् १० सप्त ७ वाण ६ तत्त्व
२५ मिताः क्रमात् ॥ आभ्यो नाडीचतुष्कं च विपं तद्रवि-
वासरात् ॥ १९२ ॥

अब वारविष्पघटिका लिखते हैं— रविवार से लेकर शनैश्चर वारत-
की विष्पघटी क्रम से चक्र में समझलेनी चाहिये। इनसे आगे की
चारघटी विष्पसंज्ञक हैं ॥ १९२ ॥

अथ वारविष्पघटीचक्रम् ।

रीति	चंद्र	मग्नि	वृष्टि	वृहस्पति	कुकु	शनैश्चर	वारा:
१०	७	१२	१०	७	५	२५	विष्पघटी का

अथ विष्पनाडीदोषापवादः ।

कोणा ६ । ९ स्ता ७ विष्व ४ नभः १० संस्थः सुहृत्सौ-
म्येक्षितोषि वा ॥ सद्ग्राशौ वा विष्वुः स्वांशे लघ्ने वा केंद्र-
कोण १ । ४ । ७ । १० । ६ । ३ गः ॥ १९३ ॥ निहन्या-
दस्तिलं दोपं विष्पनाडीसमुद्धवम् ॥ १९४ ॥

अब विष्पनाडीदोषापवाद लिखते हैं—यदि चंद्रमा नौवें, पांचवें,
सातवें, चौथे, दशवें स्थान में स्थित होय, उसको मित्र वा शुभग्रह
देखते होय अथवा चंद्रमा शुभग्रह की राशि में स्थित होकर अपने-
नवांशा अथवा लघ्न अथवा केंद्र १ । ४ । ७ । १० । अथवा कोण १ ।
५ में स्थित होय तो ॥ १९३ ॥ विष्पघटी से उत्पन्न हुए सब दोषों का
नाश करता है ॥ १९४ ॥

अथ ग्रहदृष्टिः ।

तृतीयदशमे ३ । १० पादं १६ विकोणे ६ । ९ ग्रिद्रयं
३० ग्रहः ॥ पश्येतुर्योष्टमे ४ । ८ पादवयं ४६ पूर्ण

६० तु सप्तमे ॥ १९५ ॥ पूर्णं तु विदशं मन्दो पञ्चमं
नवमं गुरुः ॥ भौमोऽष्टमं चतुर्थं च सप्तमं सकला
ग्रहाः ॥ १९६ ॥

अब ग्रहद्विषि लिखते हैं—ग्रह अपने स्थानसे तीसरे, दशवें
स्थानको एकचरणकी द्विषिसे देखता है और नौवें पांचवेंको दो चरणकी
द्विषिसे देखता है. चौथे आठवें स्थानको तीन चरणकी द्विषिसे देख-
ता है और सातवें स्थानको पूर्णद्विषिसे देखता है ॥ १९५ ॥ तथा
तीसरे दशवें स्थानको शनैश्चर पूर्ण द्विषिसे देखता है आर पांचवें
नौवें स्थानको वृहस्पति पूर्ण द्विषिसे देखता है. आठवें चौथेको मंगल
पूर्णद्विषिसे देखता है. तथा सातवें स्थानको सब ग्रह पूर्णद्विषिसे
देखते हैं ॥ १९६ ॥

अथ लग्नसप्तमशुद्धिः ।

लग्ने लग्नलवे वापि लग्नांशेशयुतेक्षिते ॥ लवेशशुभमित्रैश्च
द्वष्टे वा स्वामिनः शुभम् ॥ १९७ ॥ द्यूनांशे द्यूनलग्ने वा
द्यूनांशेशयुतेक्षिते ॥ द्यूनांशपतिसन्मित्रद्वष्टे वध्वा: शुभं
स्मृतम् ॥ १९८ ॥ लग्नेशो लग्नमंशेशः स्वांशं पश्यति वा
मिथः ॥ तद्वरस्य शुभं ज्ञेयमन्यथा नैव शोभनम् ॥ १९९ ॥
द्यूनेशोस्तं तथाऽस्तांशपतिद्यूनांशमीक्षते ॥ तन्मिथो
वा तदा वध्वा: शुभं त्वितरथा न हि ॥ २०० ॥

अब लग्नसप्तमशुद्धि लिखते हैं—लग्न अथवा लग्नका नवांशा
लग्नेश और लग्ननवांशेश इन दोनोंसे युक्त वा दृष्ट होय अथवा लग्न
नवांशपतिके मित्र शुभग्रहसे दृष्ट होय तो वरको शुभ होता है ॥
॥ १९७ ॥ सप्तम गृहका नवांशा अथवा सप्तमलग्न, सप्तमेश तथा
सप्तमनवांशेश इन दोनोंसे युक्त वा दृष्ट होय अथवा सप्तम
नवांशपति मित्र शुभग्रहसे दृष्ट होय तो वधूको शुभ होता है ॥ १९८ ॥

लग्नेश लग्नको और लग्ननवांशपति अपने नवाशांको देखता होय अथवा परस्पर लग्नको लग्ननवांशपति और लग्न नवांशाको लग्नपति देखता होय तो वरके लिये शुभ जानना. अन्यथा अशुभ होताहै ॥ १९९ ॥ सप्तमेश सप्तमस्थानको और सप्तमनवांशेश सप्तमनवांशको देखता होय अथवा परस्पर सप्तमेश सप्तमनवांशको और सप्तम नवांशपति सप्तमस्थानको देखता होय तो वधूके लिये शुभ. अन्यथा अशुभ होताहै ॥ २०० ॥

अथ पंगवंधादित्याज्यलग्नानि ।

दिवा पंगुर्धटो ज्ञेयो वधिरौ तुलवृश्चिकाँ ॥ अंधो मेषो वृषः
सिंहः संघो कुञ्जा मृगाच्रयः ॥ २०१ ॥ रात्रौ पंगुर्जपश्चांधाः
कन्यामिथुनकर्कटाः ॥ वधिरौ तु धनुर्मीनौ तत्काले तान्प-
रित्यजेत् ॥ २०२ ॥

अब पंगवंधादि त्याज्य लग्न लिखते हैं—दिनमें कुंभलग्न पंगु रहती हैं.
तुला और वृश्चिक लग्न वधिर रहती हैं. मेष, वृष, सिंह लग्न अंधी-
रहती हैं. दिन और रात्रीकी संधिमें मकरसे तीन अर्थात् मकर,
कुंभ, मीन, लग्न कुवडी रहती हैं ॥ २०३ ॥ और रात्रिमें मीनलग्न
पंगु रहती है. कन्या. मिथुन, कर्क लग्न अंधी रहती हैं. धनु, मीन
वधिर रहती हैं इनको उसी समयमें त्यागदेय जिस समय कि, ये
विकृत रहती हैं ॥ २०२ ॥

अथ होलिकाष्टकम् ।

ऐरावत्यां विपाशायां शतद्रौ पुष्करघ्ये ॥

होलिकाप्राग्दिनान्यष्टो विवाहादौ शुभे त्यजेत् ॥ २०३ ॥

अब होलिकाष्टक लिखते हैं—ऐरावती, विपाशा, शतलज नदी
और तीनों पुष्करोंके किनारेके देशोंमें होलीसे प्रथमके आठ दिन
विवाहादि शुभकार्योंमें त्याज्यहैं ॥ २०३ ॥

अथ केपांचिद्वोपाणामपवादः ।

राशयो मासशून्याश्च लग्नं काणांयं पंगुवत् ॥ तत्त्वाज्ज्यं
मालवे गौडे नान्यवाऽशुभदं स्मृतम् ॥ २०४ ॥ हन्याद्विन-
द्विं दोपं तिथिसिद्धावमोद्भवम् ॥ गुरुः केंद्रगतः शून्यति-
थिं लाभगः शुभः ॥ २०५ ॥

अब कितने दोषोंका अपवाद लिखते हैं—मासशून्य राशियें और
पंगुली, कानी, अंधी लग्नों मालव और गौड देशमें त्याज्यहैं और
अन्य देशोंमें अशुभ नहीं हैं ॥ २०६ ॥ तिथिवृद्धि, तिथिका (अवस)
हानि और शून्यतिथि इन तीनोंके दोषोंको केंद्रगत वृहस्पति और
ग्यारहवें स्थानमें स्थित शुभग्रह नाश करदेताहै ॥ २०५ ॥

॥ अथ गंडान्तदोपापवादः ॥

वलींदुर्हति दोपं च तिथिगंडांतसंभवम् ॥ लग्नगंडांतजं
दोपं वलिष्ठः शक्रपूजितः ॥ २०६ ॥ ग्रिविधं चातिगंडांत-
मभिजिच्छुभदः क्षणः ॥ २०७ ॥

अब गंडान्तदोपापवाद लिखते हैं—तिथिगंडांतकृत दोपको
चली चंद्रमा और लग्नगंडान्तकृत दोपको वलिष्ठ वृहस्पति नाश
करदेते हैं ॥ २०६ ॥ तथा तीनों प्रकारोंके गंडान्तको अभिजित् नामक
शुभ सुहृत्त नाश करदेताहै ॥ २०७ ॥

अथ कुलिक्यमधंटयोरपवादः ।

सहजे वासराधीशो वलोपेतो भवंददि ॥ लग्नगो वा तदा
दोपं निहंति कुलिकोद्भवम् ॥ २०८ ॥ केंद्रकोणे शुभः खेटो
लग्नाद्वा राशितोथवा ॥ यमधंटोद्भवं दोपं निहंति गरली-
पमम् ॥ २०९ ॥

“ अब कुलिक और यमधंट योगोंका अपवाद लिखते हैं—यदि वारका स्वामी बली होकर तीसरे अथवा लग्न स्थानमें स्थित होय तो कुलिक योगका कियाहुवा दोप नाश होजाता है ॥ २०८ ॥ लग्नसे अथवा राशिसे त्रिकोण १५ अथवा केंद्र ३१४७१० में शुभग्रह होय तो विष्णुसान तीक्ष्ण यमधंटोऽव दोपका नाश कर देता है ॥ २०९ ॥

अथाऽष्टमलग्नदोपापवादः ।

वृपभो वृश्चिको मीनः कन्यामकरकर्कटाः ॥

लग्नेष्वेतेषु नो दोपो जन्मतो द्व्यष्टमेष्वपि ॥ २१० ॥

अब अष्टमलग्नदोपका अपवाद लिखते हैं—यदि जन्मलग्नसे वृप, वृश्चिक, मीन, कन्या, मकर, कर्क ये राशि अष्टम स्थानमें स्थित होंय और फिर विवाहादि कायोंमें यही राशियें लग्नकी होंय तो, अष्टम लग्नकृत दोप नहीं होता है इनसे अन्यराशि होंय तो दोप होता है ॥ २१० ॥

अथावदायनांधकाणादिलग्नदोपापवादः ।

अव्दायनर्तुमासर्क्षपक्षदग्धाहसंभवाः ॥ अंधकाणादिलग्नोत्थाः सपांपेंदुनवांशकाः ॥ दोपा नश्यन्ति जीवज्ञशुक्रैः केंद्रं त्रिकोणैः ॥ २११ ॥

अब अव्दायनांधकाणादि. लग्नदोपापवाद लिखते हैं—वर्षदोप, अयनदोप, ऋतु दोप, मासदोप, पक्षदोप, नक्षत्रदोप, दग्धदिनदोप, अंधकाणादिलग्नोत्थ दोप, पापग्रहसहित चंद्रमाका और कुनवांशका दोप यह सब दोप वृहस्पति, बुध, शुक्रके केंद्र और त्रिकोणमें होनेसे नाश होजाते हैं ॥ २११ ॥

अथ कुनवांशादिदोपापवादः ।

कुनवांशत्रहोद्ग्राताः पड्गर्गक्षणलग्नजाः ॥

शरिन्येकादशे सर्वे दोपा नश्यन्ति वै ध्रुवम् ॥ २१२ ॥

अब कुनवांशादि दोपापवाद लिखते हैं—कुनवांश, ग्रहण, पद्गर्ग, मुहूर्त, लग्न इनसे उत्पन्न हुए सब दोष ग्यारहवें स्थानमें चंद्रमा होनेसे नाशको प्राप्त होजाते हैं ॥ २१२ ॥

अथ सर्वदोपापवादः ।

लग्ने वर्गोत्तमे वेंदौ बुनाथे लाभगेथवा ॥ केन्द्रकोणे गुरो दोपा नश्यन्ति सकला अपि ॥ २१३ ॥ केन्द्रकोणेषि जामित्रे दोपाणां च शतं बुधः ॥ शुक्रः शतद्वयं हन्याल्क्षं तु वचसां पतिः ॥ २१४ ॥ लग्नेशो वा लवाधीशो लाभे केन्द्रे च संस्थितः ॥ दोपराशिं दहत्याशु तूलराशिमिवानलः ॥ २१५ ॥

अब सर्व दोपापवादलिखते हैं—चंद्रमा लग्नमें वर्गोत्तम नवांशका होय अथवा सूर्य ग्यारहवें स्थानमें होय अथवा वृहस्पति केन्द्र वा कोणमें होय तो संपूर्ण दोष नाश होजाते हैं ॥ २१३ ॥ सातवें स्थानको छोड़कर केन्द्र वा त्रिकाणमें बुध होय तो सौ दोषोंका नाश करता है और शुक्र होयतो दो सौ दोषोंका नाश करता है और वृहस्पति होय तो लक्ष दोषोंका नाश करता है ॥ २१४ ॥ लग्नेश अथवा लग्ननवांशेश ग्यारहवें वा केन्द्रस्थानमें होय तो दोप समूहका इस प्रकार नाश करदेते हैं जैसे कि, रुईके देरको अग्नि भस्म करदेती है ॥ २१५ ॥

अथ विवाहशुभनवांशाः ।

कन्यायुग्मधनुस्तोलिनवांशाः शुभदाः स्मृताः ॥ विवाहेऽन्ये तु मीनस्य नवांशं शुभदं जगुः ॥ २१६ ॥ लवं वर्गोत्तमं हित्वा विवाहो नांतिमेंशके ॥ चरांशेऽपि चरे लग्ने तुलन-क्रस्थिते विधी ॥ २१७ ॥

अब विवाहमें शुभ नवांश लिखते हैं—कन्या, मिथुन, धन, तुलाका नवांश विवाहमें शुभदायक कहा है और अन्य आचार्योंने मीनके

नवांशाको भी शुभ कहेहैं ॥ २१६ ॥ वर्गोन्तम् नवांशाको छोडकर अन्य अन्तके नवांशामें विवाह शुभ नहीं होताहै और तुला वा मकरका चंद्रमा होय तो चर नवांशा तथा चर लग्नमेंभी विवाह शुभ नहीं होताहै ॥ २१७ ॥

अथ विवाहलग्ने भंगदा ग्रहाः ।

लग्ने शनैश्चरः सूर्यो लग्नारिनिधने शशी ॥ लग्नेष्टमे मही-सूतुरष्टमे वुधवाकपती ॥ २१८ ॥ राहुः सूर्यो विलग्ने च निधनारिगतो भृगुः ॥ द्यूने तु खेचराः सर्वे विवाहे भंगदाः स्मृताः ॥ २१९ ॥ कुजः खे द्वादशी मंदो लग्नेशो निधनारिगः ॥ तृतीये भार्गवश्चंद्रो व्यये ते नैव शोभनाः ॥ २२० ॥

अब विवाहलग्नमें भंगदग्रहं लिखतेहैं—लग्नमें शनैश्चर और सूर्य; लग्नमें, छठे, आठवें स्थानमें चंद्रमा और लग्नमें, आठवें मंगल और आठवें वुध तथा वृहस्पति; लग्नमें, राहु और सूर्य; आठवें और छठे शुक्र; सातवें सब ग्रह विवाहमें भंगदायक कहेहैं ॥ २२१ ॥ २२२ ॥ मंगल दशवें स्थानमें, शनैश्चर वारहवें, लग्नेश आठवें, छठे; शुक्र तीसरे, चंद्रमा वारहवें स्थानमें होय तो विवाहमें शुभ नहीं होतेहैं ॥ २२३ ॥

अथ भंगदग्रहापवादः ।

शत्रुनीचक्षणः शुक्रो न दूष्यो ह्यारि द संस्थितः ॥ नाशुभ-श्चाएमो भौमः शत्रुनीचास्तगो यदि ॥ २२४ ॥ नीच-नीचांशगश्चंद्रो नाशुभोऽप्यारिष्पगः ॥ लग्ने वली गुरुः शुक्रश्चंद्रो वा शुभर्वग्गः ॥ शुभहृष्टो निहंत्येव दोषं रिष्फा-रिचंद्रजलम् ॥ २२५ ॥

अब भंगदग्रहापवादलिखतेहैं—शत्रु वा नीचकी राशिका शुक्र होय तो छठे स्थानमें स्थित होनेका दोष नहीं होताहै यदि शत्रु और नीच राशिका अथवा अस्तका मंगल होय तो आठवें स्थित

होनेका दोप नहीं होताहै ॥ २२१ ॥ यदि चंद्रमा नीच राशि अथवा नीच नवांशामें होय तो आठवें, छठे, वारहवें स्थानमें स्थित होनेका दोप नहीं होताहै. लग्नमें वली वृहस्पति, शुक्र अथवा शुभ वर्गमें चंद्रमा शुभ ग्रहसे दृष्ट होय तो वारहवें और छठे चंद्रमाका दोप नहीं होताहै ॥ २२२ ॥

अथ विवाहलग्ने रेखाप्रदा ग्रहाः ।

निधनारित्रिलाभस्था अर्कार्किशिखिराहवः ॥ लाभत्रिश-
त्रुगो भौमो द्वित्रिलाभगतः शशी ॥ २२३ ॥ खास्ताषांत्यं
विना सौम्यो वृनाष्टान्त्यं विना गुरुः ॥ अस्ताष्टारित्यर्थं
हित्वा शुक्रो रेखाप्रदः शुभः ॥ २२४ ॥

अब विवाहलग्नमें रेखाप्रद ग्रहोंको लिखतेहैं—आठवें, छठे, तीसरे ग्यारहवें स्थानमें सूर्य, शनैश्चर, केतु, राहु होय और ग्यारहवें, तीसरे, छठे मंगल होय तथा दूसरे, तीसरे, ग्यारहवें, चंद्रमा होय और दशवें, सातवें, आठवें, वारहवें इन स्थानोंके विना अन्य स्थानमें वृध होय और सातवें, आठवें, वारहवें स्थानके विना अन्य स्थानमें वृहस्पति होय और सातवें, आठवें, छठे, वारहवें स्थानको छोड़कर अन्य स्थानोंमें शुक्र होय तो शुभरेखा देनेवाला होताहै ॥ २२३ ॥ २२४ ॥

अथ मध्यमफलदा ग्रहाः ।

सदसत्स्थानतोऽन्यत्र स्थिता मध्यफला ग्रहाः ॥

अब मध्यमफलद ग्रहोंको लिखतेहैं—सत् और असत् स्थानसे अन्य स्थानोंमें ग्रह होय तो मध्यम फल देतेहैं ॥

अथ रेखाप्रदग्रहाणां विंशोपकाः ।

सार्धत्रयं रविः सार्द्ध भौमार्किशिखिराहवः ॥ २२५ ॥ द्वा-
शुक्रो ज्यश्च पञ्चेदुरंशांस्त्रीन्विन्दते गुरुः ॥ लग्नं शुभं विचाहे
स्याद्वशविंशोपकाग्निकम् ॥ २२६ ॥

अब रेखाप्रद ग्रहोंका विशेषक लिखते हैं—यदि सूर्य रेखाप्रद होय तो साढ़ेतीन विश्वा वल देते हैं और मंगल, शनैश्चर, केतु, राहु ये चारोंग्रह रेखाप्रद होय तो डेढ़डेढ़ विश्वा वल देते हैं और शुक्र तथा बुध रेखाप्रद होय तो दो विश्वा वल देते हैं और चंद्रमा रेखाप्रद होय तो पांच विश्वा वल देता है। बृहस्पति रेखाप्रद होय तो तीन विश्वा वल देता है॥ और दश विश्वे से अधिक वल विवाहमें लग शुभ होनेसे देती है॥ २२५॥ २२६॥

अथेष्टकालज्ञानम् ।

परं दिनं हुमानोनं नवमं ९ तिथि १६ भाजितम् ॥ विलव्धं
चांगुलाद्यं यत्सा भवेद्दिनमध्यभा ॥ २२७ ॥ पादभा मध्य-
भाहीना सप्तयुक्त द्विगुणा ततः ॥ भजेत्सप्तहर्तं यत्तन्मानं
लव्धास्तु नाडिकाः ॥ २२८ ॥ प्रत्यगर्के तु शेषास्ताः प्रागर्के
तु गताः स्मृताः ॥ रात्रीष्टकालविज्ञानं चतुः पूर्वमुदा-
हृतम् ॥ २२९ ॥

अब इष्टकालज्ञान लिखते हैं—(परमदिनमान) अर्थात् सबसे बड़ा दिनमान जो होय उसमेंसे अपने इष्टका दिनमान घटाय दे शेष अंकको नौसे गुणा करके पंद्रहका भाग देनेपर जो लव्ध मिले सो अंगुलादिक दिनकी मध्यम छाया कहाती है॥ २२७ ॥ फिर खड़ा होकर आप अपनी छायाको पैरसे नापे जितने चरण छायाके हों उसमेंसे दिनकी मध्यच्छाया घटाय दे शेषांकमें सात जोड़कर दूना करे जो गुणन फल होय उसको अलग लिखै तदनन्तर अपने दिनमानको सातगुणा करे गुणनफलमें पूर्वोक्त अलग लिखेहुए अंकोंका भाग देनेसे जो लव्ध मिले सो घटी और शेषको ६० साठिगुणा कर उसी अंकका भाग देनेसे जो लव्ध मिले सो पल जाने॥ २२८ ॥ दुपहरसे पीछे नापे तो दिन शेष रहा और

दुपहरसे पहिले नापे तो इतनी घड़ी इतने पल दिन चढ़गया
ऐसा इष्ट जानना और रात्रिमें इष्टकाल जानना होय तो चार
प्रकारसे पहिलेही कहचुकेहें ॥ २२९ ॥

अब उदाहरण लिखतेहें—जैसे परम दिनमान ३४ । १६ है और
अपना इष्ट दिनमान २६ । ६ है परम दिनमानमेंसे इष्ट दिनमान
घटाया तो शेष ८ । १० रहे इनको ९ जौसे गुणा किया तो ७३ ।
३० हुए इनमें पंद्रह १५ का भाग दिया तो ४ । ५४ मिले यहही
अंगुलादि मानसे दिनकी मध्यच्छाया हुई । पेरांसे नापीहुई छाया १०
दशमेंसे दिनमध्यच्छायाको घटाया तो शेष ५ । ६ रहे इसमें सात
७ जोड़कर ढूना किया तो २४ । १२ हुए यह अलग स्थितहें अब
अपने दिनमान २६ । ६ को सातगुणा किया तो १८२।४२ हुए इन
में पूर्वोक्त अलग लिखे हुए २४ । १२ का भाग दिया तो ७ लघु
मिले शेषको ६० साठि गुणा करके पूर्वोक्त अंकोंकाही भाग दिया
तो ३३ लघुमिले अर्थात् दुपहरसे पहिले नापा हो तो ७ घड़ी ३३
पल दिन चढ़ा और दुपहरसे पीछे नापा हो तो पूर्वोक्त दिन वाकी
रहा इति ॥

अथेष्टकालाल्घानयनम् ।

सायनार्कप्यभागमा निजोदयविनाडिकाः ॥ खत्रि ३०
भक्ता भवेद्ग्रोग्यकालो लघुः पलात्मकः ॥ २३० ॥ शोध्यो-
ऽभीष्टवटीभ्यश्च तदयभनिजोदयाः ॥ शोध्याः शेषं खराम-
३० ग्रमशुद्धमितिभाजितम् ॥ २३१ ॥ लघुमंशादिकं
योज्यं मेपाद्येः शुद्धराशिभिः ॥ अयनांशविहीनं यद्विलग्मं
तत्स्फुटं भवेत् ॥ २३२ ॥ भोग्यकालो न शुद्धयेद्वेदिष्टकालः
पलात्मकः ॥ खराम ३० ग्रो हृतः स्वीयोदयेनात्मं लवादि-

कम् ॥२३३॥ योज्यं सूर्ये स्फुटं लग्नमयनांशविवर्जितम् ॥
रात्रीष्टकालतो वापि सप्तङ्गाऽकांच्च पूर्ववत् ॥ २३४ ॥

अब इष्ट कालसे लग्नानयन लिखते हैं—अयनांशायुक्त स्पष्ट सूर्य सायनार्क कहाता है, सायनार्कके अंश, कला, विकला को तीसमें घटा देनेसे शेष भोग्यांशादि होते हैं उन अंशादिकोंको सायनसूर्यकी राशिके पलोंसे अलग २ गणा करे पीछे विकलाके गुणनफलमें साठिका भाग देकर कलास्थानके गुणित अङ्कमें जोड़ दे और कलास्थानमें साठिसे भाग लेकर अंशस्थानमें जोड़ दे और अंशगुणित स्थानमें तीसका भाग दे जो लघु मिलै सो पलात्मक भोग्यकाल होता है ॥२३०॥ उस भोग्यकालके पलोंको इष्टघटीके पलोंमेंसे घटादे जो अंक शेष बचे उनमेंसे आगेकी लग्नोंके पल घटाताजाय फिर जिस लग्न के पल न घटसकें उसीको अशुद्ध जाने और लग्नोंके पल घटानेपर जो शेषांक रहे उसको तीस गुणा करके अशुद्ध लग्नके पलोंका भाग देनेसे अंशादिक लघु मिलेंगे उनमें सेपादिसे शुद्धसंख्या जितनी होय उसको राशि स्थानमें लिखदेवे उस लिखेहुए राशि, अंश, कला, विकलामेंसे अयनांशा घटाय देनेपर शेष स्पष्टलग्न होजाती है. यदि इष्टकालके पलोंमेंसे भोग्यकालके पल न घटसकें तो इष्ट पलोंको तीसगुणा करे उसमें सायनार्ककी राशिके पलोंका भाग देनेसे तीनस्थानमें लघु अर्थात् अंश, कला, विकला निकाले फिर इन अंशादिकोंको सायनार्कमें जोड़कर अयनांशा घटाय देनेसे शेष स्पष्टलग्न होजाती है और जो रात्रिमें इष्टकाल होय तो सायनार्ककी राशिमें छह जोड़कर पूर्वोक्त रीतिसे लग्नस्पष्ट करलेवे परन्तु इष्ट रात्रिकाही लेना चाहिये अर्थात् सूर्योदयसे जो इष्टकाल होय उसमें दिनमान घटाय देनेसे रात्रिका इष्ट चनजाता है ॥ २३१ ॥ २३२ ॥ ॥ २३३ ॥ २३४ ॥

अब लग्नस्पष्ट करनेका उदाहरण लिखतेहैं—जैसे स्पष्टसूर्य ७।
२०। १७। २७ है और अयनांशा ०२शा७।१२ है, दोनोंको जोड़ा
तो ८। ११। २४। ३९ हुए यहही सायनार्क कहाताहै नीचे
लिखी हुई क्रियामें देखो तीसमें घटानेसे शेष १८ अंश, ३५ कला,
२१ विकला रहीं। इन तीनोंजगह धनुराशिके स्वोदयपल ३४४
लिखकर गुणा करदिया तो (६१९२) (१२०४०) (७२२४) हुए
यहांपर विकलाके गुणनफल ७२२४ में साठिका भाग दिया तो
लघ्य मिले (१२०) इसको कलास्थानके गुणितफल १२०४० में
जोड़ा तो १२१६०इतना भया इसमेंभी साठिका भाग दिया तो लघ्य
मिले (२०२) इसको अंशस्थानके गुणित अंक ६१९२ में जोड़ा
तो (६३९४)हुए; इसमें तीसका भाग देनेसे लघ्य २१३ मिले यहही
पलात्मक भोग्यकाल हुआ और इष्टपल ४०४ हैं इन इष्टपलोंमेंसे
भोग्यपलोंको घटाया तो शेष १९१ रहे इसमेंसे मकरके स्वोदयपल
३०२ घट नहीं सके इससे मकरलग्नही अशुद्ध हुई; इस कारण
पूर्वोक्त शेष १९१को तीसगुणा करके अशुद्ध लग्न मकरके ३०२
पलोंका भाग दिया तो १८लघ्य मिले, शेष २९४ को ६० साठिगुणा
करके पूर्वोक्त पलोंका भाग दिया तो लघ्य ५८ मिले शेष १२४ को
६० साठिगुणा करके ३०२का भाग दिया तो लघ्य २१मिले अर्थात्
१८। ५८। २१ हुए, यहाँ राशिस्थानमें मेषादिसे शुद्धराशिकी संख्या
९ जोडा तो ९। १८। ५८। २१ हुए इनमेंसे अयनांशा घटाया
तो—८। २७। ५१। ९ शेष रहे यहही लग्नस्पष्टहुई अर्थात् धनुल-
ग्नके सत्ताईस अंश, इक्षावन कला, नौ विकला इष्ट समयपर
व्यतीत हुई॥

(२६४)

सुहूर्तगणपति:-

[विवाह -]

स्प० सू०	७	२०	१७	२७
अ० शा०	००	२१	०७	१२
यह सायनार्क हैं इसको तीसमेंघटा या तो शेष रहे	८	११	२४	३९
		१८	३५	२१
		३४४	३४४	३४४
		६१९२	१२०४०	७२३४
		३० का भागदिया,	६० भागदिया,	६० भागदिया
लघु २१३ यह पला	शेष	शेष	शेष	
तक भोग्य काल है	४	४०	२४	

इष्टपल ४०४

भोग्यपल २१३

१९१ शेष

मकरलघुके पल ३०२ नहीं घटे

इसकारण अशुद्ध मकर लघु हुई.

१९१

३०

३०२) ५७३० (?८

३०२

२७१०

२४१६

२९४

६०

१७६४०

३०२) १७६४० (५८

१५१०

२५४०

२४१६

१२४

६०

३०२) ७४४० (२१

६०४

४००

३०२

९८

अयनांशा	९	।	१८	।	५८	।	२१
घटाया	००	।	२१	।	०७	।	१२
	०८	।	२७	।	५१	।	९

अथ स्पष्टलग्नादिष्टकालानयनम् ।

भानोर्भोग्यस्तु यः कालो भुक्तकालस्तथा तनोः ॥ तदेक्य-
मेतयोर्मध्योदयाव्यं समयः स्फुटम् ॥ २३५ ॥ यद्येकक्षेण तु
लग्नाकौं तयोर्भागांतरैरहेतः ॥ स्वीयोदयः खरामा ३०
तोऽभीष्टकालः स्फुटस्तदा ॥ २३६ ॥

अब स्पष्टलग्नसे इष्टकालज्ञान लिखते हैं—सूर्यका पूर्वोक्त भोग्य
काल और लग्नका भुक्तकाल अर्थात् लग्नस्पष्टमें जो अंशा, कला,
विकला होंय वहही भुक्तकाल कहाताहै फिर पूर्वोक्त रीतिसे लग्नके
उद्यपलों करके लग्नके भुक्तांशादिको गुणा करके तीसरी जगह
तीसका भाग देनेसे जो लब्ध मिलै सो लग्नका पलात्मक भुक्त काल

मिलैगा उन भुक्तकाल और भोग्यकालके पलोंको जोड़ देवे फिर उसमें वीचकी लग्नोंके पलभी जोड़देवे तीनों अंक जोड़नेसे जो अंक होय सो इष्टकालके पल होतेहैं उनमें साठिका भाग देकर इष्टकी घड़ी पल निकल आतीहैं ॥ २३५ ॥ यदि लग्न और सूर्य एक अंशोंकी राशिके होंय तो दोनोंके अंतर करै जो शेष रहे तिससे उदय-लग्नके पलाको गुणाकरै गुणनफलमें तीसका भाग देय तो इष्टकालके पल होतेहैं उसमें साठिका भाग देनेसे जो लब्ध मिले वह घड़ी, वाकी बचै सो पल होतेहैं यहही इष्ट कहाताहे ॥ २३६ ॥

अथ विवाहे प्रशस्तयोगः ।

शुभैर्लग्नतैः खेत्रशुभैर्निधनोपगैः ॥ ध्वजोयं परिणीतात्र-युवती प्रियवल्लभा ॥ २३७ ॥ कुजेके लाभ ११ ने पष्टे शनौ चंद्रे द्वितीयगे २ ॥ धर्मस्थैः ९ खेचरैरन्यैः श्रीवत्सो योग उत्तमः ॥ २३८ ॥ यदि स्यात्कन्यका लग्ने तृतीये चंद्रवा-कपती ॥ पंचमे भूगुरानंदो योगश्वानंदकृत्स हि ॥ २३९ ॥ लाभे ११ उकोरि द गृहे भौमो दुश्चिक्येऽऽथ शनैश्चरः ॥ योगोयमर्ढचंद्राख्यस्तत्रोढा सुभगा सती ॥ २४० ॥ गुरी धर्मे ९ बुधे मूर्तीं १ लाभे ११ मंदे गजाभिधः ॥ परिणीतेह आमाक्षी साध्यी धर्मार्थदायिनी ॥ ख १० तुर्य-१ नवगैः ९ सौम्यैः शंखोऽयं शुभकृत्सदा ॥ २४१ ॥

अब विवाहमें प्रशस्त योग हिततेहैं—शुभग्रह लग्नमें और पापग्रह आठवें स्थानमें होंय तो यह ध्वज योग होताहै इसमें विवाहिता युवती अपने पतिकी प्यारी होतीहै ॥ २३७ ॥ मंगल सूर्य ग्यारहवें, शनैश्चर छठे, चंद्रमा दूसरे, अन्य ग्रह नौवें स्थानमें होंय तो उत्तम श्रीवत्स योग होताहै ॥ २३८ ॥ यदि कन्या लग्न होय और तीसरे स्थानमें चंद्रमा और बृहस्पति होंय, पांचवें

शुक्र होय तो आनंदनामक योग होता है, आनंद करनेवाला कहा है ॥ २३९ ॥ ग्यारहवें स्थानमें सूर्य, छठे मंगल, तीसरे स्थानमें शनैश्चर होय तो अर्द्धचंद्र योग होता है इस योगमें विवाह कीहुई स्त्री सौभाग्यवती रहती है ॥ २४० ॥ बृहस्पति नौवें, बुध लग्नमें, शनैश्चर ग्यारहवें स्थानमें होय तो गजनामक योग होता है इस योगमें विवाहिता स्त्री धर्म और अर्थ देनेवाली पतिव्रता होती है. दशवें, चौथे, नौवें स्थानमें शुभग्रह होय तो शंखनामक योग होता है सदैव शुभकारक है ॥ २४१ ॥

अथ नेष्टयोगः ।

पापाश्चकस्य पूर्वार्द्धे पश्चार्द्धे सौम्यखेचराः ॥ विवाहे चक्रयोगोयं तदोढा जारिणी भवेत् ॥ २४२ ॥ सर्वैः केंद्रगतैः पापैर्वापीयोगोपि निंदितः ॥ सौम्यैर्लग्ने १० व्यये १२ वित्ते २ पापैः कोदंडकोप्यसत् ॥ २४३ ॥ भौमे द्वादश १२-गे पष्टे ६ शुक्रे तुर्ये ४ शनैश्चरे ॥ कुठारोयं समाख्यातः शुभवल्लीविदारणः ॥ २४४ ॥ व्यये १२५के द्रविणे २ शुक्रे रिपौ ६ मंदेऽष्टमे विधी ॥ योगः स्यात्कूर्मनामायं नवोढा भिक्षुकी भवेत् ॥ २४५ ॥ रवौ लग्ने १० व्यये १२ मंदेऽष्टमे ८ व्यये मुसलाभिधः ॥ तत्रोढा या कुमारी सा कुलमारी भवेद्गुवम् ॥ २४६ ॥

अब नेष्टयोग लिखते हैं—चक्रके पूर्वार्द्ध अर्थात् लग्नसे छठे स्थान तक पापग्रह और चक्रके परार्द्ध अर्थात् सातवें भरसे वारहवें घर-तक शुभग्रह होय तो यह चक्रयोग होता है इसमें विवाहिता स्त्री जारिणी होती है ॥ २४२ ॥ सब पापग्रह केंद्रोंमें होय तो वापी योग निर्दित होता है, शुभग्रह लग्नमें होय और पापग्रह दूसरे वा वारहवें होय तो कोदंड नामक योग होता है विवाहमें अशुभ है ॥ २४३ ॥

मंगल वारहवें, शुक्र छठे, शनैश्चर चौथे होंय तो कुठार नामक योग होता है यह (शुभवर्षी) वंशवेलका नाश करनेवाला है ॥२४४॥ वारहवें स्थानमें सूर्य, दूसरे शुक्र, छठे शनैश्चर, आठवें चंद्रमा होंय तो कूर्म नामक योग होता है इसमें विवाहिता स्त्री भिक्षुकी होती है ॥ २४५ ॥ लग्नमें सूर्य, वारहवें शनैश्चर, आठवें चंद्रमा होय तो सुसल नामक योग होता है इसमें विवाहिता कन्या कुलका नाश करनेवाली होती है ॥ २४६ ॥

अथ गोधूलिकलग्नम् ।

निंद्यादिकुलिकं क्रांतिविद्धभं पापयुक्तथा ॥ लग्ना १ षट्-
८ रि ६ गतं चंद्रं लग्ने गोधूलिके त्यजेत् ॥ २४७ ॥ नाडन्ये
गोधूलिके चिंत्या दोपाश्वंडादयस्तथा ॥ प्रपद्येते यतः सर्वे
गोरजोभिः समंततः ॥ २४८ ॥ द्वित्रिलाभस्थिते चंद्रे श्रेष्ठं
गोधूलिकं मतम् ॥ लग्नास्तशत्रुतोन्यत्र चंद्रे संस्थे तु मध्य-
मम् ॥ २४९ ॥ दोपाः पंचांगजा लग्नग्रहजामित्रसंभवाः ॥
लत्तापाताष्टमस्थाननवांशक्षणजास्तथा ॥ २५० ॥ एतेऽन्ये-
उप्यसिला नैव हेया गोधूलिके सदा ॥ २५१ ॥

अब गोधूलिकलग्न लिखते हैं—निंदितयोग, कुलिकयोग, क्रांति-
साम्य, विद्ध नक्षत्र और लग्न, आठवें, छठे स्थानमें पापग्रहयुक्त
चंद्रमा होंय तो गोधूलिलग्न त्याज्य होती है ॥ २४७ ॥ और गोधूलि
लग्नके समय अन्य चण्डायुधादि दोषोंका विचार न करै क्योंकि,
गौओंकी रजसे सब दोप सब अलँगसे ढक जाते हैं ॥ २४८ ॥ यदि
दूसरे, तीसरे, चौथे स्थानमें चंद्रमा होय तो गोधूलिलग्न श्रेष्ठ
मानी है. लग्न, सातवें, छठे स्थानसे अन्यत्र चंद्रमा होय तो सम्यम
होती है ॥ २४९ ॥ पंचांगदोप, लग्नदोप, ग्रहदोप, जामित्रदोप, लत्ता,
पात, अष्टमस्थान, नवांश, मुहूर्तके सबदोप, तथा अन्य सब दोप
गोधूलि लग्नके समय त्याज्य नहीं माने हैं ॥ २५० ॥ २५१ ॥

अथ गोधूलिसमयः ।

अर्धस्तात्पूर्वमप्युद्धं घटिकाद्दं तु गोरजः ॥ स काले
मंगले श्रेयान्विवाहादौ शुभप्रदः ॥ अर्धविवात्परं केचि-
द्वटीद्रियमितं जगुः ॥ २५२ ॥ निदावे सार्द्धविवेकं पिंडीभूते
हिमागमे ॥ मेघकाले तु पूर्णेस्ते प्रोक्तं गोधूलिकं शुभम् ॥
॥ २५३ ॥ अलव्वे घटिकालम्बे विप्राणां गोरजः स्मृतम् ॥
गोरजो हीनवर्णानां शूद्रादीनामथो स्मृतम् ॥ २५४ ॥

अब गोधूलिसमय लिखते हैं—अर्द्धस्त सूर्यसे पहिले और पीछे
आधी आधी घडीतक गोधूलि लगका समय होता है वह समय
मंगल कायोंमें तथा विवाहादिकोंमें श्रेष्ठ और शुभदायक होता है और
किन्हीं आचार्योंका ऐसा कथन है कि, अर्द्धस्त सूर्यके उपरांत दो
घडीतकका समय गोधूलि होता है ॥ २५२ ॥ ग्रीष्म कालमें अस्तके
समय सूर्यका आधा विंव दीखता रहे और अधा अस्त होजाय
तब गोधूलिका समय होता है और शीतकालमें अस्तसमय सूर्यका
पूर्ण विम्ब विरणों विना दीखता रहे तो वह गोधूलिका समय
होता है और मेघकालमें सूर्यका विम्ब सपूर्ण अस्त होजाय तो
गोधूलि लगका समय होता है विवाहादिकमें शुभ है ॥ २५३ ॥ यदि
घटिका लग शुद्ध न मिले तो ब्राह्मणोंकोमी गोधूलिलग शुभ हो-
ती है, परन्तु हीनवर्ण और शूद्रोंके लिये तो गोधूलि मुख्यही है ॥ २५४ ॥

अथ विवाहलग्नाच्छुशुरादीनां शुभाशुभफलम् ।

लग्नं देहो भृगुः श्वशूः श्वशुरोऽकर्म मनः शशी ॥ भर्ता कांता
कलत्रेशस्तद्वलात्तसुखं भवेत् ॥ २५५ ॥ पति सुर्या-
द्विधोः कांतां धनं भौमात्सुतान्दुधात् ॥ सुखं जीवाङ्गू-
र्धम् वेशमार्कसूनुतो वदेत् ॥ २५६ ॥ सुखं स्वोच्चादिगैज्ञेयं
दुःखं नीचास्तगादिभिः ॥ २५७ ॥

अब विवाहमें लग्नसे सास आदियोंका शुभाशुभ फल लिखते हैं—लग्न देहहै, शुक्र सासहै, सूर्य श्वसुरहै, चंद्रमा मनहै और सत्तमेश स्वमीहै इनमेंसे जो वली होय उसीको सुख होताहै ॥ २५५ ॥ सूर्यसे पतिका, चंद्रमासे स्त्रीका, मंगलसे धनका, वृधसे पुत्रोंका, वृहस्पतिसे सुखका, शुक्रसे धर्मका, शनैश्चरसे मकानका शुभाशुभ फल विचारकर कहै ॥ २५६ ॥ यदि उच्चादि स्थानमें ग्रह होंय तो सुख और नीच तथा अस्तके ग्रह होंय तो दुःख होताहै ॥ २५७ ॥

अथावश्यके राजां खड्डविवाहः ।

चंद्रपञ्चांगसंशुद्धौ सौम्यायनविवाहभे ॥

राजो गोधूलिके लग्ने खड्डोद्वाहः प्रशस्यते ॥ २५८ ॥

अब आवश्यकोंमें राजाका खड्डविवाह लिखते हैं—चंद्रमा और पंश्चाग शुद्ध होय, उत्तरायण सूर्य होंय, विवाहके नक्षत्र होंय, गोधूली लग्न होय तो राजाओंका खड्ड विवाह श्रेष्ठ कहाहै ॥ २५८ ॥

अथ हीनजातीनां विवाहे विशेषः ।

अनुकृतिथिमासक्षं संकीर्णानां शुभप्रदम् ॥

विवाहे धनपुत्रायुःप्रीतिसौख्यकरो भवेत् ॥ २५९ ॥

अब हीनजातिओंका विवाहमें विशेष लिखते हैं—विवाहमें जो तिथि, मास, नक्षत्र नहीं कहेहैं वेही सब तिथ्यादि संकीर्ण जातियोंके विवाहमें शुभदायक तथा धन, पुत्र, आयु, प्रीति और सौख्यकारक होते हैं ॥ २५९ ॥

अथ शूद्रादीनां स्त्रियः पुनर्विवाहः ।

शूद्रादीनां विवाहक्षें पुनरुद्धनं स्त्रियाः ॥ रात्रौ कुर्यात्
तत्रास्ततिथिमासादिदूपणम् ॥ २६० ॥ सूर्यभाद्रेद ४ नेत्रा
२ ग्रि ३ भू १ चंद्रा १ ऋषि ४ रसा ६ इग्न्यः ३ ॥ भू

१ राम इ संमितास्तारा गांधर्वादिविवाहके ॥ २६१ ॥
नेष्ठः श्रेष्ठः क्रमादेतास्त्रियश्च गदिता बुधैः ॥ २६२ ॥

अब शूद्रादि स्त्रियोंके पुनर्विवाह लिखते हैं—विवाहके नक्षत्रोंमें शूद्रादिकोंकी स्त्रियोंका पुनर्विवाह रात्रिमें करें तो अस्त तथा तिथि मासादिका दूषण नहीं होता है ॥ २६१ ॥ गांधर्वादि विवाहमें सूर्यके नक्षत्रसे ४ । २ । ३ । १ । १२ । ६ । ३ । १ । ३ ये नक्षत्र त्रीके लिये पंडितोंने क्रमसे नेष्ठ और श्रेष्ठ कहे हैं ॥ २६२ ॥

अथ विवाहांगकार्यम् ।

कार्य विवाहकार्यांगं विवाहोदितमेजनैः ॥ विवलं च विष्णुं
हित्वा विपष्टनवमं दिनम् ॥ २६३ ॥ विशाखां भरणीं
चित्रां ज्येष्ठास्त्र्यामश्विनीं शतम् ॥ आर्द्धं चतुष्टयं हित्वा
कुर्याद्वैवाहिकं विधिम् ॥ २६४ ॥ हेरंवपूजनं तैलं सकलं
चांकुरारोपणम् ॥ भूपणं कंकणाद्यं च वेदिकामंडपा-
दिकम् ॥ २६५ ॥

अब विवाहाङ्कार्य लिखते हैं—विवाहोक्त नक्षत्रोंमें विवाहके अंग-
कार्य शुभ होते हैं, परन्तु निर्वलचंद्रमा और तिसरे, नौवें, छठे दिनको
छोड़देय ॥ २६३ ॥ विशाखा, भरणी, चित्रा, ज्येष्ठा, अश्विनी, शत-
भिषा, आर्द्धा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा इन नक्षत्रोंको छोड़कर अन्य
नक्षत्रोंमें विवाहकी विधि करें ॥ २६४ ॥ गणेशपूजन, तैलधारण,
अंकुरारोपण, भूपण कंकणादि धारण, वेदिकामंडप वनाना इत्यादि
सब कार्य सिद्ध होते हैं ॥ २६५ ॥

अथ तैलादिलापने दिनसंख्या ।

मेषादिराशिजातानां कुर्यात्तैलादिलापनम् ॥ शैलषदि १०
ज्वाण ५ सप्तां ७ ग्र ६ वाण ६ पंचे ६ पवः ६ शराः ॥ २६६ ॥

वाणाः ६ शैला ७ स्त्रय द्वे श्वेव क्रमात्कैश्चिदिती-
रितम् ॥ २६७ ॥

अब तैलादिलापनमें दिनसंख्या लिखते हैं—मेषादि राशिवाले क-
न्या वरके तैल चढ़ाने के दिनों की संख्या क्रमसे जाननी ऐसा किन्हीं
आचार्योंने कहा है जैसे मेष राशिवाला मनुष्य विवाहमें सातदिन
और वृष्ट राशिवाला दशदिन तैल चढ़ावै इत्यादि सवराशियोंके तैल
दिनसंख्या चक्रमें लिखते हैं— ॥ २६६ ॥ २६७ ॥

मेषादिराशीनां तैलदिनसंख्याचक्रम् ।

मेष	वृष्ट	मिथि	कन्या	सिंह	कुला	तुला	द्विष्टि	धनु	मकर	कुम्भ	मीन	राशी	दिनसंख्या
३०	१०	५	७	६	१	१५	५	५	५	१०	७	३	१८

अथ विवाहवेदिका ।

चतुरासां करोच्छायां चतुर्हस्तां सुवेदिकाम् ॥ वेशमनो
वामभागे च कुर्यात्स्तंभोपशोभिताम् ॥ २६८ ॥ ऐशान्यां
स्थापयेत्स्तंभं सिंहादित्रिभगे रखो ॥ वृश्चिकादित्रिभे वायौ
नैऋत्यां कुंभत्रिभिर्भे ॥ वृपात्रये तथाऽग्रेय्यां स्तंभखात-
स्तथैव हि ॥ २६९ ॥

अब विवाहमें वेदिका लिखते हैं—मकानके वाम भागमें चौकोर
हाथभर उंची, चारहाथ लंबी और चौड़ी वेदी बनावै उसको समी-
पमें खंभसे सुशोभित करै ॥ २६८ ॥ सिंह, कन्या, तुला राशिके
सूर्य होंय तो ईशान दिशामें खंभको स्थापित करै और वृश्चिक, धनु,
मकर राशिके सूर्य होंय तो वायव्यदिशामें खंभको गाड़ै और कुम्भ,
मीन, मेष राशिके सूर्य होंय तो नैऋत्य दिशामें खंभ गाड़ै और वृष्ट-
मिथुन, कर्कके सूर्य हों तो आग्रेय दिशामें खंभ गाड़ै ॥ २६९ ॥

अथ विवाहानंतरं मंडपोद्घासनम् ।

मंडपोद्घासनं पष्ठं हित्वा कुर्यात्समेहनि ॥

पंचमे सप्तमे वापि शुभक्ष शुभवासरे ॥ २७० ॥

इति श्रीमद्देवज्ञरावलहरिशंकरसूरिसुनुगणपतिकृते मुहूर्त-
गणपतो विवाहप्रकरणं पञ्चदशम् ॥ १५ ॥

अब विवाहानन्तर मंडपोद्घासन लिखते हैं—छठे दिनको छोड़कर-
समदिनमें अथवा पांचवें सातवें दिन, शुभनक्षत्र और शुभवारमें
मंडप सिरावें ॥ २७० ॥

इति श्रीमद्देवज्ञरावलहरिशंकरसूरिसुनुगणपतिकृते मुहूर्त-
गणपतो श्रीयुतपंडितवर्यवीणीरामात्मजपंडितराम-
दयालुशर्म्भकृतभाटीकासमलंकृतं विवाहप्रकरणं
पञ्चदशम् ॥ १५ ॥

अथ वधूप्रवेशप्रकरणम् ।

लग्नादहि समे पंचसप्तमिं प्राक्च पोडशात् ॥ ततस्त्वापंच-
माद्वर्षादोजाहे मासि वत्सरे ॥ १ ॥ यथेच्छं तु ततो
वध्वा: प्रवेशः शुभदः स्मृतः ॥ श्रवणद्वितये मूलेऽनुराधा-
रोहिणीमृगे ॥ २ ॥ हस्तव्रये मध्यापुष्ये त्र्युत्तरे रेखतीद्वये ॥
प्रवेशः शुभदो वध्वा: सोमे शुक्रे गुरो शनो ॥ ३ ॥
मध्यो बुधे कुजेकं तु नेष्टो रिक्तातिथौ तथा ॥ शुभे वर्गे
वलोपेते लग्ने चांशे शुभः स्मृतः ॥ ४ ॥

अब वधूप्रवेश लिखते हैं—विवाहसे सम दिनमें अर्थात् चौथे,
छठे, आठवें, दशवें दिन आदि सोलहवें दिनतक और पीछे पांच-
वर्षके भीतर विप्रमवर्ष और विप्रम मासमें ॥ ५ ॥ और पांचवें
वर्षसे पीछे इच्छानुरूप वधूका प्रवेश शुभदायक कहाहे, श्रवण,
धनिष्ठा, मूल, अनुराधा, रोहिणी, मृगशिरा ॥ २ ॥ हस्त, चित्रा,

स्वाति, मधा, पुष्य, तीनों उच्चरा, रेवती, अश्विनी इन नक्षत्रोंमें और चंद्र, शुक्र, वृहस्पति, शनि वारोंमें वधूप्रवेश शुभ होता है ॥ ३ ॥ वधूप्रवेशमें वृध मध्यम और मंगल, रवि तथा रिकातिथि नेष्ट होती हैं, लघु और लग्नका नवांशा शुभग्रहके बलसे युक्त होय तो वधूप्रवेश शुभ होता है ॥ ४ ॥

अथ विवाहोत्तरं प्रथमावृदे मासविशेषेण वध्वा निवासदोषः ।

उद्धाहात्प्रथमे ज्येष्ठे यदि पत्युर्गृहे वसेत् ॥ पत्युज्येष्टं तदा हंति पौषे तु श्वशुरं तथा ॥ ५ ॥ श्वशूं साऽपाठमासे तु चाधिमासे स्वकं पतिम् ॥ आत्मानं तु क्षये मासि तातं तातगृहे मधौ ॥ ६ ॥

इति श्रीमद्देवज्ञरावलहरिशंकरसूरिसूनुगणपतिकृते मुहूर्तगणपती वधूप्रवेशप्रकरणं पोडशम् ॥ १६ ॥

अब विवाहोत्तर प्रथम वर्षमें मासविशेषसे वधूका निवासदोष लिखते हैं—यदि विवाहसे प्रथमवार वधू ज्येष्ठ मासमें पतिके घर निवास करे तो पतिके घडे भाईका नाश होता है और जो पौष मासमें निवास करे तो श्वशुरका ॥ ५ ॥ आपाठ मासमें निवास करे तो सासका, अधिमासमें निवास करे तो अपने पतिका, क्षयमासमें निवास करे तो अपने आत्माका नाश होता है और जो चैत्रके महीनमें पिताके घर निवास करे तो पिताका नाश होता है ॥ ६ ॥

इति श्रीमद्देवज्ञरावलहरिशंकरसूरिसूनुगणपतिकृते मुहूर्तगणपती श्रीयुतपंडितवर्यवेणीरामात्मजपंडितराम-दयालुराम्भकृतभापाटीकासमलङ्कृतं वधूप्रवेशप्रकरणं पोडशम् ॥ १६ ॥

अथ द्विरागमनप्रकरणम् ।

विवाहाद्विपमे वर्षे कुंभमेपालिगे रवौ ॥ वलिन्यके विधौ
जीवे शुभाहे चाश्विनीमृगे ॥ १ ॥ रेवतीरोहिणीपुष्ये
त्रुत्तरे श्रवणत्रये ॥ हस्तत्रये पुनर्वस्वोस्तथा मूलानुराधयोः
॥ २ ॥ कन्यामीनतुलायुग्मे वृपे प्रोक्तवलान्विते ॥
लग्ने पञ्चदलाक्षीणां द्विरागमनमिष्यते ॥ ३ ॥ संमुखे
दक्षिणे शुक्रे नो गच्छेत्तु कदाचन ॥ गर्भिणी तु विगर्भा
स्यान्नवोढा वंध्यतामियात् ॥ ४ ॥ वालकश्चेद्विपद्येत विगे-
हादपि चेद्वजेत् ॥ ५ ॥

अब द्विरागमन लिखते हैं—विवाहसे विषम वर्षमें और कुंभ, मेर्ष,
वृश्चिक राशिके सूर्यमें तथा सूर्य, चंद्रमा, वृहस्पति वलवान् होय,
शुभवार होय, आश्विनी, मृगशिरा ॥ १ ॥ रेवती, रोहिणी, पुष्य,
तीनों उत्तरा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, हस्त, चित्रा, स्वाति, पुनर्वसू,
मूल, अनुराधा ये नक्षत्र होय ॥ २ ॥ उक्त वल युक्त कन्या, मीन,
तुला, मिथुन, वृप ये लग्ने होय तो कमलदलनयनी ख्यियोंका द्विरा-
गमन श्रेष्ठ होता है ॥ ३ ॥ सम्मुख और दक्षिण शुक्र होय तो
कभी यात्रा न करै; यदि सम्मुख और दक्षिण शुक्रमें गर्भवती
यात्रा करै तो गर्भ नष्ट होजाता है और नवीन विवाहकीहुई विना
गर्भकी खी यात्रा करै तो वंध्या होजाती है ॥ ४ ॥ और जो
वालकवाली यात्रा करै तो वालक मरजाता है ॥ ५ ॥

अथ दीपमालाप्रवेशो दोपापवादः ।

सिंहस्थे वा गुरौ शुक्रे संमुखे संगतेषि वा ॥

शुभो दीपोत्सवे वध्वाः प्रवेशः पतिमंदिरे ॥ ६ ॥

अब दीपमालाके प्रवेशमें दोपापवाद लिखते हैं—सिंहके वृहस्पति
अथवा सम्मुख शुक्र होय तो भी दीपोत्सवके दिन पतिके मंदिरमें
वधूका प्रवेश शुभ होता है ॥ ६ ॥

अथ प्रतिशुक्रदोपापवादः ।

एकस्मिन्नगरे ग्रामे देशे राजाद्युपद्रवे ॥ दुर्भिक्षे तीर्थयात्रायां
नववध्वाः प्रवेशने ॥ ७ ॥ विवाहे न हि दोपाय प्रतिशुक्र-
स्तथा वृधः ॥ अञ्चिंगिरोवसिष्ठानां वत्सकश्यपयोर्भृगोः
॥ ८ ॥ भरद्वाजसुनेर्गेत्रे प्रतिशुक्रो न दुष्यति ॥ पित्र्या-
गारे यदि स्त्रीणां स्तनपुष्पोद्भ्रमो भवेत् ॥ ९ ॥ गमनं
प्रतिशुक्रेष्विपि प्रशस्तं पतिवेशमनि ॥ १० ॥

इति श्रीमद्दैवज्ञरावलहरिशंकरसूरिसूनुगणपतिकृते मुहूर्त-
गणपतौ द्विरागमनप्रकरणं सप्तदशम् ॥ १७ ॥

अब प्रतिशुक्रदोपापवाद लिखते हैं- एकनगर, एकग्राम, एकदेशमें,
तथा राजकृत उद्बवमें, दुर्भिक्षमें, तीर्थयात्रामें, नवीन वधूप्रवेशमें ॥ ७ ॥
विवाहमें सामने शुक्रका दोष नहीं होता है. तथा वृधकाभी दोष नहीं
होता है और अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, वत्स, कश्यप, भरद्वाज इन गोत्रोंमें
सामने शुक्रका दोष नहीं होता है और यदि पिताके घरमें श्लियोंके
स्तन निकसें अथवा रजोधर्म होय तोभी सामने शुक्रका दोष नहीं
होता है परिके घर जानेमें शुभ माना है ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥

इति श्रीमद्दैवज्ञरावलहरिशंकरसूरिसूनुगणपतिकृते मुहूर्त-
गणपतौ पंडितरामदयालुशर्मकृतभाषाटीकासमलं
कृतं द्विरागमनप्रकरणं सप्तदशम् ॥ १७ ॥

अथाग्न्याधानप्रकरणम् ।

सौम्यायने विशाखायां कृत्तिकारोहिणीमृगे ॥ त्र्युत्तरे रेवती
ज्येष्ठापुष्येऽग्न्याधानमिष्यते ॥ १ ॥ कुजार्काव्ये गुरो शुक्रे
नो नीचाऽस्तंगतेऽरिभे ॥ नो रिक्तायां तिथौ कक्षे लग्ने
नेव मृगव्ये ॥ २ ॥ अश्याधानं प्रकृतीत नेंद्रा लग्नगतेषि
च ॥ विकोणेऽपचये केंद्रे सूर्यजीवकुञ्जदुपु ॥ ३ ॥ शेषे चोप-

चये शुद्धे रंगेश्याधानमुत्तमम् ॥ लघ्वे जीवे धनुर्गे वा द्यूने
७ खे १० वाऽजगे कुजे ॥ ४ ॥ चंद्रे वा विपडायस्थे
सूर्ये वा दीक्षितो भवेत् ॥ ५ ॥

इति श्रीमद्देवज्ञरावलहरिशंकरसूरिसूनुगणपतिकृते मुहूर्त-
गणपतावश्याधानप्रकरणमष्टादशम् ॥ १८ ॥

अब अश्याधान लिखते हैं—उत्तरायण सूर्यमें और विशाखा,
कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिर, तीनों उत्तरा, रेवती, ज्येष्ठा, पुष्य इन नक्ष-
त्रोंमें अग्निहोत्र करना शुभ कहा है ॥ १ ॥ मंगल, सूर्य, चंद्रमा,
वृहस्पति, शुक्र ये ग्रह नीचके अथवा अस्तके वा शत्रुघ्रहकी
राशिके न होंय और रिक्ता तिथिभी नहीं होय तथा कर्क, मकर, कुंभ,
मीन ये लघ्वेभी नहीं होंय ॥ २ ॥ लघ्वमें चंद्रमा न होय,
त्रिकोण ३ । ५ अपचय केंद्र स्थानमें सूर्य, वृहस्पति, मंगल, चंद्रमा
होंय ॥ ३ ॥ शेष ग्रह उपचय शादा १० ११ में होंय, तथा आठवां स्थान
शुद्ध होय तो अश्याधान उत्तम होता है. वृहस्पति लघ्वमें होय अथवा
धनुराशिका होय और सातवें, दशवें, मेषका मंगल होय ॥ ४ ॥
चंद्रमा अथवा सूर्य तीसरे, छठे, दशवें, ग्यारहवें स्थानमें होंय तो
अग्निहोत्रादि यज्ञमें दीक्षा लेनी शुभ होती है ॥ ५ ॥

इति श्रीमद्देवज्ञरावलहरिशंकरसूरिसूनुगणपतिकृते मुहूर्त-
गणपतांपणिडितरामदयालुशर्मकृतभाषाटीकासमलं-
कृतमश्याधानप्रकरणमष्टादशम् ॥ १८ ॥

अथ राजाभिपेकप्रकरणम् ।

उदितेभ्ये गुरों शुक्रे विनैवे चोत्तरायणे ॥ जन्मेशे चापि
कमेशे रवीं भाँमे वलान्विते ॥ १ ॥ रोहिणीद्वितये पुष्ये
ज्येष्ठायां श्रुत्तरे तथा ॥ रेवतीयुगुले हस्ते चित्रायां श्रवणेपि

च ॥ २ ॥ तिथीं वारे शुभेऽकेपि कुर्याद्राजाभिषेचनम् ॥
स्थिरे चोपचये लघ्ने जन्मतो मस्तकोदये ॥ ३ ॥ शुभैर्यु-
क्तेक्षिते वापि पापद्वयोगवर्जिते ॥ धनकेद्रत्रिकोणाख्यै
रहितैः पापखेचरैः ॥ ४ ॥ सौम्यैरपष्टुगैः सर्ववर्ययमृत्यु-
विवर्जितैः ॥ केद्रत्रिकोणगैः सौम्यैरसौम्यैः पदत्रिलाभगैः
॥ ५ ॥ सुहृत्स्वक्षोऽच्चगैः खेटैर्नीचारातिभवर्जितैः ॥ राज-
योगोचिते लघ्ने शुभं राजाभिषेचनम् ॥ ६ ॥

अब राजाभिषेक लिखते हैं—चंद्रमा, वृहसप्ति, शुक्र का उदय होय,
चैत्र विना अन्यमास होय, उत्तरापण सूर्य होय, जन्मेश अथवा दश-
मेश सूर्य वा मंगल चलवान् होय ॥ १ ॥ रोहिणी, मृगशिर, पुष्य,
ज्येष्ठा, तीनों उत्तरा, रेवती, अश्विनी, हस्त, चित्रा, श्रवण इन नक्ष-
त्रोंमें ॥ २ ॥ ॥ शुभ वार शुभ तिथिमें तथा रविवारके दिनभी राज्या-
भिषेक शुभ होता है. जन्मलघ्नसे तीसरे, छठे, दशवें, ग्यारहवें स्था-
नकी लघ्न होय अथवा स्थिर वा मस्तकोदय लघ्न होय अर्थात् मिथुन,
कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ ये लघ्नें होंय और शुभग्रहोंसे युक्त वा
दृष्ट तथा पापग्रहोंकी दृष्टि और योगसे वर्जित लघ्न होय दूसरा
स्थान केंद्र १ । ४ । ७ । १० कोण ९ । ५ स्थान, पापग्रहोंसे रहित
होय ॥ ३ ॥ ४ ॥ पष्टस्थानमें शुभग्रह न होय और वारहवें, आठवें
स्थानमें कोई ग्रह न होय, केन्द्र त्रिकोण स्थानमें शुभग्रह होय और
छठे, तीसरे, ग्यारहवें स्थानमें पापग्रह होय तथा मित्रकी राशि अथवा
अपनी राशि वा उच्चराशिके ग्रह होंय, नीचराशि वा शुत्रराशिके न
होंय और राजयोगके योग्य लघ्न होय. तो राजाभिषेक शुभ
होता है ॥ ५ ॥ ६ ॥

अथ युवराजाभिषेकः ।

युवराजाभिषेकः स्यादभिषेकोक्तभादिषु ॥ ७ ॥

अब युवराजाभिषेक लिखते हैं—राजाभिषेकमें कहेहुए नक्षत्रादि-
कोंमें युवराजका अभिषेक शुभ होताहै ॥ ७ ॥

अथ पुत्राभावेऽन्यस्याभिषेचनम् ।
स्वजाते राज्ञि तत्स्थाने पुत्राभावं कुलोद्धवम् ॥
नो चिंत्यास्तिथिवाराद्यास्तत्कालमभिषेचयेत् ॥ ८ ॥

अब पुत्राभावमें अन्यका अभिषेचन लिखते हैं—राजाके पश्चात्
पुत्र गद्दीपर बैठताहै, यदि पुत्र न होय तो अपने कुलके पुरुष को
और यदि अपने कुलका पुरुष न मिले तो अपनी जातिवाले पुरु-
षको तत्काल राजगद्दीपर बैठायदेवे उस समय तिथि वारादिकोंका
कुछभी विचार न करे ॥ ८ ॥

अथ राजचिह्नधारणम् ।

चामरं छत्रदोलादिद्विपिंहासनादिकम् ॥

पट्टाभिषेकमें सर्वं विद्याच्छोभनेहनि ॥ ९ ॥

इति श्रीमद्वैवज्ञरावलहरिशंकरसूरिसूनुगणपतिकृते मुहूर्त-
गणपतौ राज्याभिषेकप्रकरणमेकोनविंशम् ॥ १९ ॥

अब राजचिह्नधारण लिखते हैं—चंचर, छत्र, हिंडोलादि तथा गेंडा
अथवा सिंहके चमड़ेसे सुशोभित आसनादिको राजाभिषेकोक्त
क्षत्रों तथा शुभवारोंमें धारण करे ॥ ९ ॥

इति श्रीमद्वैवज्ञरावलहरिशंकरसूरिसूनुगणपतिकृते मुहूर्त-
गणपतौ श्रीयुतपंडितवर्यवेणीरामात्मजपंडितराम-
दयालुशर्मकृतभाषाटीकासमलंकृतं राज्या-
भिषेकप्रकरणमष्टादशम् ॥ १९ ॥

अथ यात्राप्रकरणम् ।

विज्ञातजन्मनां राज्ञां ज्ञात्वा शुभफलोदयम् ॥

योज्या यात्रा बुवैः शस्तं प्रश्नादज्ञातजन्मनाम् ॥ १ ॥

अब यात्राप्रकरणं लिखतेहैं—जिन राजाओंका जन्मपत्र होय उनके जन्म लग्नसे तथा जिन राजाओंका जन्म पत्र न होय उनके प्रश्न लग्नसे सब ग्रहादिकोंका फल विचारकर पंडितलो गायत्राका श्रेष्ठ मुहूर्त निश्चय करें ॥ १ ॥

अथ प्रश्नलग्नाद्यात्रायाः शुभाशुभफलम् ।

जनुपो लग्नराशी वा लग्नगे वा तदीश्वरौ ॥ १ ॥ ताभ्यां चोपचये लग्ने तदा राज्ञां जयो ध्रुवम् ॥ २ ॥ प्रश्नतो लग्नमेशत्रोस्तुर्ये ४ स्ते ७ वा तयोः पती ॥ ताभ्यामुपचयं भं वा जयः स्याद्वैरिसंभवः ॥ ३ ॥ जयो लग्ने स्वसद्गर्णे भवेच्छीपोदयेपि वा ॥ शुभयुक्तेक्षिते वापि शुभा यात्रा चरोदये ॥ ४ ॥ स्थिरोदये गमोन स्याच्छुभैर्वैष्टे युते शुभः ॥ द्विःस्वभावोदये पापैर्युक्ते वाथ निरीक्षिते ॥ ५ ॥ प्रस्थितोपि निवर्त्तेत निर्जितोरिजनैः पुनः ॥ रम्ये भूमितले दृष्टे श्रुते भोगेल्पवस्तुनि ॥ ६ ॥ अत्यादरेपि वा प्रश्ने जयलाभोपि यास्यताम् ॥ भृगौ लग्ने बुधे तुर्ये ४ सहोत्थे ३ के सुते गुरो ॥ ७ ॥ लाभगे ११ रपरैः शत्रूजित्वाभ्येति नृपो गृहे ॥ लग्ने १ भौमेऽथवा मंदे सुते जीवेथ खे १० रवौ ॥ ८ ॥ लभे ११ कर्मणि १० वा चंद्रे शुक्रेपि विजयो ध्रुवम् ॥ लग्ने भौमेदुयुक्ते वा दिनेशतनुजेक्षिते ॥ ९ ॥ चंद्रे वा निधनेऽस्तस्थे भास्करे लग्नवर्त्तिनि ॥ पापैर्वा द्यूनलग्नाएहिबुकोपगतैर्यहैः ॥ एभिस्त्रिभिश्च दुयोंगैः प्रष्टभंगो न संशयः ॥ १० ॥ कोणे ८।९ भौमाङ्गुधेज्यार्किशुक्रा वैपुचतुर्पूषिपि ॥ एकश्वेद्रमनं न स्यात्सुर्याद्वाकोणके विधाः ॥ ११ ॥ नयेद्वा स्वदिशं सोत्र यः खेटो वलवास्त्वयोः ॥ प्रश्ने गम्यदिशाधीशात्पंचमोपि वली ग्रहः ॥ १२ ॥

अब प्रश्नलग्नसे यात्राके शुभाशुभ फल लिखतेहैं—जन्मकी लग्न अथवा राशिही प्रश्नकी लग्न होय अथवा प्रश्नलग्नमें जन्म लग्नेश्वर वा जन्मराशीश्वर होय अथवा जन्म लग्न और जन्मराशिसे उपचय स्थान ३ । ६ । १० । ११ । की लग्न होय तो राजाओंकी निश्चयही जय होतीहै ॥ २ ॥ शत्रुके जन्मकी लग्न वा राशि प्रश्नलग्नसे चौथे वा सातवें स्थानमें होय अथवा शत्रुका जन्मलग्नपति तथा जन्मराशिपति चौथे वा सातवें होय अथवा शत्रुका जन्मलग्न और जन्मराशिसे उपचय ३ । ६ । १० । ११ स्थानकी लग्न होय तो शत्रुसे विजय होतीहै ॥ ३ ॥ प्रश्न लग्न अपने वर्गमें अथवा शुभग्रहके वर्गमें होय अथवा (शीर्पोदय) मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ लग्न शुभयुक्त दृष्ट होय तो विजय होतीहै। अथवा शुभग्रहसे युक्त वा दृष्ट चर लग्न होय तो यात्रा शुभ होतीहै ॥ ४ ॥ और जो स्थिर लग्न होय तो यात्रा नहीं होतीहै यदि स्थिरलग्न शुभग्रहोंसे दृष्ट वा युक्त होय तो यात्रा शुभ होतीहै और जो द्विस्वभाव लग्न पापग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट होय तो ॥ ५ ॥ जाकरके भी लौट आताहै अथवा शत्रुओंसे हारकर लौट आताहै। यदि प्रश्नलग्नके समय पृथ्वीतल रमणीक होय अथवा शुभ वस्तु देखने सुननेमें आवे अथवा थोड़ीसी शुभ वस्तुका भोग मिलै अथवा अत्यादरके साथ पंडितसे पूछै तो जानेवालोंकी विजय होतीहै, लग्नमें शुक्र होय, चौथे वुध होय, तीसरे सूर्य होय, पांचवें वृहस्पति होय ॥ ६ ॥ ७ ॥ ग्यारहवें स्थानमें अन्य ग्रह होय तो राजा शत्रुओंको जीतकर घर आजावै। लग्नमें मंगल अथवा शनैश्वर होय, पांचवें वृहस्पति होय, दशवें सूर्य होय ॥ ८ ॥ और ग्यारहवें, दशवें स्थानमें शुक्र वा चंद्रमा होय तो निश्चयही विजय होतीहै। यदि लग्न, मंगल वा चंद्रमासे युक्त होय और शनैश्वरसे दृष्ट होय ॥ ९ ॥ चंद्रमा आठवें वा सातवें

स्थानमें स्थित होय, सूर्य लग्नमें वर्तमान होय, पापथ्रह सातवें लग्नमें, आठवें, चौथे स्थानमें स्थित होंय तो पूछनेवालेका यात्रामें निस्संदेह भंग होताहै ये तीन दुष्टयोग हैं ॥ १० ॥ मंगलसे त्रिकोणमें बुध, वृहस्पति, शनैश्चर, शुक्र ये चारों वा इन चारों ग्रहोंमेंसे कोई एक ग्रह होय तो यात्रा नहीं होतीहै अथवा सूर्यसे त्रिकोण १ । ५ में चंद्रमा होय तोभी यात्रा नहीं होतीहै ॥ ११ ॥ और पूर्वोक्त यात्रावरोधक दोनों ग्रहोंमें जो ग्रह वलवान् होय सो अपनी दिशाकी यात्रा करताहै अथवा (गम्य) जानेयोग्य दिशाके स्वामीग्रहसे पांचवें स्थानमें जो ग्रह वली होय सो अपनी दिशाकी यात्रा कराताहै ॥ १२ ॥

अथ संक्रांतिषु यात्राफलम् ।

मेष १ सिंह ८ धनुः ९ संस्थे यात्रा शस्तांशुमालिनि ॥
कुंभे ११ नक्ष १० गना ७ युग्म ३ शुक्रभस्थे २७ तु
मध्यमा ॥ १३ ॥ कर्का ४ लि ८ मीनगे १२ उक्ते तु
यात्रा दीर्घप्रवासदा ॥ १४ ॥

अब संक्रांतिसे यात्राफल लिखतेहैं—मेष, सिंह, धनु राशिपर स्थित सूर्य होंय तो यात्रा शुभ होतीहै और कुंभ, मकर, कन्या, मिथुन और (शुक्रकी राशि) वृष, तुला पर सूर्य स्थित होंय तो यात्रा मध्यम होतीहै ॥ १३ ॥ और कर्क, वृश्चिक, मीन राशिके सूर्य होंय तो यात्रा दीर्घकालकी होतीहै ॥ १४ ॥

अथ दशादिवलवशात्विविधं यात्राफलम् ।

दशादेः सफले पाके यात्रा श्रेष्ठाथ मध्यमा ॥

गोचरादिवले न्यूनफला पंचांगशुद्धितः ॥ १५ ॥

अब दशादिवलवशासे त्रिविध यात्राफल लिखतेहैं—यदि दशान्तर्देशा आदि फलवाली अर्थात् शुभ होंय तो यात्रा श्रेष्ठ होतीहै और

जो गोचरादिका वल होय तो मध्यम हातार्ह और यदि पंचागशुद्धि होय तो न्यून फलवाली होतीहै ॥ १५ ॥

अथ यात्रायां चंद्रतारातिथ्यादिशुद्धः ।

तारास्त्रिपञ्चसप्ताद्या रिक्तामापूर्णिमाएषमीः ॥

शुक्राद्यां द्वादशीपष्ठचौ हित्वा चंद्रवले गमः ॥ १६ ॥

अब यात्रामें चंद्रतारातिथ्यादिशुद्धि लिखते हैं—तीसरी, पांचवीं, सातवीं, पहिली तारा और रिक्ता, अमावास्या, पूर्णिमा, अष्टमी और शुक्रपक्षकी प्रतिपदा, द्वादशी, पष्ठी तिथि इन सबको त्यागकर चंद्रमाका वल होय तो यात्रा शुभ होतीहै ॥ १६ ॥

अथ यात्रायां पृथक् तिथिफलानि ।

कृष्णा च प्रतिपञ्चेष्टा नो शुक्रा गमनादिषु ॥ द्वितीया कार्यसिद्धचै स्याचृतीया क्षेमसंपदे ॥ १७ ॥ चतुर्थी क्लेशदा ज्ञेया लाभदा पंचमी तथा ॥ व्याध्यार्त्तिदायिनी पष्ठी सप्तमी भोगभोज्यदा ॥ १८ ॥ रोगदा चाष्टमी ज्ञेया नवमी मृत्युदा सदा ॥ दशमी लाभदा नित्यं हेमदैकादशी स्मृता ॥ १९ ॥ प्राणहृद्दादशी प्रोक्ता सर्वसिद्धा त्रयोदशी ॥ शुक्रा चतुर्दशी नेष्टा कृष्णपक्षेविशेषतः ॥ २० ॥ पूर्णिमा मध्यमा प्रोक्ता त्याज्यो दर्शस्तु सर्वथा ॥ तिथीनां फलमेतद्धि ज्ञातव्यं गमने बुधैः ॥ २१ ॥

अब यात्रामें पृथक् तिथिफल लिखते हैं—यात्रादि कार्योंमें कृष्ण पक्षकी प्रतिपदा श्रेष्ठ होतीहै और शुक्रपक्षकी नेष्ट होतीहै, द्वितीया तिथि कार्यसिद्धिकेलिये होतीहै, तृतीया कल्याणपूर्वक संपदाकेलिये होतीहै ॥ १७ ॥ चतुर्थी क्लेशदेनेवाली कहीहै, पंचमी लाभ देनेवाली है, पष्ठी तिथि रोग आर दुःखकी देनेवाली है, सप्तमी भोग आर भोज्यकी दूनवाला ह ॥ १८ ॥ अष्टमी तिथि रोग देनेवाली

है, नवमी तिथि सदैव मृत्यु देनेवाली है, दशमी तिथि नित्य लोभकी देनेवाली है, एकादशी सुवर्णकी देनेवाली है ॥ १९ ॥ द्वादशी तिथि प्राणोंकी हरनेवाली है, त्रयोदशी सर्वसिद्धिकी देनेवाली है, शुक्लपक्षकी चतुर्दशी नेष्ट होतीहै और कृष्णपक्षकी चतुर्दशी विशेष करके नेष्ट होतीहै ॥ २० ॥ और पूर्णमासी मध्यम कहीहै और अमावास्या सर्वथा त्याज्य है यात्रामें पंडितोंको तिथियोंका यह फल अवश्यही विचारना चाहिये ॥ २१ ॥

अथ यात्रायां शुभाशुभवाराः ।

सत्खेटवासरे चोपचयस्थस्यापि वासरे ॥

यात्रा श्रेष्ठा बुधे मध्या लोके शास्त्रे तु न क्वचित् ॥ २२ ॥

अब यात्रामें शुभवार लिखतेहैं—शुभग्रहके वारमें यात्रा हुम होतीहै और प्रश्नलग्नसे (उपचय) तीसरे, छठे, चारहवें, दशवें घरमें जो ग्रह होय उसके वारमेंभी यात्रा श्रेष्ठ होतीहै और बुध वारमें मध्यम होतीहै ऐसा कथन लोकमें है और शास्त्रमें कहीं नहीं लिखा है ॥ २२ ॥

अथ वारे कालविशेषे यात्रा कैश्चिद्दुक्ता ॥

रवौ सूर्योदये यायादुपःकाले शनैश्चरे ॥

भौमे भुक्त्वा सदान्यन्त्र वारे कैश्चिदितीरितम् ॥ २३ ॥

अब वारोंमें कालविशेषसे यात्रा लिखतेहैं—रविवारको सूर्योदयके समय यात्रा करे, शनैश्चरको ग्रातःकालके समय यात्रा करे, मंगलको भोजन करके यात्रा करे और अन्य वारोंमें सब कालमें यात्रा करे ऐसा किन्हीं आचार्योंने कहा है ॥ २३ ॥

अथ यात्रायामुत्तममिद्यमनेष्टनक्षत्राणि ।

धनिष्ठा श्रवणो हस्तोऽनुराधा रेवतीद्रियम् ॥ मृगः पुनर्वसु पुष्यः श्रेष्ठान्येतानि भानि च ॥ २४ ॥ मूलं पूर्वात्रयं ज्येष्ठा

रोहिणी शततारका ॥ उत्तराणां त्रयं याने मध्यान्येतानि
भानि च ॥ २५ ॥ चित्रात्रयं मघाश्लेषा कृत्तिकाद्र्वा भर-
ण्यपि ॥ वज्यान्येतानि धिष्ण्यानि यात्रायां जन्मभं
तथा ॥ २६ ॥

अब यात्रामें उत्तम मध्यम नेष्टु नक्षत्र लिखते हैं—धनिष्ठा,
श्रवण, हस्त, अनुराधा, रेती, अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसू, पुष्य
ये नक्षत्र श्रेष्ठ हैं ॥ २४ ॥ मूल, तीनों पूर्वा, ज्येष्ठा, रोहिणी, शत-
भिषा, तीनों उत्तरा यह नक्षत्र यात्रामें मध्यम हैं ॥ २५ ॥ चित्रा,
स्वाति, विशाखा, मधा, आश्लेषा, कृत्तिका, आद्रा, भरणी और जन्म-
नक्षत्र ये सब नक्षत्र यात्रामें वर्जित हैं ॥ २६ ॥

अथ वज्यनक्षत्राणामावश्यके त्याज्यघटिकाः ।
पूर्वासु पोडशैवाद्याः कृत्तिकास्वेकविंशतिः ॥ मघास्वेका-
दश त्याज्या भरण्याः सप्तनाडिकाः ॥ २७ ॥ स्वात्या-
श्लेषाविशाखासु ज्येष्ठायाश्च चतुर्दश ॥ पापा लग्नवले
शेषनाडीपृष्ठावश्यके सति ॥ २८ ॥

अब वज्यनक्षत्रोंके आवश्यकमें त्याज्य घटिका लिखते हैं—तीनों
पूर्वाके आदिकी सोलह घड़ी आवश्यक यात्रामें त्याज्य हैं और कृत्ति-
काके आदिकी २१ इक्कीस घड़ी, मघाके आदिकी ग्यारह घड़ी, भर-
णिके आदिकी सातघड़ी ॥ २७ ॥ स्वाती, आश्लेषा, विशाखा, ज्येष्ठा
इन नक्षत्रोंके आदिकी चौदहचौदह घड़ी आवश्यक यात्रामें त्याज्य
हैं और यदि लग्न वलवान् होय तो पूर्वोक्त नक्षत्रोंकी शेषघड़ी आव-
श्यक यात्रामें शुभ होती हैं ॥ २८ ॥

अथात्र मतांतरम् ।

कृत्तिकाया मघास्वात्योरेके पूर्वदलं जगुः ॥
उत्तराद्वं तु चित्रायां भरण्याश्लेषयोरपि ॥ २९ ॥

अब यहां मतान्तर लिखते हैं—किन्हीं आचार्योंने ऐसा कहा है कि, कृत्तिका, मधा, स्वाती इन नक्षत्रोंका पूर्वार्द्ध और चित्रा, भरणी, आश्लेषा इन नक्षत्रोंका उत्तरार्द्ध आवश्यक यात्रामें त्याग देवे ॥२९॥

अथोशनसो मते तु ।

सर्वस्वाती मधा त्याज्योशनसो मतमीदशम् ॥ ३० ॥

अब शुक्रका मत लिखते हैं—शुक्राचार्यका ऐसा मत है कि, स्वाति और मधा नक्षत्र संपूर्णही त्याज्यहैं ॥ ३० ॥

अथ नक्षत्रविशेषे विजययात्राप्रकारः ।

संप्रस्थायानुराधायां स्थित्वा ज्येष्ठाऽभिषे ततः ॥ मूले
गञ्छेन्महीपालो यदि स्याद्द जयो ध्रुवम् ॥ ३१ ॥ हस्ते
प्रस्थाय वा स्थित्वा तत्रैव स्वातिचित्रयोः ॥ विशाखायां
ब्रजन्भूपो विजयं लभते ध्रुवम् ॥ ३२ ॥ प्रस्थाय मृगशीर्पे
वा स्थित्वाद्र्दायां ततो ब्रजन् ॥ पुनर्वस्वोर्महीपालो लभते
च जयश्रियम् ॥ ३३ ॥ रेवत्यां पुष्यभे वापि धनिष्ठायां मही-
श्वरः ॥ उपित्वा स्वीयशिविरे रात्रौ गच्छञ्जयत्यरीन् ॥ ३४ ॥

अब नक्षत्रविशेषमें विजययात्राप्रकार लिखते हैं—अनुराधा नक्षत्रमें प्रस्थान करें, ज्येष्ठामें स्थितरहै और मूल नक्षत्रमें यात्रा करें तो अवश्य राजाकी विजय होती है ॥ ३५ ॥ हस्त नक्षत्रमें प्रस्थान करें और स्वाति तथा चित्रा नक्षत्रमें वहीं ठहरै और फिर विशाखा नक्षत्रमें राजा यात्रा करें तो अवश्य जय पावे ॥ ३६ ॥ अथवा मृगशीर्प नक्षत्रमें प्रस्थान करके आद्रामें ठहरारहे और फिर पुनर्वसू नक्षत्रमें राजा यात्रा करें तो जय और लक्षीको प्राप्त करें ॥ ३७ ॥ रेवती, पुष्य, अथवा धनिष्ठा नक्षत्रमें राजा अपने डेरेमें रात्रिभर निवास करके प्रभातही यात्रा करताहें तो शत्रुओंको जीत देताहें ॥ ३८ ॥

अथ दिक्शूलम् ।

दिक्शूलं पूर्वदिग्भागे ज्येष्ठायां शनिसोमयोः ॥ पूर्वाभाद्र-
पदे याम्यां तथैव गुरुवासरे ॥ ३५ ॥ रवौ शुक्रे च
रोहिण्यां पश्चिमायां त्यजेहुधः ॥ उदीच्यामुत्तराराफाल्युन्य-
भिंधे मंगले बुधे ॥ ३६ ॥

अब दिक्शूल लिखते हैं—ज्येष्ठा नक्षत्र और शनैश्चर सोमवारके
दिन पूर्वदिशामें दिक्शूल होता है और पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र तथा वृह-
स्पतिवारके दिन दक्षिणमें दिक्शूल होता है ॥ ३५ ॥ रविवार, शुक्र-
वार तथा रोहिणी नक्षत्रमें दिशाशूल पश्चिममें होता है और मंगल
तथा बुधवार उत्तराराफाल्युनी नक्षत्रमें उत्तरमें दिक्शूल होता है ॥ ३६ ॥

अथ विदिक्शूलं वारेषु ।

आग्नेय्यां च गुरौ चंद्रे नैऋत्यां रविशुक्रयोः ॥

ऐशान्यां चंद्रजे वायो मंगले गमनं त्यजेत् ॥ ३७ ॥

अब विदिक्शूल वारोंमें लिखते हैं—वृहस्पति और चंद्रवारके दिन
आग्नेय दिशामें विदिक्शूल होता है, सूर्य और शुक्रके दिन नैऋत्य
दिशामें, बुधको ईशान दिशामें और मंगलको वायव्य दिशामें
विदिक्शूल होता है यात्रामें सामने दिक्शूल और विदिक्शूल
त्याज्यहैं ॥ ३७ ॥

अथ दिक्शूलदोपापनुत्तये विधिः ।

सूर्ये घृतं पयश्चंद्रे गुडं भौमे बुधे तिलाद् ॥ गुरौ दधि यवा-
ञ्छुक्रे मापान्मंदे नरस्तथा ॥ ३८ ॥ संप्राश्यावश्यके गच्छ-
न्दिक्शूले न च दोषभाक् ॥ तांवूलं भास्करे चंद्रे चंदनं
मंगले मृदः ॥ ३९ ॥ बुधे पुष्पं दधीज्ये च घृतं शुक्रे
तिलञ्छन्नौ ॥ दत्त्वा भुक्त्वाथ धृत्वा वा न दोषः शूलजो
यतः ॥ ४० ॥

अब दिक्षूलदोप नाशकेलिये विधि लिखते हैं—रविवारको धी, सोमवारको दूध, मंगलको गुड़, बुधको तिल, वृहस्पतिको दधि, शुक्रको जौ, शनैश्चरको उड्ड ॥ ३८ ॥ भक्षण करके आवश्यकमें यात्रा करे तो दिशाशूलका दोप नहीं होता है तथा रविवारको तांबूल, सोमवारको चंदन, मंगलको मिठी ॥ ३९ ॥ बुधको पुष्प, वृहस्पतिको दधि, शुक्रको धूत, शनैश्चरको तिल दान करके अथवा भोजन करके अथवा उक्त वस्तु लेकरके छले तो दिक्षूलका दोप नहीं होता है ॥ ४० ॥

अथ समयविशेषे त्याज्यानि भानि ।

पूर्वाह्ने रोहिणीधिष्ठयं विशाखाकृतिकोत्तराः ॥ मध्याह्नसमये
ज्येष्ठाऽश्लेषाद्र्द्वामूलभं तथा ॥ ४१ ॥ अपराह्ने परित्याज्या
गमने चाश्विनी सदा ॥ चित्रांत्यमनुराधा च यामिन्याः
प्रथमेशके ॥ ४२ ॥ मध्येशके त्यजेत्पूर्वावितयं भरणी
मघा ॥ प्रांत्ये पुनर्वसुस्वातीघनिष्ठाशततारकाः ॥ ४३ ॥

अब समयविशेषमें त्याज्य नक्षत्र लिखते हैं—पूर्वाह्नके समय रोहिणी, विशाखा, कृतिका, उत्तरा इन नक्षत्रोंमें यात्रा न करे और मध्याह्नके समय ज्येष्ठा, आश्लेषा, आद्र्द्वा, मूल इन नक्षत्रोंमें और (अपराह्न) तीसरे प्रहरके समय अश्विनी नक्षत्रमें और रात्रिके प्रथम भागमें चित्रा, रेवती, अनुराधा नक्षत्रमें ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ और रात्रिके मध्यभागमें तीनों पूर्वा, भरणी, मघा इन नक्षत्रोंमें और रात्रिके अन्त्य भागमें पुनर्वसु, स्वाति, धनिष्ठा, शतभिषा इन नक्षत्रोंमें यात्रा न करे क्योंकि, उक्त समयोंमें उक्त नक्षत्र त्याज्य हैं ॥ ४३ ॥

अथ सार्वकालं यात्रायां शुभनक्षत्राणि ।

श्रवे पुष्पे मृगे हस्ते श्रेष्ठा यात्रा च सर्वदा ॥ ४४ ॥

अब सार्वकालिक यात्रामें शुभनक्षत्र लिखते हैं—श्रवण, पुष्प, मृगशिर, हस्त इन नक्षत्रोंमें यात्रा सब समय श्रेष्ठ होती है ॥ ४४ ॥

अथ युद्धयात्रायां विशेषः ।

राहुसुक्तानि ऋक्षाणि जीवपक्षस्त्वयोदश ॥ मृतपक्षस्तु
 भोग्यानि कर्त्तरी तदधिष्ठितम् ॥ ४६ ॥ ततः पंचदशे ग्रस्तं
 चिंत्यं युद्धे गमादिषु ॥ जीवपक्षः शुभो ज्ञेयो मृतपक्षस्त्व-
 शोभनः ॥ ४६ ॥ मृतपक्षाच्छुभं ग्रस्तं ग्रस्तभात्कर्त्तरी
 शुभा ॥ मृतपक्षे संहस्रांशौ जीवपक्षे विधौ स्थिते ॥
 ॥ ४७ ॥ यात्रायां विजयस्तत्र विपरीते पराजयः ॥ उभौ
 चेज्जीवपक्षस्थौ यात्रा तत्रापि शोभना ॥ ४८ ॥ चेदुभौ
 मृत्युपक्षस्थौ खींदूतत्र कष्टदा ॥ यायिनो जयदश्वंद्रो जीव-
 पक्षे व्यवस्थितः ॥ ४९ ॥ भानुमाञ्जीवपक्षस्थः स्थायिनो
 विजयावहः ॥ ५० ॥

अब युद्धयात्रामें विशेष लिखते हैं—राहु जिस नक्षत्रपर स्थित होय
 उस नक्षत्रसे पिछले तेरह नक्षत्र जीवपक्ष कहाते हैं और राहुस्थित
 नक्षत्रसे आगे के तेरह नक्षत्र मृतपक्ष कहाते हैं और राहुके अधिष्ठित
 नक्षत्रकी कर्त्तरी संज्ञा है ॥ ४५ ॥ और राहुनक्षत्रसे आगे का पंद्रहवां
 नक्षत्र ग्रस्त कहाता है यह युद्ध और यात्रादिकोंमें विचारनाचाहिये।
 यात्रामें जीवपक्ष शुभ होता है मृतपक्ष अशुभ होता है ॥ ४६ ॥ मृतपक्षसे
 ग्रस्त नक्षत्र शुभ होता है और ग्रस्त नक्षत्रसे कर्त्तरी नक्षत्र शुभ
 होता है यदि मृतपक्षमें सूर्य होय और जीवपक्षमें चंद्रमा होय ॥ ४७ ॥
 तो यात्रामें विजय होती है और इससे विपरीत होय तो पराजय
 होती है और यदि सूर्य तथा चंद्रमा दोनों वह जीवपक्षमें स्थित
 होय तो भी यात्रा शुभ होती है ॥ ४८ ॥ और जो सूर्य चंद्रमा दोनों
 वह मृत्युपक्षमें स्थित होय तो यात्रा कष्ट देनेवाली होती है और
 यदि चंद्रमा जीवपक्षमें स्थित होय तो जानेवालेके लिये विजय
 देताह आंर जो सूर्य जीवपक्षमें स्थित होय तो (स्थायी) अपने
 स्थानपर रहनेवालेकी विजय करता है ॥ ४९ ॥ ५० ॥

अथाकुलगणः ।

धनिष्ठाभरणीस्वातीहस्ताश्लेपापुनर्वसू ॥ रोहिणीन्युत्तरं
चांत्यानुराधे विपमा तिथिः ॥ ५१ ॥ सूर्येन्दुगुरु-
मंदाख्यवाराश्वैप गणोऽकुलः ॥ अत्र संप्रस्थितो राजा शत्रू-
जयति संगरे ॥ ५२ ॥

अब अकुल कुल कुलाकुलसंज्ञा त्रिविधका फल लिखते हैं—तहाँ
प्रथम अकलगण लिखते हैं—धनिष्ठा, भरणी, स्वाति, हस्त, आश्लेपा,
पुनर्वसू, रोहिणी, तीनों उत्तरा, रेवती, अनुराधा ये नक्षत्र और
विपम तिथि ॥ ५१ ॥ सूर्य, चंद्र, वृहस्पति, शनैश्चर वार यह सब
अकुलगण हैं इसमें यात्रा करनेवाला राजा युद्धमें शत्रुओंको
जीतलेता है ॥ ५२ ॥

अथ कुलगणः ।

पूर्वाश्विनी मधा पुष्यः कृत्तिका श्रवणो मृगः ॥ चित्रा ज्येष्ठा
विशाखा च कुजशुक्रो चतुर्दशी ॥ ५३ ॥ अथाकीर्ति-
मितास्तिथ्यो गणोऽयं कुलसंज्ञकः ॥ संग्रामे यायिनो भंगः
स्थायिनोऽत्र जयो भवेत् ॥ ५४ ॥

अब कलगण लिखते हैं—पूर्वा तीनों, अश्विनी, मधा, पुष्य,
कृत्तिका, श्रवण, मृगशिर, चित्रा, ज्येष्ठा, विशाखा ये नक्षत्र; मंगल,
शुक्र वार; चतुर्दशी ॥ ५३ ॥ द्वादशी, दूज तिथि ये सब कुलगण सं-
ज्ञक हैं इसमें जानेवालेका युद्धमें भंग और स्थायीकी जय
होती है ॥ ५४ ॥

अथ कुलाकुलगणः ।

अभिजिन्मूलमार्दा च शतभं बुधवासरः ॥ द्वितीया दशमी
पट्टी कुलाकुलगणस्त्वयम् ॥ राज्ञः संप्रस्थितस्यान्न
संविर्भवति वैरिणाम् ॥ ५५ ॥

अब कुलाकुल गण लिखते हैं—अभिजित्, मूल, आद्रा, शतभिषा
ये नक्षत्र; बुधवार; द्वितीया, दशमी, पष्ठी तिथि ये सब कुलाकुल-
गण हैं ॥ ५५ ॥ इसमें जानेवाले राजाकी वैरियोंके साथ संधि
होजाती है ॥

अथ नामादिवर्णवशास्त्रसर्गिको वर्णस्वरः ।

कछडाधभवानां स्यादकारो वर्णजः स्वरः ॥ खजढानम-
पानां तु स्वर ईकार उच्यते ॥ ५६ ॥ गरुतापयशा वर्णा
उकारस्वरभाजिनः ॥ घटथाफरसा वर्णा एकारस्वरसंज्ञकाः ॥
॥ ५७ ॥ चठदा वलहाश्वैपामोकारः कथितः स्वरः ॥
नाम्नि यश्चादिमो वर्णस्तद्वाद्वर्णजः स्वरः ॥ ५८ ॥

अब नामादिवर्णवशसे नैसर्गिक वर्णस्वर लिखते हैं—क, छ, ड,
ध, भ, व इन वर्णोंका अकारस्वर है. ख, ज, ढ, न, म, प इन
वर्णोंका ईकारस्वर है ॥ ५६ ॥ ग, रु, ता, प, य, श इन वर्णोंका
उकारस्वर है. घ, ट, थ, फ, र, स इन वर्णोंका एकारस्वर है ॥ ५७ ॥
च, ठ, दा, व, ल, ह इन वर्णोंका ओकारस्वर है जिसके नामके
आदिमें जो वर्ण होय उसी वर्णका स्वर जानलेना चाहिये ॥ ५८ ॥

अथ तिथिस्वरः ।

अकारादिस्वराः पंच नंदाद्यास्तिथयः क्रमात् ॥ निजस्वर-
तिथेन्द्रेया वालप्रभृतयः स्वराः ॥ ५९ ॥ आद्यो वालः
कुमारोन्यो युवा वृद्धस्तथा मृतिः ॥ ईपछाभकरस्त्वाद्वः
कुमारस्तवर्द्धलाभदः ॥ ६० ॥ सर्वां सिद्धिं युवा कुर्याद्वद्धो
मध्योऽधमोंतिमः ॥ ६१ ॥

अब तिथिस्वर लिखते हैं—नंदादिक पांच तिथियोंके अकारादि
पांच स्वर हैं अर्थात् नंदाका अकार, भद्राका ईकार, जयाका उकार,
रिक्ताका एकार और पूर्णाका ओकारस्वर है; अपनेस्वरकी ०.०१-

वाल आदिके स्वर जानने ॥ ५९ ॥ प्रथम वालस्वर, फिर दूसरा कुमार, तीसरा युवा, चौथा वृद्ध, पांचवां मृत्युस्वर होता है। पहिला वालस्वर थोड़ा लाभ देता है, कुमारस्वर आधा लाभ देता है ॥ ६० ॥ युवास्वर सर्वसिद्धि करता है, वृद्धस्वर मध्यम है और मृत्युस्वर अधम है ॥ ६१ ॥

अथ तात्कालिकस्वरः ।

तिथेर्गतैष्ययोगस्य यः स्यादेकादशांशकः ॥

तात्कालिकः स्वरश्चासौ स्वावस्थातः क्रमात्स्मृतः ॥ ६२ ॥

अब तात्कालिकस्वर लिखते हैं—तिथिकी गतघटी और भोग्यधटी के जोड़का म्यारहवां भाग जो होय सो अपनी अवस्थाके क्रमसे तात्कालिक स्वर होता है ॥ ६२ ॥

अथ पथिराहुचक्रम् ।

विशाखापुष्यभाऽङ्गेषाऽनुराधाऽधिशताभिधम् ॥ धनिष्ठै-

तानि धर्मे स्युश्केऽस्मिन्पथिराहुके ॥ ६३ ॥ भरणी

श्रवणो ज्येष्ठा मध्या स्वाती पुनर्वसु ॥ पूर्वाभाद्रपदेतानि

भान्यर्थे गदितानि च ॥ ६४ ॥ चित्राद्वा कृत्तिका मूलं

पूर्वाफाल्गुनिकाऽभिजित् ॥ तथा भाद्रोत्तरैतानि कामे

धिष्ण्यानि सप्त च ॥ ६५ ॥ उत्तराफाल्गुनी हस्तो रोहिणी

रेती मृगः ॥ पूर्वापादाद्यं मोक्षे भान्यतानि बुधा जग्नः ॥

॥ ६६ ॥ धर्मक्षेसंस्थिते सूर्ये चंद्रो मोक्षार्थगः शुभः ॥

अर्थक्षेभास्करे चंद्रः प्रशस्तो धर्ममोक्षगः ॥ ६७ ॥

सूर्ये कामक्षेगे श्रेष्ठो मोक्षधर्मार्थगः शशी ॥ मोक्षधिष्ण्य-

स्थिते सूर्ये चंद्रमा धर्मगः शुभः ॥ ६८ ॥ अन्यथा त्वशुभो

ज्ञेयो यात्रायां शुभमीप्सुभिः ॥ ६९ ॥

अब पथिराहुचक्र लिखते हैं—विशाखा, पुष्य, आङ्गेषा,

अनुराधा, अधिनी, शतभिषा, धनिष्ठा ये नक्षत्र पथिराहुके चक्रमें

धर्मसार्गके हैं ॥६३॥ भरणी, श्रवण, ज्येष्ठा, मघा, स्वाती, पुनर्वसू, पूर्वभाद्रपदा ये नक्षत्र अर्थसार्गके हैं ॥ ६४ ॥ चित्रा, आर्द्धा, कृत्तिका, मूल, पूर्वफाल्गुनी, अभिजित, उत्तराभाद्रपदा ये सात नक्षत्र कामसार्गके हैं ॥ ६५ ॥ उत्तरफाल्गुनी, हस्त, रोहिणी, रेवनी, मृगशिरा, पूर्वपात्रा, उत्तरपात्रा ये नक्षत्र मोक्षसार्गके हैं ऐसा पंडितोंने कहा है ॥ ६६ ॥ यदि धर्मनक्षत्रमें सूर्य स्थित होय और चंद्रमा मोक्ष वा अर्थमें स्थित होय तो यात्रा शुभ होती है और जो अर्थमें सूर्य होय और धर्म वा मोक्षमें चंद्रमा स्थित होय तो यात्रा श्रेष्ठ होती है ॥ ६७ ॥ सूर्य तो कामसंज्ञक नक्षत्रोंमें और चंद्रमा धर्म और अर्थसंज्ञक नक्षत्रोंमें होय तो श्रेष्ठहोता है तथा मोक्ष नक्षत्रोंमें सूर्य स्थित होय तो चंद्रमा धर्मनक्षत्रोंमें शुभ होता है ॥६८॥ अन्यथा यात्रा अशुभ होती है यात्रामें शुभ चाहनेवाले पुरुषोंके यह पायेराहुचक जानना चाहिये ॥ ६९ ॥

अथ यात्रायां गोरक्षकमते तिथिचकं तत्फलं च ।

मासे शुक्लादिके पाँपे तिथयः प्रतिपन्मुखाः ॥ द्वितीयाद्यास्तु
माघे स्युस्तृतीयाद्यास्तु फाल्गुने ॥ ७० ॥ एवं चान्येषु
मासेषु तिथ्यो द्वादशसंज्ञकाः ॥ लेख्याश्वके त्रयोदश्याः
संविहाय तिथिचयम् ॥ ७१ ॥ तृतीयादित्रये यत्तत्रयोद-
श्यादिके फलम् ॥ मासेषु तिथिकोषस्थितिथीनां क्रमतः
फलम् ॥ ७२ ॥ याने प्राच्यादिकाष्टासु वक्ष्ये द्वादशधा क्रमात् ॥
सौख्यं शून्यं धनार्तिश्च लाभः प्रीतिर्भवं धनम् ॥ ७३ ॥
कपूरं सौख्यं कलिमृत्युः शून्यं प्राच्यां फलं क्रमात् ॥ क्षेशो नैस्वं
व्यथा सौख्यं द्रव्यातिर्लभपीडने ॥ सौख्यं लाभो व्यथो
लाभः सौख्यं याम्यदिशि ध्रुवम् ॥ ७४ ॥ भवं नैस्वं
प्रियातिश्च भद्रं द्रव्यं मतिर्धनम् ॥ क्षेशाछाभोर्थसिद्धिः

स्वं लाभो मृत्युश्च पश्चिमे ॥ ७५ ॥ धनं मिश्रं धनं लाभः
सौख्यं लाभो व्यथा सुखम् ॥ कष्टं द्रव्यत्वशून्यत्वे कष्टं-
मुत्तरदिक्फलम् ॥ ७६ ॥

अब यात्रामें गोरक्षमतमें तिथिचक और उसका फल लिखते हैं-
पौपमासमें शुक्लप्रतिपदासे लेकर और माघमें शुक्लादितीयासे लेकर,
फालगुनमें शुक्लातृतीयासे लेकर इसी प्रकार अन्य मासोंमें
शुक्लाचतुर्थी, शुक्लापञ्चमी आदि तिथियोंसे लेकर वारह तिथि चक्रमें
लिखें और त्रयोदश्यादि तीन तिथि (१३-१४-३०) छोड़देवे
अर्थात् नहीं लिखें ॥ ७० ॥ ७१ ॥ तृतीयादि तीन तिथियोंका जो
फल है सोही त्रयोदश्यादि तीन तिथियोंकाभी जानै. मासोंमें
तिथिकोष्ट लिखेहुए हैं तिनमें वारहतिथियोंका वारह प्रकारका फल
क्रमसे पूर्वादि दिशाओंकी यात्रामें जो होता है उसे कहते हैं सौख्य,
शून्य, धननाश, लाभ, प्रीति, भय, धन ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ कष्ट, सौख्य,

त्रय गोरक्षमनेन यात्राचक्रम् ।

पं.	ग.	पा.	च.	च.	ज्य.	आ.	आ.	भा.	आ.	का.	मा.	पू.	दशिणे	पश्चिमे	उत्तरे
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	सौख्य	धन	धन
२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	शून्य	दरिद्र	दरिद्र	मिथ
३	४	५	६	७	८	९	०	११	१२	१	३	धननाश	व्यथा	प्रिया	धन
४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१	२	३	लाभ	सौख्य	भद्र	लाभ
५	६	७	८	९	०	१०	११	१२	१	३	४	प्रोति	द्रव्य	द्रव्य	सौख्य
६	७	८	९	०	१०	११	१२	१	३	४	५	भय	लाभ	मति	लाभ
७	८	९	०	११	१२	१	२	३	४	५	६	धन	पोहा	धन	व्यथा
८	९	०	११	१२	१	२	३	४	५	६	७	कष्ट	सुख	हुश	सुख
९	०	११	१२	१	२	३	४	५	६	७	८	सुख	लाभ	लाभ	कष्ट
१०	११	१२	१	२	३	४	५	६	७	८	९	सुख	लाभ	लाभ	कष्ट
११	१२	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	वस्ति	द्रव्य	मर्यादि	द्रव्य
१२	१२	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	शुभु	लाभ	प्रिया	शून्य
१३	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	शुभ	सुख	कष्ट	कष्ट

कलह, मृत्यु, शून्य ये फल क्रमसे पूर्वदिशाकी यात्राका है. क्लेश, निर्धनता, व्यथा, सौख्य, द्रव्याति, लाभ, पीड़ा, सौख्य, लाभ, व्यय, लाभ, सौख्य यह फल दक्षिण दिशाका है ॥ ७४ ॥ भय, निर्धनता, प्रियकी प्राप्ति, कल्याण, द्रव्यलाभ, मति, धन, क्लेशसे लाभ, अर्थसिद्धि, धन, लाभ, मृत्यु यह फल पश्चिमदिशाका है ॥ ७५ ॥ धन, मिथ्र, धन, लाभ, सौख्य, लाभ, व्यथा, सुख, कष्ट, द्रव्यत्व, शून्यत्व, कष्ट यह फल उत्तर दिशाका है ॥ ७६ ॥

अथ सर्वांकयोगफलम् ।

तिथिनक्षत्रवारैक्यं सप्ता ७ इष्टा ८ इग्नि ३ विभाजितम् ॥
आदिशून्येऽतिपीडा स्यान्मध्यशून्ये भयं तथा ॥ ७७ ॥
शून्येत्ये वपुषो रोगो मृत्युः शून्यत्रये ध्रुवम् ॥ जयश्चाऽर्थागमः सौख्यं शेषे च स्थानकत्रये ॥ चिंत्यमेतद्विद्यादौ शुक्लाद्यास्तिथयोत्त्र तु ॥ ७८ ॥

अब सर्वांकयोगफल लिखतेहें—निथि, नक्षत्र, वारको जोड़कर उसे तीन जगह लिखें एक जगह सातका, दूसरी जगह आठका, तीसरी जगह तीनका, भाग दे आदिमें शून्य वचै तो अतिपीडा होय, मध्यमें शून्य वचै तो भय होय ॥ ७७ ॥ अंत्यमें शून्य वचै तो शरीरमें रोग होय और तीनों जगह शून्य वचै तो मृत्यु होय और जो तीनों जगह अंक शेष वचैं तो क्रमसे जय, अर्थागम, सौख्य होताहै यह सर्वांकयोग यात्रामें अवश्यही विचारै. परन्तु इसमें शुक्रपक्षकी प्रतिपदासे लेकर तिथि जोड़नी चाहिये ॥ ७८ ॥

अथाडलभ्रमौ त्याज्यौ ।

रविभात्साभिजिज्ञाद्रि सप्तभि ७ ब्र २ द्वि ७ शेषके ॥
आडलोथ त्रि ३ पट् ६ शेषे भ्रमो नेष्टौ गमे त्विमौ ॥ ७९ ॥

अब आडल और भ्रम त्याज्य लिखते हैं—सूर्यके नक्षत्रसे आभि-
जित्समेत चंद्रमाके नक्षत्रतक गिनै सातका भाग दे शेष दो ३ वा
सात ७ वचैं तो आडल योग होता है और तीन ३ अथवा छह ६ वचैं
तो भ्रम योग होता है ये दोनों योग यात्रामें नेष्ट हैं ॥ ७२ ॥

अथ प्रशस्तो हैवरयोगः ।

चांद्रमं सूर्यभाद्युक्तं पक्षादितिथिवासरैः ॥

नवातं सप्तशेषे तु हैवरः स्याच्छुभो गमे ॥ ८० ॥

अब प्रशस्त हैवरयोग लिखते हैं—सूर्यके नक्षत्रसे चंद्रमाके नक्षत्र
तक गिनै किर उसमें पक्षादितिथि और वार जोड़ दे नौका भाग
देय जो सात ७ शेष वचैं तो हैवर योग होता है यात्रामें शुभ
कहा है ॥ ८० ॥

अथ घवाडाख्यः शुभयोगः ॥

रविभाद्यांद्रमं व्रिधं ३ तिथियुक्सप्त ७ भाजितम् ॥

घवाडस्तु व्रिशेषे स्याद्वमने श्रेष्ठ ईरितः ॥ ८१ ॥

अब घवाडाख्य शुभयोग लिखते हैं—सूर्यके नक्षत्रसे चंद्रमाके
नक्षत्रतक गिनै तीनसे गुणा करके तिथि जोड़ देय सातका भाग
देनेसे जो तीन शेष वचैं तो घवाड़ योग होता है यात्रामें श्रेष्ठ
कहा है ॥ ८१ ॥

अथ घातचंद्राः ।

जन्मस्थो मेपराशोः स्याद्वप्भस्य तु पंचमः ॥ नवमो

मिथुनस्येदुद्दितीयः कर्कटस्य च ॥ ८२ ॥ पष्टस्तु सिंह-

राशेश्च कन्याया दशमः स्मृतः ॥ तृतीयस्तु तुलाराशेष्ट-

श्विकस्य च सप्तमः ॥ ८३ ॥ चतुर्थो धनिनो ज्येष्ठो

मकरस्याऽप्मस्तथा ॥ कुंभस्यैकादशः प्रोक्तो मीनस्य

द्वादशः स्मृतः ॥ ८४ ॥ घातचंद्रा इसे वर्ज्या यात्रायाँ

राजदर्शने ॥ विवाहेवाहनारोहे युद्धे भैपञ्चसेवने ॥ विवाहा-
दिशुभेऽन्यत्र नैते चिंत्या मनीषिभिः ॥ ८५ ॥

अब घातचंद्र लिखते हैं—मेष्ठराशिको जन्मका चंद्रमा घानक
है, वृपको पांचवां, मिथुनको नौवां, कर्कको दूसरा ॥ ८२ ॥ सिंहको
छठा, कन्याको दशवां, तुलाको तीसरा, वृश्चिकको सातवां ॥ ८३ ॥
धनुको चौथा, मकरको आठवां, कुंभको ग्यारहवां, मीनराशिको वार-
हवां चंद्रमा घातक होता है ॥ ८४ ॥ यह घातकचंद्रमा यात्रामें,
राजदर्शनमें, विवाहमें, सवारीपर चढ़नेमें, युद्धमें, औषध सेवनमें,
विवाहादि शुभ कार्योंमें वर्जित है और अन्य कार्योंमें शुभ है ऐसा
पहितोंको विचारना चाहिये ॥ ८५ ॥

अथ घातनक्षत्राणि ।

मेषे मघा वृपे हस्तो मिथुने स्वातिरुच्यते ॥ कर्कटे चानु-
राधाख्यं सिंहे मूलं प्रकीर्तिम् ॥ ८६ ॥ कन्यायां श्रवणो
ज्येयस्तुलायां शततारका ॥ वृश्चिके रेवतीधिष्ण्यं भरणी
धनुषि स्मृता ॥ ८७ ॥ मकरे रोहिणी कुंभे चार्द्वाश्लेषा तु
मीनभेदा ॥ एतानि घातधिष्ण्यानि जन्मराशौ नरस्य च ॥ ८८ ॥

अब घात नक्षत्र लिखते हैं—मेष्ठराशिको मघा नक्षत्र घात है, वृपको
हस्त, मिथुनको स्वाति, कर्कको अनुराधा, सिंहको मूल, कन्याको
श्रवण, तुलाको शतभिया, वृश्चिकको रेवती, धनुको भरणी, मकरको
रोहिणी, कुंभको आर्द्वा, मीनको आश्लेषा मनुप्योंकी जन्मराशिपर
यह घातक नक्षत्र कहे हैं ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥

अथ घातवाराः ।

मेषे रविर्द्विधः कर्के मिथुने चंद्र एव च ॥ कन्यावृपभसिंहेऽ-
शनिः स्यान्मकरे कुजः ॥ ८९ ॥ धनुर्वृश्चिकमीनेषु हृष्टे
तुलकुंभयोः ॥ जीवश्रैते जन्मराशौ घातवारा द्वुवेः स्तुते ॥

अब घातवार लिखते हैं—मेष राशिवालेको रविवार, कर्क राशिवालेको बुधवार, मिथुन राशिको चंद्रवार, कन्या वृष्टि सिंह राशिवालेको शनिवार, मकर राशिवाले मनुष्योंको मंगलवार ॥ ८९ ॥ धनु वृश्चिक मीन राशिवालेको शुक्रवार, तुला और कुंभ राशिवालेको वृहस्पतिवार घात है पंडितोंने जन्मराशिपर ये घातवार कहे हैं ॥ ९० ॥

अथ घाततिथयः ।

मेषवृश्चिकयोनंदा भद्रा मिथुनकर्कयोः ॥

कन्यावृष्टममीनेषु पूर्णा घाततिथिः स्मृता ॥ ९१ ॥

अब घाततिथियें लिखते हैं—मेष और वृश्चिक राशिको नंदा तिथि; मिथुन और कर्कराशिको भद्रा; कन्या, वृष्टि, मीन राशिको पूर्णा घाततिथि हैं ॥ ९१ ॥

अथ घाततिथीनां त्याज्यघटिकाः ।

कार्यं त्वावश्यके नाडीपङ्कुं घाततिथौ बुधैः ॥

आदिमं संपरित्याज्यं नो निंद्याः शेषनाडिकाः ॥ ९२ ॥

अब घाततिथियोंकी त्याज्यघटिका लिखते हैं—आवश्यक कार्य होय तो तिथिके आदिकी छह घडी पंडितोंने त्याज्य कही हैं और शेष घडी शुभ होती हैं निंदित नहीं ॥ ९२ ॥

अथावश्यके घातचंद्रस्य नक्षत्रपादास्त्याज्याः ।

मेषेषु कृत्तिकाद्योंप्रि १ वृष्टे चित्राद्वितीयकः २ ॥ युग्मे

शतेष्वृतीयोंप्रि ३ मंघाया अपि कर्कटे ॥ ९३ ॥ धनिष्ठाय

१ स्तथा सिंहे स्त्रियां चार्द्वातृतीयकः ३ ॥ तुले मूलद्वि-

तीयोंप्रि २ रली चाहेस्त्रृतीयकः ॥ ९४ ॥ पूर्भातुयों धनुषि

हि मघातुयों ४ मृगे तथा ॥ कुंभे मूलचतुर्थोऽ४ प्रिमीनि

पूर्भातृतीयकः ॥ ९५ ॥ त्याज्या घातविधौ चोक्तपादा

आवश्यके बुधैः ॥ ९६ ॥

अब आवश्यकमें घातचंद्रका नक्षत्रपाद त्याज्य लिखते हैं—मेप राशिवालेको कृत्तिकाका पहिला चरण, वृष्ट राशिवालेको चित्राका दूसरा चरण, मिथुन राशिवालेको शतभिपाका तीसरा चरण, कर्क राशिवालेको मधाका तीसरा चरण॥१३॥ सिंह राशिवालेको धनिष्ठाका पहिला चरण, कन्या राशिको आद्रीका तीसरा चरण, तुला राशिको मूलका दूसरा चरण, वृश्चिक राशिको आश्लेषाका तीसरा चरण ॥ १४ ॥ धनु राशिको पूर्वाभाद्रपदका चौथा चरण, मकर राशिको मधाका चौथा चरण, कुंभ राशिवालेको मूलका चौथा चरण, मीन राशिवालेको पूर्वाभाद्रपदका तीसरा चरण त्याज्य है. पंडितोंने आवश्यक कार्यमें घातचंद्रमाविषेनक्षत्रोंके उक्त चरण त्याज्य बताये हैं॥१५॥१६॥

अथ सूर्यादयो घातग्रहाः । तत्र घातसूर्याः ।

वेदे ४ भा ८८का १२श्व नन्दे ९दु १ रसदि १० शैल-
७ संयिताः ॥ रुद्र १३ नेत्रा २ ग्रि ३ संख्याश्व घातसूर्या-
स्त्वमेऽजतः ॥ १७ ॥

अब सूर्यादि घातग्रह लिखते हैं—तहाँ पहिले घातसूर्य लिखते हैं—
मेपादिक राशियोंके क्रमसे चौथे, आठवें, वारहवें, नौवें, जन्मके,
छठे, दशवें, सातवें, ग्यारहवें, दूसरे, तीसरे सूर्य घातक होते हैं॥१७॥

अथ घातचंद्राः प्रसंगात्पुनरपि ।

इंदु १ वाणां ८ क ९ नेत्रांश्व ६ दिग्ग १० ग्रि ३ नग ७
संख्यकाः ॥ वेदा ४ष्टे ८ शा ११क १२ संख्यांका मेपाद्वा-
तेदवः क्रमात् ॥ १८ ॥

अब प्रसंगसे पुनः घातचंद्र लिखते हैं—जन्मका, पांचवाँ, नौवाँ,
दूसरा, छठा, दशवाँ, तीसरा, सातवाँ, चौथा, आठवाँ, ग्यारहवाँ,
वारहवाँ चंद्रमा मेपादिक राशियोंके लिये क्रमसे घात होताहै ॥१८॥

अथ घातभौमाः ।

वाणां ८ के ९ दु १ रसा ६ शा १० द्वक् २ शैल ७ रुद्रे

११ भ८ संमिताः ॥ सूर्या १२ इश्य ३ विधि ४ मिता
मेषाक्रमद्वातधरात्मजाः ॥ ११ ॥

अब घात भौम लिखते हैं—पांचवाँ, नौवाँ, जन्मका, छठा, दशवाँ,
दूसरा, सातवाँ, ग्यारहवाँ, आठवाँ, बारहवाँ, तीसरा, चौथा मंगल
क्रमसे मेषादि राशियोंके लिये घात होता है ॥ ११ ॥

अथ घातवुधाः ।

नेत्रां २ गा ६ शा १० इश्वि ३ शैले ७ श ११ वेदा ४ ऐ
८ पञ्च ५ क ३ संमिताः ॥ द्वादशे १२ न्दु १ मिता घात-
वोधनाः क्रमतस्त्वजात् ॥ १०० ॥

अब घात वुध लिखते हैं—दूसरा, छठा, दशवाँ, तीसरा, सातवाँ,
ग्यारहवाँ, चौथा, आठवाँ, पांचवाँ, नौवाँ, बारहवाँ, जन्मका मेषा-
दिराशियोंको क्रमसे वुध घात होता है ॥ १०० ॥

अथ घातगुरवः ।

रसा ६ शा १० नेत्र २ शैले ७ श ११ वह्नि ३ नागा ८
इर्क १२ संमिताः ॥ नन्दे ९ द्व १ वधी ४ पु ५ संख्यास्तु
घातेज्या मेषतः क्रमात् ॥ १०१ ॥

अब घातगुरु लिखते हैं—छठा, दशवाँ, दूसरा, सातवाँ, ग्यारहवाँ,
तीसरा, आठवाँ, बारहवाँ, नौवाँ, जन्मका, चौथा, पांचवाँ वृहस्पति
मेषादि राशियोंके क्रमसे घात होता है ॥ १०१ ॥

अथ घातभृगवः ।

शैल ७ दिग् १० वह्नि ३ नागा ८ इर्क १२ वेद ४ नन्दे ९
दुभि १ मिता� ॥ आशा १० इश्वि २ वाणी ५ ग ९ संख्या
घातगुक्रास्तु मेषभात् ॥ १०२ ॥

अब घात भृगु लिखते हैं—सातवाँ, दशवाँ, तीसरा, आठवाँ, बार-
हवाँ, चौथा, नौवाँ, जन्मका, दशवाँ, दूसरा, पांचवाँ, छठा घात
शुक्र मेषादि गणियोंको क्रमसे होता है ॥ १०२ ॥

अथ घातशनयः ।

वत्ति ३ शैले ७ शा ११ वेदा ४ ५४ ८ सूर्य १२ वाणी
६ कृ ९ पण्मिताः ॥ दि १० गिंदु १ नेत्र २ संख्याश्च
मेपाद्वातशनैश्चराः ॥ १०३ ॥

अब घातशनि लिखतेहैं—तीसरा, सातवां, न्यारहवां, चौथा,
आठवां, बारहवां, पांचवां, नौवां, छठा, दशवां, जन्मका, दूसरा
शनैश्चर मेपादि राशियोंकेलिये क्रमसे घात होताहै ॥ १०३ ॥

अथ स्त्रीणां घातचंद्राः ।

भू १ नागा ८ थां ७ कृ ९ वेदा ४ ग्रि ३ रसा दृ अच्या २
शा १० शिवे ११ पु ५ भिः ॥ सूर्येश्च १२ प्रमिता मेपा-
द्वातचंद्रा सृगीहशाम् ॥ १०४ ॥

अब स्त्रियोंके घातचंद्र लिखतेहैं—जन्मका, आठवां, सातवां, नौवां,

अथ तिथ्यादिग्रहघातचक्रम् ।

राशि	तिथि	वार	नक्षत्र	मू.	चं.	मं.	वु.	वृ.	शु.	ग्र.	द.	स्त्रीघातचं.
मेप	नेदा	रवि	मध्या	४	१	५	२	६	७	३	१	
वृष	पूर्णा	शनि	हस्त	८	५	९	६	१०	१०	७	८	
मिथुन	भद्रा	चंद्रमा	स्वाति	१२	९	१	१०	२	३	११	७	
वक्र	मट्रा	मुध	मनुरा.	९	२	६	३	५	८	४	९	
सिंह	जया	शनि	मृत्ति	१	६	१०	७	११	१२	८	४	
फन्या	पूर्णा	शनि	ध्येय	६	१०	२	११	३	४	१०	३	
तुला	रिचा	वृद्धन्य	शत.	१०	३	७	४	८	९	५	६	
सूर्योदय	नेदा	शुक्र	रेखनी	७	७	११	८	१२	१	९	२	
षष्ठु	जया	शुक्र	भरणी	११	४	८	५	९	१०	६	१०	
मकर	रिचा	मंगल	रोहिणी	१२	८	१२	९	१	२	१०	११	
कुम्भ	जया	वृद्धन्य	आट्रा	८	११	३	१२	५	६	१	५	
मीन	पूर्णा	शुक्र	आर्ये	३	१२	५	१	५	६	२	१२	

चौथा; तीसरा, छठा, दूसरा, दशवाँ ग्यारहवाँ, पांचवाँ, वारहवाँ चंद्रमा श्लियोंके लिये मेषादिराशियोंके क्रमसे बात होताहै ॥ १०४ ॥

अथ चंद्रवासस्तत्फलम् ।

मेषसिंहधनुःसंस्थः पूर्वस्यां दिशि चंद्रमाः ॥ दक्षिणस्यां वसेन्नित्यं कन्यावृपभनक्रगः ॥ १०५ ॥ तुलामिथुन-कुंभस्थः पश्चिमायां निशाकरः ॥ कर्कवृश्चिकमीनेषु गत-स्थितेष्टथोत्तरे ॥ १०६ ॥ संमुखेऽब्जेऽर्थलाभः स्यात्सुखं संपत्त दक्षिणे ॥ पृष्ठगे निधनं यातुर्वामभागे वसुक्षयः ॥ १०७ ॥ चंद्रवासस्त्वयं प्रोक्तो दिशो राश्यनुसारतः ॥ लोकाद्वा व्यवहाराय मूलं तस्य विचिंत्यताम् ॥ १०८ ॥

अथ चन्द्रवास और उसका फल लिखते हैं—मेष सिंह और धनुका चंद्रमा पूर्व दिशामें रहता है, कन्या, वृप, मकरका चंद्रमा दक्षिण दिशामें रहता है ॥ १०५ ॥ तुला और मिथुन, कुंभका चंद्रमा पश्चिम दिशामें रहता है, कर्क, वृश्चिक, मीनका चंद्रमा उत्तर दिशामें रहता है ॥ १०६ ॥ चंद्रमा समुख होय तो अर्थलाभ होता है और दक्षिणमें होय तो सुख और संपत्ति होती है और पीठपीछे होय तो जानेवालेकी मृत्यु होती है और वामभागमें होय तो धनकी हानि होती है ॥ १०७ ॥ दिशाकी राशिके अनुसार लोकसे व्यवहारके लिये यह चंद्रमाका वास कहा है इसका मूलकारण विचारना चाहिये ॥ १०८ ॥

अथावश्यकैकस्मिन्नपि राशौ घटिकात्म- कचंद्रवासश्चतुर्दिक्षु कैश्चिदुक्तः ।

नाभ्यः सप्तदश प्राच्यां याम्यां तिथिमिता १६ स्ततः ॥
ततः स्वर्गमिता: २१ प्रत्यगुत्तरस्यां तु पोडश १६ ॥ १०९ ॥
पुनः सप्तदश १७ प्राच्यां दक्षिणस्यां चतुर्दश १४ ॥

पञ्चिमे नखसंख्या २० स्ता उदीच्यां पंचभूमिताः १६
 ॥ ११० ॥ वारद्वयं भ्रमश्वेदोः स्ववासस्थानतः क्रमात् ॥
 एकराशिस्थितोपीह तद्विशाजं फलं दिशेत् ॥ १११ ॥

अब आवश्यकमें एक राशिमें घटिकात्मक चंद्रवास चतुर्दिश्मुमें
 किसीका कहा लिखतेहैं—चन्द्रमा सत्रहघडी पूर्वमें और पंद्रहघडी
 दक्षिणमें, इक्षीसघडी पञ्चिममें, सोलहघडी उत्तरमें ॥ १०९ ॥ और फिर
 सत्रहघडी पूर्वमें, चौदहघडी दक्षिणमें, वीसघडी पञ्चिममें, पंद्रहघडी
 उत्तरमें रहताहै ॥ ११० ॥ अपने निवासस्थानके क्रमसे चंद्रमाका
 दोवार भ्रमण होताहै. यद्यपि चंद्रमा एकराशिमें स्थितभी रहताहै
 परन्तु फल उसी दिशाका देताहै जिसमें कि, वह स्थितहै ॥ १११ ॥

अथ योगिनीवासः ।

नवमीप्रतिपक्षिथ्योः प्राच्यां तिष्ठति योगिनी ॥ अग्निकोणे
 तृतीयायामेकादश्यां तथैवहि ॥ ११२ ॥ त्रयोदश्यां च
 पंचम्यां दक्षिणस्यां तु योगिनी ॥ द्वादश्यां नैऋते ज्येया
 चतुर्थ्यामपि सर्वदा ॥ ११३ ॥ चतुर्दश्यां च पष्ठ्यां च
 पञ्चिमायां दिशि त्रिवर्ष ॥ वायुकोणे तु सप्तम्यां पूर्णिमायां
 तथैव च ॥ ११४ ॥ योगिन्युत्तरदिग्भागे द्वितीयादशमीदिने
 ॥ अमायां च तथाष्टम्यामेशान्यां योगिनी भवेत् ॥ ११५ ॥
 योगिनी संसुखे द्यूते गमे युद्धे च मृत्युदा ॥ अशुभा वाम-
 भागस्था पृष्ठे दक्षे जयप्रदा ॥ ११६ ॥

अब योगिनीवास लिखतेहैं—नोमी और पड़वा तिथिमें योगिनी
 पूर्वमें रहतीहै, तृतीया और एकादशीको अग्निकोणमें योगिनी रह-
 तीहै ॥ ११२ ॥ त्रयोदशी और पंचमीको दक्षिणमें योगिनी रहतीहै,
 द्वादशी और चौथको नैऋत्यमें योगिनी रहतीहै ॥ ११३ ॥
 और पष्ठीको पञ्चिममें योगिनी रहतीहै, ततमी वैत्ति-

वायव्यमें योगिनी रहती है ॥ ११४ ॥ द्वितीया और दशमीको उत्तरमें योगिनी रहती है, अमावस्या और अष्टमीको ईशानमें योगिनी रहती है ॥ ११५ ॥ जुआ खेलनेमें, यांत्रामें, युद्धमें सम्मुख योगिनी मृत्यु देनेवाली, वामभागमें अशुभ और पीठकी तथा दाहिनी योगिनी जय देनेवाली होती है ॥ ११६ ॥

अथ तात्कालिकयोगिनी ।

प्राच्युत्तराभिनैऋत्ययाम्यपश्चिमवायुपु ॥ ऐशान्यां योगिनी गच्छेत्स्वदेशः कथितः क्रमात् ॥ ११७ ॥ यामाद्वं भोगकालोस्यास्तिथौ द्विश्रयणं सदा ॥ तात्कालयोगिनी चैपा जयदा पृष्ठदक्षिणे ॥ ११८ ॥

अब तात्कालिकयोगिनी लिखते हैं—पूर्व, उत्तर, अश्विकोण, नैऋत्य, दक्षिण, पश्चिम, वायव्य, ईशान इन दिशाओंमें योगिनी क्रमसे आधेआधे ग्रहर निवास करती है और एक तिथिमें योगिनीका ध्रमण दोबार होता है यह ही तात्कालयोगिनी कहाती है पीठकी और दाहिनी जय देनेवाली होती है ॥ ११७ ॥ ११८ ॥

अथ कालपाशः ।

उत्तरस्यां रवेवारे वायौ चंद्रदिने भवेत् ॥ भौमवारे प्रतीच्यां तु नैऋत्यां बुधवासरे ॥ ११९ ॥ यमाशायां गुरोवारे वहेदिंशि भृगोदिने ॥ प्राच्यां दिशि शनेवारे कालः प्रोक्तो मनीषिभिः ॥ १२० ॥ कालस्याभिमुखः पाशो वैपरीत्यं तयोनिंशिः ॥ ताबुभौ संमुखौ त्याज्यौ वामदक्षिणगौ शुभौ ॥ १२१ ॥

अब कालपाश लिखते हैं—रविवारको उत्तरमें, सोमवारको वायव्यमें; मंगलको पश्चिममें, बुधको नैऋत्यमें ॥ ११९ ॥ वृहस्पतिको दक्षिणमें, शुक्रको अश्विकोणमें, शनैश्वरको पूर्वमें काल रहता है ऐसा पूर्वपंटितोंने कहा है ॥ १२० ॥ और कालके सम्मुख पाश रहता है

और रात्रिमें दोनों विपरीत रहते हैं अर्थात् दिनमें जिधर काल होता है उस दिशामें रात्रिमें पश्च रहता है और दिनमें जिस दिशामें पश्च रहता है उसी दिशामें रात्रिमें काल रहता है दोनों काल और पश्च सम्मुख त्याज्य हैं और वाम, दक्षिणमें शुभ होते हैं ॥ १२१ ॥

अथ यामार्द्धात्मकश्च द्विविधो राहुः ।

पूर्वाद्विवा पराद्वात्रौ पश्चीपशीदिशं तमः ॥

यामार्द्धं भ्रमतीशानानुयातुयां घटीद्रव्यम् ॥ १२२ ॥

अब यामार्द्धात्मक द्विविध राहु लिखते हैं—राहु पूर्वसे दिनमें और पश्चिमसे रात्रिमें आधे आधे प्रहर भ्रमण करता है, छठी छठी दिशामें जाता है दूसरे प्रकारका राहु ईशान दिशासे चौथीचौथी दिशामें दोदोघडी रहता है ॥ १२२ ॥

एतदेव स्पष्टयति । अथ दिवार्द्धयामराहुः ।

राहुर्यामार्द्धमानेन याति सूर्योदयात्कमात् ॥

शक्वायुयमेशां द्विवक्षिणलौरक्षसां दिशि ॥ १२३ ॥

इसी वातको स्पष्ट लिखते हैं—सूर्योदयसे लेकर आधे आधे प्रहर राहु कमसे पूर्व, वायव्य, दक्षिण, ईशान, पश्चिम, आम्निकोण, उत्तर, नैऋत्य दिशामें रहता है ॥ १२३ ॥

अथ रात्रावर्द्धयामराहुः ।

रात्रौ वर्षणवहीं दुरक्षः शक्वमरुदिशि ॥

याम्यां शैवदिशि प्रोक्तो भ्रमो यामार्द्धमानतः ॥ १२४ ॥

अब रात्रिमें अर्द्धयामराहु लिखते हैं—रात्रिमें राहु आधे आधे प्रहर पश्चिम, आम्नेय, उत्तर, नैऋत्य, पूर्व, वायव्य, दक्षिण इन दिशाओंमें कमसे भ्रमण करता है ॥ १२४ ॥

अथ मुहूर्तात्मकराहुः ।

ईशांतकमरुच्छकरक्षश्चंद्रानलांभसाम् ॥

दिशि भ्रमत्यगुर्नाडीद्रव्यमानाद्विवानिशम् ॥ १२५ ॥

ज्येऽन्नपोदशांशस्तु मुहूर्तोऽयं दिवानिशम् ॥ १२६ ॥

अब मुहूर्तात्मकराहु लिखतेहैं—ईशान, दक्षिण, वायव्य, पूर्व, नैऋत्य, उत्तर, आन्द्रेय, पश्चिम इन दिशाओंमें राहु दोदोघड़ी रात्रि-दिन भ्रमण करताहै ॥ १२५ ॥ यहांपर दिनका अथवा रात्रिका सोलहवां भाग मुहूर्त होताहै ऐसा जानना चाहिये ॥ १२६ ॥

अथ राहुफलम् ।

द्विविधः पृष्ठगो राहुः शुभदो दक्षिणेषि च ॥

स चेत्स्याद्योगिनी युक्तस्तदा युद्धे जंयो ध्रुवम् ॥ १२७ ॥

वामगः संमुखस्त्याज्यो यत्नाद्युद्धे शुभेप्सुना ॥ १२८ ॥

अब राहुफल लिखतेहैं—दोनों प्रकारका राहु पीठपीछे और दाहिना शुभदायक होताहै और जो योगिनीयुक्त होय तो युद्धमें अवश्य जय होतीहै ॥ १२७ ॥ शुभ चाहनेवाला मनुष्य युद्धमें वाम तथा सम्मुख राहुको यत्नपूर्वक त्याग देय ॥ १२८ ॥

अथ परिघदंडः ।

कृत्तिकातश्चतुर्दिक्षु सप्तसप्त च पूर्वतः ॥

पारिघं लंघयेत्रैव वायव्याऽनलदिग्गतम् ॥ १२९ ॥

अब परिघदंड लिखतेहैं—कृत्तिकासे लेकर सातसात नक्षत्र पूर्वादि दिशाओंमें क्रमसे लिखे वायव्यसे लेकर आन्द्रिकोणतक खेंचाहुआ-रेस्ता परिघदंड होताहै तिसका उछंघन नहीं करै ॥ १२९ ॥

अथ परिघे विदिङ्ग्निर्णयः ।

पूर्वदिग्द्वारमैर्यायाद्विशमग्रे: प्रदक्षिणाम् ॥

विदिक्षेवं तथान्यासु जयेप्सुनृपतिः सदा ॥ १३० ॥

अब परिघमें विदिङ्ग्निर्णय लिखतेहैं—पूर्वदिग्द्वारके नक्षत्रोंमें दाहिने मार्गसे अग्निकोणमें यात्रा करे, दक्षिणदिशाके नक्षत्रोंमें नैऋत्यकोणमें यात्रा करे, पश्चिमदिशाके नक्षत्रोंमें वायव्यकोणमें

यात्रा करै और उत्तरदिशाके नक्षत्रोंमें ईशानकोणमें यात्रा करै. जय चाहनेवाले राजाको इस प्रकारसे कहेहुए नक्षत्रोंमेंही यात्रा करनी चाहिये ॥ १३० ॥

अथावश्यके परिघोल्लंघनम् ।


कृत्ये चावश्यके गच्छेद्विलङ्घ्य खलु पारिघम् ॥

त्यक्त्वा शूलं सदा शुद्धिर्दिग्गमस्य तदा नृपः ॥ १३१ ॥

अब आवश्यकमें परिघोल्लंघन लिखतेहैं—आकश्यक कार्यमें परिघको उल्लंघन करकेभी राजा यात्रा करै परन्तु दिशाशूलको त्याग-देय और दिशाकी लज्जा शुद्ध होय ॥ १३१ ॥

अथ परिघदंडचक्रम्

कृ. रो. मृ. वा. पु. पु. आमेया



अथ सर्वदिग्गमने श्रेष्ठानि भानि ।

पुष्यहस्तानुराधाद्ये सर्वदिग्गमनं शुभम् ॥ १३२ ॥

अब सर्वदिग्गमनमें श्रेष्ठ नक्षत्र लिखतेहैं—पुष्य, हस्त, अनुराधा, अभिनी इन नक्षत्रोंमें सब दिशाओंकी यात्रा शुभ होतीहै ॥ १३२ ॥

अथ वक्त्रग्रहस्य वारादि त्याज्यम् ।

ग्रहः केंद्रगतो वक्री लग्नं वा वक्रिवर्गगम् ॥

वक्रिखेटस्य वारे वा तत्र यातुर्विनाशनम् ॥ १३३ ॥

अब वक्त्रग्रहके वारादि त्याज्य लिखते हैं—केंद्रस्थग्रह वक्रीहोय अथवा वक्रीग्रहके पड़ुर्गमें लग्न होय अथवा वक्रीग्रहका वार होय तो यात्रा करनेवालेका विनाश होता है ॥ १३३ ॥

अथानुकूल्यम् ।

दिवा सौम्यायने सूर्ये यायादुत्तरपूर्वयोः ॥ चन्द्रे सौम्यायने रात्रौ प्रीक्ता यात्रा तयोर्दिंशोः ॥ १३४ ॥ सूर्ये याम्यायने गच्छेत्प्रत्यग्दक्षिणयोर्दिवा ॥ दिशयोस्त्वेतयोश्चंद्रे रात्रौ याम्यायनं गते ॥ १३५ ॥ उभौ सौम्यायने यायात्तदा चोत्तरपूर्वयोः ॥ तौ चेद्याम्यायने प्रत्यग्याम्ययोस्तु दिवानिशम् ॥ १३६ ॥ अन्यथा गमने नृणां भवेद्रंधो वधोपि वा ॥ १३७ ॥

अब आनुकूल्य लिखते हैं—उत्तरायण सूर्यमें दिनकेसमय उत्तर और पूर्वकी यात्रा शुभ होती है और उत्तरायण चंद्रमामें रात्रिके समय पूर्वोक्त दोनों दिशा पूर्व और उत्तरकी यात्रा शुभ होती है १३४ ॥ यदि सूर्य दक्षिणायन होय तो दिनके समय पश्चिम और दक्षिण दिशामें जाना शुभ होता है और जो चंद्रमा दक्षिणायन होय तो रात्रिके समय पूर्वोक्त पश्चिम और दक्षिणकी यात्रा शुभ होती है १३५ ॥ और यदि सूर्य तथा चंद्रमा दोनोंही उत्तरायणमें होय तो उत्तर और पूर्वकी यात्रा शुभ होती है और जो दोनोंही दक्षिणायन में होय तो पश्चिम और दक्षिणकी यात्रा रात्रि तथा दिनके समय शुभ होती है ॥ १३६ ॥ इन योगोंसे अन्यथा यात्रा करने वाले मनुष्योंका घन्थन अथवा वध होता है ॥ १३७ ॥

अथ त्रिविधः प्रतिशुक्रः ।

यत्रोदेति भृगुर्यतात्तां दिशं संमुखीं त्यजेत् ॥ भार्गवाधि-
ष्टिते राशिर्दिशि वा यत्र लग्नतः ॥ १३८ ॥ कृत्तिकादिपु-
दिग्द्वारमेषु यत्र स्थितोऽथ वा ॥ त्याज्या सापि दिशा
यस्मात्संमुखस्थिविधो भृगुः ॥ १३९ ॥

अब त्रिविध प्रतिशुक्र लिखते हैं—जिस दिशामें शुक्रका उदय
होता है यदि वही दिशा सम्मुख होय तो चत्नपूर्वक त्याग देवे
अथवा शुक्र जिस राशिपर होय वह राशि यात्रालग्नसे जिस
दिशामें स्थित होय वह दिशा सम्मुख होय तो चत्नपूर्वक त्याज्य
होती है ॥ १३८ ॥ अथवा जिन कृत्तिकादिक दिग्द्वारनक्षत्रोंपर शुक्र
स्थित होय उन्ही नक्षत्रोंकी दिशा सम्मुख त्याज्य होती है क्योंकि,
यह तीनप्रकारका सम्मुख शुक्र होता है ॥ १३९ ॥

अथ प्रतिशुक्रदोषापवादः ।

रेवत्यां मेषपे चंद्रे भवत्यंधो भृगोः सुतः ॥ यात्रादौ नेव
दोषाय संमुखो दक्षिणोपि वा ॥ भृगवादिगोत्रजातानां न
दोषः प्रतिशुक्रजः ॥ १४० ॥

अब प्रतिशुक्रदोषापवाद लिखते हैं—रेवती नक्षत्र और मेषके
चंद्रमामें अर्थात् अश्विनी, भरणी, कृत्तिकाका प्रथम चरणतक शुक्र
अंधा होता है तब यात्रादिकमें सन्मुख और दक्षिणभी शुभ होता है
और (भृगवादिगोत्र) भृगु, कद्म, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, भर-
द्वाज, वत्स इन गोत्रोंवाले सनुप्योंकेलिये सम्मुख शुक्रका दोष
नहीं होता है ॥ १४० ॥

अथ गमने शुक्रस्यास्तादिदोषः ।

वके नीचगते खेड़ीजिते चाऽस्तं गते भृगोः ॥
यो गच्छेत्स वशं याति प्रवलोपि द्विपां नृपः ॥ १४१ ॥

अब गमनमें शुक्रका अस्तादि दोष लिखते हैं—यदि शुक्र की होय अथवा नीच राशिका होय अथवा किसी ग्रहसे पराजित होय तो यात्रा करनेवाला प्रवल राजाभी शत्रुओंके वशमें होजाता है ॥ १४१ ॥

अथ बुधोपि संमुखस्त्याज्यः ।

अनुकूले बुधे यायादित्थं भूतेपि भागवे ॥

संमुखस्थे बुधे सर्वे वृथा खेटाः शुभा अपि ॥ १४२ ॥

अब बुधका भी संमुख त्याज्य लिखते हैं—यदि बुध अथवा शुक्र अनुकूल होय तो यात्रा करे और जो सम्मुख बुध होय तो सब शुभ ग्रहभी वृथा होजाते हैं ॥ १४२ ॥

अथ सामान्ययात्रायां प्रतिशुक्रादिदोपाभावः ।

नृणां प्रथमयात्रायां प्रतिशुक्रादिदृपणम् ॥

जयार्थिनो नृपस्यापि नान्येषां तु कदाचन ॥ १४३ ॥

अब सामान्य यात्रामें प्रतिशुक्रादिदोपाभाव लिखते हैं—मनुष्योंकी प्रथम यात्रामें सामने शुक्रादि दोष होता है और जयार्थी राजाकोभी सामने शुक्रका दोष होता है और अन्य पुरुषोंके लिये यात्रामें शुक्रका दोष नहीं होता है ॥ १४३ ॥

अथावश्यकतीर्थयात्रायां च न दोपः ।

अद्वैदयोपरागादौ पुण्ययोगेषु दुर्लभे ॥

तीर्थार्थी तु सुखं यायात्कालेष्वस्तादिकेष्वपि ॥ १४४ ॥

अब आवश्यक तीर्थयात्रामें अदोष लिखते हैं—अद्वैदययोग-ग्रहण आदि पर्वोंमें, दुर्लभ पुण्ययोगमें तीर्थार्थी अस्तादिक काल होनेपरभी सुखपूर्वक यात्रा करें ॥ १४४ ॥

अथ मार्गं शुक्रास्तादौ तत्रैव स्थितिः ।

मध्यमार्गं तु यात्रायां भृगावस्त्वेथ संमुखे ॥

तावत्कालमुपित्वा च शुभे काले व्रजेष्वृपः ॥ १४५ ॥

अब मार्गमें शुक्रास्तादि होनेसे वहीं स्थिति लिखते हैं—यदि यात्रा करनेपर मार्गके मध्यमें शुक्रका अस्त होय अथवा सामने शुक होय तो तवतक राजा वहीं ठहरारहे, शुभकाल आनेपर यात्रा करै ॥ १४५ ॥

अथ यात्रायां लग्नविचारः । तत्रादौ त्याज्यलग्नानि ।

कुंभलग्ने च कुंभांशे नो गच्छेत्सर्वथा नृपः ॥ मीने मीनां-
शके यातुः पंथा वक्रो धनक्षतिः ॥ १४६ ॥ निपिञ्चा गमने
कैश्चिन्मीनवृश्चिककर्कटाः ॥ लग्नस्था वा नवांशस्थाः प्रोक्ता
राज्ञां जयार्थीनाम् ॥ १४७ ॥ भूमुजां जन्मलग्नाद्वा जन्म-
राशेश्च लग्ने ॥ निधने निधनेशे वा गमनं निधनाय वै
॥ १४८ ॥ वैरिणो जन्मराशेस्तु रिपुभे वा तदीश्वरः ॥ यात्रा-
काले विलग्नस्थे सापि यात्रा विपायते ॥ १४९ ॥

अब यात्रामें लग्नविचार लिखते हैं—तहाँ पहिले त्याज्य लग्न
लिखते हैं—कुम्भ लग्न और कुंभके नवांशमें राजा किसी प्रकारसे
यात्रा न करै और मीनलग्न तथा मीनके नवांशमें जानेवाला
मार्गसे लौट आताहै अथवा उसके धनका नाश होताहै ॥ १४६ ॥
और किन्हीं आचार्योंने ऐसा कहा है कि, मीन, वृश्चिक, कर्क,
लग्न अथवा इन लग्नोंके नवांशभी यात्रामें वर्जित हैं, जयार्थी
राजाओंके लिये अवश्यही लाज्य हैं ॥ १४७ ॥ राजाओंकी जन्म-
लग्नसे अथवा जन्मराशिसे आंठवीं लग्न होय अथवा अष्टमेश
लग्नमें होय तो यात्रामें मृत्युकारक होताहै ॥ १४८ ॥ और वैरीकी
जन्मराशिसे यात्राके समय छठीलग्न होय अथवा उसकी जन्म-
राशिका स्वामी लग्नमें होय तो वह यात्रा विपके समान होती है
अर्थात् अशुभ होती है ॥ १४९ ॥

अथ शुभलग्नानि ।

जन्मराशीश्वरो जन्मलग्नेशो वा शुभग्रहः ॥ ताँ विलग्न-
गतौ वा तद्राशिलग्ने शुभो गमः ॥ १५० ॥ लग्ने वर्गोत्तमे

वेदो यात्रोक्ता कार्यसिद्धये ॥ अंभोराशी तदंशे वा नौका-
यानं प्रशस्यते ॥ १५१ ॥ जनौ यः शुभयुग्राशिवेशिसं-
ज्ञोऽथवा भवेत् ॥ स्वारिभान्निवनस्थो वा स राशिर्लग्नः
शुभः ॥ १५२ ॥ श्रेष्ठा शीर्पोदये लग्ने यात्रा सर्वार्थदायिनी ॥
राजयोगोचिते लग्ने प्रशस्ता वसुधाभुजाम् ॥ १५३ ॥

अब शुभलग्न लिखते हैं—जन्मराशिका स्वामी अथवा जन्मलग्न
का स्वामी अथवा शुभग्रह लग्नमें होय अथवा उसकी राशि
लग्नमें होय तो यात्रा शुभ होती है ॥ १५० ॥ लग्न वा चन्द्रमा
वर्गोत्तम नवांशमें होय तो यात्रा कार्यसिद्धिकेलिये होती है. जल
राशिकी लग्नमें अथवा जलराशिके नवांशमें नौकामें बैठकर
जाना शुभ होता है ॥ १५१ ॥ जन्मकालमें जो राशि शुभग्रहयुक्त
होय अथवा (वेशिसंज्ञक) सूर्याकांतराशिसे दूसरी राशिकी लग्न
यात्रामें होय अथवा शत्रुकी राशिसे आठवीं राशिकी लग्न होय
तो यात्रा शुभ होती है ॥ १५२ ॥ शीर्पोदयलग्नोंमें यात्रा श्रेष्ठ और
सर्वार्थदायिनी होती है और राजाओंकेलिये राजयोगोचितलग्नोंमें
यात्रा श्रेष्ठ होती है ॥ १५३ ॥

अथ दिग्ग्राशयः ।

मेपादिराशयो दिक्षु चतसृष्वपि पूर्वतः ॥ पूर्वतस्त्रिक्रमाद्विजैः
प्रोत्ता दिग्द्वारसंज्ञकाः ॥ १५४ ॥ लग्ने दिग्द्वारराशी च
यात्रा स्याज्जयकारिणी ॥ प्रतिलोमे तु विद्वार्तिकारिणी
भंगदायिनी ॥ १५५ ॥

अब दिग्ग्राशियें लिखते हैं—मेपादिक राशियें पूर्वादिक चारों
दिशाओंमें कमसे तीनबार गणना करनेसे दिग्द्वारसंज्ञक होती हैं.
अर्थात् मेप, सिंह, धनु राशि पूर्वमें; वृष, कन्या, मकर दक्षिणमें;
मिहुन, तुला, कुम्भ पश्चिममें और कर्क, वृश्चिक, सीन राशि

उत्तरमें रहती हैं ॥ १५४ ॥ राजा जिस दिशामें यात्रा करे उसी दिशाकी लग्न होय तो यात्रा जय करनेवाली होती है और जो इससे विपरीत होय अर्थात् दिग्द्वारलग्न पीठ पीछे होय तो विन्न, दुःख करती तथा भंग देनेवाली होती है ॥ १५५ ॥

अथ दिगीशाः ।

रविः शुक्रः कुजो राहुः शनिश्चंद्रो बुधो गुरुः ॥

पूर्वादीनां क्रमादेते दिशामीशाः प्रकीर्तिताः ॥ १५६ ॥

अब दिगीश लिखते हैं—सूर्य, शुक्र, मङ्गल, राहु, शनि, चन्द्रमा, बुध, वृहस्पति क्रमसे ये ग्रह पूर्वादि दिशाओंके स्वामी कहे हैं ॥ १५६ ॥

अथ लालाटी ।

दिगीशः स्वीयदिक्संस्थो लालाटी कथितो ग्रहः ॥

लग्नादी संमुखस्त्याज्यो गमे मृत्युकरो यतः ॥ १५७ ॥

अब लालाटी लिखते हैं—दिशाका स्वामी ग्रह अपनी दिशाकी लग्नादिकोंमें स्थित होय तो लालाटी कहाता है यात्रामें सम्मुख त्याज्य है, क्योंकि, यह यात्रामें मृत्युकारक है ॥ १५७ ॥

अथ दिगीशेऽन्यकेंद्रग शुभं फलम् ।

दिगीशे केंद्रगे गच्छेन्न तु लालाटिगे क्वचित् ॥ १५८ ॥

अब दिगीशके अन्य केन्द्रमें शुभफल लिखते हैं—कहाँ ऐसाभी कहा है कि, दिशाका स्वामी ग्रह केंद्रमें होय तो यात्रा करे क्योंकि, लालाटीयोग नहीं होता है ॥ १५८ ॥

अथ लालाटस्पष्टीकरणम् ।

प्राच्यां लग्नगते सूर्ये शुक्रे चायगतेऽनिले ॥ भासे कर्म १०

गते याम्यां रंग्रेके ८ । ९ इग्नो च नैऋती ॥ १५९ ॥

शनीं द्यूने ७ च वारुण्यां वायौ पुत्रारिगे ६ । ६ विद्या ॥

बुधे तुयें तथोदीच्यामीशान्यां द्वित्रिगे २ । ३ गुरो ॥ १६० ॥

इत्थं लालाटिगे खेटे संमुखे गमनं त्यजेत् ॥ १६१ ॥

अब लालाटस्पष्टीकरण लिखते हैं—लग्नमें सूर्य होय तो पूर्वमें लालाटयोग होता है और शुक्र ग्यारहवें स्थानमें होय तो अग्निकोणमें, मङ्गल दशवें स्थानमें होय तो दक्षिणमें और राहु आठवें वा नौवें स्थानमें होय तो नैऋत्यमें ॥ १५९ ॥ शनैश्चर सातवें स्थानमें होय तो पश्चिममें और चन्द्रमा पांचवें या छठे स्थानमें होय तो वायव्यमें, बुध चौथे स्थानमें होय तो उत्तरमें और वृहस्पति दूसरे वा तीसरे स्थानमें होय तो ईशानमें लालाट योग होता है यात्रामें सम्मुख त्याग देवे ॥ १६० ॥ १६१ ॥

अथोक्तसमये लग्नाद्यलाभे उत्कान्यदिक्षु प्रशस्ता यात्रा ।

उपः शस्तं विना प्राचीं यामीं याने विनाऽभिजित् ॥

निशीथस्तु विनोदीचीं गोधूलिर्वाहणीं विना ॥ १६२ ॥

अब उक्त समयमें लग्नादिके अलाभमें उक्से अन्य दिशामें प्रशस्त यात्रा लिखते हैं—पूर्वदिशाके विना अन्य दिशाओंकी यात्राम प्रातःकाल शुभ होता है और दक्षिणदिशाके विना अन्य दिशाकी यात्रामें अभिजित् मुहूर्त शुभ होता है और उत्तर दिशाके विना अन्य दिशाओंकी यात्रामें अर्द्धरात्रिका समय शुभ होता है और पश्चिम दिशाके विना अन्य दिशाओंकी यात्रामें गोधूलि मुहूर्त शुभ होता है ॥ १६२ ॥

अथ यात्रायां श्रेष्ठा नेष्ठाश्च ग्रहाः ।

हित्वा सप्तमगं शुक्रं केंद्रकोणे शुभा शुभाः ॥ पापाश्रोप-
चये शस्ता याने नो दशमः शशी ॥ १६३ ॥ चंद्रस्तु गमने
नेष्ठे लग्नारिव्ययरंत्रद्यूनेगः ॥ पष्टाएरिःफस्थो लघ्नेशोपि

न शोभनः ॥ १६४ ॥ सुरेज्यस्याहितो लग्ने सत्खेटोपि न
शोभनः ॥ पापोपि चेत्सुहृत्तस्य तनौ भव्यफलप्रदः ॥
॥ १६५ ॥ जनने जन्मलग्नेशाजन्मराशीश्वरोदये ॥ सुहृद्दे-
त्कर्मगः खेटा नेष्टोपीष्टो विलग्नगः ॥ १६६ ॥

अब यात्रामें श्रेष्ठ और नेष्टग्रह लिखते हैं—सातवें स्थानमें शुक्र-
को छोड़ कर केंद्र और त्रिकोणमें सब शुभग्रह शुभ होते हैं और
उपचय ३। ६। १०। ११ स्थानमें पापग्रह यात्रामें शुभ होते हैं
और दशवें स्थानमें चन्द्रमा शुभ नहीं होता है ॥ १६३ ॥ लग्न,
वारहवें, आठवें स्थानमें चन्द्रमा होय तो यात्रामें नेष्ट होता है
और सातवें, छठे, आठवें, वारहवें स्थानमें लग्नेश होय तोभी
यात्रामें अशुभ होता है ॥ १६४ ॥ वृहस्पतिका शत्रु शुभग्रहभी
लग्नमें स्थित होय तो शुभ नहीं होता है और जो वृहस्पतिका मित्र
पापग्रहभी लग्नमें होय तो शुभफल देता है ॥ १६५ ॥ जन्मकुंडलीमें
जन्मलग्नेशसे अथवा जन्मराशीश्वरग्रहकी लग्नसे दशमस्थानमें
बैठाहुआ नेष्टग्रह यदि जन्मलग्न वा जन्मराशिके स्वामीग्रहका
मित्र होय और फिर वहही नेष्ट ग्रह यात्राकी लग्नमें बैठा होय
तो शुभ होता है ॥ १६६ ॥

अथ यात्रायां योगप्रशंसा ।

वक्ष्यमाणेः शुभेयोर्गीर्यात्रा सिद्धयेन्महीभुजाम् ॥ भूदेवानां
तु सद्देस्तुचौराणां शकुनैर्भवेत् ॥ १६७ ॥ विपायतेऽमृतं योगा-
द्विपम्प्यमृतायते ॥ विहाय स्वं फलं खेटा द्व्युस्तद्योगजं
फलम् ॥ १६८ ॥ तिथिवासरयोगेषु लग्नेदुकरणोङ्गुप्तु ॥
दुष्टेष्वपि शुभा यात्रा योगस्तु मनीषिभिः ॥ १६९ ॥

अब यात्रामें योगप्रशंसा लिखते हैं—आगे कहेहुए शुभयोग-
राजाओंकी यात्रा शुभ होतीहै और ब्राह्मणोंकी यात्रा

तारा, चंद्रमा आदि करके शुभ होती है और चोरों की यात्रा शुभशकुनों करके शुभ होती है ॥ १६७ ॥ योगके कारणसे अमृत विष होजाता है और विष अमृत होजाता है सब अपना फल छोड़कर योगका फल देने लगजाते हैं ॥ १६८ ॥ तिथि, वार, योग, लग, चंद्रमा, करण, नक्षत्र ये सब दुष्ट होनेपरभी मुनीश्वरोंने योगोंमें यात्रा शुभ कही है ॥ १६९ ॥

अथ योगाः ।

लघ्ने गुराँ १ रिपौ भौमे लाभे ११ इके १२ सहजेऽशनाँ॥
 जयत्याशु रिपून्यानेऽनुकूलो यदि भार्गवः ॥ १७० ॥
 लघ्ने गुराँ बुधे तुर्ये ४ खे १० ब्जे ब्राह्म ३ गते ख्वौ ॥ सुते
 ६ शुक्रे रिपौ ६ भौमे मंदे यात्राऽतिशोभना ॥ १७१ ॥ गुराँ
 लघ्ने १ एमे ८ चंद्रे पष्टे ६ सूर्ये जयत्यरीन् ॥ तनौ ३ जीवे
 ऽथवा शेषैर्वित्ताय २ । ११ स्थैर्यज्यो गमे ॥ १७२ ॥ लघ्ने १
 सूर्ये विधौ द्यूने ७ धनस्ये २ ज्ञेज्यभार्गवैः ॥ प्रयाति नृपतिः
 सौरीज्येत्ताक्ष्ये इवोरगान् ॥ १७३ ॥ वित्ते ज्ञे सहजेऽकंगे
 भार्गवे यायिनां जयः ॥ लघ्नेऽकें वा शनौ पष्टे खेब्जे १०
 गच्छन्नरीज्येत् ॥ १७४ ॥ मंदे कुजे तनौ १ खे १० इके शुक्रे
 च विदि लाभगे ११ ॥ संव्रजन्मूपतिः शश्वन्विजित्य श्रियम-
 श्नुते ॥ १७५ ॥ मंदारो विषडायस्थौ वलिनो ज्ञेज्यभा-
 र्गवाः ॥ प्रयाणे भूपतेर्यस्य वसुधा तस्य हस्तगा ॥ १७६ ॥
 लघ्ने १ जीवे विधौ द्यूने ७ चतुर्थे ४ ज्ञे तथा भृगौ ॥ पापे-
 स्त्रिये ३ महीपालः प्रस्थितो लभते स्त्रियम् ॥ १७७ ॥ लाभे
 ११ इके खे १० बुधे शुक्रे दुश्चिक्ये ३ भूमिजे शनौ ॥
 द्यूने ७ इके तनुगे १ जीवे प्रस्थितस्य भवेजयः ॥ १७८ ॥
 लघ्नेऽब्जे वा गुराँ पष्टे ६ सूर्ये व्योम १० गते शनौ ॥ सुते
 ६ ज्ये हिवुके ४ शुक्रे राजा हंति गमे रिपून् ॥ १७९ ॥ वलि-

नीदुसुते लग्ने १ केंद्रे १ । ४ । ७ । १० जीवेथ निर्वले ॥
 त्रिपष्ठांत्यंकगे ३ । ६ । १२ । ९ चेंद्रे संब्रजन्त्युयमामुयात् ॥
 ॥ १८० ॥ शुक्रे तुर्यत्रिलाभस्थे ४ । ३ । ११ केंद्रस्थ १ ।
 ४ । ७ । १० गुरुवीक्षिते ॥ सप्ताऽप्तांकगतैः ७ । ८ । ९
 पापैयोगोयं वहुलाभदः ॥ १८१ ॥ शुभैर्हृषे वृधे व्योम १०
 रिषु द लग्न १ तुरीय ४ गे ॥ योगोयं जयदः पापैर्द्वृन् ७
 लग्नां १ त्य १२ वर्जितैः ॥ १८२ ॥ ईज्ये लग्ने १ स्वलाभस्थैः
 ११ पापै राजागमो भवेत् ॥ द्वूने ७ वा वौधने शुक्रे तुर्ये
 ४ व्ये प्रोक्ततत्फलम् ॥ १८३ ॥ पडाद्याए द । १ । ८ गतैः
 शुक्रजीवाऽव्यैर्गमने जयः ॥ तुर्ये ४ वोशनसि प्रोक्तं ह्ये च
 मंदेषि तत्फलम् ॥ १८४ ॥ वृथभार्गवयोरंतर्याति कुसुदवांधवे ॥
 तुर्यस्थे ४ ज्ये जयत्याशु गमनेऽरीन्वरेश्वरः ॥ १८५ ॥ लग्ना-
 स्तायुवृत्तिस्थैः १ । ६ । ४ । ३ शुक्रेज्यारुद्यार्कजैः ॥
 योगोयं क्रमतः प्रोक्तो गमने जयदो वृधेः ॥ १८६ ॥ पद्म-
 त्रिखाऽरीदुवेदेश दा । ३ । १० । दा । १ । ४ । ११ संस्थितैस्तपना-
 दिभिः ॥ गोचरैः क्रमतो जीववारे योगोयसुत्तमः ॥ १८७ ॥
 जीवेंगोऽकेंरिणे द भौमे विगे रंथगते ८ भूगो ॥ ह्ये द्वूने च
 शुभा यात्रा भूसुजां जयदायिनी ॥ १८८ ॥ शुक्रेकेज्यैस्त्रितुर्य-
 ३ । ४ स्थैः शत्रुस्थे द मंदभूमिजे ॥ यात्रा भूमिभुजां शस्ता
 शत्रुवृद्विदारिणी ॥ १८९ ॥ नवांशाङ्गोमसंयुक्तादंशे शततमे-
 स्थिते ॥ गुरी वा भार्गवे यात्रा शत्रुसंघविदारिणी ॥ १९० ॥
 शतांशाद्यूर्ध्वगे चांद्रां भास्करात्मजभौमयोः ॥ यात्रायां
 नृपतिर्हति विद्विषां महतीं चमूम् ॥ १९१ ॥ शुक्रो दारा-
 ह्वरोर्वापि मंदाकोंत्तरक्षक्षगे ॥ वौधने गमने राजा जयेच्चेव
 द्विपद्मलम् ॥ १९२ ॥ नेरंतर्येण खेदाश्रेवर्कस्थानेषु पंचसु ॥
 संस्थिताः पृष्ठदिनभागे याने राजां जयप्रदाः ॥ १९३ ॥

तारा, चंद्रमा आदि करके शुभ होतीहै और चोरोंकी यात्रा शुभशकुनौं करके शुभ होतीहै ॥ १६७ ॥ योगके कारणसे अमृत विष होजाता है और विष अमृत होजाताहै सब अपना फल छोड़कर योगका फल देने लगजातेहैं ॥ १६८ ॥ तिथि, वार, योग, लक्ष, चंद्रमा, करण, नक्षत्र ये सब दुष्ट होनेपरभी मुनीश्वरोंने योगोंमें यात्रा शुभ कहीहै ॥ १६९ ॥

अथ योगः ।

लग्ने गुरौ १ रिपौ भौमे लाभे ११ इकें १२ सहजेऽशनौ॥
 जयत्याशु रिपून्यानेऽनुकूलो यदि भार्गवः ॥ १७० ॥
 लग्ने गुरौ बुधे तुर्ये ४ खे १० व्जे ब्रातृ ३ गते खौ ॥ सुते
 ६ शुक्रे रिपौ ६ भौमे मंदे यात्राऽतिशोभना ॥ १७१ ॥ गुरौ
 लभे १ एमे ८ चंद्रे पष्टे ६ सूर्ये जयत्यरीन् ॥ तनौ १ जीवे
 ऽथवा शैर्पैर्वित्ताय २ । ११ स्थैर्जयो गमे ॥ १७२ ॥ लग्ने १
 सूर्ये विधौ द्यूने ७ धनस्थै २ ज्ञेज्यभार्गवैः ॥ प्रयाति नृपतिः
 सौरीज्येत्ताक्षर्य इवोरगान् ॥ १७३ ॥ वित्ते ज्ञे सहजेऽकेंगे
 भार्गवै यायिना जयः ॥ लग्नेऽकें वा शनौ पष्टे खेज्ञे १०
 गच्छन्नरीज्येत् ॥ १७४ ॥ मंदे कुजे तनौ १ खे १० इकें शुक्रे
 च विदि लाभगे ११ ॥ संव्रजन्भूपतिः शश्वन्विजित्य श्रियम-
 श्नुते ॥ १७५ ॥ मंदारो त्रिपडायस्थौ वलिनो ज्ञेज्यभा-
 र्गवाः ॥ प्रयाणे भूपतेर्यस्य वसुधा तस्य हस्तगा ॥ १७६ ॥
 लग्ने ३ जीवे विधौ द्यूने ७ चतुर्थे ४ ज्ञे तथा भृगौ ॥ पापे-
 द्विंगे ३ महीपालः प्रस्थितो लभते द्वियम् ॥ १७७ ॥ लाभे
 ११ इकें खे १० बुधे शुक्रे दुश्चिक्ये ३ भूमिजे शनौ ॥
 द्यूने ७५ ज्ञे ततुगे १ जीवे प्रस्थितस्य भवेजयः ॥ १७८ ॥
 लग्नेऽज्ञे वा गुरौ पष्टे ६ सूर्ये व्योम १० गते शनौ ॥ सुते
 ६ ज्ये हिंसुके ४ शुक्रे राजा हंति गमे रिपून् ॥ १७९ ॥ वलि-

नींदुसुते लभ्ये १ केंद्रे १ । ४ । ७ । १० जीवेथ निर्वले ॥
 त्रिपष्टात्यंकगे ३ । ६ । १२ । ९ केंद्रे संबजज्ञिद्यमामुयात् ॥
 ॥ १८० ॥ शुक्रे तुर्यविलाभस्थे ४ । ३ । ११ केंद्रस्थ १ ।
 ४ । ७ । १० गुरुवीक्षिते ॥ सप्ताऽप्याकगतैः ७ । ८ । ९
 पापेयोगोयं वहुलाभदः ॥ १८१ ॥ शुभैर्देष्टुधे व्योम १०
 रिषि ६ लग्न १ तुरीय ४ गे ॥ योगोयं जयदः पापैर्दून ७
 लग्नां १ त्य १२ वर्जितैः ॥ १८२ ॥ ईज्ये लभ्ये १ स्वलाभस्थैः
 ११ पापे राजागमो भवेत् ॥ द्यूने ७ वा वोधने शुक्रे तुर्ये
 ४ व्ये प्रोक्तवत्फलम् ॥ १८३ ॥ पडाद्याद्य ६ । १ । ८ गतैः
 शुक्रजीवाऽवैर्गमने जयः ॥ तुर्ये ४ वोशनसि प्रोक्तं ज्ञे च
 मंदेपि तत्फलम् ॥ १८४ ॥ द्युधभार्गवयोरंतर्याते कुमुदवांधवे ॥
 तुर्यस्थे ४ ज्ये जयत्याशु गमनेऽरीन्नरेश्वरः ॥ १८५ ॥ लग्ना-
 स्तायं द्विहिस्थैः ॥ १८६ ॥ शुक्रेज्यारुद्यवार्कजैः ॥
 योगोयं क्रमतः प्रोक्तो गमने जयदो द्युधैः ॥ १८६ ॥ पद्म-
 विखाऽरींदुवेदेश दा ॥ १० ॥ दा ॥ ११ ॥ ११ संस्थितैस्तपना-
 दिभिः ॥ गोचरैः क्रमतो जीववारे योगोयमुत्तमः ॥ १८७ ॥
 जीविंगेऽकेंरिणे ६ भौमे विगे रथ्यगते ८ भृगां ॥ ज्ञे द्यूने च
 शुभा यात्रा भूमुजां जयदायिनी ॥ १८८ ॥ शुक्रेकेज्येस्त्रितुर्य-
 श ॥ ४ स्थैः शत्रुस्थे ६ मंदभूमिजे ॥ यात्रा भूमिभुजां शस्ता
 शत्रुवृद्विदारिणी ॥ १८९ ॥ नवांशाद्रीमसंयुक्तादर्शे शततमे-
 स्थिते ॥ गुरां वा भार्गवे यात्रा शत्रुसंघविदारिणी ॥ १९० ॥
 शतांशाद्यूर्ध्वगे चांद्री भास्करात्मजभौमयोः ॥ यात्रायां
 नृपतिहिति विद्विपां महतीं चमूम् ॥ १९१ ॥ शुक्रो दारा-
 द्वूरोर्वापि मंदाकौंतरकङ्कशगे ॥ वोधने गमने राजा जयेऽवै-
 द्विपद्मलम् ॥ १९२ ॥ नेरंतर्येण खेदाश्वेद्यर्कस्थानेषु पंचसु ॥
 संस्थिताः पृष्ठदिग्भागे याने राजां जयप्रदाः ॥ १९३ ॥

अब योग लिखते हैं—लग्नमें वृहस्पति, छठे मंगल, ग्यारहवें सूर्य, तीसरे स्थानमें शनैश्चर और शुक्र अनुकूल होय तो यात्रा करनेपर राजा शीघ्रही शत्रुओंको जीत लेता है ॥ १७० ॥ लग्नमें वृहस्पति, चौथे बुध, दशवें चंद्रमा, तीसरे सूर्य, पांचवें शुक्र, छठे मंगल शनैश्चर होय तो यात्रा अतिशुभ होतीहै ॥ १७१ ॥ वृहस्पति लग्नमें, चंद्रमा आठवें, सूर्य छठे स्थानमें होय तो राजा शत्रुओंको जीतलेता है अथवा लग्नमें वृहस्पति होय और द्वेषग्रह दूसरे, ग्यारहवें स्थानमें वैठेहोय तो यात्रा करनेपर विजय होतीहै ॥ १७२ ॥ लग्नमें सूर्य, सातवें स्थानमें चंद्रमा, दूसरे स्थानमें बुध, वृहस्पति, शुक्र होय तो यात्रा करनेवाला राजा इसप्रकार शत्रुओंको जीतलेता है जैसे कि, गरुड़ सर्पोंको जीतलेता है ॥ १७३ ॥ दूसरे स्थानमें सूर्य बुध, तृतीयमें तथा लग्नमें शुक्र होय तो यात्रा करनेवालोंकी विजय होतीहै अथवा लग्नमें सूर्य, छठे शनैश्चर, दशवें चंद्रमा होय तो यात्रा करनेवाला शत्रुओंको जीतलेता है ॥ १७४ ॥ लग्नमें मंगल, शनैश्चर; दशवें स्थानमें सूर्य; ग्यारहवें स्थानमें शुक्र, बुध होय तो इस योगमें यात्रा करनेवाला राजा शत्रुओंको जीतकर लक्ष्मीको प्राप्त करता है ॥ १७५ ॥ शनैश्चर, मंगल तीसरे, छठे, ग्यारहवें स्थानमें स्थित होय और बुध, वृहस्पति, शुक्र वलवान् होय तो यात्रा करनेसे राजाके हाथमें पृथ्वी प्राप्त होतीहै ॥ १७६ ॥ लग्नमें वृहस्पति, सातवें चंद्रमा, चौथे स्थानमें बुध तथा शुक्र, तीसरे स्थानमें पापग्रह होय तो यात्रा करनेवाला राजा स्त्रीको पाता है ॥ १७७ ॥ ग्यारहवें घरमें सूर्य, दशवें घरमें बुध शुक्र, तीसरे घरमें मंगल शनैश्चर, सातवें घरमें चंद्रमा, लग्नमें वृहस्पति होय तो यात्रा करनेवालेकी जय होतीहै ॥ १७८ ॥ लग्नमें चंद्रमा अथवा वृहस्पति, छठे स्थानमें सूर्य, दशवें स्थानमें शनैश्चर, पांचवें स्थानमें

वृहस्पति, चौथे स्थानमें शुक्र होंय तो यात्रा करनेपर राजा शत्रुओंका नाश करताहै ॥ १७९ ॥ लग्नमें वलवान् वुध होय; केद्रमें निर्वल वृहस्पति होय; तीसरे, छठे, वारहवें, नौवें स्थानमें चंद्रमा होय तो यात्रा करनेवाला लक्ष्मीको पाताहै ॥ १८० ॥ शुक्र चौथे, तीसरे, ग्यारहवें स्थानमें वैठाहोय और केद्रस्थ वृहस्पतिसे दृष्ट होय तथा सातवें, आठवें, नौवें स्थानमें पापग्रह होय तो यह योग यात्रामें बहुलाभद्रायक होताहै ॥ १८१ ॥ शुभग्रहोंसे दृष्ट वुध दशवें, छठे लग्नमें, चौथे स्थानमें वैठाहोय तो यह योग जयद्रायक होताहै. सातवें, लग्नमें, वारहवें स्थानमें पापग्रह नहीं होय और लग्नमें वृहस्पति होय; दशवें, ग्यारहवें स्थानमें पापग्रह होय तो यात्रा करनेवाले राजाको राज्यकी प्राप्ति होतीहै अथवा सातवें स्थानमें वुध वा शुक्र होय; चौथे स्थानमें चंद्रमा होय तो (पूर्वोक्तफल) राज्यकी प्राप्ति होतीहै ॥ १८२ ॥ १८३ ॥ छठे, लग्नमें, आठवें स्थानमें शुक्र, वृहस्पति, चंद्रमा होय तो यात्रा करनेपर विजय होतीहै और चौथे स्थानमें शुक्र वा वुध अथवा शनैश्चर होय तो (पूर्वोक्तफल) विजय होतीहै ॥ १८४ ॥ वुध और शुक्रके मध्यमें चंद्रमा होय तथा चौथे स्थानमें वृहस्पति होय तो यात्रा करनेपर राजा शीघ्रही शत्रुओंको जीतलेताहै ॥ १८५ ॥ लग्नमें, सातवें, छठे, चौथे, तीसरे स्थानमें क्रमसे शुक्र, वृहस्पति, मंगल, वुध, शनैश्चर होय तो यह योग पंडितोंने यात्रामें जयद्रायक कहाहै ॥ १८६ ॥ गोचरमें सूर्यादिग्रह क्रमसे छठे, तीसरे, दशवें, छठे, जन्मके, चौथे, ग्यारहवें होंय और वृहस्पतिका दिन होय तो यह योग यात्रामें उत्तम होताहै ॥ १८७ ॥ वृहस्पति लग्नमें, सूर्य छठे, मंगल तीसरे, शुक्र आठवें, वुध सातवें स्थानमें होय तो यात्रा राजाओंके लिये शुभ और जयद्रायिनी होतीहै ॥ १८८ ॥ शुक्र, सूर्य, वृहस्पति तीसरे, चौथे स्थानमें स्थित

होंय और शनैश्चर, मंगल छठे स्थानमें स्थित होंय तो राजाओंकी यात्रा शत्रुसमूहकी नाश करनेवाली होतीहै ॥ १८९ ॥ मंगलयुक्त नवांशासे सौवें अंशमें वृहस्पति वा शुक्र स्थित होय तो यात्रा शत्रुओंके समूहकी नाश करनेवाली होतीहै ॥ १९० ॥ शनैश्चर और मंगलसे सौअंशोंसे अधिक वुध होय तो यात्रा करनेपर राजा शत्रुओंकी महती सेनाका नाश करताहै ॥ १९१ ॥ शुक्र वा मंगल अथवा वृहस्पतिसे अथवा शनैश्चर सूर्यसे आगेकी राशि वा नक्षत्रपर वुध होय तो यात्रामें राजा शत्रुओंकी सेनाको जीतलेताहै ॥ १९२ ॥ वारहवें स्थानको छोड़कर (पृष्ठदिग्भाग) चक्रके उत्तरार्द्धके पांच स्थानोंमें यदि लगातार क्रमसे सब ग्रह होंय तो यात्रा करनेपर राजाओंको जय देनेवाले होतेहैं ॥ १९३ ॥

अथ योगाधियोगयोगाधियोगः ।

वृधेज्यभृगुपुत्राणमेकश्चेत्केंद्र । १।४।७।१०।८।९ कोणगः ॥
तदा योगोऽत्र गमने क्षेभो भवति भृभुजाम् ॥ १९४ ॥ अधियोगो भवेद्वाभ्यामत्र क्षेमजयौ ध्रुवम् ॥ त्रिभियोगाधियोगोत्र यशःक्षेमवनागमाः ॥ १९५ ॥

अब योग अधियोग योगाधियोग लिखतेहैं—यदि वुध, वृहस्पति, शुक्र इनमेंसे एकग्रह केंद्र अथवा त्रिकोणमें होय तो योग होताहै, इस योगमें यात्रा करनेसे राजाओंका कल्याण होताहै ॥ १९६ ॥ और पूर्वोक्त तीनों ग्रहोंमेंसे दो ग्रह केंद्र अथवा त्रिकोणमें होंय तो अधियोग होताहै इसमें यात्रा करनेसे कल्याण तथा जय अवश्य होती है और यदि तीनों ग्रह केंद्र वा त्रिकोणमें होंय तो योगाधियोग होता है इसमें यात्रा करनेसे यश, क्षेम और धनकी प्राप्ति होती है ॥ १९७ ॥

अथ मितं समं वृहदिति त्रिविधं गमनम् ।

प्रयाणं मितसंज्ञं तद्यावद्वादशयोजनम् ॥ ततोऽविकं समं यावत्पञ्चविंशतियोजनम् ॥ १९८ ॥ अत ऊर्ध्वं वृहत्प्रोक्तं

खंडावधि बुधैरिदम् ॥ योगिनीफलपंचांगकालजांस्तु मिते-
गमे ॥ १९७ ॥ समे तु तैः समं दोषांष्टमजानपि संत्यजेत् ॥
दोपान्प्राक्थितान्योगयात्रोत्थांश्च वृहद्ग्रन्थे ॥ १९८ ॥

अब मित सम वृहत् यह विविध गमन लिखते हैं—वारह यो-
जनतककी यात्रा (मितसंज्ञक) थोड़ी होती है और पच्चीस योजन
तककी यात्रा सम होती है ॥ १९६ ॥ और इससे अधिक योजन
की यात्रा वृहत् होती है ऐसा पंडित लोग कहते हैं. मित या-
त्रामें योगिनी, दिशाशूल, पंचांग और समयका दोष इनको त्याग
देवे ॥ १९७ ॥ और सम यात्रामें योगिन्यादिसे सहित लग्नदोषको
भी त्यागदेवे और वृहत् यात्रामें पूर्वोक्त सब दोषों और यात्राके
कुयोगोंको त्यागदेवे ॥ १९८ ॥

अथ विजयदशम्याः प्रशंसा ।

आश्विने दशमी शुक्ला विजया सर्वसिद्धिदा ॥

श्रवणेन युतात्यंतजयदा नृपतेर्गमे ॥ १९९ ॥

अब विजयदशमीकी प्रशंसा लिखते हैं—आश्विन मासके शुक्ल
पक्षकी दशमी विजया कहाती है. सर्वसिद्धिकी देनेवाली होती है
और जो श्रवण नक्षत्रसे युक्त होय तो राजाके लिये यात्रामें जय
देनेवाली होती है ॥ १९९ ॥

अथ चित्तोत्साहादिप्राशस्त्यम् ।

प्रसादेश्वेतसः श्रेष्ठिनिमित्तेः शकुनेः शुभैः ॥ प्राप्य लग्नवलं
राजां गच्छतां विजयो शुभम् ॥ २०० ॥ चेतोविशुद्धिः
प्रवला निमित्ताच्छकुनादपि ॥ सत्यामस्यामतो यायान्नेव
यायाज्ञु तां विना ॥ २०१ ॥

अब चित्तोत्साहादि प्राशस्त्य लिखते हैं—चित्तकी अत्यन्त प्रसन्नतासे
और शुभ शकुन तथा निमित्तोंसे और वलवान् लग्न होनेसे यात्रा

करनेवाले राजाओंकी अवश्य विजय होती है ॥ २०० ॥ निमित्त और शकुनसे चित्तकी प्रसन्नता प्रवल होती है, जब चित्तकी प्रसन्नता होय तब यात्रा करे और जो न होय तो यात्रा नहीं करो ॥ २०१ ॥

अथ यात्रायां शकुनादिप्राशस्त्यम् ।

यात्रायां शकुनं जीव उपो गर्गः प्रशंसति ॥

अंगिरा मानसोत्साहं विष्णुर्वाचं द्विजन्मनाम् ॥ २०२ ॥

अब यात्रामें शकुनादिप्राशस्त्य लिखते हैं—यात्रामें वृहस्पतिजी शकुनकी प्रशंसा करते हैं, अंगिरा ऋषि मनके उत्साहकी प्रशंसा करते हैं और विष्णु भगवान् ब्राह्मणोंके वचनकी प्रशंसा करते हैं ॥ २०२ ॥

अथोत्सवाद्यसमाप्तौ यात्रा न कार्या ।

प्रतिष्ठोद्वाहमुत्साहं व्रतं चौलं च सूतकम् ॥

असमाप्त न गंतव्यमार्तवं योपितामपि ॥ २०३ ॥

अब उत्सवादिकी असमाप्तिमें यात्रा नहीं करनेको लिखते हैं—प्रतिष्ठा, विवाह, उत्सव, व्रत, मुङ्डन, सूतक, खियोंका ऋतुभाव इन सबको विना समाप्तकिये यात्रा नहीं करना चाहिये ॥ २०३ ॥

अथाकालवृष्टिदोपः ।

अकालवर्षणं प्रोक्तं पौपान्मासचतुष्ये ॥ भूयान्दोपो महावृष्टवल्पो दोपोऽल्पवर्षणे ॥ २०४ ॥ न दोपो वृष्टिजस्ताद्यावद्गूर्नं पदांकिता ॥ अकालवर्षणे जाते कृत्येऽत्यावश्यके त्यजेत् ॥ २०५ ॥ त्यहं पौपे द्वाहं माघं दिनमेकं तु फालगुने चैवे घटीद्वयं दोपो नायं गर्भसमुद्देवे ॥ २०६ ॥

अब अकाल वृष्टिदोप लिखते हैं—पौप, माघ, फालगुन, चैत्र इन चार महीनोंमें अकालवर्षा कही है, वहुत वर्षा होय तो वहुत और थोड़ी वर्षा होय तो थोड़ा दोप होता है ॥ २०४ ॥ जबतक पृथ्वीमें चरणका चिह्न नहीं प्रतीत होय तबतक अकालवृष्टिका दोप नहीं

होता है, अकालवृष्टिको आवश्यक कृत्यमें त्यागदेवे ॥ २०५ ॥ तीन दिन पौषमें, दोदिन माघमें, एकदिन फाल्गुनमें, दोघडी चैत्रमें अकालवृष्टिका दोष होता है और वर्षाका गर्भ उत्पन्न होनेमें यह अकालवृष्टिका दोष नहीं होता है ॥ २०६ ॥

अथाकालवृष्टिदोपपरिहारः ।

सूर्यचंद्रमसोविवे कृत्वा हेममये तदा ॥

दत्त्वा भूमिपतिर्यात्कार्येऽत्यावश्यके सति ॥ २०७ ॥

अब अकालवृष्टिदोपपरिहार लिखते हैं—आवश्यक कार्य होय तो राजा अकालवृष्टिमें सूर्य और चन्द्रमाकी सुवर्णमयी प्रतिमा बनवाकर दान करे तिसपिछे यात्रा करे तो दोष नहीं होता है ॥ २०७ ॥

अथकस्मिन्दिने यात्राप्रवेशयोर्विचारः ।

ग्रामाद्वामांतरं राजा यदेकस्मिन्दिने व्रजेत् ॥ तदा वारक्षशूलादिप्रतिशुक्रं न चिंतयेत् ॥ २०८ ॥ एकस्मिन्दिनसे यात्रा प्रवेशोपि यदा भवेत् ॥ कालः प्रवेशिकस्तत्र विचार्यो न तु यात्रिकः ॥ २०९ ॥ प्रवेशानंतरं यात्रा प्रवेशो गमनात्तथा ॥ नवमेहि तिथौ यिष्ण्ये नैव कुर्यान्नरः क्वचित् ॥ २१० ॥

अब एकदिनमें यात्रा और प्रवेशके विचार लिखते हैं—राजा एक गांवसे दूसरे गांवमें जाकर एक दिनमेंही फिर घर पहुंच जाय तो वार, नक्षत्र, दिशाशूल आदि और सम्मुख शुक्रका विचार नहीं करे ॥ २०८ ॥ यदि एकदिनमेंही यात्रा और प्रवेश होंय तो प्रवेशका समय विचारे और यात्राकालका विचार न करे ॥ २०९ ॥ मनुष्यको चाहिये कि, प्रवेशके पीछे यात्रा और यात्राके पीछे प्रवेश; नौवें दिन नौवीं तिथि, नौवें नक्षत्रमें कभी न करे ॥ २१० ॥

अथ यात्राविधिः ।

हुत्वा पावकमभ्यर्च्य देवद्विजदिग्नीश्वरान् ॥ कृतस्त्वस्त्ययनो

विप्रेदत्वा दानं नरेश्वरः ॥ २११ ॥ गम्यदिग्पालमिद्ब्राह्म
ध्यायन्वृष्टमना ब्रजेत् ॥ २१२ ॥

अब यात्राविधि लिखते हैं—अग्रिमें हवन और देवता, ब्राह्मण, दिशाके स्वामीका पूजन करके ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराय ब्राह्मणोंको दान दे तदनन्तर जानेकी दिशाके अधिपतिका ध्यान करताहुआ राजा प्रसन्न मनसे यात्रा करै ॥ २११ ॥ २१२ ॥

अथ नक्षत्रदोहदम् ।

कुलमापांस्तिलसंमिथ्रांस्तंडुलान्मापकांस्तथा ॥ गव्यं दधि
द्युतं दुग्धं मृगमेणस्य शोणितम् ॥ २१३ ॥ पायसं चापमांसं
च मृगं शाशं च पाणिकान् ॥ प्रियं गुकमपूपांश्च मसूरांन्स-
त्फलं तथा ॥ २१४ ॥ कूर्मं च सारिकां गोधां शाल्यं मांसं
हविष्यकम् ॥ कृसरान्नं च मुद्रान्नं यवानां पिष्ठेव च ॥ २१५ ॥
मत्स्यान्नं चैव चित्रान्नं दध्योदनमिदं क्रमात् ॥ अश्विभादोः
हृदं प्राश्य गच्छन्विजयते मृपः ॥ २१६ ॥

अब नक्षत्रदोहद लिखते हैं—अश्विनी नक्षत्रमें कुलधी, भरणीमें
तिलमिले चावल, कृत्तिकामें उडद, रोहिणीमें गोका दही, मृग-
शिरामें गोका धी, आर्द्रमें गोका दूध, पुनर्वसुमें मृगका मांस,
पुष्यमें मृगका सूधिर ॥ २१३ ॥ आश्लेषामें स्त्रीर, मघामें नीलकंठका
मांस, पूर्वापालगुनीमें मृगका मांस, उत्तरापालगुनीमें खरहेका
मांस, हस्तमें साठी, चित्रामें मालकांगनी, स्वातिमें पूए, विशाला-
में मसूर, अनुराधामें अच्छा फल, ज्येष्ठामें कछवेका मांस, मूलमें
मेनाका मांस, पूर्वापादामें गोहका मांस, उत्तरापादामें शत्यका मांस,
अभिजित्में हविष्यान्न, श्रवणमें खिचडी, धनिष्ठामें सूंग, शतभिपामें
जयका आटा ॥ २१४ ॥ २१५ ॥ पूर्वाभाद्रपदामें मछलीके मांसपुक
अम्ब, उत्तराभाद्रपदामें चित्रान्न, रेवतीमें दहीभात दोहद होता है ॥

अश्विन्यादि नक्षत्रोंके क्रमसे यह दोहद वर्णन किया है इसका भक्षण करके जानेवाला राजा विजयको प्राप्त होता है ॥ २१६ ॥

अथ तिथिदोहदम् ।

पक्षादितस्तिथौ चार्कपञ्चं तंदुलवारि च ॥ घृतं श्राणा हविष्यान्नं हेमतोयमपूर्वकम् ॥ २१७ ॥ वीजपूरं जलं शुद्धं गोमूरं च यवान्नकम् ॥ पायसं च गुडं चासूक् मुद्रान्भुवत्त्वा व्रजेन्नरः ॥ २१८ ॥

अब तिथिदोहद लिखते हैं—(पक्षादितिथि) प्रतिपदामें आकका पत्ता, द्वितीयामें चावलोंका जल, तृतीयामें घृत, चतुर्थीमें यवागू, पंचमीमें हविष्यान्न, पटीमें सुवर्णका जल, सतमीमें पुए ॥ २१७ ॥ अष्टमीमें विजौरा नींवू, नवमीमें शुद्धजल, दशमीमें गोमूत्र, एकादशीमें यवान्न, द्वादशीमें खीर, त्रयोदशीमें मुड, चतुर्दशीमें सधिर, पौर्णमासीमें मूँगका भोजनकरके यात्रा करें ॥ २१८ ॥

अथ वारदोहदम् ।

रसालं पायसं चाद्यात्कांजीमुण्डं पयो दधि ॥

पयोशृतं तिलान्सूर्यादोहदं गमने क्रमात् ॥ २१९ ॥

अब वारदोहद लिखते हैं—रविवारमें ईखका पदार्थ, सोमवारमें खीर, मंगलमें कांजी, बुधमें गरम दूध, वृहस्पतिमें दही, शुक्रमें औटाहुआ दूध, शनैश्चरमें तिल भक्षण करके यात्रा करें ॥ २१९ ॥

अथ दिग्दोहदम् ।

प्राचीं गच्छेदघृतं प्राश्य दक्षिणाशां तिलोदनम् ॥

पश्चिमां दोहदं मीनमुदीचीं तु पयस्तथा ॥ २२० ॥

अब दिग्दोहद लिखते हैं—धी खायकरके पूर्वदिशाकी यात्रा करें, तिल मिश्रित भात खा करके दक्षिणकी यात्रा करें, मछलीका मांस खाय करके पश्चिमकी यात्रा करें, दूध खायकरके उत्तरकी यात्रा करें ॥ २२० ॥

अथ दोहदाऽलभेऽस्पर्शत्वे च तद्धयानम् ।

दोहदस्याप्यलभेतु ध्यात्वा तदोहदं व्रजेत् ॥ २२१ ॥

अब दोहदके नहीं मिलनेसे उसका ध्यान लिखतेहैं—दोहद न मिलसकै तो उसका ध्यान करकेही यात्रा करौ ॥ २२१ ॥

अथ वहन्नाडीपदेन गच्छेदेतस्य

प्रसंगादेहस्वरविचारः ।

यदुक्तं स्वरतत्त्वज्ञै रहस्यं यामलादिषु ॥ वक्ष्ये तत्त्वोप-
युक्तं च संक्षेपाद्वामनादिषु ॥ २२२ ॥ नाडीडा वामगा चांडी
पिंगला दक्षिणा रखेः ॥ सुपुम्ना शांभवी मित्रा सा तु
योगींद्रिगोचरा ॥ २२३ ॥

अब जो नाडी वहतीहोय उसीतरफके पांव डठाकर चलै इसी
प्रसंगसे देहस्वरविचार लिखतेहैं—स्वरतत्त्वके जाननेवालोंने यामलादि
तत्त्वोंमें जो रहस्य वर्णन करेहैं उनको यात्राका उपयोगी समझकर
संक्षेपसे कहतेहैं ॥ २२२ ॥ चांडी नाडी इडानामकी है, जिसका स्वामी
चंद्रमा है और दाहिनी नाडी पिंगला नामकी है, जिसका स्वामी
सूर्यहै और दोनों नाडी मिलकर चलें तो सुपुम्ना नामकी कहातीहै
जिसका स्वामी शम्भुहै और यह नाडी योगींद्रियोंके जाननेमें
अतीहै ॥ २२३ ॥

अथ तिथिपरत्वेन स्वरोदयः ।

शुक्ले प्रतिपदारंभादादौ चंद्रतिथिवयम् ॥ ततो दिनत्रयं
सूर्यों ज्येयमेवं पुनःपुनः ॥ २२४ ॥ कृष्णे तु प्रथमं सूर्यस्त-
तश्चंद्रोऽन्यदुक्तवत् ॥ निजनाडयुदयाद्वद्यः पंच स्वीय-
स्वरोदयः ॥ ततोऽन्यस्य तथा चैव तिथौ द्वादश
संक्रमात् ॥ २२५ ॥

अब तिथिपरत्वसे स्वरोदय लिखते हैं—शुक्रपक्षकी प्रतिपदा से लेकर प्रथम तीन तिथि चंद्रमाकी होती हैं और फिर तीन तिथि सूर्यकी होती हैं इस प्रकार बारबार गिनकर जाने अर्थात् प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया चंद्रमाकी तिथि हैं और चतुर्थी, पंचमी, पष्ठी सूर्यकी तिथि हैं—सप्तमी, अष्टमी, नवमी चंद्रमाकी हैं। दशमी, एकादशी, द्वादशी सूर्यकी; त्रयोदशी, चतुर्दशी, पौर्णमासी चंद्रमाकी तिथि हैं ॥ २२४ ॥ कृष्णपक्षमें प्रथम तीन तिथि सूर्यकी और फिर तीन तिथि चंद्रमाकी होती हैं इसी प्रकार पहले के तुल्य जाननी। अपनी नाडी के उदयसे लेकर प्रथम पांचघण्डी अपना स्वर रहता है और फिर दूसरेका स्वर आजाता है अर्थात् सूर्यका स्वर होय तो प्रथम पांचघण्डी-तक रहता है फिर पांचघण्डी चंद्रमाका और फिर पांचघण्डी सूर्यका इत्यादि। यदि चंद्रमाका स्वर उदय होय तो प्रथम पांचघण्डी-तक चंद्रमाका फिर पांचघण्डी सूर्यका और फिर चंद्रमाका इस प्रकार एकतिथिमें बारहबार दोनों स्वर चलते हैं ॥ २२५ ॥

अथ वारपरत्वेन निजस्वरोदयः ।

- १. त्रयः सूर्यस्वरा ज्ञेया भानुजीवधरात्मजाः ॥ शनिभार्गवचं-
द्रज्ञाः प्रोक्ताश्चंद्रस्वरा इमे ॥ २२६ ॥ स्ववारे स्वस्वरारंभो
नाडयः पंचोदयाद्रवेः ॥ निजस्वरोदितं कार्यं स्ववारे
२. स्वस्वरोदये ॥ २२७ ॥ काले सूर्यस्वरस्येन्दोः स्वरे चेंदो रवेः
३. स्वरे ॥ उद्देगश्चाशुभं हानिः स्वस्वकालेऽखिलं शुभम् २२८ ॥
अब वारपरत्वसे निजस्वरोदय लिखते हैं—रवि, वृहस्पति, मंगल
बारमें सूर्यका स्वर रहता है और शनि, शुक्र, चंद्र, वृध इन बारोंमें
चंद्रमाका स्वर रहता है ॥ २२६ ॥ अपने बारमें सूर्यके उदयसे लेकर
पांचघण्डी अपना स्वर और फिर पांचघण्डी दूसरेका स्वर रहता है
अर्थात् प्रथम सूर्यका होय तो फिर चंद्रमाका और जो प्रथम चंद्र-

माका होय तो फिर सूर्यका स्वर रहताहै इसी प्रकार जानना चाहिये. जिस स्वरमें जो कार्य करना कहाहै उसको उसीके बारे और उसी स्वरमें करे ॥ २२७ ॥ सूर्यका समय होय तब चंद्रमाका स्वर होय और चंद्रमाका समय होय तब सूर्यका स्वर होय तो कार्यमें (उद्ग्रेग) घवराहट, अशुभ फल, तथा हानि होतीहै और अपने २ कालमें सब स्वर शुभ होतेहैं ॥ २२८ ॥

अथ प्रातः स्वस्वरपूर्वमुत्थानम् ।

प्रातनित्यं समुत्तिष्ठेत्स्ववारस्य स्वरेण हि ॥ अयने दक्षिणे-
उवजस्य स्वरेणौत्तरे रवे ॥ २२९ ॥ निजस्वरो यदा कार्ये
न चेत्संप्रोक्तवत्तदा ॥ प्राणायामादियनेन वाहयेत्तं स्वरं
सुधीः ॥ २३० ॥

अब प्रातःकालमें स्वस्वरपूर्वक उठना लिखतेहैं—जिस बारका जौनसा स्वर होय उसीमें प्रातःकाल सोतेसे उठे अथवा दक्षिणाचनमें चंद्रस्वरसे और उत्तरायणमें सूर्यस्वरसे जागे ॥ २२९ ॥ कार्यके अनुकूल अपना स्वर उक्तरीतिसे न चलताहोय तो बुद्धिमान्को चाहिये कि, प्राणायामादि यत्नोंसे उसी स्वरको चलावे जिसमें कि, वह कार्य करना चाहिये ॥ २३० ॥

अथ चंद्रस्वरकृत्यम् ।

प्रवेशोद्वाहयात्राश्च वस्त्रालंकारधारणम् ॥ संधिः शुभानि
कार्याणि कार्याणिदुस्वरोदये ॥ २३१ ॥ पौष्टिकं शांतिकं
प्रीतिरौपधं च रसायनम् ॥ योगाभ्यासादिकं कर्म सिद्धये-
त्सर्वं विधोः स्वरे ॥ २३२ ॥ श्रांतः शोकविपार्तश्च मूर्च्छितो
ज्वरितोपि च ॥ सज्जनस्य प्रवोधे च चन्द्रनाडीं प्रवाह-
येत् ॥ २३३ ॥

अब चंद्रस्वरकृत्य लिखतेहैं—प्रवेश, विवाह, यात्रा, वस्त्रालंकार-
धारण, मिलापकरना, तथा सब शुभकार्य चंद्रस्वरके उदयमें करने

चाहिये ॥२३१॥ पौष्टिक और शांतिक कार्य, प्रीतिकार्य, औषधकार्य, रसायन कर्म, योगाभ्यासादि सब कर्म चंद्रस्वरमें सिद्ध होते हैं ॥२३२॥ यकाहुआ, शोक और विषसे पीड़ित, मूर्छायुक्त, ज्वरयुक्त पुरुष चंद्रसाके स्वरको चलावै एवं सज्जन पुरुषके समझानेमेंभी चंद्रसाकी नाडीको चलावै ॥ २३३ ॥

अथ सूर्यस्वरकृत्यम् ।

कुर्यात्सूर्यस्वरे युद्ध व्यवहारं च भोजनम् ॥ मैथुनं विग्रहं दूतं
स्नानं भंगं भयं तथा ॥ २३४॥ विद्विषां मारणं स्तंभं मोह-
नोच्चाटनं वशम् ॥ सूर्यनाड्यामियात्सिद्धिमत्युग्रं कर्म
चाखिलम् ॥ २३५॥ मंदाग्रिभोजनादूर्ध्वं वश्यार्थं योषि-
तामपि ॥ सूर्यनाड्यां नरः स्वप्यात्प्रयत्नेनापि सर्वदा ॥
॥ २३६ ॥ आलिंगने प्रसंगे यो वश्यार्थं शयने स्त्रियाः ॥
चंद्रस्वरं स्वसूर्येण सकामस्तु पिवन्भवेत् ॥ २३७ ॥

अब सूर्यस्वरकृत्य लिखते हैं—सूर्यस्वरमें युद्ध, व्यवहार, भोजन,
मैथुन, विग्रह, जुआ, स्नान, भंग, भयकार्य करै ॥ २३४ ॥ शत्रुओंका
मारण, स्तंभन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण ये सब कार्य सूर्यस्वरमें
करने चाहिये तथा अत्युग्र सब कर्मभी सिद्धिको प्राप्त होते हैं ॥२३५॥
मंदाग्रिमें भोजनकरनेके पीछे तथा स्त्रियोंको वशमें करनेके लिये
पुरुष सूर्यस्वरमें यत्नसे सदैव सोवै ॥ २३६ ॥ कामीपुरुष सेजपर
आलिंगन तथा प्रसंगमें स्त्रीको वशमें करनेके लिये अपने सूर्यस्वरसे
स्त्रीके चंद्रस्वरको पीतारहे अर्थात् अपना दाहिना स्वर और स्त्रीका
वायांस्वर चलता होय तो स्त्रीके साथ प्रसंग तथा शयन करे ॥२३७॥

अथ वहन्नाडीस्वरकृत्यम् ।

पूर्णनाडीस्थिते पूर्णं कायं सिद्धयति प्रच्छके ॥ शून्यनाडी-
स्थिते शून्यं संक्रमेऽपि न सिद्धयति ॥ २३८॥ अये दत्त्वा

ब्रजेष्ठीमान्पूर्णनाड्याः पदवयम् ॥ प्रवेशसमये नाड्या
यात्राद्यं सर्वसिद्धिदम् ॥ २३९ ॥ दूरे युद्धे स्वरश्चांद्रः समा-
सन्मे रवे: शुभम् ॥ यायी चंद्रस्वरे जेता स्थायी सूर्यस्वरे
जयी ॥ २४० ॥ रिक्तमंगं रिपुः कृत्वा वहन्नाड्यां स्थितो
जयेत् ॥ शून्यभागे स्थितः शत्रुर्हन्यते नात्र संशयः ॥ २४१ ॥

अब वहते हुए नाडीस्वरकृत्य लिखते हैं—पूछनेवाला पूर्णनाडीमें
वैठा होय तो कार्य पूर्णसिद्ध होताहै और यदि पूछनेवाला शून्य-
नाडीमें वैठा होय तो कार्य शून्य रहताहै तथा पूछनेवाला चलते
फिरतेमें प्रश्न करै तो कार्यकी सिद्धि नहीं होतीहै ॥ २३८ ॥ बुद्धि-
मानको चाहिये कि, पूर्ण नाडीमेंही प्रथम तीन चरण धरकरके
यात्रा करै, इसी प्रकार प्रवेशके समयभी पूर्णनाडीमेंही प्रथम तीन-
चरण उठावे तो यात्रादिक सर्वकार्य सिद्धिदायक होतेहैं ॥ २३९ ॥
युद्ध दूर होय तो चंद्रस्वर और निकट होय तो सूर्यस्वर शुभ
होताहै. यात्रा करनेवाले राजाकी चंद्रस्वरमें जीत होतीहै और
स्थायी राजा सूर्यस्वरमें विजयी होताहै ॥ २४० ॥ यदि स्थायी शत्रुं
राजा नाडीके शून्य अंगको चलाताहुआ युद्ध करै तो जयको प्राप्त
होताहै और जो स्थायीशत्रु नाडीके शून्य भागमें युद्ध करै तो निसं-
देह माराजाताहै ॥ २४१ ॥

अथ पंचघट्यात्मके स्वरे तत्त्वोदयैः ।

तत्त्वानि पंच भूरापस्तेजो वायुर्नभः क्रमात् ॥

एकेकस्य घटीभोगे पंचघट्यात्मके स्वरे ॥ २४२ ॥

अब पंचघट्यात्मकस्वरमें तत्त्वोदय लिखते हैं—पृथ्वी, जल, अग्नि,
वायु, आकाश ये पांच तत्त्व क्रमसे एक एक घटीके भोगमें होतेहैं
अर्थात् एकएक घटीभर एकएक तत्त्व रहताहै यही स्वर पंचघट्या-
त्मक होताहै ॥ २४२ ॥

अथ तत्त्वानां प्रचारः ।

भुवो मध्ये जलस्याधः सर्वदोध्वं च तेजसः ॥

वायोस्तिर्यकप्रवाहः स्यात्संकमे नभसो द्वयोः ॥ २४३ ॥

अब तत्त्वोंका विचार लिखते हैं—पृथ्वीतत्त्वका प्रवाह मध्यमें चलता है, जलतत्त्वका स्वर नीचाहोकर चलता है अग्नितत्त्वका स्वर ऊंचाहोकर चलता है, वायुतत्त्वका स्वर तिरछा होकर चलता है और आकाश तत्त्वके स्वरमें दो गति होती हैं ॥ २४३ ॥

अथ स्वरतत्त्वानां फलम् ।

विजयस्तेजसे तत्त्वे सिद्धिराप्ये रणे भवेत् ॥

भूतत्त्वे सक्षतं युद्धे वायो भंगोऽथ खे मृतिः ॥ २४४ ॥

अब स्वर तत्त्वोंका फल लिखते हैं—अग्नितत्त्व होय तो युद्धमें विजय होती है और जलतत्त्व होय तो युद्धमें सिद्धि होती है और पृथ्वी तत्त्व होय तो युद्धमें धाव लगता है वायु तत्त्व होय तो युद्धमें भंग होता है और आकाशतत्त्व होय तो मृत्यु होती है ॥ २४४ ॥

अथ यात्रासमये गमनविधिः ।

स्वस्य देवस्य वा गैहाद्वृरोर्वा मुख्ययोपितः ॥ हविष्यं

प्राश्य भूपालो त्राह्णेणुमोदितः ॥ २४५ ॥ शृण्वन्सन्म-

गलान्येव संयायाद्विजयी प्रभुः ॥ गम्यदिक्संसुखं दत्त्वा

वहन्नार्डीपदं पुरः ॥ २४६ ॥ द्वात्रिंशत्त्र पदान्यस्मान्निर्गत्य

वसुधापतिः ॥ देवज्ञाद्विजवर्येभ्यः सहेमतिलपात्रकम् ॥

॥ २४७ ॥ घृतपात्रं च सद्रव्यं दत्त्वा रोहेच वाहनम् ॥

केश्चित्तु दक्षिणं पादमये दत्त्वा त्रजेदिति ॥ २४८ ॥ प्रोक्तं

तत्तु स्वकालोक्तस्वरथेन भवत्तदा ॥

अब यात्रासमयमें गमनविधि लिखते हैं—अपने देवताके वा गुरुके अथवा मुख्य द्वारके घरसे हविष्यान्न भोजन करके त्राह्णोंसे

आज्ञा माँग ॥ २४५ ॥ शुभ मंगल शब्दोंको सुनताहुआ राजा यात्रा करै तो विजयको प्राप्त होताहै. जौनसी दिशाको जाना होय उसी दिशाके सम्मुख प्रथम वह चरण उठाके धरै कि, उस समय जौनसा स्वर चलता होय ॥ २४६ ॥ उस स्थानसे वक्तीस कदम चलकर राजा ज्योतिषी ब्राह्मणोंके लिये सुवर्णसहित तिलपात्र ॥ २४७ ॥ तथा द्रव्यसहित घृतपात्र दान करके सवारीपर चढे. किन्हीं आचार्योंका ऐसा कथन है कि, दाहिने पाँवको आगे धरकर यात्रा करै ॥ २४८ ॥ परन्त ऐसा उस समय करना चाहिये कि, जब अपने समयका स्वर नहीं होय तो ॥

अथ प्रतिदिशं याने वाहनानि ।

प्राच्यां गजं रथं याम्यां प्रतीच्यां तुरगोत्तमम् ॥

उदीच्यां शिविकीं भूपः समारुद्ध्य ब्रजञ्जयेत् ॥ २४९ ॥

अब प्रतिदिशाके जानेमें वाहन लिखतेहैं—पूर्वमें हाथी, दक्षिणमें रथ, पश्चिममें उत्तम धोडा, उत्तरमें पालकीपर चढकर राजा यात्रा करै तो जयको प्राप्त होताहै ॥ २५० ॥

अथ दिश्युक्तवाहनाभावे ध्यानम् ।

दिश्युक्तवाहनाऽभावे ध्यात्वातद्वाहनं ब्रजेत् ॥ २५० ॥

अब दिशाओंमें उक्तवाहनके अभावमें ध्यान लिखतेहैं—दिशाओंकी कही हुई सवारी न मिलसके तो उन सवारियोंका ध्यानहीं करके यात्रा करै ॥ २५० ॥

अथ स्वगमनविलंबे प्रतिनिधित्वेन प्रस्थानम् ।

विलंबः स्वगमे राज्ञः कार्याद्यर्थदि चेत्स्वयम् ॥ छत्रचामर-
शस्त्रादिगम्याशां प्रति व्रेपयेत् ॥ २५१ ॥ चालयेयुश्च
विप्राद्या उपवीतमथायुधम् ॥ क्षीद्रिं धात्रीफलं चापि प्रस्थाने
वात्मनः प्रियम् ॥ २५२ ॥

अब स्वगमनके विलम्बमें प्रतिनिधिद्वारा प्रस्थान लिखते हैं—यदि कार्यादिकोंके कारण राजाको अपनी यात्रा करनेमें विलम्ब होय तो अपना छत्र, चॅवर, शस्त्र आदि वस्तुको गन्तव्य दिशामें भेजदेव ॥ २५१ ॥ ब्राह्मणलोग यज्ञोपवीतको, राजालोग आयुधको, वैश्य शहतको और शूद्र आमलेके फलको गन्तव्यदिशामें भेजदेवे अथवा जो वस्तु जिसको प्यारी होय उसकोही प्रस्थानमें भेजनी चाहिये ॥ २५२ ॥

अथ प्रस्थितस्य वसतिप्रदेशाः ।

गर्गो गेहांतरं गेहाद्धगुः सीमातरं जगौ ॥ प्रस्थानं तु भर-
द्वाजो वाणविक्षेपणावधि ॥ २५३ ॥ पुराद्विर्विसिष्टोन्ये
धनुपां शतपंचकम् ॥ केचिच्छतद्वयं चैके धनुर्दशमितं
जगुः ॥ २५४ ॥ एतदुक्तमिते देशे गम्याशाभिसुखो नृपः ॥
संप्रस्थितस्तदा यात्रा सुमुहूर्तफलप्रदा ॥ २५५ ॥

अब प्रस्थानका वासस्थान लिखते हैं—गर्गाचार्यका मत है कि, एकघरसे दूसरे घरको प्रस्थान भेजे, शुक्राचार्यका ऐसा मत है कि, एक गांवसे दूसरे गांवकी सीमामें प्रस्थान भेजे और भरद्वाजऋषिका ऐसा मत है कि, जितनी दूरपर वाण गिरता है उतनी दूरपर प्रस्थान भेजे ॥ २५३ ॥ वसिष्ठजीके यह मत है कि, पुरसे वाहिर प्रस्थान भेजे और अन्य आचार्योंका ऐसा मत है कि, पांचसौ धनुप भूमिपर प्रस्थान भेजे, किन्हीं आचार्योंका मत है कि, दोसौ धनुपके आगे प्रस्थान भेजे और कोई आचार्य ऐसा कहते हैं कि, दश धनुपके आगे प्रस्थान भेजे. जानना चाहिये कि, दो हाथका प्रमाण धनुपका होता है । गन्तव्य दिशाके सामने जानेवाला राजा उक्त दूरीपर प्रस्थान करे तो यात्रा सुमुहूर्तका फल देती है ॥ २५४ ॥ २५५ ॥

अथ कृतप्रस्थानस्यापि ततो गमः ।
धृतप्रस्थानको वापि स्वयं संप्रस्थितोपि वा ॥

ततोपि गमने चित्यं सच्चंद्रशकुनादिकम् ॥ २५६ ॥

अब कृतप्रस्थानकाभी गमन लिखते हैं—रखेहुए प्रस्थानकी जगह से अथवा आपही प्रस्थान किया हो तो उस स्थान से भी राजा, यात्रा करते समय शुभचंद्रमा तथा शकुनका विचार करें ॥ २५६ ॥

अथ प्रस्थितस्य गमनावधिः ।

प्रथमेहि नृपः क्रोशं द्वितोयेऽहंनि योजनम् ॥

क्रोशपटकं तृतीयेहि यथेच्छं तु ततः परम् ॥ २५७ ॥

अब प्रस्थान किये हुये राजा की गमन की वधि लिखते हैं—प्रथम दिन राजा एक कोश चलै, दूसरे दिन एक योजन अर्धात् चार कोश चलै, तीसरे दिन छह कोश और इससे परे इच्छानुसार चलै ॥ २५७ ॥

अथ प्रस्थाने प्रस्थितस्य कार्यवशादिलंबे
दिननिर्णयः ।

प्रस्थाने भूपतिस्तेष्वैकत्र दशरात्रकम् ॥

सप्तरात्रं तु सामंतः पंचाहं प्राकृतो जनः ॥ २५८ ॥

अब प्रस्थान में प्रस्थित का कार्यवश से विलंब में दिननिर्णय लिखते हैं—प्रस्थान करने के पीछे राजा दशरात्रितक एक जगह न ठहरे और (सामंत) सूबा सात रात्रितक एक जगह न रहे और (प्राकृतजन) साधारण मनुष्य पाँच दिन तक एकत्र न ठहरे ॥ २५८ ॥

अथ दिक्परत्वेन प्रस्थानम् ।

सप्ताहान्येव पूर्वस्यां प्रस्थानं पंच दक्षिणे ॥ पश्चिमे त्रीणि
रास्तानि सौम्यायां तु दिनद्वयम् ॥ २५९ ॥ स्वयं पंचदिनं

तिष्ठेद्विनं भार्या दशावरम् ॥ त्रिमंत्री वाहनं सप्त स्वर्णं मासं
द्विराषुधम् ॥ २६० ॥

अब दिक्परत्वसे प्रस्थान लिखते हैं—पूर्वदिशाकी यात्रामें सात दिन, दक्षिणदिशाकी यात्रामें पांच दिन, पश्चिममें तीन दिन और उत्तरमें दो दिन प्रस्थान रहे तो शुभ होता है ॥ २५९ ॥ राजा स्वयं प्रस्थान करे तो पांच दिन और स्त्री प्रस्थान करे तो दश दिन और मंत्री करे तो तीन दिन ठहरे, यदि सवारीको प्रस्थानमें भेजे तो सात दिन, सुवर्णको भेजे तो एकमास और शत्रुको भेजे तो दो मास प्रस्थानकी जगहमें रहे ॥ २६० ॥

अथ प्रस्थानोक्तदिनाधिक्ये पुनर्यात्रा ।

रात्रश्वातिक्रमश्चेत्स्यात्प्रस्थानस्योदितावधेः ॥

सन्मुद्दूर्ते पुनर्यात्रां कुर्याद्देहात्ततोपि वा ॥ २६१ ॥

अब प्रस्थानोक्तदिनाधिक्यमें पुनर्यात्रा लिखते हैं—प्रस्थानकी जगहमें ठहरनेके लिये जितने दिनोंकी अवधि पहिले कहनुकोहैं यदि उनसे अधिकदिन राजाको लगजाँय तो घर आयकर अथवा उसी जगहसे शुभ सुहृत्तमें फिर यात्रा करे ॥ २६१ ॥

अथ यात्रायाः पूर्वं त्याज्यानि ।

यात्राहात्पूर्वतः सप्तरात्रौ स्त्रीसेवनं त्यजेत् ॥ प्रासक्तश्चेष्ट-
पश्चैकरात्रं तु सर्वथैव हि ॥ २६२ ॥ जह्यादुग्धं त्रिरात्रात्
क्षौरं च पंचवासरात् ॥ तैलं विरेकं वमनं क्षोद्रं तद्वासरे
त्यजेत् ॥ २६३ ॥ क्रोधं च सुरतं तेलं पक्वमांसं गुडं पयः ॥
सेवित्वा नृपतिर्गच्छलभते विविधापदः ॥ २६४ ॥ अवमान्य
स्त्रियं विप्रान्विरुद्ध्य स्वजनेः सह ॥ ऋतुमत्यां च भार्यायां
गच्छन्मृत्युमवामुयात् ॥ २६५ ॥ ऋतुस्त्रानोत्तरं नार्या यात्रा

त्वावश्यकी यदि ॥ कृतभोगो नरो यायादानं शांतिं विधाय-
च ॥ २६६ ॥

अब यात्रामें पूर्व त्याज्य लिखते हैं—यात्राके दिनसे सात दिन
पहले खी सेवन त्याग देय, यदि राजा खीप्रसंगमें अत्यंत आसक्त
ही होय तो एकरात्रि पहिलेसे खी प्रसंग अवश्य ही त्यागदेय ॥ २६३ ॥
और तीन रात्रि पहिले दूध और पांच दिन पहिलेसे ध्यौर वनवाना
त्यागदेय और यात्राके दिन तैल मलना, दस्त करना, वमन करना,
शहदखाना त्यागदेय ॥ २६३ ॥ कोध, रति, तैल, फकाहुआ मांस,
गुड, दूध इतनी वस्तुओंमेंसे किसीका सेवन करके राजा यात्रा
करै तो अनेक आपदाओंको भोगता है ॥ २६४ ॥ खीका अपमान
करके, स्वजन तथा ब्राह्मणोंसे विरोध करके अथवा अपनी खी
रजोवती होय तो यात्रा करनेवाला राजा मृत्युको प्राप्त होता है ॥
॥ २६५ ॥ यदि आवश्यक यात्रा होय तो मनुष्य कहतुस्नानके
पश्चात् खीसम्भोग करके दान और शान्ति करै तदनन्तर यात्रा करै
तो कल्याण होता है ॥ २६६ ॥

अथ यात्रायां शुभशकुनाः ।

दधि दूर्वाक्षतारीप्यं पूर्णकुंभोथ सर्पपाः ॥ दीपो गोरोचनाऽ
दशांप्रज्वलन्हव्यवाहनः ॥ २६७ ॥ वेदघोपः शुभा वाचो
जयमंगलसंयुताः ॥ शंखदुंदुभिवीणादिमृदुमर्दलनिःस्वनाः
॥ २६८ ॥ सिद्धमन्त्रं च तांवृलं मीनो दुग्धं धृतं मधु ॥
मदिरा रुधिरं मांसं भक्ष्यं नानाविधं फलम् ॥ २६९ ॥ इक्षवः
सितपुष्पाणि पद्ममुद्घतगोमयम् ॥ ध्वजः सिंहासनं छत्रं
कृपाणांकुशमायुधम् ॥ २७० ॥ दोलावितानसद्वस्त्रं रत्नालंका-
रदीपिकाः ॥ विश्रो भूपो गुरुर्ध्वद्वः पुत्रपौत्रादिभिर्वृतः ॥ २७१ ॥
देवजः कन्यका योपा सुभगा पुत्रसंयुता ॥ वारांगना तपस्त्री

च वदान्योथ नरः शुचिः ॥ २७२ ॥ रजको धौतवस्त्रं च
शबो रोदनवर्जितः ॥ तोयार्थ्यपूर्णकुंभश्चानुगः पृष्ठे मृदों-
जनम् ॥ २७३ ॥ गजो वाजी रथो धेनुः सवत्सा तु विशे-
पतः ॥ श्वेतो बृपोऽन्यवणोपि वद्धैकश्चेत्तदा शुभः ॥ २७४ ॥
वर्णी स्वमित्रमुष्णीपं दर्भो हंसो मयूरकः ॥ नकुलश्च
भरद्वाजश्चापश्छागस्तथैव च ॥ २७५ ॥ चित्तोत्साहकरं
वस्तु शुभान्येतानि दर्शनात् ॥ २७६ ॥

अब यात्रामें शुभशकुन लिखते हैं—दही, दूर्वा, अक्षत, चांदी,
जलभराहुवा घडा, सरसों, दीपक, गोरोचन, दर्पण, प्रज्वलित
अग्नि ॥ २६७ ॥ वेदका शब्द, शुभ वाणी, जयमंगल, शंख, दुंदुभी,
वीणाआदि, मृदंग, डफ आदिके शब्द ॥ २६८ ॥ सिद्ध अन्न, ताम्बूल,
मछली, दूध, धी, शहत, मदिरा, रुधिर, मांस, नानाप्रकारके भक्ष्य
फल ॥ २६९ ॥ ईखके पदार्थ, श्वेत फूल, कमल, उठायाहुआ गोवर,
ध्वजा, सिंहासन, छत्र, कुश, शस्त्र ॥ २७० ॥ हिंडोला, तंबू, शुभ
वस्त्र, रत्न, आभूपण, मसाल, ब्राह्मण, राजा, गुरु, पुत्रपौत्रादिसे
युक्त वृद्ध पुरुष ॥ २७१ ॥ ज्योतिषी, कन्या, सौभाग्यवती स्त्री, पुत्र-
युक्ता सुन्दरी स्त्री, तपस्त्री, दाता मनुष्य, पवित्र मनुष्य ॥ २७२ ॥
धोवी, धुलेहुए वस्त्र, रोदनरहित मुर्दा, जलकी इच्छावाला पुरुष
खाली घडा लिये पीठके पीछे, मिट्टी, अजन, . ॥ २७३ ॥ हाथी,
घोडा, रथ, सवत्सा गौ, श्वेत वैल और अन्य वर्णकाभी वैल जो
कि, अकेलाही वंधा होय तो शुभ होता है ॥ २७४ ॥ ब्रह्मचारी
अपना मित्र, पगड़ी, कुश, हंस, मोर, न्योला, टिटहरी पक्षी,
नीलकठ पक्षी, वकरा ॥ २७५ ॥ और चित्तमें उत्साह करनेवाली
वस्तु ये सब शुभ हैं. यात्राके समय देखनेमें आवें तो कल्याण
होताहै ॥ २७६ ॥

अथ शुभवस्तुनि विशेषः ।

कीर्तनाच्छ्रवणं श्रेष्ठं श्रवणात् विलोकनम् ॥ दर्शनात्स्पर्शनं
चैपां दध्यादीनां गमादिपु ॥ २७७ ॥ शुभदं दर्शनं येपा-
मभिवादैव तावृपः ॥ कृत्वा दक्षिणतः सर्वान्गच्छन्स-
द्धिमवाप्नुयात् ॥ २७८ ॥

अब शुभवस्तुमें विशेष लिखते हैं—यात्रादि कार्योंमें शकुनकी
दध्यादिक शुभ वस्तुओंका नाम लेनेसे उनका श्रवण करना श्रेष्ठ
होता है और श्रवण करनेसे देखना श्रेष्ठ होता है और देखनेसे
स्पर्श करना श्रेष्ठ होता है ॥ २७७ ॥ जिनका दर्शन शुभदायक है
उनको प्रणाम करके अपने दक्षिण भागमें लेताहुआ यात्रा करने-
वाला राजा सिद्धिको प्राप्त होता है ॥ २७८ ॥

अथ हुःशकुनाः ।

कार्पासं कृष्णधान्यं च लोहकारश्च रोदनम् ॥ लोहं च
रक्तपुष्पं च गुडस्तैलं क्षुरं तथा ॥ २७९ ॥ पिण्याकं
तृणतकाणि भस्मास्थिलवणं तुपः ॥ पापाणेऽधनचर्मादि
सधूम्रो वह्निरौपधम् ॥ २८० ॥ मत्तो वांतः खलो हिंसो
मुंडितश्च बुभुक्षितः ॥ जटिलश्च तथा रोगी संन्यासी मलिनो
रिपुः ॥ २८१ ॥ खंजो नग्नोऽग्नीनश्च तैलम्यकतोथ गर्भिणी ॥
कापायवस्त्रधारी च मुक्तकेशोऽथ पाशवान् ॥ २८२ ॥
वंध्या च शूखले चौरः पंढो यानपलायनम् ॥ खरोद्ग्रमहि-
पाहूढाः कुवाक्यथ्रवणं तथा ॥ २८३ ॥ कृष्णसपोऽथ
मंडूकः सरठो ग्रामसूकरः ॥ कृपणः पतितो व्यंगः कुञ्जोऽघो
वधिरो जडः ॥ २८४ ॥ आर्द्धवासोथ विघवा स्वर्णकारो
रजस्वला ॥ उपानत्कर्दमांगी च पुरीपं च वसा तृणम् ॥
॥ २८५ ॥ तथा रजस्वलापुण्पं कृष्णोक्ता महिपो वृपः ॥

स्वगेहदहनं युद्धं मार्जरं स्वकुले कलिः ॥ २८६ ॥ गोक्षुतं
प्राणिनामंगशिरः श्रोत्रप्रकंपनम् ॥ मार्जरान्मार्गरोधश्च
स्खलनं रिक्तकुंभकः ॥ एते दुःशकुना याने सर्वकार्यनिषेधकाः ॥ २८७ ॥

अब दुश्शकुन लिखते हैं—कपास, काला अन्न, लुहार, रोनेका
शब्द, लोह, लाल फूल, गुड़, तैल, छींकका शब्द, तिलोंकी खल,
तृण, मट्ठा, भस्म, हाड़, लवण, फूस भूसी, पत्थर, इंधन, चमड़ा,
खुआँसहित अम्बि, औषध ॥ २८९ ॥ २८० ॥ उन्मत्त, आन्त, दुष्ट,
हिंसक मनुष्य, सुंडित, भूखा, जटाधारी, रोगी, संन्यासी, मलिन,
शब्द ॥ २८१ ॥ लंगडा, नंगा, अझहीन, तैलका उवटन लगाये हुए
मनुष्य, गर्भिणी, गेरुआ वस्त्रधारी, खुलेहुए बालोंवाला, फाँसी
हाथमें लियेहुए पुरुष ॥ २८२ ॥ वंच्या द्वी, शाँकल लियेहुए चौर,
नपुंसक, सवारीका भागना, गधा, ऊंट, भैंस इन पर चढ़ाहुआ
मनुष्य, कुवाक्यका श्रवण ॥ २८३ ॥ काला सर्प, मेंडक, कर्कटा,
आमसूकर, कृपण मनुष्य, पतित मनुष्य, कुवडा, लंगडा, अंधा,
वहरा, जड़, गीलेवस्त्र पहिरेहुए मनुष्य, विधवा द्वी, सुनार, रज-
स्वला द्वी, कीचमें सनाहुआ जूता, विष्टा, चर्ची, तृण ॥ २८४ ॥ २८५ ॥
रजस्वलाके रुधिरसे सना वस्त्र, काला घैल, भैंसा, सॉँड, अपने
घरमें आग लगजाना, विलावोंकी लडाई, अपने कुलमें लडाई
॥ २८६ ॥ गौकी छींक, प्राणियोंके अंग शिर कानोंका कौपना, वि-
लावोंसे मार्गका रुक्जाना, ठोकर लगकर रपटना, खाली घड़ा,
यह सब दुश्शकुन यात्रामें सर्वकार्योंके नाशक होते हैं ॥ २८७ ॥

अथ महाऽपश्शकुनाः ।

क्षिक्का विडालसर्पाभ्यां मार्गरोधो मृतेर्वचः ॥ मार्जरं माहिपं
युद्धं शुनः कर्णप्रकंपनम् ॥ अतिधूमान्वितो वह्निः पड़ते
मरणप्रदाः ॥ २८८ ॥

अब महापशकुन लिखते हैं—र्णीक होना, विलाव और सर्पसे मार्गका रुकजाना, मृत्युके वचन सुनना, चिलावेंका युद्ध, भैंसोंका युद्ध होना, कुत्तेका कान फटफटाना, अतिधूमयुक्त अग्निका दीखना, ये छह अपशकुन मरणदायक हैं ॥ २८८ ॥

अथ दुःशकुना वामतस्त्याज्याः ।

एते दुःशकुना वामे कृताश्वेच्छकुनोत्तरम् ॥

अदुषा एव ते ज्ञेयाः शकुना दक्षिणे शुभाः ॥ २८९ ॥

अब दुश्शकुन वाममें लाज्य लिखते हैं—यह दुश्शकुन यात्रा करनेवालेके बाई और होय तो शकुन होने पीछे शुभ होजाते हैं और शुभ शकुन दाहिनी ओर होय तो श्रेष्ठ होते हैं ॥ २८९ ॥

अथ केषांचित्कीर्तनं केषांचिद्दर्शनं शुभमशुभं च ।

शशजाहकगोधानां सर्पसुकरयोरपि ॥ कीर्तनं शुभदं नामा-

नो रुतं न च दर्शनम् ॥ २९० ॥ ऋक्षवानरयोर्याने दर्शनं च

रुतं शुभम् ॥ नामसंकीर्तनं नेष्टु दक्षिणे च खरस्वनः २९१ ॥

अब किसीका कीर्तन और किसीके दर्शनका शुभाशुभ लिखते हैं—खरहा, कछुआ, गोह, सर्प, सूकर इतने जीवोंके नामका कीर्तन शुभ होता है और इनका शब्द तथा दर्शन शुभ नहीं होता है ॥ २९० ॥ यात्राके समय रीछ और वानरका दर्शन तथा शब्द शुभ होता है और इनके नामका उच्चारण तथा दाहिनी ओर गधेका शब्द नेष्ट होता है ॥ २९१ ॥

अथ वामभागे शुभाः ।

सूकरी कोकिला पल्ली छुच्छुका पिंगला रला ॥ पोतकी च
शिवा सर्वे पुमाख्या वामगाः शुभाः ॥ मध्याह्नोत्तरतः
थेष्टो चापवभू च वामगाः ॥ २९२ ॥

अब वामभागमें शुभ लिखते हैं—सूकरी, कोकिला, छिपकली, छुद्धदारि, पिंगला, रला, पोदकी, लोखड़ी तथा पुरुषसंज्ञक जीव वामभागमें शुभ होते हैं। मध्याहुके उपरान्त नीलकंठ और न्योला वामभागमें शुभ होते हैं ॥ २९२ ॥

अथ वामभागे शुभस्वनः ।

खरोलूकशृगालानां वामे पृष्ठे शुभः स्वनः ॥ २९३ ॥

अब वामभागमें शुभ शब्द लिखते हैं—गधा, उल्लू, गीदड़ इनका शब्द वाईं और तथा पीठ पीछे होय तो शुभ होता है ॥ २९३ ॥

अथ दक्षिणभागे शुभः ।

श्रीकंठो वानरो भासच्छक्रः पिक्कको रुहः ॥ शा क्षसो वायसः श्रेष्ठाः स्त्रीसंज्ञाश्चापि दक्षिणे ॥ वनश्वस्त्रृगवस्त्ताश्च संध्यायां दक्षिणे शुभाः ॥ २९४ ॥

अब दक्षिणभागमें शुभ लिखते हैं—नीलकंठ, वानर, गिढ़, शिकरा, मैना, रुलनामका मृग, कुत्ता, रीछ, कौआ और स्त्रीसंज्ञक जीव दाहिनी ओर शुभ होते हैं और भेड़िया, मृग, और अज सन्ध्या समयमें दक्षिणभागमें श्रेष्ठ होते हैं ॥ २९४ ॥

अथ प्रदक्षिणगताः शुभाः ।

प्रदक्षिणगताः शस्ता याने तु मृगपक्षिणः ॥ विषमाश्रेदति-
श्रेष्ठा ब्रजंतो भूपतेर्मृगाः ॥ वामा दक्षिणगाः श्रेष्ठा मृगवश्च-
पतत्रिणः ॥ २९५ ॥

अब प्रदक्षिणगत शुभ लिखते हैं—राजाकी यात्राके समय मृग और पक्षी दक्षिणभागमें श्रेष्ठ होते हैं और वदि वे मृग तथा पक्षी (विषम) एक, तीन, पांच आदि चलरहे होंय तो अतिश्रेष्ठ होते हैं अथवा वामभागसे दक्षिणको मृग, न्योला, पक्षी चलरहे होंय तो श्रेष्ठ होते हैं ॥ २९५ ॥

अथ वामगाः शुभाः ।

शुगालः सारमेयश्च दक्षिणाद्वामगः शुभः ॥ २९६ ॥

अब वामगत शुभ लिखते हैं—गीदड़, वा कुत्ता दाहिनी ओर से चाँईओर को जाय तो शुभ होता है ॥ २९६ ॥

अथाऽत्र विशेषः ।

पूर्वदिग्गमने पूर्णवदनश्छकरः पिकः ॥ वामगो दक्षिणे काकः
शुभोन्यव गमैऽन्यथा ॥ २९७ ॥ चापः पूर्णाननो व्योम्नि
विधत्ते यदि तोरणम् ॥ अन्यो वा विजयस्तत्र काकश्चेन्म-
रणं ध्रुवम् ॥ २९८ ॥

अब यहां विशेष लिखते हैं—पूर्वदिशाकी यात्रामें मांसको मुखमें
लियेहुए शिकरा वा कोकिलका दर्शन होय तो शुभ होता है और
दक्षिणदिशाकी यात्रामें कौआ दाहिनीओर को जाय तो शुभ होता है
और अन्य दिशाकी यात्रामें कौआका अन्यथा फल होता है अर्थात्
अशुभ होता है ॥ २९७ ॥ यदि नीलकंठ पक्षी (पूर्णानन) मांसको
मुखमें लियेहुए आकाशमें तोरण बनारहा होय अर्थात् तोरण के
आकार उड़ता होय अथवा कोई अन्यपक्षी माँस लिये आकाशमें
उड़ता होय तो विजय होती है और जो वह अन्यपक्षी कौआ होय
तो निश्चय ही मरण होता है ॥ २९८ ॥

अथ शुनश्चेष्टाविशेषः ।

शीपोदरहनुप्राणहृत्कंठस्कंधपृष्ठकम् ॥ शा दक्षिणेनपादेन
कंड्यन् गमनादिपु ॥ २९९ ॥ लाभं क्षेमं जयं धत्ते दक्षि-
णांगे विशेषतः ॥ वामपादेन सर्वस्य नाशं प्रोत्तफलस्य
च ॥ ३०० ॥ विष्टापंकादिलिप्तांगः श्रवणास्फालनं श्रुतम् ॥
दंतप्रकाशनं निद्रालस्यं कुर्वन्मृतिप्रदः ॥ ३०१ ॥

अब शुनका चेष्टाविशेष लिखते हैं—यात्रादि कार्योंके समय कुत्ता
अपने दाहिने पाँचसे शिर, पेट, टोड़ी, नाक, छाती, कंठ, कंधा,

पीठ को खुजलावै तो ॥ २९९ ॥ लाभ, क्षेम, विजय होतीहै और दाहिने अंगको खुजलावै तो विशेष लाभ क्षेमादिकी प्राप्ति होतीहै। तथा वायें पाँवसे खुजलावै तो सर्वफलकां नाश होताहै ॥ ३०० ॥ विद्या वा कीचड़से सनाहुआ कुत्ता कानोंको फटफटावै अथवा छींकै वा दाँत फैलाव अथवा नींद तथा आलस्ययुक्त होवै तो मरण-प्रद होताहै ॥ ३०१ ॥

अथ यात्रोक्तशकुनानां वामदक्षिणभागयोः
प्रवेशादा व्यत्ययः ।

प्रवेशे निम्नगोक्तारे नष्टसंवीक्षणे भये ॥ इडानाड्याः प्रवाहे
च द्यूते भैपञ्चकर्मणि ॥ ३०२ ॥ युद्धे ते व्यत्यया ज्ञेयाः
प्रागुक्ताः शकुनाश्च ये ॥ वामे वा दक्षिणे ये च संप्रोक्ताः
शकुनाश्च ते ॥ ३०३ ॥ वैपरीत्येन विज्ञेयाः प्रवेशे नृपते-
र्बुधैः ॥ यात्रोक्ताः शकुना ये च त एव नृपदर्शने ॥ ३०४ ॥

अब यात्रोक्तशकुनोंका वामदक्षिणभागोंके प्रवेशादिमें व्यत्यय लिखतेहैं-प्रवेशमें, नदी उतरनेमें, नष्टवस्तुके खोजनेमें, भयमें (इडानाडी) वामस्वरके चलनेमें; जूआ खेलनेमें, औषधके कर्ममें ॥ ३०३ ॥ युद्धमें, पूर्वोक्त शकुन विपरीत जानने अर्थात् शुभ अशुभ और अशुभ शुभ होजातेहैं और जो शकुन वायें वा दाहिने भागमें शुभ वा अशुभ कहेगयेहैं वे सब शकुन राजाके प्रवेशसमय विपरीत जानने और जोजो शकुन यात्रामें कहेहैं वेही शकुन राजाके दर्शनमें विचारने चाहिये ॥ ३०४ ॥ ३०४ ॥

अथ वायोः शुभाशुभसूचकत्वम् ।

शुभदो दक्षिणे पृष्ठे मंदः शीतोथ मारुतः ॥

प्रच्चंडः संमुखे वामे भंगदः समरादिपु ॥ ३०५ ॥

अब वायुका शुभाशुभसूचकत्व लिखतेहैं-दाहिने और पीठपीछे मंद शीतलं पवनं चलै तो यात्रा शुभदायक होतीहै और सामने

वा वायें भागमें प्रचण्ड पवन चलै तो युद्धादिकमें भंगदायक होताहै ॥ ३०५ ॥

अथ शकुनादौ शुभाऽशुभदिग्विचारः ।

अर्धयामावशेषाया रात्रेर्यामप्रमाणतः ॥ अष्टास्त्रपि क्रमादिक्षु ऋषणं भास्वतः स्मृतम् ॥ ३०६ ॥ ज्वलंती भानुना युक्ता प्रोपिता दग्धसंज्ञिता ॥ गम्या धूमवती चैता दीतास्तिस्तोऽशुभा दिशः ॥ ३०७ ॥ आध्यः शान्ताभिधास्तिसः पंचम्यः शुभदा दिशः ॥ मध्यमं दिग्द्वयं मिश्रं विज्ञेयं शकुनादिषु ॥ ३०८ ॥

अब शकुनादिमें शुभाऽशुभदिग्विचार लिखते हैं—आधेप्रहर रात्रि वाकीरहे तवसे प्रहर २ भर सूर्य आठों दिशाओंमें क्रमसे रहते हैं इस प्रकार सूर्यका भ्रमण कहाहै ॥ ३०६ ॥ जिस दिशामें सूर्य होय वह दिशा ज्वलती नामकी होतीहै और जिस दिशाको सूर्य त्यागते हैं वह दग्धसंज्ञक होतीहै और जिस दिशामें सूर्य जावेगे वह दिशा धूमवती संज्ञक होतीहै यह तीनों दिशा (दीप्ताः) जलतीहुई होतीहैं और अशुभ हैं ॥ ३०७ ॥ इनसे पांचवीं पांचवीं तीन दिशाएँ शान्तानामकी शुभदायक हैं और मध्यकी दो दिशा मिश्रसंज्ञक हैं ये सब शकुनादिकोंमें विचारनी चाहिये ॥ ३०८ ॥

अथ दुःशकुने जाते कर्त्तव्यमाह ।

याने दुःशकुने साज्यं स्वर्णं दत्त्वा व्रजेत्सुखम् ॥ आद्यदुःशकुने प्राणानेकादशमितान्वजेत् ॥ ३०९ ॥ स्थित्वा सुशकुनं भूयो दृढ़ा तुष्टो व्रजेत्पुनः ॥ द्रितीयो गमने भूपो दुष्टेऽपि शकुने व्रजेत् ॥ ३१० ॥ प्रतीक्ष्य पोडशप्राणान्गच्छेन्नैव नृत्तीयके ॥ विरुद्धे शकुने पादो प्रशाल्याचम्य भूपतिः ॥ स्थित्वा तु क्षीरवृक्षावो भूयः स शकुनेर्वजेत् ॥ ३११ ॥

अब दुश्शकुन होनेसे कर्तव्य लिखतेहैं—यात्राके समय दुःशकुन होनेपर धृतसहित सुवर्णदान करके सुखपूर्वक यात्रा करै आदिमें दुश्शकुन होय तो ग्यारह श्वास जितनी देरमें आवैं उतनी देर ठहर जाय और फिर शुभ शकुन होय तो उसको देखकर प्रसन्न होताहुआ फिर यात्रा करै. दूसरी यात्रामेंभी दुष्ट शकुन होय तो सोलह श्वास लेकर यात्रा करै और तीसरी बार फिर दुष्टशकुन होय तो यात्रा नहीं करै. विरुद्ध शकुन होय तो राजा पांच धोय आचमन कर दूधवाले वृक्षके नीचै बैठ जाय और फिर शुभ शकुन होय तो यात्रा करै ॥ ३०९ ॥ ३१० ॥ ३११ ॥

अथ यात्रायां त्याज्यदोपाणां संग्रहः ।

तिथ्यक्षायनमासाहर्भवाः शूलादयथ ये ॥ संमुखस्थो भृगुः
सौम्यो भृगोर्विकादिकं तथा ॥ ३१२ ॥ लालाटी पारिघो
दंडो रजः सूतकमुत्सवः ॥ मृतपक्षोऽर्कपङ्कितातिथयः
१२ । ६ । ४ । ९ । १४ पापवासराः ॥ ३१३ ॥ पृष्ठवा-
मगतश्चंद्रोऽभिद्याम्यां भपञ्चकम् ॥ जन्मराशिभतो रंत्रं लग्ने
शब्दुभतोऽरिभम् ॥ ३१४ ॥ रिपुराशिभपौ लग्ने लग्नांशौ
कुंभमीनगौ ॥ लग्नं पृष्ठोदयं पृष्ठदिक्स्थमृक्षं शनिस्तु खे ॥
॥ ३१५ ॥ धूने शुकस्तथा केंद्रे वकी वक्रगवासरः ॥ एतेन्येपि
विवाहोक्ता दोपा नेष्टाः प्रयाणके ॥ ३१६ ॥

अब यात्रामें त्याज्य दोपोंका संग्रह लिखतेहैं—दूपित तिथि, दूपित नक्षत्र, दूपित अयन, दोपयुक्त मास, दोपयुक्त वार, दिशाशूल आदि, सम्मुख शुक्र सम्मुख वृध, शुक्रका वक्रत्व, अस्तत्व आदि ॥ ३१२ ॥ लालाटीयोग, परिघदंड योग, रजस्त्वलाका दोप, सूतक, उत्सव, मृत-
पक्षके नक्षत्र, द्वादशी, पष्टी, रिक्ता तिथि; पश्चवार ॥ ३१३ ॥ पीछे
वायुं चंद्रमा, दक्षिणदिशाकी यात्रामें अभिजित् मुहूर्त, धनिधृदि

नक्षत्रपंचक, जन्मराशि और जन्मलघ्नसे आठवीं लघ्न और शत्रुकी राशिने छठी लघ्न तथा शत्रुकी राशि और जन्मलघ्नके स्वामी दोनों यात्राकी लघ्नमें होय; कुंभ, मीन लघ्न तथा कुंभ, मीन राशिके नवांश पृष्ठोदय अर्थात् मेष, वृष, कर्क, धनु, मकर लघ्नें, पीठपीछेकी दिशामें स्थित नक्षत्र, दशवें स्थानमें शनैश्चर, सातवें स्थानमें शुक्र, केद्रमें वक्रीयह, वक्रीयहका वार वे दोप और जो विवाहमें कहेहैं वे सब दोप यात्रामें नेष्ट होतेहैं ॥ ३१४ ॥ ३१५ ॥ ३१६ ॥

अथात् युद्धयात्राप्रसंगाद्यूतम् ।

अधोवक्रे च नक्षत्रे वारे चोपचयावहे ॥ चंद्रतारावलोपेते
कुमारे शुभवासरे ॥ ३१७ ॥ कालजे दिग्भवे वापि
स्वस्य पूर्णवले स्वरे ॥ योगिनीकालदिक्षशूलचंद्रतारानु-
कूल्यके ॥ ३१८ ॥ दशायामपृष्ठगें वा गोचरे लाभगेखगे ॥
युद्धोक्तजयदे योगे शोभने देहजे स्वरे ॥ ३१९ ॥ द्यूतं कार्यं
विनोदाय धनलाभाय भूमिपैः ॥ पूर्वादितश्चतुर्दिशु नंदाया-
स्तिथयः क्रमात् ॥ ३२० ॥ मध्ये पूर्णा इमे पंच ह्यकारायाः
स्वरास्तथा ॥ तिथिदिवचरतश्चैवं घटीपद्मप्रमाणतः ॥ ३२१ ॥
तात्कालिकः क्रमज्ञेयो दिक्स्वरस्तत्त्ववेदिभिः ॥ वाल-
प्रभृतयोवस्थास्तेपां ज्ञेयाः क्रमाहुयेः ॥ ३२२ ॥ पूर्णो जयः
स्वरे यूनि वाले वाताज्ययो भवेत् ॥ ईपद्वातात्कुमारे च
वृद्धे भंगो मृतो मृतिः ॥ ३२३ ॥ स्वयं स्वरवलोपेतदिशि
स्थित्वाऽथ शाववम् ॥ कृत्वाऽन्यत्र दिशि द्यूतं युद्धं कुर्व-
ञ्जयेद्वपः ॥ ३२४ ॥

अब यहां युद्धयात्राकेप्रसंगसे दूत लिखतेहैं—अधोमुख नक्षत्र
होय, उपचय स्थान अर्थात् जन्मलघ्न और जन्मराशिसे तीसरा,
स्थित ग्रहके वारमें छठा, दशवां, ग्यारहवां स्थान चंद्रमा और

ताराके बलसे युक्त कुमारावस्थाका स्वर होय, शुभवार होय, काल और दिशाका स्वर, अर्थात् जिस समय जिस दिशामें मुख करके जुआ खेले तब उस काल और दिशाका जो स्वर पहिले कह चुकेहैं सो बलवान् होय और अपना स्वरभी बलीहोय, योगिनी, काल, दिशाशूल, चंद्रमा, तारा ये सब अनुकूल होंय ॥ ३१७ ॥ ॥ ३१८ ॥ दशामें वा अष्टकवर्गमें अथवा गोचरमें ग्यारहवें स्थानमें ग्रह होय, युद्धोक्त जयदायक योगहोय, देहजस्वर शुभ होय ॥ ३१९ ॥ तो राजालोगोंको आनंद और धनलाभ होनेके लिये जुआ खेलना चाहिये। पूर्वादिक चारों दिशाओंमें क्रमसे नंदादिक तिथि रहतीहैं और मध्यमें पूर्णातिथि रहतीहै इसी प्रकार पूर्वादिक दिशाओंमें क्रमसे आकारादि चार स्वर निवास करतेहैं और मध्यमें ओंकारस्वर रहताहै इसी प्रकार तिथियोंका दिक्स्वर छहछह घडीके प्रमाणसे तात्कालिक दिक्स्वर होताहै तत्त्ववेदियोंको ऐसा जानना चाहिये और उन स्वरोंकी वालादि पांच अवस्थाएँ क्रमकरके होतीहैं ॥ ३२० ॥ ॥ ३२१ ॥ ३२२ ॥ युवा स्वर होय तो पूर्ण विजय होतीहै, वाल स्वर होय तो चोटलगकर विजय होतीहै, कुमार स्वर होय तो कुछ चोट लगनेसे विजय होतीहै, वृद्ध स्वर होय तो भंग होताहै और मृत्यु स्वर होय तो मृत्यु होतीहै ॥ ३२३ ॥ राजा जाय तो स्वर-बलयुक्त दिशामें स्थित होकर शत्रुको स्वरबलहीन दिशामें स्थित करके जुआ खेले वा युद्ध करे तो विजयको पाताहै ॥ ३२४ ॥

अथ यात्रानिवृत्तौ गृहप्रवेशः ।

प्रवेशो भूपतेर्यात्रानिवृत्तो निजमंदिरे ॥ श्रेष्ठो वारे गुरो शुक्रे बुधे चंद्रे शनैश्चरे ॥ ३२५ ॥ चित्रोत्तगनुरधार्ये रोहिणी-रेतीमृगे ॥ त्यक्त्वा रिक्ताममां सूर्यं भौमं लग्नं चरं लवम् ॥ ३२६ ॥ पुष्पे हस्ते धनिष्ठायां शतेष्युक्तः शुभः परेः ॥ ३२७ ॥

अब यात्रानिवृत्तिमें यहप्रवेश लिखते हैं—यात्रासे लौटनेपर राजाका अपने घरमें प्रवेश होना वृहस्पति, शुक्र, बुध, चंद्र, शनै-श्वर वारमें श्रेष्ठ होताहै ॥ ३२५ ॥ चित्रा, तीनों उत्तरा, अनुराधा, रोहिणी, रेवती, मृगशिरा इन नक्षत्रोंमें यहप्रवेश श्रेष्ठ होताहै परन्तु रिक्ता, अमावस्या तिथि रवि और मंगल वार, चर लग्न और चर लग्नका नवांशा इनको स्थागदेवे ॥ ३२६ ॥ किन्हीं आचार्योंने ऐसा कहाहैकि, पुष्य, हस्त, धनिष्ठा, शतभिषा इन नक्षत्रोंमें यहप्रवेश श्रेष्ठ होताहै ॥ ३२७ ॥

अथ गृहप्रवेशोऽन्यनक्षत्राणां फलम् ।

श्रवस्त्र्ये पुनर्वस्वोः स्वातिपुष्याश्विभेषु च ॥ प्रवेशे च पुनर्यात्रा शीघ्रं भवति भूपतेः ॥ ३२८ ॥ स्वस्य नाशः प्रवेशे स्यात्पूर्वासु भरणीमधे ॥ आद्र्द्विश्लेषाभिधे मूले ज्येष्ठायां पुत्रनाशनम् ॥ ३२९ ॥ कृत्तिकायां गृहे दाहो विशाखायां मृतिःस्त्रियाः ॥ ३३० ॥

अब यहप्रवेशमें अन्यनक्षत्रोंका फल लिखते हैं—श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पुनर्वसू, स्वाति, पुष्य, अश्विनी इन नक्षत्रोंमें राजाका प्रवेश होय तो फिर शीघ्रही यात्रा होतीहै ॥ ३२८ ॥ तीनों पूर्वा, भरणी, मधा इन नक्षत्रोंमें प्रवेश होय तो अपनाही नाश होताहै. आद्र्द्वा, आश्लेषा, मूल, ज्येष्ठा इन नक्षत्रोंमें प्रवेश होय तो पुत्रका नाश होताहै ॥ ३२९ ॥ कृत्तिकामें होय तो यहमें अग्नि लगे और विशाखामें यहप्रवेश होय तो स्त्रीकी मृत्यु होय ॥ ३३० ॥

अथ लग्नवलम् ।

स्थिरेंगेशो शुभेर्थकेद्रकोणविलाभगैः १ । ४ । ७ । १० ।
५ । ९ । ३ । ११ ॥ पापेल्लभविष्ट ११ । ३ । ६ संस्थैः

शुद्धे तुर्ये छ तथाष्टमे ८ ॥ ॥ ३३१ ॥ प्रवेशो भूमुजामिषो
विजनुर्भाष्टमे स्मृतः ॥ ३३२ ॥

इति श्रीमद्वैवज्ञरावलहरिशंकरसूरिसूनुगणपतिकृते मुहूर्त-
गणपतौ प्रवेशान्तं यात्राप्रकरणं विंशम् ॥ २० ॥

अब लग्नवल लिखते हैं—स्थिर लग्न और स्थिरलग्नका नवांशा
होय, दूसरे, केंद्र, त्रिकोणमें शुभग्रह होयें; ग्यारहवें, तीसरे, छठे
स्थानमें पापग्रह होयें; चौथा और आठवाँ स्थान शुद्ध होय जन्म-
लग्नसे आठवीं लग्न नहीं होय तो राजाओंका यहप्रवेश शुभ होताहै
॥ ३३१ ॥ ३३२ ॥

इति श्रीमद्वैवज्ञरावलहरिशंकरसूरिसूनुगणपतिकृतेमुहूर्तगणपतौ
पंडितवेणीरामात्मजपंडितरामदयालुशर्मकृतभाषाटीकासम-
लकृतं प्रवेशान्तं यात्राप्रकरणं विंशम् ॥ २० ॥

अथ वास्तुप्रकरणम् तत्रादौ वासार्थे शुभाशुभोग्रामः ।

स्वनामराशितो ग्रामराशिद्वांकेषु दिक्षिवैः २ । ९ । ६ ।

१० । ११ ॥ संमितश्वेतदा स्वस्य तद्वामे वास उत्तमः ॥ १ ॥

रोगोऽपृष्ठव्यययोस्तुर्ये ८ । १२ । ४ वैरमाद्ये च सप्तमे १ । ७ ॥

हानिः पष्टे तृतीये द्वादश च ग्रामराशौ स्वनामभात् ॥ २ ॥

अब वास्तुप्रकरण लिखते हैं—तहाँ पहिले वासार्थ शुभाशुभ ग्राम
लिखते हैं—अपने नामकी राशिसे ग्रामकी राशि दूसरी, नौर्वीं, पांचर्वीं,
दशर्वीं, ग्यारहर्वीं होय तो उस ग्राममें अपना निवास उत्तम होताहै
॥ १ ॥ अपने नामकी राशिसे ग्रामकी राशि आठर्वीं, चौथी, वारहर्वीं
होय तो रोग होताहै और पहिली, सातर्वीं होय तो वैर होताहै.
छठी, तीसरी होय तो हानि होतीहै ॥ २ ॥

अथ काकिणीविचारः ।

स्वर्गं द्विगुणं कृत्वा परवर्गान्वितं गजैः ॥ भजेच्छे-
पास्तु काकिण्यः कार्याश्वेवं परस्परम् ॥ ३ ॥ अधिका
यस्य काकिण्यो भवेदन्यस्य सोऽर्थदः ॥ इत्थं काकिणि-
काधिक्ये निवसेन्नगरे नरः ॥ ४ ॥

अब काकिणी विचार लिखते हैं—अपने वर्गको दूना करके
उसमें परवर्गको जोड़देय उसमें आठका भाग देनेसे जो वर्चे सो
परस्पर काकिणी होती है, जिसकी काकिणी अधिक होय सो दूसरे
रेके लिये धनदायक होता है इस प्रकार जिस नगरकी काकिणी
अधिक होय मनुष्यको चाहिये कि, उसी नगरमें निवास करौ॥३॥४॥

अथ ग्रामे निवासदिग्निविचारः ।

मध्ये ग्रामस्य गोद्वद्वनकसिंहाख्यराशयः ॥ मीनालिक-
कन्यकाः १२ । ८ । ६ पूर्वे दक्षिणे कर्कराशिकः ॥ ५ ॥
धन्विनः पश्चिमे मेषतुलाकुम्भा १ । ७ । ११ स्तथोत्तरे ॥
नो वसेयुर्नराः सौख्यधनलाभात्मजार्थिनः ॥ ६ ॥ वैनते-
येमुखा वर्गा वलिष्ठाः पूर्वतः क्रमात् ॥ स्वदिशास्थं गृहं
त्रेषु पंचम्यां दिशि मृत्युदम् ॥ ७ ॥ ग्रामे चतुर्षु कोणेषु
वसेयुर्हीनजातयः ॥ विश्रावास्तु दिशास्वेव मध्ये वापि
सुखेष्पसवः ॥ ८ ॥

अब ग्राममें निवासदिग्निविचार लिखते हैं—वृप, मिथुन, मकर,
सिंह राशिवाले मनुष्य ग्रामके मध्यमें नहीं वसें. मीन, वृश्चिक,
कन्या राशिवाले नर ग्रामके पूर्वादिशामें न वसें. कर्क राशिवाला
दक्षिणमें न वसें ॥ ५ ॥ धनुराशिवाला पश्चिममें और मेष,
तुला, कुम्भ राशिवाला उत्तरमें न वसें. सौख्य, धनलाभ, पुत्रके
चाहनेवाले नर उक्त दिशाओंमें निवास नहीं करें ॥ ६ ॥ गरुडादि

वर्ग पूर्वादिक आठों दिशाओंमें क्रमसे रहतेहैं. अपने वर्गकी दिशामें घर बनाना श्रेष्ठ होता है और अपने वर्गकी दिशासे पांचवीं दिशामें घर बनावे तो वह घर मृत्युदायक होताहै ॥ ७ ॥ हीन जातिके मनुष्य तो ग्रामके चारों कोणोंमें वसें. परंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो कि, सुख चाननेवाले हैं वे अपनी दिशाओंमें अथवा ग्रामके मध्यमें निवास करें ॥ ८ ॥

अथ भूमिविचारः ।

श्रेता भूमिस्तु विप्राणां रक्ता शस्ता धनुर्भृताम् ॥ विशां पीताथ शूद्राणां श्यामा मिश्रेतरस्य च ॥ ९ ॥ मधुरः कटुकस्तिक्तः कपायश्च रसाः क्रमात् ॥ आज्यासृग्धान्य-मद्यानां गंधा वर्णभवा इमे ॥ १० ॥ प्रागादिप्रवणा भूमिः क्षत्रादीनां शुभा क्रमात् ॥ सर्वदिक्प्रवणा भूमिर्विप्राणां तु गृहादिषु ॥ ११ ॥

अब भूमिविचार लिखतेहैं— श्रेतभूमि ब्राह्मणोंको, लालभूमि क्षत्रियोंको और पीली भूमि वैश्योंको, (श्याम) काली भूमि शूद्रोंको और सब रंगोंवाली भूमि इतर जनोंको श्रेष्ठ होतीहै ॥ ९ ॥ भूमिकी मिट्ठी खानेमें मीठी होय तो ब्राह्मणोंको, कड़वी होय तो क्षत्रियोंको तीखी होय तो वैश्योंको और कसैली होय तो शूद्रोंको श्रेष्ठ होतीहै, जिस भूमिमें घृतकीसी गंध आवै वह भूमि ब्राह्मणोंको और रुधि-रकी गन्धवाली क्षत्रियोंको और अन्नकीसी गन्धवाली वैश्योंको और मध्यकीसी गन्धवाली भूमि शूद्रोंको श्रेष्ठ होतीहै. यह वर्णोंके गन्ध कहेहैं ॥ १० ॥ पूर्वादि दिशाओंमें नीची भूमि क्रमसे क्षत्रियादि तीन वर्णोंके लिये शुभ होतीहैं और सब दिशाओंमें ढालू-भूमि ब्राह्मणोंकेलिये घर बनानेमें शुभ होतीहै ॥ ११ ॥

अथ भूमौ शल्यज्ञानम् ।

गृहप्रशाक्षरं पूर्वं यदि वर्गादिमं तदा ॥

शल्यं तदिधिं जानीयाद्वप्येमध्यगं वदेत् ॥ १२ ॥

अब भूमिमें शल्यज्ञान लिखते हैं—गृहके निमित्त प्रदन करनेवाले मनुष्यके मुखसे पहिला अक्षर जिस वर्गका निकले उसी वर्गकी दिशामें (शल्य) हाड़ होता है और यदि पूछनेवालेके मुखसे हप्त इन अक्षरोंमें से कोई प्रथम निकले तो घरके मध्यमें (शल्य) होता है ॥ १२ ॥

अथ गेहभुवः शुभाशुभपरीक्षा ।

गेहभूमौ खनेद्वत्तं हस्तमात्रं निर्शासुखे ॥

जलपूर्णं यदि प्रातः सजलं चेच्छुभं तदा ॥ १३ ॥

अब यह भूमिकी शुभाशुभ परीक्षा लिखते हैं—घर बनानेकी भूमिमें एकहाथ गहरा गड्ढा खोदै और फिर उसमें सन्ध्यासमय जल भर-देय यदि प्रातःकालतक जल भरा रहे तो वह भूमि मकान बनानेके लिये शुभ होती है ॥ १३ ॥

अथ गेहार्थभुवः शोधनं स्पष्टीकरणम् ।

शात्वा गृहोचितां भूमिमाजलं निखनेत्वधः ॥

आमृद्वेदं नृमात्रं वा पूरयेत्तच्च ह्यश्मभिः ॥ १४ ॥

अब यहार्थ भूमिके शोधन स्पष्टीकरण लिखते हैं—यह बनानेके योग्य भूमि पहिचानकर उसको जलपर्यंत नीचेतक खोदै अथवा दूसरे प्रकारकी मट्टी जहाँ निकलै बहांतक खोदे अथवा मनुष्यके वर-वर खोदै और फिर उसको पत्थरोंसे भरदे तो शुद्ध होजाती है ॥ १४ ॥

अथ भूमिप्रथमखनने शुभाशुभफलम् ।

क्षेत्रे तु खन्यमाने प्राग्दृश्यंतेश्मान इष्टिकाः ॥ तदारोग्यं धनासिः स्यात्कर्तुः सद्वनादिषु ॥ १५ ॥ कपालांगारं केशास्थिदर्शने निधनं भयम् ॥ १५ ॥

अब भूमि प्रथम खनने में शुभाऽशुभफल लिखते हैं—सकान बनाने की भूमि खोदी जानेपर यदि प्रथम पत्थर अथवा ईंटें निकलें तो वह सकान शुभ होता है और बनाने वाले को आरोग्यता तथा धन की प्राप्ति होती है ॥ १५ ॥ और यदि खोदते समय प्रथम कपाल, कोइला, भस्म, बाल, हाड़ दीखें तो स्थान बनाने वाले की मृत्यु अथवा भय होती है ॥ १६ ॥

अथ समभूमौ दिक्साधनम् ।

साधिन्या वा जलेनापि कृत्वा भूमिं समां ततः ॥ तत्र दिक्साधनं कृत्वा गेहारंभं समाचरेत् ॥ १७ ॥ दिक्षु-
द्विरहितं गेहं प्रासादो वा जलाशयः ॥ कुर्याद्वानिं मृत्तिं
तस्मादादौ दिक्साधनं चरेत् ॥ १८ ॥ द्विभा २५ याममितं
सूत्रं द्विपाशं प्रांत्ययोर्दृढम् ॥ कृत्वायामतृतीयेन्द्रो चिह्नं
तत्कर्पणाय च ॥ १९ ॥ विस्तारादेहं तु कोणार्थं क्षेत्रमध्यग-
सुत्रतः ॥ प्रांत्ये शंकुद्रव्ये पाशौ कृत्वाऽथो कर्पणाभिधम् ॥
॥ २० ॥ चिह्नमाकृष्ण्य कोणार्थे चिह्ने शंकुं निधापयेत् ॥
एवं कृते चतुःकोणाः स्वेष्टक्षेत्रे भवन्ति च ॥ २१ ॥

अब समभूमिमें दिक्साधन लिखते हैं—साधिनी यन्त्रसे अथवा जलसे भूमिको (समान) इक्सार करके दिक्साधन करै, तदनन्तर यह बनाने का आरम्भ करै ॥ १७ ॥ दिक्षुद्विसे रहित घर वा देवमंदिर अथवा जलाशय बनाया जाय तो वह हानि वा मृत्युको देता है इस कारण प्रथम दिक्साधन करै ॥ १८ ॥ सकान बनाने के क्षेत्रकी जितनी लम्बाई होय उससे दूना सूत्र ले यहां पर हाथसे नापने का प्रमाण जानना चाहिये उस सूत्रके दोनों सिरोंपर दो फाँसे हृष्ट बनावें और लम्बाई के तीसरे हिस्सेपर खेंचने के लिये चिह्न करदेय ॥ १९ ॥ और चौडाई के आधे हिस्सेपर कोण बनाने के लिये

अथ भूमौ शल्यज्ञानम् ।

गृहप्रश्नाक्षरं पूर्वं यदि वर्गादिमं तदा ॥

शल्यं तदिशि जानीयाद्वप्यैर्मध्यं वदेत् ॥ १२ ॥

अब भूमिमें शल्यज्ञान लिखते हैं—यह के निमित्त प्रश्न करने वाले मनुष्यके मुखसे पहिला अक्षर जिस वर्गका निकलै उसी वर्गकी दिशामें (शल्य) हाड़ होता है और यदि पूछने वाले के मुखसे हप्त इन अक्षरोंमें से कोई प्रथम निकलै तो घरके मध्यमें (शल्य) होता है ॥ १२ ॥

अथ गेहभुवः शुभाशुभपरीक्षा ।

गेहभूमौ खनेद्वारं हस्तमात्रं निशासुखे ॥

जलपूर्णं यदि प्रातः सजलं चेच्छुभं तदा ॥ १३ ॥

अब यह भूमिकी शुभाशुभ परीक्षा लिखते हैं—घर बनानेकी भूमिमें एक हाथ गहरा गड्ढा खोदै और फिर उसमें सन्ध्यासमय जल भर देय यदि प्रातः कालतक जल भरा रहे तो वह भूमि मकान बनानेके लिये शुभ होती है ॥ १३ ॥

अथ गेहार्थभुवः शोधनं स्पष्टीकरणम् ।

ज्ञात्वा गृहोचितां भूमिमाजलं निखनेत्वधः ॥

आमृद्देदं नृमात्रं वा पूरयेत्तत्र श्वशमभिः ॥ १४ ॥

अब यहार्थ भूमिके शोधन स्पष्टीकरण लिखते हैं—यह बनाने योग्य भूमि पहिचान कर उसको जलपर्यंत नीचेतक खोदै अथवा दूसरे प्रकारकी मट्टी जहां निकलै वहांतक खोदे अथवा मनुष्यके वरां वर खोदै और फिर उसको पत्थरोंसे भर दे तो शुद्ध हो जाती है ॥ १४ ॥

अथ भूमिप्रथमखनने शुभाशुभफलम् ।

क्षेत्रे तु खन्यमाने प्राग्दृश्यंतेऽमान इष्टिकाः ॥ तदारोग्यं धनासिः स्यात्कर्तुः सद्वनादिपु ॥ १५ ॥ कपालांगारं केशास्थिदर्शने निधनं भयम् ॥ १५ ॥

अब भूमि प्रथम बननेमें शुभाऽशुभफल लिखते हैं—सकान बनानेकी भूमि खोदी जानेपर यदि प्रथम पत्थर अथवा ईटें निकलें तो वह सकान शुभ होता है और बनानेवालेको आरोग्यता तथा धनकी प्राप्ति होती है ॥ १५ ॥ और यदि खोदते समय प्रथम कपाल, कोइला, भस्म, वाल, हाड़ दीखें तो स्थान बनानेवालेकी मृत्यु अथवा भय होती है ॥ १६ ॥

अथ समभूमौ दिक्साधनम् ।

साधिन्या वा जलेनापि कृत्वा भूमिं समां ततः ॥ तत्र दिक्साधनं कृत्वा गेहारंभं समाचरेत् ॥ १७ ॥ दिक्षु-छिरहितं गेहं प्रासादो वा जलाशयः ॥ कुर्याद्वार्णि मृतिं तस्मादादो दिक्साधनं चरेत् ॥ १८ ॥ द्वित्रा २५५ याममितं सूत्रं द्विपाशं प्रांत्ययोर्दृढम् ॥ कृत्वायामतृतीयेत्रौ चिह्नं तत्कर्षणाय च ॥ १९ ॥ विस्ताराद्देहं तु कोणार्थं क्षेत्रमध्यग-सूत्रतः ॥ प्रांत्ये शंकुद्वये पाशौ कृत्वाऽथो कर्षणाभिधम् ॥ ॥ २० ॥ चिह्नमाकृप्य कोणार्थं चिह्ने शंकुं निधापयेत् ॥ एवं कृते चतुःकोणाः स्वेष्टक्षेत्रे भवन्ति च ॥ २१ ॥

अब समभूमिमें दिक्साधनं लिखते हैं—साधिनी यन्त्रसे अथवा जलसे भूमिको (समान) इक्सार करके दिक्साधन करौ, तदनन्तर यह बनानेका आरम्भ करौ ॥ १७ ॥ दिक्षुचिसे रहित घर वा देवमंदिर अथवा जलाशय बनाया जाय तो वह हानि वा मृत्युको देताहै इस कारण प्रथम दिक्साधन करौ ॥ १८ ॥ सकान बनानेके क्षेत्रकी जितनी लम्बाई होय उससे दूना सूत्र ले यहां पर हाथसे नापनेका प्रमाण जानना चाहिये उस सूत्रके दोनों सिरोंपर दो फाँसे हृद बनावै और लम्बाईके तीसरे हिस्सेपर खेंचनेके लिये चिह्न करदेय ॥ १९ ॥ और चौडाईके आधे हिस्सेपर कोण बनानेकेलिये

दूसरा चिह्न करदेय तदनन्तर मकान बनानेकी भूमिके मध्यमें सूत्र डालै सूत्रके दोनों सिरोंपर कील गाड़े दोनों सिरोंके फाँसे उन कीलोंमें ही लगायदेवे फिर खेंचनेकेलिये जो चिह्न सूत्रमें बनाया गयाहै उसको पकड़कर खेंचे तब जहांपर कोणनाम चिह्न आकर पड़े वहाँ कील गाड़देवे वहीं एक कोण होगा। इसी प्रकार उस सूत्रको दूसरी ओर फेरकर खेंचे तो दूसरा कोण होगा इसी प्रकार दो कोण औरभी बनालेवे तो अपने इष्टक्षेत्रमें चारों कोण बनजाते हैं ॥ २० ॥ २१ ॥

अथ गृहस्थायाः ।

- आयाः क्रमाद्धजोः धूम्रः सिंहः श्वा वृपभः खरः ॥ गजो ध्वांक्ष इमे ज्ञेयाः प्राज्ञैर्गेहादिकर्मसु ॥ २२ ॥ विस्तारण-
णितक्षेत्रस्थायामेऽथाप्तभि ८ हृने ॥ शेषे ध्वजादिकश्चायः
प्रशस्तो विप्मोऽस्त्रिलः ॥ २३ ॥ प्राचीतो वलिनश्चाया
ध्वजाद्याः क्रमतस्त्वम् ॥ सर्वदिक्षु ध्वजे वक्रं सिंहे प्रागद-
क्षिणोत्तरम् ॥ २४ ॥ प्राच्यां वृपे गजे याम्यपूर्वयोः शुभ-
मालयम् ॥ ध्वजे प्रत्यङ्गमुखे वापि सिंहे कुर्यादुद्दमुखम् ॥
॥ २५ ॥ दक्षिणाभिमुखं नागे कुर्यात्प्राचीमुखं वृपे ॥
द्वात्रिंशद्वस्तकं यावदेकादशयवात्परम् ॥ २६ ॥ चित्यमा-
यादिकं तावन्नो चित्यमधिके ततः ॥ अलिंदादिषु ताणे
वा मंदिरे वा चतुर्भुवे ॥ २७ ॥ आयादिकं तु नो चित्यं
ताणे मासादयोपि न ॥ २८ ॥

अब यहका आयं लिखतेहैं—ध्वज १, धूम्र २, सिंह ३, श्वान ४,
वृपभ ५, खर ६, गज ७, ध्वांक्ष ८ क्रमसे ये आठ आयहैं, यहादिक
कमोंमें पण्डितोंको विचारने चाहिये ॥ २२ ॥ क्षेत्रकी चौडाईसे
लम्बाईको गुणाकरे फिर उसमें आठका भाग देय जो शेष वर्ते सो

ध्वंजादिक आय होते हैं. विषम अङ्क के सब आय श्रेष्ठ होते हैं ॥ २३ ॥ पूर्वादिक दिशाओंमें यह ध्वंजादिक आय क्रमसे चल-चान् होते हैं अर्थात् जौनसा आय क्षेत्रका होय उसी आयकी दिशामें घरका द्वार रखना चाहिये और ध्वंजनामक आयका द्वार सब दिशाओंमें हो सकता है और सिंहनामक आय होय तो पूर्व, दक्षिण, उत्तर दिशामें घरका द्वार होना चाहिये ॥ २४ ॥ वृपनामक आय होय तो घरका दरवाजा पूर्वदिशामें शुभ होता है और गजनामक आय होय तो दक्षिण तथा पूर्वदिशामें मकानका दरवाजा शुभ होता है और ध्वंजनामक आय होय तो गृहका द्वार पश्चिमसुखभी श्रेष्ठ होता है और सिंहनामक आय होय तो घरका दरवाजा उत्तर सुख करे ॥ २५ ॥ और गजनामक आय होय तो गृहद्वार दक्षिण-सुख करे तथा वृपनामक आय होय तो गृहद्वार पूर्वसुख बनावे. ग्यारह जौसे लेकर बत्तीस हाथतकके क्षेत्रमें आयादिका विचार करना चाहिये और यदि इससे अधिक होय तो आयादिका विचार नहीं करे (अलिंद) गृहके बाहर चबूतरेमें, तृणके घरमें, चारद्वारके मकानमें आयादिका विचार नहीं करे, तथा तृणके मकानमें मासादिकोंका भी विचार नहीं करे ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥

अथ क्षेत्रफलादायाद्यानयनम् ।

क्रमान्वदांकपण्नागत्रिनागाष्टाविवारणेः ९ । ९ । ८ । ८ ।
 ३ । ८ । ८ । ४ । ८ ॥ हते क्षेत्रफलेष्टांगनन्दार्काष्टभसंख्यकेः
 ८ । ६ । ९ । १२ । ८ । २७ ॥ २९ ॥ तिथ्युक्तःखाऽथि-
 भूमि १६ । २७ । १२० श्च तटे शेषमिते तथा ॥ क्रमा-
 दायोथ चारोंथो द्रविणं व्यवधिष्ण्यके ॥ ३० ॥ तिथिर्यो-
 गस्तथायुप्यमेते ज्ञेया गृहादिपु ॥ ३१ ॥

अब क्षेत्रफलादिकोंका आनयन लिखते हैं— जानना चाहिये कि, घरकी लम्बाई और चौड़ाईको परस्पर गुणाकरनेसे जो अंक होय

(३४६)

मुहूर्तगणपतिः-

[वास्तु-

वही क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफलको क्रमसे १। ९। ६। ८। ३। ८।
८। ४। ८ इन अंकोंसे अलग अलग गुणाकौर और प्रत्येक गुण-
नफलमें ८। ६। ९। ८। १२। २७। १५। २७। १२० इन अंकोंसे
क्रमकरके भाग देनेपर जो शेष वचै सो क्रमसे गृहादिकोंमें आय, वार,
अंश, द्रव्य, व्यय, नक्षत्र, तिथि, योग, आयु जाने ॥२९॥३०॥३१॥

अथ नक्षत्राद्राशिज्ञानम् ।

अश्विन्यादिव्ययं मेषे १ मधातस्त्रितयं हरौ ५ ॥
मूलात्रयं धनु ९ ष्येवं द्रेद्वे भे शेषराशिषु ॥ ३२ ॥

अब नक्षत्रसे राशिज्ञान लिखतेहैं—गृहके अश्विन्यादि तीन नक्षत्र
होयं तो मेष राशि और मधासे तीन नक्षत्र होयं तो तिंहराशि और
मूलसे तीन नक्षत्र होयं तो धनुराशि मकानकी जाननी और शेष
राशियोंमें दोदो नक्षत्र मकानके जाने, उन्हांसे होडाचकके अनुसार
राशिकी कल्पना करै ॥ ३२ ॥

अथ घटितम् ।

देशे ग्रामे पुरे गेहे प्रभौ मित्रेऽन्ययोषिति ॥ एकनाडी
प्रशस्तस्याद्विरुद्धा भिन्ननाडिका ॥ ३३ ॥ गेहेगेहेशयो-
र्मैयोर्वर्णाद्यास्तु विवाहवत् ॥ गेहेशालयमैक्ये तु मृत्युंदं
तद्वहं स्मृतम् ॥ ३४ ॥

अब घटित लिखतेहैं—देश, ग्राम, पुर, गृह, (प्रभु) स्वामि,
मित्र, अन्यस्ती इनमें एकनाडी होय तो श्रेष्ठ होतीहै और भिन्ननाडी
होय तो नेष्ठ होतीहै ॥ ३३ ॥ घरमें घरकी राशिका स्वामी और
घरके मालिककी राशिका स्वामी इन दोनोंकी मित्रतामें विवाहके
समान वर्णादिका विचार करना चाहिये, गृहेश और गृहका एकन-
क्षत्र होय तो वह गृह मृत्युदायक होता है ॥ ३४ ॥

अथ व्ययानयनम् ।

गेहनक्षत्रसंख्यांके नाग ८ तस्ये व्ययो भवेत् ॥
वह्नायं शुभदं चालपव्ययं वेश्म न चाऽन्यथा ॥ ३५ ॥

अब व्यानयन लिखते हैं—गृहके नक्षत्रकी संख्यामें आठका भाग देनेपर जो शेष वचै सो व्यय होताहै (व्रह्माय) वहुतसी आम-दनी वाला और अल्पखर्चवाला मकान ऐष होताहै अन्यथा ऐष नहीं होताहै ॥ ३५ ॥

अर्थेद्राजयमांशानयनम् ।

ध्रुवादिनामवर्णेन्द्र युक्ते क्षेत्रफले तथा ॥ व्रिभि ३ स्तष्टे-
शकाः शेषे शकांतकनृपाः क्रमात् ॥ इन्द्रभूपौ शुभावंशौ
यमो नेष्टो गृहादिषु ॥ ३६ ॥

अब इन्द्राजयमांशानयन लिखते हैं—क्षेत्रफलमें ध्रुवादिनामके अक्षर जोड़कर तीनका भाग देनेसे जो शेष वचै सो क्रमसे इन्द्र, यम, राजाका अंश होताहै गृहादिकोंमें इन्द्र और राजाका अंश शुभ तथा यमका अंश अशुभ होताहै ॥ ३६ ॥

अथ स्वेष्टायनक्षत्राभ्यां पिंडानयनम् ।

एकोनितेष्टविष्ण्येन निश्चा नेत्रशर्तेद्वः १५२ ॥ रूपोनेष्टा-
यनिन्देदुनागै ८१ युक्तास्तथा पुनः ॥ ३७ ॥ नगचंद्र १७
मितेयुक्ता विभक्तास्ते नृपाश्विभिः २१६ ॥ शेषं क्षेत्रफलं
खेटनक्षत्रायसमुद्द्रवम् ॥ ३८ ॥

अब स्वेष्टाय और नक्षत्र इन दोनोंसे पिण्डानयन लिखते हैं—
गृहेशके नामका जो इष्टनक्षत्र होय उसमेंसे एक घटाकर शेषको
एकसोवावन १५२ से गुणा करे और फिर इसी प्रकार अपने इष्टा-
यमेंसे एक घटायकर शेषको इक्ष्यासी ८१ से गुणाकरे जो अंक होय
उनमें पूर्वोक्त अंक जोड़कर सत्रह और जोड़दे फिर उसमें दोसोसो-
लहका भाग देनेसे जो शेष वचै सो ग्रहनक्षत्रायसमुद्द्रव क्षेत्रफल
होताहै ॥ ३७ ॥ ३८ ॥

अब उदाहरण लिखते हैं—जैसे नीलकंठनामक पुरुषका जन्म-
नक्षत्र अनुराधा है और अनुराधा नक्षत्रके साथ रोहिणी नक्षत्रका
मेलापक संभव होताहै इसकारण नीलकंठका इष्टनक्षत्र रो ८ १

माना है और व्रिप्तमआय सिंह तीसरा है अब इष्टनक्षत्र रोहिणी की चारसंख्यामें से एक घटाया तो ३ तीन रहे इन तीनसे १५२ को गुणाकिया तो ४५६ हुए और इष्टआय ३ है इसमें से एक घटाया तो २ दो शेष रहे इन दोसे ८९ को गुणा तो १६२ हुए इनमें (१६२ + ४५६) पूर्वोक्तगुणांक जोड़े तो ६१८ हुए इनमें १७ सत्रह जोड़े तो ६३५ हुए अब इनमें २१६ का भाग दिया तो शेष २०३ बचे वस यह ही यह का खेटनक्षत्राय समुद्भव क्षेत्रफल हुआ-

अथ क्षेत्रफलादैर्ध्यविस्तारज्ञानम् ।

भक्ते क्षेत्रफले स्वेष्टविस्तारेण च दीर्घता ॥

स्वेष्टदीर्घतया भक्ते विस्तारो वेश्मनः स्फुटः ॥ ३९ ॥

अब क्षेत्रफलसे दैर्घ्यविस्तारज्ञान लिखते हैं—क्षेत्रफलमें इष्ट चौड़ा-ईसे भाग लेनेवर जो लब्ध मिले सो लम्बाई एवं क्षेत्रफलमें इष्ट लम्बाई से भाग लेनेपर जो लब्ध मिले सो गृहकी स्पष्ट चौड़ाई होती है ॥ ३९ ॥

अथ गृहारंभसमयः ।

चेते शुक्लादिके शोको वैशाखे धान्यवर्धनम् ॥ ज्येष्ठे कर्त्तु-र्भवेन्मृत्युरापाढे पशुपीडनम् ॥ ४० ॥ थ्रावणे धनवृद्धिः

स्यान्नाशां भाद्रपदे भवेत् ॥ आश्विने तु भवेद्युद्धंकार्त्तिके भृत्यनाशनम् ॥ ४१ ॥ लक्ष्मीलाभो भवेत्वृणां मार्गं पौषेऽथ फाल्युने ॥ माघे त्वमिभयं विद्याद्गृहारंभे न संशयः ॥

॥ ४२ ॥ स्यकत्वा चतुर्दशीं पष्टीं चतुर्थीमष्टमीममाम् ॥ नवमीं च रविं भास्मं गृहारंभो विधीयते ॥ ४३ ॥ पुष्ये मृगेनुराधायां धनिष्ठायुगुलोत्तरे ॥ हस्तव्रये च रोहिण्यां रेतत्यां गृहमा-रभेत् ॥ सृतिकामं दिरं कुर्यात्पुनर्भूमिजिति श्रुतो ॥ ४४ ॥

अब गृहारंभसमय लिखते हैं—शुक्लादिक चेत्रमासमें गृहारंभ करे तो शोक होना है और वैशाखमें गृहारंभ करे तो धान्यकी शुद्धि

होतीहै, ज्येष्ठमें करै तो गृहे वनानेवालेकी मृत्यु होतीहै, आपादमें गृहारंभ करै तो पशुओंको पीडा होताहै ॥ ४० ॥ श्रावणमें धनकी वृद्धि होतीहै. भाद्रपदमें नाश होतीहै; आश्विनमें युद्ध होताहै, कार्त्तिकमें भूत्यका नाश होताहै. अगहन, पौष, फालगुनमें गृहारंभ करै तो लक्ष्मीका लाभ और माघमें गृहारंभ करै तो अग्निका भय होताहै ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ चतुर्दशी, पष्ठी, चतुर्थी, अष्टमी, अमावास्या, नवमी इन तिथियोंको और रवि तथा मंगल वारको छोड़कर गृहारंभ करै ॥ ४३ ॥ पुष्य, मृगशिरा, अनुराधा, धनिष्ठा, शतमिष्या, तीनों उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वाति, रोहिणी, रेवती इन नक्षत्रोंमें गृहारंभ करै और पुनर्वत्, अभिजित, श्रवण इन नक्षत्रोंमें सूतिकाका यह बनावै ॥ ४४ ॥

अथ गृहारंभे वृपभवक्रम ।

गृहारंभेऽर्कभाद्रामैः ३ शीर्षस्थैर्दाह ईरितः ॥ अथपादस्थितैर्वेदैः ७ शून्यं स्याद्वृपचक्रके ॥ ४५ ॥ स्थिरता पृष्ठपादस्थैर्वेदैः ११ पृष्ठे श्रियद्विभिः १४ ॥ लाभो वैदै १८ दर्ककुक्षी रामैः २१ पुच्छे पतिक्षतिः ॥ ४६ ॥ कुक्षो वामेऽविधभि २६ नैस्त्वं मुखे पीडा त्रिभि २८ श्रभैः ॥

अब गृहारंभमें वृपचक्र लिखतेहैं—गृहारंभमें सूर्यके नक्षत्रसे तीन नक्षत्र वृपके शिरमें स्थितहैं, जिनका फल दाह होताहै और चार नक्षत्र वृपके अथ पादोंमें स्थितहैं जिनका फल शून्यहै ॥ ४५ ॥ उससे आगे चार नक्षत्र वृपके पिछले पादोंमें स्थितहैं, जिनका फल स्थिरता है और फिर तीन नक्षत्र पीठपर स्थितहैं, जिनका फल लक्ष्मीप्राप्तिहै. इससे आगे चार नक्षत्र दाहिनी कोखपर स्थितहैं, जिनका फल लाभहै और फिर तीन नक्षत्र पुच्छमें स्थितहैं, जिनका फल स्वामीका नाशहै ॥ ४६ ॥ और चारनक्षत्र वाँडकोखमें स्थितहैं

जिनका फल निर्धनता है. तदन्तर तीन नक्षत्र मुखमें स्थित हैं, जिनका फल पीड़ा है ॥

अथैतदेवपुनः स्पष्टम् ।

अर्कभात्सप्तमै ७ रुद्रै१८ दिंग्मः२८स्यादसदिष्टम् ॥ ४७ ॥

अब उसीको पुनः स्पष्ट लिखते हैं—सूर्यके नक्षत्रसे सात ७ ग्यारह ११, दश १० नक्षत्रोंका फल क्रमसे शुभ, अशुभकरके जाने ॥ ४७ ॥

अथ सौरमासाद्वेहादौ वास्तोर्मुखं पुच्छं कटिश्च ।

देवालये ब्रये मीना १२ द्वेषे सिंहा ९ द्रवौ स्थिते ॥ जला-
शये मृगाद्वास्तोर्मुखमीशाद्विलोमतः ॥ ४८ ॥ विलोम-
भ्रमणात्पृष्ठं गतायां विदिशि स्मृतम् ॥ तुर्यं स्वमुखतः पुच्छं
सम्मुखायां दिशि स्थितम् ॥ इत्युक्ते पृष्ठदिग्भागे वास्तोः
खातं गृहादिपु ॥ ४९ ॥

अब सौरमाससे यहादिसे वास्तुका मुख पुच्छ कटि लिखते हैं—देव-
मंदिर वनानेमें वास्तुका मुख मीनसे तीन अर्थात् मीन, मेष, वृषके
सूर्यमें ईशानमें रहता है (यहांपर वास्तुका भ्रमण उलटा होता है
ऐसा जाने) मिथुन, कर्क, सिंहके सूर्यमें वास्तुका मुख वायव्यमें
रहता है इत्यादि. यह वनानेमें सिंहसे तीन राशियोंके सूर्यमें वास्तुका
मुख ईशानमें और फिर तीन राशियोंके सूर्यमें वास्तुका मुख वाय-
व्यमें इत्यादि और जलाशय वनानेमें मकरादि तीन राशियोंके सूर्यमें
वास्तुका मुख ईशानमें और फिर तीन राशिके सूर्यमें वायव्यदिशामें
वास्तुका मुख रहता है इत्यादि चक्रमें स्पष्ट प्रतीत होजायगा। वास्तुके
मुग्धसे चौधी जो विदिशा है वही वास्तुकी पुच्छ कही गई है और
मुग्धसे पीछेकी जो विदिशा है सो वास्तुकी पीठ कही है, पीठभागमें ही
यहादियकी नीम घोदनी चाहिये ॥ ४८ ॥ ४९ ॥

अथ गृहे खातदिक्स्पष्टीकरणम् ।

आग्रेय्यां खननं कुर्यात्सिहाद्राशित्रये रवौ ॥ ईशान्यां च
तथा चोक्तं वृश्चिकादित्रये रवौ ॥ ५० ॥ कुंभादित्रिये
वायौ नैऋत्यां वृपभवये ॥ ५१ ॥

अब यहमें खातदिक् स्पष्टीकरण लिखते हैं—सिंह, कन्या, तुला-
राशि के सूर्यमें आग्रेयदिशामें नीम खोदै और वृश्चिक, धनु, मकर के
सूर्य होंय तो ईशानदिशामें नीम खोदै ॥ ५० ॥ कुंभ, मीन,
मेष के सूर्य होंय तो वायव्यमें नीम खोदै और वृष, मिथुन, कर्क के
सूर्य होंय तो नैऋत्यमें नीम खोदै ॥ ५१ ॥

अथ वास्तुचक्रम् ।

०	ऐशान्याम्	वायव्य म्	नैऋत्यम्	आग्रेयाम्
देवालयार्थः	मीनमेषवृष- स्थिते सूर्ये वास्तुमुख	मधुनकर्क- सिंहस्थिते सूर्ये वास्तुमुख	कन्यातुलाषु श्चिकास्थिते सूर्ये वास्तुमुखम्	धनुमंकरवृष- स्थित सूर्ये वास्तुमुख
गृहार्थः	सिंहकन्यातुला- स्थिते सूर्ये वास्तुमुख	वृश्चिकधनुर्मकर- स्थिते सूर्ये वास्तुमुख	कुंभमीनमेष- स्थिते सूर्ये वास्तुमुख	वृषमिथुनकर्क- स्थित सूर्ये वास्तुमुख
जलाशयार्थः	मकरकुंभमीन- स्थिते सूर्ये वास्तुमुख	मेषवृषमिथुन- स्थिते सूर्ये वास्तु- मुखम्	कर्कसिंहकन्या- स्थिते सूर्ये वास्तुमुख	तुलाषुश्चिकधनु- स्थिते सूर्ये वास्तुमुख

अथ चांद्रमासाद्वारनिश्चयार्थं वास्तुशिरः ।

सिते भाद्रपदाद्रास्तुकमान्मासविपुव्रिपु ॥ प्रागाशादि-
शिरोगेहे द्वारं शीर्षदिशि स्मृतम् ॥ ५२ ॥ वास्तोः शीर्ष-
दिशो ज्ञेयं पुच्छं संमुखदिग्गतम् ॥ ५३ ॥

अब चन्द्रमाससे द्वारनिश्चयार्थं वास्तुशिर लिखते हैं—भाद्रपद-
मासकी शुक्लप्रतिपदासे तीनतीन मास क्रमसे पूर्वादि चारों दिशाओंमें

वास्तुका शिर होताहै; जिस दिशामें वास्तुका शिर होय उसी दिशामें
गृहका द्वार रखवै ॥ ५२ ॥ वास्तुके शिरकी दिशाके सामनेकी दिशामें
पुच्छ जानै ॥ ५३ ॥

अथ वास्तोर्वामकुक्षौ खाते शंकुरोपणम् ।

अष्टविंशतिकांशांस्तु पुच्छात्सप्तदश त्यजेत् ॥ अंशे
त्वष्टादशे खातं वामभागे च मध्यतः ॥ गेहारंभमुहूर्तेऽत्र
शंकुं दत्त्वाश्मपूरणम् ॥ ५४ ॥

अब वास्तुके वामकुक्षिके खातेमें शंकारोपण लिखतेहैं—वास्तुकी
पूछसे लेकर मुखतक अटाईस भाग करै जिनमें पूछकी तर्फसे सत्रह
१७ भाग छोड़कर मध्यभागसे वामभागमें जो अठारहवां भागहै
उसमें गृहारम्भके मुहूर्तमें नीम खोदकर कील गाड़देय और फिर
उसको पत्थरोंसे भरदेवै ॥ ५४ ॥

अथ संक्रांतिपरत्वेन गृहद्वारनिश्चयः ।

कुंभेके फालगुने मासि श्रावणे कर्कसिंहयोः ॥ पौषे नके
गृहं कुर्यात्पूर्वपञ्चिमदिङ्गमुखम् ॥ ५५ ॥ मार्गे तुलालिंगे
भानो वैशाखे वृषभाजयोः ॥ दक्षिणदिङ्गमुखं श्रेष्ठं मंदिरं
नेष्टमन्यथा ॥ ५६ ॥

अब संक्रांतिपरत्वसे गृहद्वारनिश्चय लिखतेहैं—फालगुन मासमें
कुंभके, श्रावणमें कर्क और सिंहके, पौषमें मकरके सूर्य होय तो
पूर्वपञ्चिमद्वारका गृह घनावै ॥ ५५ ॥ मार्गशीर्षमें तुला और वृश्चि-
कके, वैशाखमें वृष और मेषके सूर्य होय तो दक्षिणदिशामें द्वार-
वाला गृह घनाना श्रेष्ठ होताहै. अन्यथा नेष्ट होताहै ॥ ५६ ॥

अथात्र केश्चिद्देहारंभे विशेष उत्तः ।

मेषे १ चैत्रे वृषे २ ज्येष्ठे आपाढे कर्कटे ४ रवौं ॥ सिंहे ५
भाद्रपदे तौलि ७ आश्विने कार्त्तिके लिंगे ॥ ५७ ॥ पौषे

नक्ते १० तथा माघे मकरे १० कुंभगेपि च ॥ प्रकुर्यान्मं-
दिरं विद्वानन्यैः कैश्चिदितीरितम् ॥ ६८ ॥ कृष्णपक्षादयो
मासा विज्ञेया ह्यत्र सूरिभिः ॥ ६९ ॥

अब यहाँ गृहारंभमें किसीका विशेष उक्त लिखते हैं— चैत्रमें
मेषके, ज्येष्ठमें वृषके, आषाढमें कर्कके, भाद्रपदमें सिंहके, आश्वि-
नमें तुलाके, कार्त्तिकमें वृश्चिकके ॥ ५७ ॥ पौषमें मकरके, माघमें
मकर तथा कुंभके सूर्य होंय तो मकान वनावै ऐसा किन्ही आचा-
योंने कहा है ॥ ५८ ॥ पंडितलोगोंकरके यहांपर कृष्णपक्षादि मास
जानना चाहिये ॥ ५९ ॥

अथ गेहे सुखार्थं तिथिविचारः ।

पूर्णिमाद्या नव त्याज्यास्तिथयः प्राइमुखे गृहे ॥ कृष्ण-
पक्ष नवम्याद्या उत्तराभिमुखे तु पट् ॥ ६० ॥ पश्चिमाभि-
मुखे हेया दर्शाद्यास्तिथयो नव ॥ शुक्ले पट्च नवम्याद्या-
स्त्याज्या दक्षिणदिइमुखे ॥ ६१ ॥

अब गृहमें सुखार्थं तिथि विचार लिखते हैं—पूर्वसुखवाला गृह
वनानेमें पूर्णिमादि नौतिथि त्याज्य हैं और उत्तरसुखवाला गृह वना-
नेमें कृष्णपक्षकी नवमीसे लेकर छह तिथि त्याज्य हैं ॥ ६० ॥ और
पश्चिमसुखवाला गह वनानेमें अमावास्यादि नौतिथि त्याज्य हैं
और दक्षिणसुखवाला गृह वनानेमें शुक्लपक्षकी नवमीसे लेकर छह
तिथि त्याज्य हैं ॥ ६१ ॥

अथ ध्रुवादिपोडशगृहाणि ।

ध्रुवं १ धान्यं २ जयं ३ नंदा ४ खरं ५ कांतं ६ मनोरमम्
७ ॥ सुमुखं ८ दुर्मुखं ९ चोयं १० रिपुदं ११ वित्तदं
तथा १२ ॥ नाश १३ आक्रंद १४ विपुले १५ विजयं
१६ चेति पोडश ॥ ६२ ॥

अब ध्रुवादिपोड़शगृह लिखते हैं—ध्रुव १, धान्य २, जय ३, नंदा४, खर ५, कांत ६, मनोरम ७, सुसुख ८, दुर्मुख ९, उम्र १०, रिपुद ११, वित्तद १२, नाश १३, आकंद १४, विपुल १५, विजय १६ यह सोलह गृह हैं ॥ ६२ ॥

अथ ध्रुवादिगेहज्ञानम् ।

दिक्षुपूर्वादितश्चंद्र १ नेत्रां २ भोधि ४ गजै ८ मिताः ॥

गेहाद्यत्र भवेच्छालास्तदंकाः कथिता इमे ॥ ६३ ॥ शाला-
शांकयुतिः सैका ज्ञेयं गेहं ध्रुवादिकम् ॥ ६४ ॥

अब ध्रुवादिगेहज्ञान लिखते हैं—पूर्वादि चारों दिशाओंमें मकान से जिस दिशामें शाला होय उसके ये १। २। ४। ८ अंक कहे हैं अर्थात् पूर्वमें होय तो एक और दक्षिणमें शाला होय तो दो और पश्चिममें होय तो चार और उत्तरमें होय तो आठ शालाध्रुवा होता है शालाकी दिशाओंके अंक जोड़कर उनमें एक अंक और जोड़देवे तब जो अंक होय सो ध्रुवादिसंज्ञक गृह होता है ऐसा जाने ॥ ६३ ॥ ६४ ॥

अथ ध्रुवादिगेहानामक्षरसंख्या ।

आपष्टं दशमं विश्वं १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ । ७ । १० ।

१३ मंदिरं व्यक्षरामिधम् ॥ शेषेषु व्यक्षराणि ८ । ९ । ११ ।

१२ । १४ । १६ । १८ स्युः सप्तमं ७ चतुरक्षरम् ॥ ६५ ॥

अब ध्रुवादिगृहोंकी नामाक्षरसंख्या लिखते हैं—पहिला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, दशवां, तेहरवां इन घरोंके नाममें दो दो अक्षर होते हैं और शेष आठवां, नौवाँ, बारहवां, चौदहवां, पंद्रहवां सोलहवाँ इन गृहोंके नाममें तीन तीन अक्षर होते हैं और सातवें घरके नाममें चार अक्षर होते हैं ॥ ६५ ॥

अथ ध्रुवादिगेहज्ञानार्थं प्रस्तारः ।

चत्वारो गुरवः स्थाप्या लघुमाध्यगुरोरधः ॥ विन्यस्याग्रे
यथा चोर्ध्वं तथा शेषं प्रश्नरयेत् ॥ ६६ ॥ एवं भूयो लघोः
पश्चात्पूरयेद्गृहमिः पुनः ॥ एवमेवाऽसङ्कृतकार्यं यावत्स्युर्ल-
घवोऽखिलाः ॥ ६७ ॥ प्रादक्षिण्येन गेहस्य मुखाच्चालिंदसंज्ञ-
कम् ॥ लघुस्थानस्थिते चैवं भेदाः प्राच्यास्तु पोडशा ॥ ६८ ॥

अब ध्रुवादिगेहज्ञानार्थं प्रस्तार लिखते हैं— चार चर्णके प्रस्तारका
ददाहरण—यह है

प्रथम चार गुरु लिखै फिर पहिले गुरुके नीचे	५	५	५	५	१
एक लघु रक्षे आगेको जैसे कि, ऊपर लिखे	।	५	५	५	२
होंय वैसेही रखकर शेषभागको भरदेवे ॥ ६६ ॥	५	।	५	५	३
इसी प्रकार फिरभी लघुके नीचे भागको गुरु	।	-१	५	५	४
अक्षरोंसे भरदेवे इसी प्रकार बारंबार तबतक	५	५	१	५	५
करताजाय जबतक कि, सब वर्णलघु न होंय	।	।	।	५	६
॥ ६७ ॥ गृहके द्वारसे प्रदक्षिणता करके	५	५	५	१	७
लघुस्थान की स्थितिमें अलिंदसंज्ञक गृह	।	५	१	५	८
होताहै इसीप्रकार शुर्चिदिशाके गृहोंके सोलह	५	५	५	१	९
भेदहैं अन्य दिशाओंमेंभी इसी रीतिसे	।	५	१	५	१०
जाने ॥ ६८ ॥	५	१	१	१	११
	।	।	।	१	१२
	५	५	१	१	१३
	।	५	१	१	१४
	५	१	१	१	१५
	।	।	।	१	१६

अथ प्रकारांतरेण प्रस्तारः ।

लिखेदेकांतरादाद्ये एकमेकं गुरुं लघुम् ॥ द्वयंद्वयं द्वितीये तु
चतुर्थचतुर्थिके ॥ अष्टावष्टौ चतुर्थेयं प्रस्तारः पोडशा-
वधि ॥ ६९ ॥

अब प्रकारान्तरसे प्रस्तार लिखते हैं—पहिले तो एकएकके अंत-
रसे एकगुरु और एक लघु लिखै और फिर दूसरीपंक्तिमें दो गुरु-

और दो लघु लिखै और तीसरी पंक्तिमें चार गुरु तथा चारलघु लिखै और चौथी पंक्तिमें आठ गुरु तथा आठ लघु लिखै यह प्रस्तार सोलह भाग तककाहै ॥ ६९ ॥

अथ गेहारंभे लग्नवलविचारः ।

द्विःस्वभावे स्थिरे लग्ने शुभैर्वर्षपांत्यगैर्ग्रहैः ॥

पापैरायारिंगैः कुर्यान्मंदिरारंभणं वृधः ॥ ७० ॥

अब गेहारंभमें लग्नविचार लिखतेहैं—द्विस्वभाव तथा स्थिर लग्न होय, चारहवें आठवें स्थानको छोड़कर अन्य स्थानोंमें शुभ-अह होय और पापग्रह ग्यारहवें तथा छठे स्थानमें होय तो चुद्धिमान् गृह बनानेका आरम्भ करै ॥ ७० ॥

अथ गेहारंभे शुभयोगाः ।

लग्ने १ गुरी रवौ पष्टे ६ द्यूने ७ ज्ञे भार्गवे सुखे ४ ॥

मंदे त्रिगे ३ कृतं तिष्ठेन्मंदिरं शरदां शतम् १०० ॥ ७१ ॥

तनौ शुक्रे सहोत्ये ३कें पष्टे ६ भौमे सुते गुरी ॥ समा-

रव्यं गृहं तिष्ठेद्वायनानां शतं २०० द्वयम् ॥ ७२ ॥ सूर्ये-

लाभ ११ गते शुक्रे तनौ नभसि ३० चंद्रजे ॥ गेहं वर्ष-

शता १०० युष्यं निर्मितं नृवरैर्भवेत् ॥ ७३ ॥ चतुर्थे

वाक्पत्ता लाभे ११ भौमे मंदे च स्वे १० विधी ॥ अशी-

तिहायनायुष्यमारव्यं मंदिरं स्मृतम् ॥ ७४ ॥ शुक्रे स्वोच्चे

१२ तनौ १ वापि जीवं पाताल ४ गेऽथवा ॥ लाभगे ११

वा शनौ स्वोच्चे संपद्युक्तं गृहं चिरम् ॥ ७५ ॥ लग्नस्थे १

स्वर्क्षेगे चंद्रे केंद्रे जीवेऽथ स्वेच्छरः ॥ स्वोच्चभिन्नांशगैर्गेहं

लक्ष्म्या युक्तं स्थिरं भवेत् ॥ ७६ ॥

अब गेहारम्भमें शुभयोग लिखते हैं—लग्नमें वृहस्पति, छठे स्थानमें सूर्य, सातवें शुध, चौथे शुक्र, तीसरे शनैश्चर होय तो इस

सुहृत्तमें वनाया हुआ मकान सौवर्प तक रहता है ॥ ७१ ॥ लग्नमें शुक्र, तीसरे घरमें सूर्य, छठे घरसें मङ्गल, पांचवें वृहस्पति होय तो इस योगमें गृहारम्भ करनेसे दोसौ वर्षतक मकान रहता है ॥ ७२ ॥ सूर्य ग्यारहवें, शुक्र लग्नमें, बुध दशवें स्थानमें होय तो इस योगमें वनायेहुए मकानकी आयु सौवर्पकी होती है ॥ ७३ ॥ चौथे स्थानमें वृहस्पति, ग्यारहवें मङ्गल और शनैश्चर, दशवें चन्द्रमा होय तो इस योगमें वनायाहुआ मकान अस्सीवर्पकी आयुवाला होता है ॥ ७४ ॥ शुक्र उच्चका होय अथवा लग्नमें होय, वृहस्पति लग्नमें अथवा चौथे होय, शनैश्चर ग्यारहवें अथवा उच्चका होय तो इस योगमें वनायाहुआ मकान सम्पदायुक्त तथा वहुत उमरवाला होता है ॥ ७५ ॥ कर्कराशिका चन्द्रमा लग्नमें होय, वृहस्पति केन्द्रमें होय अन्य ग्रह अपनी उच्चराशिके अथवा मित्रकी राशिके होंय तो इस योगमें वनायाहुआ गृह लक्ष्मीयुक्त तथा वहुत कालतक स्थिर रहता है ॥ ७६ ॥

अथ नेष्टयोगः ।

नीचांशस्थैस्तथा खेटैर्निर्धनं मंदिरं हि तत् ॥ खेटश्वेत्कोपि
खे १० द्यूने ७ परांशस्थेऽत्र मध्यतः ॥ ७७ ॥ कुर्या-
द्वेहं परायत्तं लग्नेशो यदि निर्वलः ॥ ७८ ॥

अब नेष्टयोग लिखते हैं—यदि नीचांशमें सब ग्रह स्थित होंय तो इस योगमें वनाया गृह मृत्युदायक होता है. यदि कोई एक ग्रह भी शनुग्रहके नवांशमें स्थित होकर दशवें अथवा सातवें स्थानमें स्थित होय और लग्नेश निर्वल होय तो वह मकान वर्षभरके भीतर पराये हाथमें पहुँच जाता है ॥ ७७ ॥ ७८ ॥

अथ नक्षत्रविशेषेषु सत्सु फलम् ।

पूर्वापादोत्तरापुष्ये आश्लेपारोहिणीमृगे ॥ जीवयुक्ते गुरो-
र्वारे गेहं धान्यसुतप्रदम् ॥ ७९ ॥ पूर्वापादामवाहस्तपु-
ष्यमूलांत्यगे कुजे ॥ कुजेहि निर्मितं गेहं भस्मसादग्निना
भवेत् ॥ ८० ॥ उफाहस्ताश्चिनीचित्रारोहिणीमृगे बुधे ॥
बुधेहि मंदिरारंभः सुखपुत्रार्थसिद्धये ॥ ८१ ॥ भरणीस्वा-
त्यनुराधाज्येष्टापूर्वामाद्रये शनौ ॥ शनिवारे कृतं गेहं रक्षो-
भूतयुतं भवेत् ॥ ८२ ॥

अब नक्षत्रविशेषमें फल लिखते हैं—पूर्वापादा, तीनों उत्तरा,
पुष्य, आश्लेपा, रोहिणी, मृगशिरा इन नक्षत्रोंपर वृहस्पति होय
तथा वृहस्पतिका वार होय तो इस योगमें बनाया हुआ गृह
धान्य और पुत्रोंका देनेवाला होता है ॥ ७९ ॥ पूर्वापादा, मधा,
हस्त, पुष्य, मूल, रेवती इन नक्षत्रोंपर मङ्गल स्थित होय तथा
मङ्गलवार होय तो इस योगमें निर्माण कियाहुआ गृह अग्नि लग
जानेसे भस्म होजाता है ॥ ८० ॥ उत्तराफाल्गुनी, हस्त, अश्विनी,
चित्रा, रोहिणी, मृगशिरा इन नक्षत्रोंपर बुधकी स्थिति होय और
बुधका वार होय तो यहारंभ करनेसे सुख, पुत्र, अर्थकी सिद्धि
होती है ॥ ८१ ॥ भरणी, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तरा-
भाद्रपद इन नक्षत्रोंपर शनैश्चर होय तथा शनैश्चरका वार होय तो
इस योगमें बनाया हुआ यह राक्षस और भूतोंसे भरा रहता है ॥ ८२ ॥

अथ द्वारशाखारोपः ।

अश्विन्यासुत्तराहस्तपुष्यशुतिमृगेषु च ॥

रोहिण्यां स्वातिभेत्ये च द्वारशाखां प्ररोपयेत् ॥ ८३ ॥

अब द्वारशाखारोप लिखते हैं—अश्विनी, तीनों उत्तरा, हस्त,
पुष्य, श्रवण, मृगशिरा, रोहिणी, स्वाति, रेवती इन नक्षत्रोंमें यह-
द्वारकी चाँगट लगाना शुभ होता है ॥ ८३ ॥

अथ द्वारचक्रस् ।

सूर्यभाद्रेदभैः ४ शीर्षे संस्थितेर्धनसंपदः ॥ गृहस्योद्ग्रासनं
तस्मादृष्टिभिः १२ कोणसंस्थितैः ॥ ८४ ॥ शाखा-
स्वष्टिमितै २० स्तस्माद्ग्रनं सौख्यं भवेद्गृहे ॥ देहल्यां तु
त्रिभि २३ र्धिष्ण्यैर्मृत्युर्गृहपतेर्भवेत् ॥ ८५ ॥ चतुर्भिर्मध्य-
गैस्तस्माद्रव्यलाभसुखं भवेत् ॥ एतचक्रं विचार्यादौ द्वारं
कुर्यात्स्वमंदिरे ॥ ८६ ॥

अब द्वारचक्र लिखते हैं—सूर्यके नक्षत्रसे चार नक्षत्र द्वारके
शिरमें स्थित हैं, जिनका फल धन और सम्पदाकारक है. इसके
अनन्तर आठ नक्षत्र कोणमें स्थित हैं, जिनका फल (उद्ग्रासन)
उजड़ होता है ॥ ८४ ॥ और फिर आठ नक्षत्र शाखाओंमें स्थित हैं,
जिनका फल यहमें धन तथा सौख्य होता है. इसके आगे तीन
नक्षत्र देहलीमें स्थित हैं, जिनका फल यहके स्वामीकी मृत्यु
होती है ॥ ८५ ॥ और फिर चार नक्षत्र द्वारके मध्यमें स्थित हैं,
जिनका फल द्रव्यलाभ तथा सुख होता है. प्रथम इस चक्रको
विचार कर अपने मकानमें चौखट लगावें ॥ ८६ ॥

अथ राशिपरत्वेन द्वारस्य दिङ्गनिर्णयः ।

मीना १२ इलि ८ कर्क ४ राशीनां गेहं प्राड्यमुखमीरि-
तम् ॥ कन्यामिथुननक्षाणां शस्तं दक्षिणदिङ्गमुखम् ॥ ८७ ॥
तुला ७ वृषभ २ कुंभानां पश्चिमाभिमुखं स्मृतम् ॥ उद-
द्गमुखं धनुर्मेपसिंहराशिमुखां तथा ॥ ८८ ॥

अब राशिपरत्वसे द्वारका दिङ्गनिर्णय लिखते हैं—मीन, वृश्चिक,
कर्कराशिवालोंका यह पूर्वाभिमुख कहा है. कन्या, मिथुन, मकर
राशिवालोंका यह द्वार दक्षिणमुख गुभ होता है ॥ ८७ ॥ तुला, वृष,

कुम्भ राशिवालोंका यहद्वार पश्चिम मुख होना चाहिये. धनुष, मेष, सिंह राशिवालोंका यहद्वार उत्तरमुख श्रेष्ठ होता है ॥ ८८ ॥

अथ गवाक्षनिर्णयः ।

पूर्वोदितासु शस्तासु गवाक्षो दिक्षु कास्येत् ॥ ८९ ॥

अब गवाक्षनिर्णय लिखते हैं—पूर्वोक्त श्रेष्ठ दिशाओंमें इरोखे बनाने शुभ होते हैं ॥ ८९ ॥

अथ द्वारस्य तिर्यङ्गमानप्रदेशनिर्णयः ।

आयामे नवधा भक्ते द्वारमेकांशमानतः ॥ प्राच्यां तृष्णं वृतीये वा रुद्रकोणाद्विधीयते ॥ ९० ॥ याम्यां पष्टे चतुर्थे तुरीयेशोऽथ पंचमे ॥ उदीच्यां च प्रतीच्यां वा सव्यमार्गेण धीमता ॥ ९१ ॥

अब द्वारका तिर्यङ्गमानप्रदेशनिर्णय लिखते हैं—दीवारकी लँचाई के नौभाग करनेपर एक भागके बराबर द्वार होता है. पूर्वदिशामें ईशानकी तरफसे जो तीसरा या चौथा भाग है उसमें द्वार बनावै ॥ ९० ॥ दक्षिण दिशामें छठे अथवा तीसरे भागमें द्वार बनाना शुभ होता है और उत्तर वा पश्चिम दिशामें सव्यमार्गसे चौथे वा पांचवें भागमें द्वार शुभ होता है ॥ ९१ ॥

अथ द्वारस्योच्चता ।

गेहोच्चस्य चतुर्थांशो द्विगुणो द्वार उच्च्युयः ॥ ९२ ॥

अब द्वारकी उच्चता लिखते हैं—यहकी ऊंचाईके चौथे भागको ढूना करे जितने हाथ होय उतनीही द्वारकी ऊंचाई करनी चाहिये ॥ ९२ ॥

अथ गेहोच्चम् ।

विस्तारपोडशोभागश्चतुर्भिर्यः कर्ग्युतेः ॥

गेहोच्चं तन्मितं त्रेयं न्यूनाधिक्यमसत्स्मृतम् ॥ ९३ ॥

अब गेहोच्च लिखते हैं—गृहकी चौडाई का सोलहवां भाग जितने हाथ होय उसमें चार हाथ और जोड़देवे तब जो अंक होय उत्ते नहीं हाथ गृहकी उँचाई जानै कमती बढ़ती अशुभ होती है ॥ ९३ ॥

अथ द्वारादौ वेधविचारः ।

कोणमार्गभ्रमिद्वाराकर्दमस्तंभभूरुहे ॥

देवालयप्रकूपानां वेधो द्वारेथ संसुखे ॥ ९४ ॥

अब द्वारादिमें वेध लिखते हैं—कोणमार्ग के घुमावद्वारा घरके द्वारके सामने कीचड़, खंभा, वृक्ष, देवालय, कूप होय तो द्वारका वेध होता है ॥ ९४ ॥

अथ वेधापवादः ।

गेहोच्चद्विगुणाधिक्ये प्रांतरे संस्थिते सति ॥

नैव कोणेषु वेधः स्याद्वित्तिमार्गान्तरेषि च ॥ ९५ ॥

अब वेधापवाद लिखते हैं—गृहकी उँचाई के दूनेसे अधिक अन्तर होय अथवा भीत वा मार्ग चीचमें स्थित होय तो कोणोंमें वेध नहीं होता है ॥ ९५ ॥

अथ पोडशगृहनिर्माणम् ।

प्राच्यास्तु क्रमतः स्नान १ पाक २ शश्या ३ युधस्य
४ च ॥ भोज ५ नस्यान्न ६ भांडार ७ देवतानां ८ गृहाः
स्मृताः ॥ ९६ ॥ मथनाज्यपुरीपाख्यविद्याभ्यासगुच्छां
क्रमात् ॥ रतिमैपञ्ययोः सर्वधान्वस्ते मध्यगा गृहाः ॥
॥ ९७ ॥ अल्पत्वे वा भुवः शक्तेः स्नानादांश्च गृहान्वुधः ॥
शक्तेभुवोऽनुसारेण प्रकुर्वति यथारुचि ॥ ९८ ॥ उलूखलां-
बुस्थानं च तथा चुह्यादिकं सदा ॥ क्षालनं पितृपादानां
गेहादक्षिणतः शुभम् ॥ ९९ ॥

अब पोडशगृह निर्माण लिखते हैं—पूर्वादिक आठों दिशाओंके क्रमसे स्नानघर १, पाकघर २, शश्याघर ३, शब्दघर ४, भोजनघर ५, अन्नघर ६,

कुम्भ राशिवालोंका यहद्वार पश्चिम मुख होना चाहिये, धनुष, मेष, सिंह राशिवालोंका यहद्वार उत्तरमुख श्रेष्ठ होताहै ॥ ८८ ॥

अथ गवाक्षनिर्णयः ।

पूर्वोदितासु शस्तासु गवाक्षो दिक्षु कारयेत् ॥ ८९ ॥

अब गवाक्षनिर्णय लिखतेहैं—पूर्वोक्त श्रेष्ठ दिशाओंमें झरोखे बनाने शुभ होताहैं ॥ ९० ॥

अथ द्वारस्य तिर्यङ्गमानप्रदेशनिर्णयः ।

आयामे नवधा भक्ते द्वारमेकांशमानतः ॥ प्राच्यां त्रूयं तृतीये वा रुद्रकोणाद्विधीयते ॥ ९० ॥ याम्यां पष्टे चतुर्थे तुरीयेशेऽथ पंचमे ॥ उदीच्यां च प्रतीच्यां वा सव्यमार्गेण धीमता ॥ ९१ ॥

अब द्वारका तिर्यङ्गमानप्रदेशनिर्णय लिखतेहैं—दीवारकी लँबाईके नौभाग करनेपर एक भागके बराबर द्वार होताहै. पूर्वदिशामें द्वेशानकी तरफसे जो तीसरा या चौथा भागहै उसमें द्वार बनावे ॥ ९० ॥ दक्षिण दिशामें छठे अथवा तीसरे भागमें द्वार बनाना शुभ होताहै और उत्तर वा पश्चिम दिशामें सव्यमार्गसे चौथे वा पांचवें भागमें द्वार शुभ होताहै ॥ ९१ ॥

अथ द्वारस्योच्चता ।

गेहोच्चस्य चतुर्थांशो द्विषुणो द्वार उच्चृयः ॥ ९२ ॥

अब द्वारकी उच्चता लिखतेहैं—यहकी उंचाईके चौथे भागको ढूना करै जितने हाथ होय उतनीही द्वारकी उंचाई करनी चाहिये ॥ ९२ ॥

अथ गेहोच्चम् ।

विस्तारपोडशोभागश्चतुर्भिर्यः कर्तुतेः ॥

गेहोच्चं तन्मितं द्वेयं न्यूनाधिक्यमसत्स्मृतम् ॥ ९३ ॥

अब गेहोच्च लिखते हैं—गृहकी चौडाई का सोलहवां भाग जितने हाथ होय उसमें चार हाथ और जोड़देवे तब जो अंक होय उत्ते नेहीं हाथ गृहकी उँचाई जानै कमती बढ़ती अशुभ होती है ॥ ९३ ॥

अथ द्वारादौ वेधविचारः ।

कोणमार्गभ्रमिद्वाराकर्दमस्तंभभूरुहे ॥

देवालयप्रकूपानां वेधो द्वारेथ संमुखे ॥ ९४ ॥

अब द्वारादि में वेध लिखते हैं—कोणमार्ग के घुमावद्वारा धरके द्वारके सामने कीचड़, खंभा, वृक्ष, देवालय, कूप होंय तो द्वारका वेध होता है ॥ ९४ ॥

अथ वेधापवादः ।

गेहोच्चद्विगुणाधिक्ये प्रांतरे संस्थिते सति ॥

नैव कोणेषु वेधः स्याद्वित्तिमार्गान्तरेषि च ॥ ९५ ॥

अब वेधापवाद लिखते हैं—गृहकी उँचाई के दूनेसे अधिक अन्तर होय अथवा भीत वा मार्ग वीचमें स्थित होय तो कोणोंमें वेध नहीं होता है ॥ ९५ ॥

अथ पोडशगृहनिर्माणम् ।

प्राच्यास्तु क्रमतः स्नान १ पाक २ शव्या ३ युधस्य

४ च ॥ भोज ५ नस्यान्न ६ भांडार ७ देवतानां ८ गृहाः

स्मृताः ॥ ९६ ॥ मथनाज्यपुरीपाख्यविद्याभ्यासगृचां

क्रमात् ॥ रतिभैपञ्चयोः सर्वधान्नस्ते मध्यगा गृहाः ॥

॥ ९७ ॥ अल्पत्वे वा भुवः शक्तेः स्नानादींश्च गृहान्तु धः ॥

शक्तेभुवोऽनुसारेण प्रकुर्वीत यथारुचि ॥ ९८ ॥

अब इष्टिकारस्म और सुधालेप लिखते हैं—उत्तरा, श्रवण, पुण्य, ज्येष्ठा, रेवती, रोहिणी, हस्त नक्षत्र; स्थिर लघु; रवि, शनैश्चर, मङ्गल वार। इनमें ईट वनाना और चूनेसे मकानका पुतवाना थ्रेष होता है ॥ १०२ ॥ १०३ ॥

अथ गृहोपकरणं वहिकृत्यं च ।

पूभाद्रारोहिणीपुण्य उत्तरावितयेऽश्विभे ॥

स्थितिर्महानसस्येष्टा गेहोपकरणैः सह ॥ १०४ ॥

अब गृहोपकरण और वहिकृत्य लिखते हैं—तीनों पूर्वा, आद्रा, रोहिणी, पुण्य, तीनों उत्तरा, अश्विनी इन नक्षत्रोंमें रसोई के घरमें रसोई की सब वस्तुएं लेकर रसोई वनाना शुभ होता है ॥ १०४ ॥

अथ चित्रारंभः ।

हस्तवयेऽनुराधांत्ये मृगेश्विन्यां श्रवस्याये ॥ पुनर्भे रोहिणी-
पुण्ये पूर्वापादांभिधे तथा ॥ १०५ ॥ नंदायां च शुभे वारे
प्रकुर्याद्राजवेशमनि ॥ चित्रं नानाविधं रम्यं शिल्पी रामा-
यणं विना ॥ १०६ ॥

अब चित्रारंभ लिखते हैं—हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, रेवती, मृगेश्विनी, अश्विनी, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पुनर्वसु, रोहिणी, पुण्य, पूर्वापादा इन नक्षत्रोंमें तथा ॥ १०५ ॥ नंदा तिथि, शुभ वारमें, (शिल्पी) कारीगर राजगृहपर—रामायणके विना—नानाप्रकारके रमणीक चित्र—चनावे ॥ ०१६ ॥

अथ गृहांगणे शुभवृक्षाः ।

पुन्नागश्चंपकोऽशोकः पिप्पली दाढ़ीमी शमी ॥ वकुलस्ति-
लको द्राक्षा पिचुमंदीमरो जपा ॥ १०७ ॥ नारिकेलं तथा
जाती पाटला गेहमछिका ॥ मछिकापुंगवंधूकाः पनसः
सरसीरुहम् ॥ एते गृहांगणे वृक्षा आरोप्या मंगलप्रदाः ॥ १०८ ॥

वर्तनोंका घर ७, देवताघर ८ ये आठ घर बनावे ॥ १६ ॥ दही मथनेका घर १, धी धरनेका घर २, पुरीपका घर ३, विद्याभ्यासका घर ४, शोकका घर ५, रतिका घर ६, औपधियोंका घर ७, सब बस्तुओंका घर ८ ये आठघर क्रमसे पूर्वोक्त गृहोंके मध्यमें बनावै। अर्थात् पूर्व आमेयके मध्यमें दही मथनेका, आमेय और दक्षिणके मध्यमें धीका घर बनावै इत्यादि सब गृहोंके मध्यमें पूर्वोक्त घर बनावै ॥ १७ ॥ भूमि अथवा अपनी शक्ति कम होय तो बुद्धिमान् को चाहिये कि, अपनी शक्ति तथा भूमिके अनुसारही यथारुचि बनावै ॥ १८ ॥ ओखली, (जलस्थान) पड़ेली, चूहा, तथा पितरोंके चरण धोनेका स्थान गृहसे दक्षिणकी ओर शुभ होताहै ॥ १९ ॥

अथ कूपखननप्रदेशः ।

पुष्टि १ ऐश्वर्यवृद्धि २ अ पुत्रनाशो ३ मृतिः स्त्रियाः ४ ॥

मृतिः ५ संपद ६ द्रिपोर्भीतिः ७ सौरव्य ८ मीशानतः क्रमात् ॥ १०० ॥ गेहस्य मध्यभागेऽर्थनाशः कूपे कृते भवेत् ॥ १०१ ॥

अब कूपखननेके प्रदेश लिखतेहैं—गृहसे ईशानादि दिशाओंमें कुआँ खोदै तो क्रमसे यह फल होताहै पुष्टि १, ऐश्वर्यवृद्धि २, पुत्रनाश ३, धीकी मृत्यु ४, स्वामीकी मृत्यु ५, संपदा ६, शत्रुसे भय ७, सौरव्य ८, अर्थात् घरसे ईशान दिशामें कुआँ खोदे तो पुष्टि और पूर्व दिशामें खोदे तो ऐश्वर्यवृद्धि आमेय दिशामें खोदे तो पुत्रका नाश होताहै इत्यादि सब फल जानै ॥ १०० ॥ और जो घरके मध्यभागमें कुआ बनावै तो द्रव्यका नाश होताहै ॥ १०१ ॥

अथेष्टिकारंभः सुधालेपश्च ।

उत्तराश्रवणे पुष्ये ज्येष्ठात्ये रोहिणीकरे ॥ स्थिरेंगेऽके गुरी-
गेहः दृष्टिकारंभमाचरेत् ॥ १०२ ॥ तथा गेहे सुधालेप
तु ॥ १०३ ॥

अब इष्टिकारम्भ और सुधालेप लिखते हैं—उत्तरा, श्रवण, पुष्य, ज्येष्ठा, रेवती, रोहिणी, हस्त नक्षत्र; स्थिर लघु; रवि, शनैश्चर, मङ्गल वार इनमें ईट बनाना और चूनेसे मकानका पुतवाना थ्रेष होता है ॥ १०२ ॥ १०३ ॥

अथ गृहोपकरणं वहिकृत्यं च ।

पूर्माद्र्गरोहिणीपुष्य उत्तराचितयेऽश्विभे ॥

स्थितिर्महानसस्येष्टा गेहोपकरणैः सह ॥ १०४ ॥

अब गृहोपकरण और वहिकृत्य लिखते हैं—तीनों पूर्वा, आद्रा, रोहिणी, पुष्य, तीनों उत्तरा, अश्विनी इन नक्षत्रोंमें रसोईके घरमें रसोईकी सब वस्तुएं लेकर रसोई बनाना शुभ होता है ॥ १०४ ॥

अथ चित्रारंभः ।

हस्तवयेऽनुराधात्ये मृगेश्विन्यां श्रवस्त्रये ॥ पुनर्भे रोहिणी-
पुष्ये पूर्वापादाभिधे तथा ॥ १०५ ॥ नंदायां च शुभे वारे
प्रकुर्याद्राजवेशमनि ॥ चित्रं नानाविधं रम्यं शिल्पी रामा-
यणं विना ॥ १०६ ॥

अब चित्रारंभ लिखते हैं—हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, रेवती
मृगेश्विनी, अश्विनी, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पुनर्वसु, रोहिणी,
पुष्य, पूर्वापादा इन नक्षत्रोंमें तथा ॥ १०५ ॥ नंदा तिथि, शुभ वारमें,
(शिल्पी) कारीगर राजगृहपर—रामायणके विना—नानाप्रकारके
रमणीक चित्र—बनावे ॥ ०१६ ॥

अथ गृहांगणे शुभवृक्षाः ।

पुन्नागश्चंपकोऽशोकः पिप्पली दाढिमी शर्मी ॥ वकुलस्ति-
लको द्राक्षा पिचुमंदोमरो जपा ॥ १०७ ॥ नारिकेलं तथा
जाती पाटला गेहमल्लिका ॥ मल्लिकापुंगवंधूकाः पनसः
सरसीरुहम् ॥ एते गृहांगणे बृक्षा आरोप्या मंगलप्रदाः ॥ १०८ ॥

अब यहके आंगणोंमें शुभ वृक्ष लिखतेहैं—नागकेसर, चंपा, अशोक, पीपल, अनार, सौलसिरी, तालमखाना, दाढ़ी, नीव, आंवला, गुडहल ॥ १०७ ॥ नारियल, चमेली, पाढ़ल, गृहवेला, जूही, सुपरी, दुपहरिया, कटहल, कमल ये वृक्ष घरके आंगनमें लगाने चाहिये क्योंकि, मंगलदायक हैं ॥ १०८ ॥

अथ गेहप्रदेशात्प्रतिदिशं वृक्षारोपणम् ।

न्यग्रोधं रोपयेत्प्राच्यां गेहाद्याम्यामुदुंवरम् ॥

उदग्निशि च कर्कधुं प्रतीच्यां कुंजराशनम् ॥ १०९ ॥

अब गेहप्रदेशसे प्रतिदिशामें वृक्षारोपण लिखतेहैं—मकानसे पूर्वकी ओर बड़का वृक्ष और दक्षिणदिशाकी ओर गूलरका वृक्ष, उत्तर दिशाकी तरफ वेरीका वृक्ष, पश्चिममें पीपलका वृक्ष लगावै १०९ ॥

अथ गृहांगणेऽशुभवृक्षाः ।

मातुलुंगं स्तुही रंभा हरिद्रा च मुनिद्रुमः ॥

एते दुःखप्रदा गेहे संजाता रोपिता अपि ॥ ११० ॥

अब गृहाङ्गणमें अशुभवृक्ष लिखतेहैं—विजोरेका वृक्ष, सैंजना, केला, हलदी, सिर्स इतने वृक्ष घरमें उगिअवै अथवा लगाये जावै तो दुःखदायी होतेहैं ॥ ११० ॥

अथ केपांचिन्मते सर्वेषि वृक्षा अंगणेऽशुभाः ।

केचिदृचुर्नं चारोप्यो निजवासगृहांगणे ॥

कोपि वृक्षो यतः स्वर्णद्रुमोपि न शुभोंगणे ॥ १११ ॥

अब किन्हींके मतमें सभी वृक्ष अंगणमें अशुभ लिखतेहैं—किन्हीं आचायोंने ऐसा कहाहै कि, अपने निवासगृहके आंगनमें कोईभी वृक्ष न लगावै क्योंकि, सोनेका वृक्षभी अंगनमें शुभ नहीं होनाहै ॥ १११ ॥

अथ पुरग्रामप्राकारादीनां निर्माणे सूत्रसाधनम् ।

प्राकारापत्तनग्रामनिर्मितौ सूत्रसाधनम् ॥

प्रशस्तं स्वाच्छुभे काले गेहारंभोक्तुभादिषु ॥ ११२ ॥

अब पुरग्रामप्राकारादिकोंके निर्माणमें सूत्रसाधन लिखते हैं—
परकोटा, शहर, गाँव इनके बनानेके समय यहारंभोक्तु नक्षत्रादि-
कोंमें तथा शुभसमयमें सूत्रसाधन श्रेष्ठ होता है ॥ ११२ ॥

अथ देवालयमठाद्यारंभः ।

गृहारंभोक्तनक्षत्रैर्मठं कुर्यात् साध्विभैः ॥

सर्वदेवालयं तेस्तु पुनर्भवणान्वितैः ॥ ११३ ॥

अब देवालय और मठादिका आरम्भ लिखते हैं—अश्विनीस-
हित गृहारंभोक्तु नक्षत्रोंमें मठ बनावें और पुनर्वसु तथा अवणस-
हित यहारंभके नक्षत्रोंमें सब देवमंदिर बनावें ॥ ११३ ॥

अथ जेन्यालयप्रपादरीणामारंभः ।

पूर्वाद्र्ग्भरणीधिष्ठ्ये रोहिण्यां च स्थिरोदये ॥

शुभाहे जेन्यगेहस्य प्रपादयोः कृतिः शुभा ॥ ११४ ॥

इति श्रीमद्देवज्ञरावलहरिशंकरसूरिसूनुगणपतिकृते मुहूर्त-
गणपतौ वास्तुप्रकरणमेकविंशम् ॥ २१ ॥

अब जेन्यालय और प्रपादरीओंका आरंभ लिखते हैं—पूर्वा,
आद्र्ग्भरणी, रोहिणी इन नक्षत्रोंमें; स्थिर लग्नमें; शुभ वारमें जेन्यि-
योंका मकान तथा प्याऊ, दरीची, तेखाना बनाना शुभ होता है ॥ ११४ ॥

इति श्रीमद्देवज्ञरावलहरिशंकरसूरिसूनुगणपतिकृते मुहूर्तगणपतौ
श्रीयुतपंडितवर्यवेणीरामात्मजपंडितरामद्यालुशमकृतभापा-
टीकासमलंकृतं वास्तुप्रकरणमेकविंशम् ॥ २१ ॥

अथ गृहप्रवेशप्रकरणम् ।

प्रवेशं नवगेहस्य कुर्यात्सोम्यायने नृपः ॥ प्रारंभोदितमासेपि
कृत्वा प्राग्वास्तुपूजनम् ॥ १ ॥ माघफालगुनवैशाखज्येष्ठाः
शस्ता नवे गृहे ॥ प्रवेशे श्रावणो मार्गः कार्त्तिकोपि प्रश-
स्यते ॥ २ ॥ पुनर्विनिर्मिते जीर्णे गृहेष्युलस्तथैव हि ॥
आवश्यके प्रवेशे नो कुर्यादस्तविचारणाम् ॥ ३ ॥ त्र्युत्तरे
चानुराधायां रेवत्यां रोहिणीद्रिये ॥ चित्रायां प्रविशेद्वेहं
द्वारमेतु विशेषतः ॥ ४ ॥

अब गृहप्रवेशप्रकरण लिखतेहैं—उत्तरायण, तथा गृहारंभोक्त
दिन, नक्षत्र, मासमें राजा प्रथम वास्तुका-पूजने करके महीन
गृहमें प्रवेश करे ॥ १ ॥ माघ, फालगुन, वैशाख, ज्येष्ठ ये महीने
महीन गृहप्रवेशमें श्रेष्ठ होतेहैं. तथा श्रावण, मार्गशीर्ष, कार्त्तिकका-
महीनाभी श्रेष्ठ कहा गया है ॥ २ ॥ यदि जो पुरानाधर फिर कर
वनाया गया हो तो उसमेंभी पूर्वोक्त मुहूर्तसे प्रवेश करे और जीर्ण-
गृहमें आवश्यक प्रवेश करना होय तो शुक्रादिके अस्तका विचार
नहीं करना चाहिये ॥ ३ ॥ तीनों उत्तरा, अनुराधा, रेवती, रोहिणी,
मृगशिरा, चित्रा इन नक्षत्रोंमें गृहप्रवेश शुभ होता है और द्वारके
नक्षत्रोंमें विशेषकरके शुभ होता है ॥ ४ ॥

अथ जीर्णगृहप्रवेशः ।

धनिष्ठाद्वितये पुष्ये त्र्युत्तरे रोहिणीद्रिये ॥

चित्रास्वात्यनुराधांत्ये प्रविशेजीर्णमंदिरम् ॥ ५ ॥

अब जीर्णगृहप्रवेश लिखतेहैं—धनिष्ठा, शतभिर्यां, पुष्य, तीनों
उत्तरा, रोहिणी, मृगशिरा, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, रेवती इन
नक्षत्रोंमें पुराने भक्तानमें प्रवेश करे ॥ ५ ॥

अथ प्रवेशोऽन्यनक्षत्रफलम् ।

श्रवणादिवयेऽश्विन्यां स्वात्यां पुष्पे तथा करे ॥ पुनर्वस्वोः
पुनर्यात्रा राजनाशो मधाभिधे ॥ ६ ॥ पूर्वावये भरण्यां
च विशाखायां वधूक्षयः ॥ ज्येष्ठाऽऽश्लेषपाख्यमूलाद्रें कुमारो
नाशमामुयात् ॥ ७ ॥ कृत्तिकायां दहेद्देहं प्रवेशो नवमंदिरे ॥
तथा यात्रानिवृत्तौ च भूपानां फलमीहशम् ॥ ८ ॥

अब प्रवेशमें अन्यनक्षत्रफल लिखतेहैं—श्रवण, धनिष्ठा, शत-
भिष्या, अश्विनी, स्वाति, पुष्प, हस्त, पुनर्वसु इन नक्षत्रोंमें प्रवेश
करनेसे फिरभी यात्रा जलदी करनी पड़तीहै और यदि मधामें
प्रवेश करे तो राजाका नाश होताहै ॥ ६ ॥ तीनों पूर्वा, भरणी,
विशाखा इन नक्षत्रोंमें प्रवेश करे तो वधुका नाश होताहै और
ज्येष्ठा, आश्लेषा, मूल, आद्रा इन नक्षत्रोंमें प्रवेश करे तो (कुमार)
वालकका नाश होताहै ॥ ७ ॥ कृत्तिकामें प्रवेश करे तो गृहमें
आग लगजातीहै. नवीन गृहप्रवेशमें तथा यात्रासे लोटकर गृहप्र-
वेश करनेमेंमी राजाओंको ऐसाही फल होताहै ॥ ८ ॥

अथ वारफलम् ।

गुरुशुक्रवृधाख्येषु वारेणु च सुखार्थदम् ॥

प्रवेशे तु शनौ स्थैर्यं किंचिच्चौरभयं भवेत् ॥ ९ ॥

अब वारफल लिखतेहैं—वृहस्पति, शुक्र, वृुध इन वारोंमें प्रवेश
करे तो सुख तथा धनका लाभ होताहै और शनैश्चरके दिन प्रवेश
करे तो स्थिरता होतीहै परन्तु कुछ चोरका भय होताहै ॥ ९ ॥

अथ प्रवेशो त्याज्याः ।

चैत्रो मासः कुजाकीं च रित्ता दग्धास्त्वमा मृतिः ॥
दुष्टचंद्र इमे त्याज्या नवगोहप्रवेशने ॥ १० ॥

अब प्रवेशमें त्याज्य लिखतेहें—चेत्रका महीना संगल, शनैश्चर वार; रिक्ता, दग्धा, अमावास्या तिथि, मृत्युयोग, दुष्टचंद्रमा ये सब नवीन गहप्रवेशमें त्याज्यहैं ॥ १० ॥

अथ लग्नवलम् ।

चरे लग्ने चरांशस्थे प्रवंशो न शुभावहः ॥ शुभांशेन युते चोपचयस्थे च चरेषि सत् ॥ ११ ॥ शुभैः केंद्रत्रिकोणायद्विगैरायत्रिपष्ठगैः ॥ पापैः शुद्धेऽप्यमेतुर्ये विजनुर्भाष्टमेंगके ॥ १२ ॥ शुभे भकूटके गेहे विधायाये द्विजन्मनः ॥ जलपूर्ण घटं धृत्वा मांगल्येन गृहं विशेत् ॥ १३ ॥ रंथा ८-तमज ६ कुटुंबाया ११ त्पंचभे भास्करे स्थिते ॥ पूर्वास्यादिगृहे श्रेष्ठः क्रमाद्वामगतो रविः ॥ १४ ॥

अब लग्नवल लिखतेह—चर लग्न, तथा चरलग्नका नवांशा होय तो नवीन गृहप्रवेशमें शुभकारक नहीं होताहै अथवा शुभग्रहके नवांशासे युक्त चरलग्न होय अथवा उपचय ३ । ६ । १० । ११ स्थानमें स्थित चरलग्न होय तो उसमेंभी शुभ होताहै ॥ ११ ॥ शुभग्रह केंद्र अथवा त्रिकोण वा दूसरे स्थानमें वैठे होंय और पापग्रह-ग्यारहवें, तीसरे, छठे स्थानमें स्थित होंय आठवां, चौथा घर शुद्ध होय अर्थात् उनमें कोईग्रह नहीं होय और जन्मका नक्षत्र तथा राशि और जन्मलग्नसे आठवीं लग्न नहीं होय ॥ १२ ॥ गृह और स्वामीकी राशिका भकूट शुभहोय तो जलसे भरेहुए कलशसहित वाह्यणोंको आगेकरके मंगलपूर्वक गृहमें प्रवेश करै ॥ १३ ॥ पूर्वादिक दिशाओंमें गृहका द्वार होय तो क्रमसे आठवें, पांचवें, दूसरे, ग्यारहवें स्थानसे पांचपांच स्थानोंके भीतर सूर्य होंय तो प्रवेश करनेवालेके वाइँतर्फ रहतेहें अर्थात् गृहद्वार पूर्वको होय तो लग्नसे आठवें स्थानसे पांच घरोंके भीतर सूर्य प्रवेशकर्त्ताके वाम भागमें रहतेहें और गृहद्वार दक्षिणको होय तो लग्नसे पांचवें स्थानसे

पांच घरोंके भीतर सूर्य होय तो प्रवेशकर्त्ताके वासभागमें रहते हैं और गृहद्वार पश्चिमको होय तो लग्नसे दूसरे घरसे पांच घरोंके भीतर सूर्य होय तो प्रवेशकर्त्ताके वासभागमें रहते हैं। यदि उचर-मुख गृहद्वार होनेपर ग्यारहवें स्थानसे पांच घरोंके भीतर सूर्य होय तो प्रवेशकर्त्ताके वासभागमें रहते हैं और गृहप्रवेशमें श्रेष्ठ होते हैं ॥ १४ ॥

अथ गृहद्वारवशात्तिथयः ।

प्रवेशे प्राङ्मुखे पूर्णा नन्दा याम्यमुखे शुभा ॥

भद्रा प्रत्यङ्मुखेऽथोदङ्मुखे गेहे तथा जया ॥ १५ ॥

अब यहद्वारवशसे तिथियाँ लिखते हैं—पूर्वमुखके यहमें प्रवेश करे तो पूर्णातिथि और दक्षिण मुखके यहमें नन्दातिथि, पश्चिम मुखके यहमें भद्रातिथि और उत्तरमुखके यहमें प्रवेश करे तो जयातिथि शुभ होती है ॥ १५ ॥

अथ गेहे तत्प्रवेशे च विशेषः ।

वेश्मकृत्यं दिवा शस्तं प्रवेशो रजनौ क्वचित् ॥

सतीङ्गर्कवले यात्रा द्वादश्यां न भृगो निशि ॥ १६ ॥

अब यह और उसका प्रवेशमें विशेष लिखते हैं—यहकृत्य दिनमें श्रेष्ठ होती है और प्रवेशभी दिनमें ही श्रेष्ठ होता है और कभीकभी रात्रिमें भी शुभ होता है। चन्द्रमा और सूर्यका वल होय तो यात्रा श्रेष्ठ होती है और द्वादशी तिथि, शुक्रके दिन रात्रिमें यात्रा नहीं करे ॥ १६ ॥

अथ गेहप्रवेशे कलशाचक्रं म् ।

अर्कभाद्रू १ मिते वक्त्रे वह्निदाहः प्रवेशने ॥ उद्गासोऽविष्य-

५ मितैः प्राच्यां याम्यां लाभोऽविष्य १ संमितैः ॥ १७ ॥

पंश्चिमेऽविष्य १३ मितैर्लक्ष्मीरुदग्वेद १७ मितैः कलिः ॥

नारो युग २१ मितीर्मध्येऽधः कंठे त्रिवि २७ भैः
शुभम् ॥ १८ ॥

अब एहप्रवेशमें कलशचक लिखतेहैं—सूर्यके नक्षत्रसे दिनके नक्षत्रतक गिने एक नक्षत्र ? कलशके मुखमें धरै जिसका फल प्रवेशके समय अमिदाह होताहै और फिर चार नक्षत्र कलश-चक्रके पूर्वमें धरै जिनका फल उजाड़ होताहै और फिर दक्षिणमें चार नक्षत्र धरै जिनका फल लाभ होताहै ॥ १७ ॥ और फिर चार नक्षत्र पश्चिममें धरै जिनका फल लक्ष्मीप्राप्ति होतीहै, तदनन्तर चार नक्षत्र उत्तरमें धरै जिनका फल कलह होताहै और इसके पीछे चार नक्षत्र मध्यमें धरै जिनका फल नाश और तीनतीन नक्षत्र नीचे तथा कण्ठमें धरै जिनका फल शुभ होताहै ॥ १८ ॥

अथ तदेव स्पष्टयति ।

भान्यष्टौ ८ सूर्यभात्पष्टाद्विंशत्त्वाद्वै भानि पद् ॥

कुंभचक्रके वारिष्ठानि गेहं प्रविशतां वृणाम् ॥ १९ ॥

अब उसीको स्पष्ट लिखतेहैं—सूर्यके नक्षत्रसे जो छठा नक्षत्र होय उससे आठ नक्षत्र तथा सूर्यनक्षत्रसे जो वाईसवाँ नक्षत्र होय उससे छः नक्षत्र यहमें प्रवेश करनेवाले मनुष्योंको श्रेष्ठ होतेहैं ॥ १९ ॥

अथ प्रवेशविधिः ।

यथोक्तसमये शश्यावितानैस्तोरणैर्युतम् ॥ वेदमंगलनिवार्पैः

संप्रविश्य गृहं शुभम् ॥ २० ॥ शिल्पिनं गणितज्ञं च विधिविज्ञं

पुरोधसम् ॥ पूजयेद्य यथादेवं हेमरत्नैस्तथांवरैः ॥ २१ ॥

अब प्रवेशविधि लिखतेहैं—राजा पूर्वोक्त मुहूर्तमें शश्या, चन्दोवा, तोरणयुक्त यहमें केद और मङ्गलाचारके शब्दोंसहित प्रवेश करें तो शुभ होताहै ॥ २० ॥ कारीगर, गणितका जाननेवाला ज्योतिषी

पंडित, विधिका जाननेवाला, पुरोहित इन सर्वका सुवर्ण, रत्न-
चत्वारोंसे देवताके समान पूजन करै ॥ २१ ॥

अथ त्रिविधः प्रवेशः ।

अपूर्वो नवगेहादौ प्रवेशो मुनिभिः स्मृतः ॥ सपूर्वस्तु
प्रवासाति पूर्वाऽपूर्व इतः परः ॥ २२ ॥ आरंभोदितभैर्भैः
कायोऽपूर्वः प्रवेशकः ॥ पूर्वाऽपूर्वोऽधिनीमूलश्रवोपतैः कर-
स्थितैः ॥ २३ ॥ सपूर्वस्वृत्तराचित्रानुराधारेवतीमृगे ॥
रोहिण्यां कथितः प्राज्ञः प्रवेशत्रिविधो गृहे ॥ २४ ॥

अब त्रिविध प्रवेश लिखतेहें—मुनीश्वरोंने नवीन गृहादिकोंमें
तीन प्रकारका प्रवेश कहाहे, अपूर्व, सपूर्व, पूर्वापूर्व इति । नवीन
गृहादिकमें प्रवेश करे तो अपूर्व और यात्रासे लौटके प्रवेश करे तो
सपूर्व और इससे अतिरिक्त पूर्वापूर्व प्रवेश कहाताहे ॥ २२ ॥ गृहारंभोक्त
नक्षत्रोंमें अपूर्व प्रवेश राजा करे और अधिनी, मूल, श्रवण, हस्त
इन नक्षत्रोंमें पूर्वापूर्व प्रवेश करे ॥ २३ ॥ तीनों उत्तरा, चित्रा,
अनुराधा, रेवती, मृगशिरा, रोहिणी इन नक्षत्रोंमें सपूर्व गृहप्रवेश
करे ऐसा पंडितोंने कहाहे ॥ २४ ॥

अथ वास्तुपूजनादिकं विना प्रवेशो न कार्यः ।

जातु न प्रविशेद्वीमाननाच्छन्नं नवं गृहम् ॥

कपाटरहितं तद्द्वास्तुपूजनवर्जितम् ॥ २५ ॥

अब वास्तुपूजादिक विना प्रवेश नहीं करना लिखतेहें—विना
छप्परके अथवा विना पटाउके, विना द्वारके, विना वास्तुपूजनके
घरमें प्रवेश नहीं करे ॥ २५ ॥

अथ वास्तुपूजनम् ।

श्रवण्ये मृगे मूलाऽनुराधांत्ये करत्रये ॥ पुनर्भैश्युत्तरे पुष्ये
रोहिण्यामधिभै तथा ॥ २६ ॥ वास्तोरम्भ्यर्चनं शस्तं
चलिदानपुरःसरम् ॥ २७ ॥

नाशो युग २१ मितीर्मध्येऽधः कंठे त्रित्रि २७ भैः
शुभम् ॥ १८ ॥

अब गृहप्रवेशमें कलशचक लिखते हैं—सूर्यके नक्षत्रसे दिनके नक्षत्रतक गिनै एक नक्षत्र १ कलशके मुखमें धरै जिसका फल प्रवेशके समय अग्निदाह होताहै और फिर चार नक्षत्र कलशचकके पूर्वमें धरै जिनका फल उजाड़ होताहै और फिर दक्षिणमें चार नक्षत्र धरै जिनका फल लाभ होताहै ॥ १७ ॥ और फिर चार नक्षत्र पश्चिममें धरै जिनका फल लक्ष्मीप्राप्ति होतीहै, तदनन्तर चार नक्षत्र उत्तरमें धरै जिनका फल कलह होताहै और इसके पीछे चार नक्षत्र मध्यमें धरै जिनका फल नाश और तीनतीन नक्षत्र नीचे तथा कण्ठमें धरै जिनका फल शुभ होताहै ॥ १८ ॥

अथ तदेव स्पष्टयति ।

भान्यपौ ८ सूर्यभात्पष्टाद्विंशात्त्रैव भानि पद् ॥

कुंभचक्रे वरिष्ठानि गेहं प्रविशतां नृणाम् ॥ १९ ॥

अब उसीको स्पष्ट लिखते हैं—सूर्यके नक्षत्रसे जो छठा नक्षत्र होय उससे आठ नक्षत्र तथा सूर्यनक्षत्रसे जो बाईसवाँ नक्षत्र होय उससे छः नक्षत्र यहमें प्रवेश करनेवाले मनुष्योंको श्रेष्ठ होते हैं ॥ १९ ॥

अथ प्रवेशविधिः ।

यथोक्तसमये शश्यावितानैस्तोरणैर्युतम् ॥ वेदमंगलनिर्वोपैः

संप्रविश्य गृहं शुभम् ॥ २० ॥ शिल्पिनं गणितज्ञं च विधिविज्ञं पुरोधसम् ॥ पूजयेद्य यथादेवं हेमरत्नैस्तथांवरे: ॥ २१ ॥

अब प्रवेशविधि लिखते हैं—राजा पूर्वोक्त मुहूर्तमें शश्या, चन्दोवा, तोरणयुक्त यहमें केद और मङ्गलाचारके शब्दोंसहित प्रवेश करें तो शुभ होताहै ॥ २० ॥ कारीगर, गणितका जाननेवाला ज्योतिषी

पंडित, विधिका जाननेवाला, पुरोहित इन सर्वका सुवर्ण, रत्न-
बस्त्रोंसे देवताके समान पूजन करै ॥ २१ ॥

अथ त्रिविधः प्रवेशः ।

अपूर्वो नवगोहादौ प्रवेशो मुनिभिः स्मृतः ॥ सपूर्वस्तु
प्रवासांते पूर्वाऽपूर्व इतः परः ॥ २२ ॥ आरंभोदितभैर्भैः
कार्योऽपूर्वः प्रवेशकः ॥ पूर्वाऽपूर्वोभिनीमूलश्रवोपेतैः कर-
स्थितैः ॥ २३ ॥ सपूर्वस्तृतराचित्रानुराधारेवतीमृगे ॥
रोहिण्यां कथितः प्राङ्गेः प्रवेशस्त्रिविधो गृहे ॥ २४ ॥

अब त्रिविध प्रवेश लिखतेहैं—मुनीश्वरोंने नवीन गृहादिकोंमें
तीन प्रकारका प्रवेश कहाहै. अपूर्व, सपूर्व, पूर्वापूर्व इति । नवीन
गृहादिकमें प्रवेश करे तो अपूर्व और यात्रासे लौटके प्रवेश करे तो
सपूर्व और इससे अतिरिक्त पूर्वापूर्व प्रवेश कहाताहै ॥ २२ ॥ गृहारंभोक्त
नक्षत्रोंमें अपूर्व प्रवेश राजा करे और अश्विनी, मूल, श्रवण, हस्त
इन नक्षत्रोंमें पूर्वापूर्व प्रवेश करे ॥ २३ ॥ तीनों उत्तरा, चित्रा,
अनुराधा, रेवती, मृगशिरा, रोहिणी इन नक्षत्रोंमें सपूर्व गृहप्रवेश
करे ऐसा पंडितोंने कहाहै ॥ २४ ॥

अथ वास्तुपूजनादिकं विना प्रवेशो न कार्यः ।

जातु न विशेष्याभाननाच्छब्दं नवं गृहम् ॥

कपाटरहितं तद्द्वास्तुपूजनवर्जितम् ॥ २५ ॥

अब वास्तुपूजादिक विना प्रवेश नहीं करना लिखतेहैं—विना
चृष्टरके अथवा विना पटाउके, विना द्वारके, विना वास्तुपूजनके
घरमें प्रवेश नहीं करे ॥ २५ ॥

अथ वास्तुपूजनम् ।

श्रवणये मृगे मूलाऽनुराधांत्ये करवये ॥ पुनर्भेत्रुत्तरे पुण्ये
रोहिण्यामश्विभे तथा ॥ २६ ॥ वास्तोरम्यर्चनं शस्तं
वलिदानपुरःसरम् ॥ २७ ॥

अब वास्तुपूजन लिखते हैं—श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, मृगशिरा, मूल, अनुराधा, रेवती, हस्त, चित्रा, स्वाति, पुनर्वसू, तीनों उत्तरा, पुष्य, रोहिणी, अश्विनी इन नक्षत्रोंमें वलिदानपूर्वक वास्तुका पूजन शुभ होता है ॥ २६ ॥ २७ ॥

अथ नवदुर्गपुरप्रवेशः ।

रोहिणीरेवतीहस्तत्रये पुष्यश्रवस्त्रये ॥

अनुराधोत्तरे नव्ये पुरे दुर्गे प्रवेशनम् ॥ २८ ॥

अब नवदुर्गपुरप्रवेश लिखते हैं—रोहिणी, रेवती, हस्त, चित्रा, स्वाति, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, अनुराधा, तीनों उत्तरा इन नक्षत्रोंमें नवीन किलेमें प्रवेश करना शुभ होता है ॥ २८ ॥

अथ जितस्य शत्रोः पुरप्रवेशः ।

विशाखाकृत्तिकापूर्भोत्तरापादाभिष्ठे तथा ॥

शनौ वार्के जितस्यारेविजयी नगरं विशेष ॥ २९ ॥

इति श्रीमद्दैवज्ञरावलहरिशङ्करसूरिसूतुगणपतिकृते
मुहूर्तगणपती गृहप्रवेशप्रकरणं द्वाविंशम् ॥ २२ ॥

अब जितेहुए शत्रुके पुरमें प्रवेश लिखते हैं—विशाखा, कृत्तिका, पूर्वाभाद्रपद, उत्तरापादा इन नक्षत्रोंमें, शनैश्चर तथा रविवारमें विजयी राजा जीतेहुए वेरीके पुरमें प्रवेश करे ॥ २९ ॥

इति श्रीमद्दैवज्ञरावलहरिशंकरसूरिसूतुगणपतिकृते मुहूर्तगणपती
श्रीयुतपंडितवर्यचेणीरामात्मजपंडितरामद्यालुशर्म्मकृत-
भापाटीकासमलंकृतं गृहप्रवेशप्रकरणं द्वाविंशम् ॥ २२ ॥

अथ देवालयादिप्रतिष्ठाप्रकरणम् ।

प्रासादापर्योः कार्या प्रतिष्ठाथोत्तरायणे ॥ तथा जलाशया-
रामोत्सर्गः शस्तो विचैत्रके ॥ १ ॥ चैत्रो मासः प्रतिष्ठायाँ

मध्यमः कैश्चिदीरितः ॥ शुक्लपक्षेनुराधांत्ये पुनर्भेदे रोहिणी-
मृगे ॥ २ ॥ श्रवस्त्रयोत्तराहस्तत्रये पुष्ये विधौ शुभे ॥
स्ववारनक्षत्रतिथिपु मूर्तीनां स्थापनं स्मृतम् ॥ विष्णवादि-
देवमुख्यानां विलये शुभलौकिके ॥ ३ ॥

अब देवालयादिप्रतिष्ठाप्रकरण लिखते हैं—देवमंदिर तथा देवप्र-
तिमाकी प्रतिष्ठा उत्तरायण सूर्यमें करनी चाहिये और जलाशय
तथा वागकी प्रतिष्ठा चैत्रके महीनेको छोड़कर उत्तरायणमें शुभ
होती है ॥ १ ॥ और किन्हीं आचार्योंने चैत्रका महीना प्रतिष्ठामें
मध्यम कहा है, शुक्लपक्ष, अनुराधा, रेवती, पुनर्वसू, रोहिणी, मृग-
शिरा ॥ २ ॥ श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, तीनों उत्तरा, हस्त, चित्रा,
स्वाति, पुष्य यह नक्षत्र और शुभ चन्द्रसा और अपने बार,
नक्षत्र, तिथियोंमें शुभ लौकिकव्यवहारमें, शुभ लक्ष्में विष्णवादि-
मुख्य २ देवता तथा अन्य मूर्तियोंका स्थापन शुभ होता है ॥ ३ ॥

अथ देवताविशेषेण नक्षत्रविशेषः ।

विष्णोः पूर्वोदिते भेनुराधाचित्राद्योस्तिस्ते ॥ रोहिणी-
श्रवणज्येष्ठापुष्ये चाभिजितीरितम् ॥ ४ ॥ विष्णवासवयोः
सम्यक्प्रतिष्ठापनमार्यकैः ॥ भानोर्हस्तेऽनुराधायां कुवे-
रस्कंधयोरपि ॥ ५ ॥ मूले दुर्गादिकानां च श्रवणे सुगतस्य
हि ॥ रेवत्यां धर्महेरंवफणिप्रमथरक्षसाम् ॥ ६ ॥ यक्षभू-
तासुराणां च वाग्देव्याः स्थापनं स्मृतम् ॥ व्यासागस्त्य-
ग्रहाणां च वाल्मीकिः पुष्यभे तथा ॥ ७ ॥ यत्र सतर्पयो
यांति विष्ण्ये तेषां तु तत्र च ॥ सर्वेषामेव रोहिण्यासुत्तरा-
वितये तथा ॥ ८ ॥ धनिष्ठायां दिगीशानां प्रतिष्ठापनमी-
रितम् ॥ ९ ॥

अब देवताविशेषसे नक्षत्र विशेष लिखते हैं—विष्णुके पूर्वोक्त नक्षत्रोंमें तथा अनुराधा, चित्रा, स्वाति, मृगशिरा, रोहिणी, श्रवण, ज्येष्ठा, पुष्य, अभिजित् इन नक्षत्रोंमें ब्रह्मा तथा इन्द्रकी प्रतिष्ठा शुभ कही है। सूर्यकी प्रतिष्ठा हस्त नक्षत्रमें; कुवेर और स्वामि कार्त्तिककी प्रतिष्ठा अनुराधा नक्षत्रमें शुभ कही है ॥ ४ ॥ ५ ॥ दुर्गादि देवताओंकी प्रतिष्ठा मूलनक्षत्रमें; बुद्धकी प्रतिष्ठा श्रवण नक्षत्रमें और धर्म, गणेश, शेष, प्रमथ, राक्षस ॥ ६ ॥ यक्ष, भूत, असुर, सरस्वती इतने देवताओंकी प्रतिष्ठा रेवती नक्षत्रमें शुभ होती है और व्यास, अगस्त्य, वाल्मीकि, नवयह इनकी प्रतिष्ठा पुष्य नक्षत्रमें शुभ होती है ॥ ७ ॥ और सप्तर्षियोंकी प्रतिष्ठा उस नक्षत्रमें करनी चाहिये जिसपर कि, वे स्थित हैं। रोहिणी, तीनों उत्तरा इन नक्षत्रोंमें सब देवताओंकी प्रतिष्ठा शुभ होती है ॥ ८ ॥ और धनिष्ठा नक्षत्रमें दिवपालोंकी प्रतिष्ठा शुभ कही है ॥ ९ ॥

अथ देवताविशेषेण लग्ने विशेषः ।

सिंहे सूर्यः शिवो द्वंद्वे लग्ने स्थाप्यः स्त्रियां हरिः ॥

कुंभे वेघाश्वरे क्षुद्रा द्वयज्ञे देव्यः स्थिरेऽखिलाः ॥ १० ॥

अब देवताविशेषसे लग्नमें विशेष लिखते हैं—सिंह लग्नमें सूर्यकी मिथुनमें शिवकी, कन्या लग्नमें विष्णुकी, कुंभ लग्नमें ब्रह्माकी, चरल-अमें क्षुद्रा अर्थात् चतुःपष्टि योगिनीयोंकी; द्विस्त्रभावलग्नमें देवी अर्थात् दुर्गाप्रभृतिकी और स्थिर लग्नमें सब देवताओंकी प्रतिष्ठा करनी चाहिये ॥ १० ॥

अथ वारफलम् ।

प्रतिष्ठोया तथा क्षेमा वह्निदा वरदा दृढा ॥

आनन्ददायिनी कलपस्थायिन्यकादिवासरे ॥ ११ ॥

अब वारफल लिखते हैं—अर्कादिवारोंमें जो प्रतिष्ठा होती है उनको कहते हैं कि, रविवारमें उग्रा, चन्द्रवारमें क्षेमा, मंगलवारमें

अग्निदा, वुधवारमें वरदा, वृहस्पतिवारमें दृढा, शुक्रवारमें आनन्द-
दायिनी और शनैश्चरवारमें कल्पस्थायिनी प्रतिष्ठा होतीहै ॥ ११ ॥

अथ देवताविशेषेण मासविशेषः ।

याम्यायनेपि वाराहमातृभैरववामनान् ॥ महिपासुरहंत्रीं च
नृसिंहं स्थापयेहुधः ॥ १२ ॥ श्रावणे स्थापयेल्लिंगमाश्विने
जगदंविकाम् ॥ मार्गशीर्षे हरिं चैव सर्वान्पौरोपेपि
केचन ॥ १३ ॥

अब देवताविशेषसे मासविशेष लिखते हैं—दक्षिणायनमें वाराह-
मूर्ति, मातृका, भैरव, वामन, दुर्गादेवी, नृसिंह इन देवताओंकी
प्रतिष्ठा शुभ होतीहै ॥ १२ ॥ श्रावणमें शिवलिंगकी प्रतिष्ठा करै,
आश्विनमें जगदंविकादेवीकी, मार्गशीर्षमें विष्णुकी और पौषमें
सब देवताओंकी प्रतिष्ठा करै ऐसा कोई आचार्य कहते हैं ॥ १३ ॥

अथ प्रतिष्ठायां लग्नवलम् ।

केंद्रकोणद्विलाभस्थैः शुभैः पापेश्च सेंदुभिः ॥

आयारिगैः सुतैश्वर्यप्रदा देवाः प्रतिष्ठिताः ॥ १४ ॥

इति श्रीमद्वज्ञरावलहरिशंकरसूरिसुनुगणपतिकृते मुहूर्त-
गणपतौ जलाशयारामदेवताप्रासादप्रतिष्ठाप्रकरणं
त्रयोर्विंशम् ॥ २३ ॥

अब प्रतिष्ठामें लग्नवल लिखते हैं—केंद्र, त्रिकोण, दूसरे, ग्यारहवें
स्थानमें शुभग्रह होंय और चन्द्रमासहित पापग्रह ग्यारहवें तथा
छठे स्थानमें होंय तो इस योगमें प्रतिष्ठा कियेहुए देवता, पुत्र और
ऐश्वर्यके देनेवाले होते हैं ॥ १४ ॥

इति श्रीमद्वज्ञरावलहरिशंकरसूरिसुनुगणपतिकृते मुहूर्तगणपतौ
श्रीयुतपंडितवर्यवेणीरामात्मजपंडितरामदयालुशम्रकृत-
भाषार्टीकासमलकृतं जलाशयारामदेवताप्रासादप्र-
तिष्ठाप्रकरणं त्रयोर्विंशम् ॥ २३ ॥

अथ मिश्रप्रकरणम् । तत्रादावंगस्फुरणफलम् ।

अंगस्फूर्तिफलं वक्ष्ये दक्षिणांगसमुद्धवम् ॥ पुरुषाणां तु
तज्ज्ञेयं वामभागे सृगीदशाम् ॥ १ ॥ पृथ्वीलाभः शिरः-
स्थाने स्थानलाभो ललाटके ॥ प्रियसिः स्याङ्गवोमध्ये
भुवोर्युग्मे सुखं महत् ॥ २ ॥ शुभवार्तांश्रुतिः कर्णे लोचने
प्रियदर्शनम् ॥ दृक्षोणभागयोर्लक्ष्मीरधःपक्षमणि संजयः
॥ ३ ॥ गंडदेशे स्त्रियाः सौख्यं नासायां गंधजं सुखम् ॥
उत्तरोष्टे तु वाग्वादश्चुंबनं चाधरे स्त्रियाः ॥ ४ ॥ हनुदेशे
भयं ज्ञेयं मुखे मधुरभोजनम् ॥ भूपातिः कंठदेशे स्याद्रीवार्या
रिपुजं भयम् ॥ ५ ॥ ज्ञेयः पराजयः पृष्ठे स्कंधे मित्रसमा-
गमः ॥ प्रियातिर्वाहुदेशे स्थानमध्ये बाहोर्धनागमः ॥ ६ ॥
द्रविणातिं करे विद्याद्विजयं वक्षसि ध्रुवम् ॥ प्रमोदं च बलं
कर्त्त्वां पाशें प्रीतिमनुत्तमाम् ॥ ७ ॥ स्थानात्प्रचलनं
नाभौ कोशवृद्धिरथांत्रके ॥ कोशातिरुदने नार्या
जघने पतिसंगमः ॥ ८ ॥ स्तिर्गुदे वाहनातिः स्याङ्गे
योपित्समागमः ॥ वृषणे पुत्रलाभश्चाभ्युदयो वस्तिदेशके ॥
॥ ९ ॥ ऊरौ सद्वाससां प्राप्ती रिपुसंघिस्तु जानुनि ॥
कचिद्वानिस्तु जंघायां स्थानातिश्वरणोपरि ॥ १० ॥
पादाधो लाभदं ज्ञेयमंगस्फूर्तिंफलं त्विदम् ॥ वामे पुंसां
फलं चैतहुवैर्ज्ञेयं विपर्ययात् ॥ ११ ॥ नराणां दक्षिणेंगे
स्यादंगप्रस्फुरणे तथा ॥

अव मिश्रप्रकरण लिखते हैं—तहां पहिले अङ्गस्फुरणफल लिख-
ते हैं—पुरुषोंके दाहिने अङ्ग और स्त्रियोंके वामाअङ्गका विचार करना
गये ॥ १ ॥ शिरस्थान फड़के तो पृथ्वीका लाभ होय, ललाट

फड़क ता स्थानका लाभ होय और भौंहोंका मध्यभाग फड़के तो प्रियवस्तुकी प्राप्ति होय और दोनों भौंहें फड़के तो महान् सुख होताहै ॥२॥ कान फड़क तो शुभ वात्ता सुननेमें आवै और जो नेत्र फड़के तो प्यारेका दर्शन होय और नेत्रोंके दोनों कोणभाग फड़के तो लक्ष्मीकी प्राप्ति होए और पलकके नीचे फड़के तो जय होतीहै ॥ ३ ॥ गाल फड़के तो खीका सुख, नाक फड़के तो गन्धका सुख, ऊपरका होठ फड़के तो वाग्विवाद् और नीचेका होठ फड़के तो खीका चुम्बन प्राप्त होताहै ॥४॥ ठोड़ी फड़के तो भय, सुख फड़के तो मधुर भोजन, कंठ फड़के तो भूपणकी प्राप्ति, ग्रीवा फड़के तो शत्रुका भय ॥५॥ पीठ फड़के तो पराजय, कन्धा फड़के तो मित्रसमागम, भुजा फड़क तो प्यारेकी प्राप्ति, भुजाओंका मध्यभाग फड़के तो धनकी प्राप्ति ॥ ६ ॥ हाथ फड़के तो द्रव्यकी प्राप्ति, छाती फड़के तो विजय, कमर फड़के तो आनन्द और बलकी प्राप्ति, पसली फड़के तो अनुत्तम प्रीति ॥ ७ ॥ नाभि फड़के तो स्थानसे चलना, आतं फड़के तो खजानेकी वृद्धि, पेट फड़के तो खजानेकी प्राप्ति, खीकी जंधा फड़के तो पतिसे संगम ॥ ८ ॥ चूतड़ वा गुदा फड़के तो सवारीकी प्राप्ति, लिंग फड़के तो खीके साथ समागम, फोते फड़के तो पुत्रलाभ, पेट फड़के तो उदय होताहै ॥ ९ ॥ जंधा फड़के तो शुभ वस्त्रोंकी प्राप्ति, घुटने फड़के तो वैरीसे मिलाप और कभी जंधा फड़के तो हानिभी होतीहै, पाँवका ऊपरी भाग फड़के तो स्थानकी प्राप्ति ॥ १० ॥ (पाँवके नीचे) . तलवा फड़के तो लाभदायक होताहै. यह अंग फड़कनेका फल कहाहै । पुरुषका वामांग फड़के तो विपरीत फल होताहै, ऐसा वृद्धिमानोंको जानलेना चाहिये ॥ ११ ॥ इसी प्रकार खियोंका दाहिना अंग फड़के तोभी विलोम जानना अर्थात् अशुभ फल होताहै-

अथांगे तिलोत्पत्तौ कंडूत्यां चेदमेव फलम् ।

अंगस्फूर्तिसमा ज्ञेया लाञ्छनं मशकास्तिलः ॥ १२ ॥
कंडूतिर्दक्षिणे पाणी नृपाणां जयदा स्मृता ॥ अन्येषां
लाभदा पादतले गमनकारिणी ॥ १३ ॥

अब अङ्गमें तिलोत्पत्ति और खुजलानेसे यही फल लिखते हैं—
पूर्वोक्त अंगोंमें व्हसा, वा मस्सा, वा तिल होय तो अंग फड़कनेके
समानही फल जानै. राजाओंका दाहिना हाथ खुजलावै तो विजय-
दायक होताहै और अन्य पुरुषोंका हाथ खुजलावै तो लाभदायक
होताहै और पाँवका तलवा खुजलावै तो मार्गचलना पड़ताहै १२॥१३॥

अथ पल्लीपतनफलम् । तत्र शुभाशुभतिथि-
वारनक्षत्राणि ।

भूनेत्राऽग्निशरांगाशाविश्वादित्येशसंमिताः १ । २ । ३ ।
५ । ६ । १० । १३ । १२ । ११ ॥ तिथयः शुभदा पल्ली-
पातेन्यास्त्वशुभा मताः ॥ १४ ॥ सौम्यवाराः शुभाः
प्रोक्ताः पापा दुष्टफलप्रदाः ॥ पुष्प्याऽश्विरोहिणीद्वंपुनभो-
फाकरवयम् ॥ १५ ॥ धनिष्ठात्यानुराधाख्यं शतभं च
शुभप्रदम् ॥ इतोन्यद्वं निपिद्धं स्यात्पल्लीपाते तथा नृणाम्
॥ १६ ॥ दक्षिणांगेखिले पुंसां वामांगे तु मृगीदशाम् ॥
नाभी हृद्युदरे चैव मस्तके हनुवर्जिते ॥ १७ ॥ पल्लीपातः
शुभो ज्ञेयस्ततोऽन्यव न शोभनः ॥ यत्कलं पतने पल्लयाः
शरठारोहणेषि तत् ॥ १८ ॥ शरठस्य प्रपाते च पल्लया-
रोहे वृथा फलम् ॥ स्नातव्यं स्पर्शने पल्लयाः शरठस्य
सचाससः ॥ १९ ॥ जन्मक्षेत्रे मृत्युयोगेहि दग्धे विष्णवादि-
दूषिते ॥ लग्ने पापयुते चंद्रेष्टमेरिष्टं प्रजायते ॥ २० ॥ तत्र

शांतिं जपं होमं रुद्रं मृत्युंजयादिकम् ॥ पंचगव्ययुतं स्नानं
कुर्यादाज्यावलोकनम् ॥ २१ ॥

अब पह्लीपतन लिखते हैं—तहाँ शुभाशुभ तिथिवारनक्षत्रोंको
लिखते हैं—प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, दशमी, त्रयो-
दशी, द्वादशी, एकादशी ये तिथि छिपकलीके गिरफड़नेमें शुभ और
अन्य तिथि अशुभ मानी हैं ॥ १४ ॥ शुभग्रहोंके बार शुभफलदायक
और पापग्रहोंके बार अशुभफलदायक होते हैं। पुण्य, अधिवनी,
रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वस, उत्तराफालगुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति
॥ १५ ॥ धनिष्ठा, रेवती, अनुराधा, शतभिषा ये नक्षत्र पह्लीपातमें
मनुप्योंके लिये शुभ और इनसे अन्य नक्षत्र अशुभ होते हैं ॥ १६ ॥
पुरुषोंके दाहिने सब अंगोंपर और लियोंके बामांगोंपर छिपकलीका
गिरना शुभ होता है। नाभि, हृदय, उदर, मस्तक इन अंगोंपर छिप-
कली गिरे तो स्त्रीपुरुष दोनोंके लिये शुभ होता है ॥ १७ ॥ किन्तु
ठोड़ीपर गिरे तो अशुभ होता है तथा स्त्रीके दाहिने और पुरुषके
बामांगपर गिरे तो भी अशुभ होता है और जो फल छिपकलीके
गिरनेका है वहही फल गिरगटके चढ़नेकाभी होता है और गिर-
गटका गिरना और छिपकलीका चढ़ना निप्फल होता है। छिपकली
स्पर्श करे तो स्नान करना चाहिये और जो गिरगटका स्पर्श होनाय
तो बल्लोंसमेत स्नान करना चाहिये ॥ १८ ॥ १९ ॥ जन्म नक्षत्रमें,
मृत्युयोगमें, दग्धदिनमें, भद्रादि दूषित दिनमें और पापग्रहयुक्त लम्फमें,
अष्टमस्थ चंद्रमामें छिपकली गिरे अथवा गिरगट चढ़े तो अरिष्ट
होता है ॥ २० ॥ उस अरिष्टके निवारणार्थ शान्ति, जप, होम, रुद्रा-
भिषेक, मृत्युंजय मंत्रका जप, पंचगव्यस्नान करे और धीका छाया-
दान करे ॥ २१ ॥

अथ स्वस्यारिष्टज्ञानम् ।

यस्य सूर्यस्वरोजस्तं पोडशाहं वहेत्तदा ॥ सद्यो मृत्युस्ततो न्यूने
न्यूनाहमिति मासके ॥ २२ ॥ एवं वामस्वरे सौख्यं तयो-
र्नाशेमृतिः क्षणात् ॥ यस्य सूर्यायते चंद्रः सूर्यश्चंद्रायते तदा
॥ २३ ॥ अहोद्रव्यं त्रयं तस्य पण्मासाभ्यंतरे मृतिः ॥
निष्प्रभं भास्करं पश्येन्मियते दशभिर्दिनैः ॥ २४ ॥ जाय-
त्पश्यति यः स्वप्रं सोपि वर्षं न जीवति ॥ न विंदेत्कर्ण-
चोपं यो नासायं रसनां ध्रुवम् ॥ २५ ॥ मेद्रं वामं न पश्येद्यः
पण्मासान्स न जीवति ॥ मणिवंधं ललाटस्थं यदि सूक्ष्मं
न पश्यति ॥ २६ ॥ यो दुर्गधिर्विना हेतुं निःश्रीको वाति-
दीप्तिमान् ॥ कृशांगः स्थूलदेहः स्यात्क्षरत्केशनखोडपि वा ॥
॥ २७ ॥ सवद्वामेक्षणो वापि मासपङ्कं न जीवति ॥ ध्रुवं
विष्णोः पदं चैवाऽरुंधतीं मातृमंडलम् ॥ २८ ॥ भूगोलं
चंद्रं चिह्नमपश्यन्नैव जीवति ॥ कफो मज्जति यस्याप्सु
यंकादौ खंडितं पदम् ॥ २९ ॥ स्रातस्य प्राणुः शुष्येद्वृ-
मालिः स्याच्च मूर्धनि ॥ नो सुभुक्तौ धृतिं धत्ते स्थूलदेहः
कृशोथ वा ॥ ३० ॥ 'विपर्यासः स्वभावस्य नो मात्यास्ये-
गुलियत्रम् ॥ ३१ ॥

अब अपना अरिष्टज्ञान लिखते हैं—जिस मनुष्यका (सूर्यस्वर)
दाहिना स्वर निरन्तर सोलह दिन चले तो उस मनुष्यकी शीघ्रही
मृत्यु होती है और यदि सोलह दिन से कम चले तो कुछ दिन कम एक
मासमें मृत्यु होती है ॥ २२ ॥ इसी प्रकार वायाँस्वर चले तो सुख
होता है और जो दोनों स्वर वंद होजायें तो क्षणभर में मृत्यु होना;
तीहे और जिस मनुष्यका चन्द्रस्वर सूर्यके सदृश होय और सूर्यस्वर
चन्द्रके नाई होय अर्थात् वायाँ स्वर दाहिने स्वरके समयमें और

दाहिनास्वर वायाँ स्वरके समयमें दो वा तीन दिन चलै तो छह महीनेके भीतर उस मनुष्यकी मृत्यु होतीहै और सूर्यको विना तेजका देखै तो दश दिनमें उसकी मृत्यु होतीहै ॥ २३ ॥ २४ ॥ और जो पुरुष जागते समय स्वभको देखै तो वह सालभर नहीं जीताहै और जिसको कानका शब्द न सुनपड़े अथवा जिस पुरुषको अपनी नासिकाका अग्रभाग, जीभ, भौंहें, वायाँ लिंगभाग न दीखै तो वह छह महीने नहीं जीताहै और ललाट पर रक्खाहुआ हाथका पौँचा सूक्ष्म नहीं दीखै अर्थात् मोटा दीखै अथवा विना कारणके जिस पुरुषसे दुर्गंध निकलै वा शोभारहित होजाय अथवा अत्यंत तेजोयुक्त होजाय वा दुर्वल अंगवाला अत्यंत स्थूल शरीर होजाय अथवा ॥ २५ ॥ २६ ॥ केश और नख आपसे आप गिरनेलगें ॥ २७ ॥ वायाँ नेत्र बहने लगै तो वह मनुष्य छह महीने नहीं जीताहै. ध्रुव, विष्णुपद, अरुंधती, मातृमंडल, भूगोल और चन्द्रमाका श्याम चिह्न न दीखै तो जीता नहीं है. जिस मनुष्यका कफ जलमें डूबजाय, कीचड आदिमें पांवका चिह्न खंडित दीखै ॥ २८ ॥ २९ ॥ स्तान करनेके पश्चात् सब अंगोंसे प्रथम हृदय सूख जाय अथवा शिरमेंसे धुअँकी पंक्ति निकलै, अच्छे भोजन करनेपरभी धैर्य न रखें, मोटाशरीर दुर्वल होजाय ॥ ३० ॥ स्वभाव बदलजाय, भोजनके समय मुखमें तीन अंगुली न समावैं तो शीघ्र मृत्यु होतीहै ॥ ३१ ॥

अथ संग्रामेऽशुभचिह्नम् ।

जिह्वाशोपः प्रकंपश्च तांद्रूले रागहीनता ॥

वणाः सगद्धदा यस्य तस्य मृत्यु रणे भवेत् ॥ ३२ ॥

अब संग्राममें अशुभ चिह्न लिखतेहैं—जीभका सूखजाना, शरीरका कॉपना, पान खानेपर मुखका लाल न होना, गहनवाणीका निकलना इन चिह्नोंवाले मनुष्यकी मृत्यु युद्धमें होतीहै ॥ ३२ ॥

अथ युद्धे जयलक्षणम् ।

प्रफुल्लितभुजश्चैव रोमांची स्थिरद्वंभटः ॥

धैर्योपेतः समुत्साही विजयी स रणे भवेत् ॥ ३३ ॥

अब युद्धमें जयलक्षण लिखते हैं—प्रफुल्लित भुजाओंवाला, खड़े हुए रोमांचीवाला, स्थिर दृष्टिवाला, धैर्ययुक्त, उत्साहवाला योधा युद्धमें विजयी होता है ॥ ३३ ॥

अथ छायापुरुपदर्शनप्रकारस्तत्फलञ्च ।

प्रातः पृथग्गते सुर्ये स्नात्वा प्रत्यङ्गमुखो नरः ॥ संपूर्णांवयवं तं चेत्संमुखं श्वेतमीक्षते ॥ ३४ ॥ यावदव्युत्सुखं क्षेमं विजयं प्राप्नुयात्तदा ॥ पृष्ठे तस्मिन्द्विरोहीने मासपङ्कं स जीवति ॥ ३५ ॥ विकर्णे हाथनं चैकं व्यंसे चेन्माससंतकम् ॥ सरंध्रहृदये सप्त दशमासान्विहस्तके ॥ ३६ ॥ विपार्थं निव्युरस्के द्वौ व्यास्य मासं हि जीवनम् ॥ द्विदेहदर्शने मृत्युः सद्य एव न संशयः ॥ ३७ ॥

अब छायापुरुपदर्शनप्रकार और उसका फल लिखते हैं—प्रातःकाल मनुष्य स्नान करके सूर्यकी ओर पीठ और पश्चिमको मुख करके खड़ा होवे और सामने अपनी छायाको देखे यदि संपूर्ण अंगोंसहित शरीरकी छाया श्वेत दीखे ॥ ३४ ॥ तो वर्षभर मुख-क्षेम, विजयकी प्राप्ति रहती है और जो विना शिरके छाया दीखे तो छह मास जीता है ॥ ३५ ॥ और जो विना कानोंकी छाया दीखे तो एक वर्ष और जो विनाकंधोंकी छाया दीखे तो सात मास और छिद्रोंसहित हृदय दीखे तो भी सात मास और विनाहाथोंकी छाया दीखे तो दशमास मनुष्य जीता है ॥ ३६ ॥ और विनापसर्णीकी छाया दीखे अथवा विनाहृदयकी छाया दीखे तो दो मास और विनामुखकी छाया दीखे तो एक मास जीता है और शरीरकी दो छाया दीखें तो निस्संदेह शीघ्रही मृत्यु होती है ॥ ३७ ॥

अथ प्रकारांतरेण फलम् ।

मित्रनाशो विपादे च वंधुनाशो विवाहुके ॥ आत्मनाशो
विशीर्णे स्यात्सर्वाभावे कुलक्षयः ॥ ३८ ॥ दुर्भिक्षं दारुणं
देशो कर्वुरे च पराइमुखे ॥ विहृं धूप्रिते रूक्षे भिन्ने छिन्ने
विधातनम् ॥ ३९ ॥ पीते रुजोऽरुणे हानिः कृष्णे मृत्युः
प्रजायते ॥ ४० ॥

अब प्रकारान्तरसे फल लिखते हैं—विनापैरकी छाया दीखे तो
मित्रका नाश और विनावाहुकी छाया दीखे तो वन्धुका नाश और
विनाशिरकी छाया दीखे तो आत्माका नाश और सब छाया न
दीखे तो कुलका नाश होता है ॥ ३८ ॥ और यदि शरीरकी छाया
कवरी दीखे तो अपने देशमें दारुण दुर्भिक्ष और धुँआँके रंगकी
छाया दीखे अथवा रुखी दीखे तो रोग और जो शरीरकी
छाया कटी दूटी हुई दीखे तो देशका विनाश होता है ॥ ३९ ॥
और पीली दीखे तो रोग, लाल दीखे तो हानि, काली दीखे तो
मृत्यु होती है ॥ ४० ॥

अथ स्वप्रदर्शनम् ।

आद्ये यामे निशि स्वप्नो वर्णेण फलदो भवेत् ॥ द्वितीये
मासपक्षेन त्रिभिर्मासैस्तृतीयके ॥ ४१ ॥ प्रातः सद्यः फलः
स्वप्रस्ततः स्वप्न्यान्न चेन्नरः ॥ रोगचिंतोद्भवा व्यर्थाश्चिर-
पाकादि वीक्ष्यताम् ॥ ४२ ॥

अब स्वप्रदर्शन लिखते हैं—रात्रिके प्रथम प्रहरमें स्वप्न देखे तो
उसका फल सालभरमें होता है और जो दूसरे प्रहरमें स्वप्न देखे
तो छह महीनेमें, यदि तीसरे प्रहरमें स्वप्न देखे तो तीन महीनेमें
॥ ४१ ॥ और चौथे प्रहर प्रातःकालमें स्वप्न देखे तो तुरन्त फूल-

दायक होता है परन्तु स्वप्न देखकर फिर यदि न सोवै तो उक्कफल होता है और रोग तथा चिन्तासे उत्पन्न होनेवाले स्वप्न निष्फल होते हैं वा चिरकालमें फल देनेवाले होते हैं ॥ ४२ ॥

अथ शुभदाः स्वप्नाः ।

सद्वाजा ब्राह्मणा देवाः सिद्धगंधर्वकिन्नराः ॥ गुरुः श्वेतांबरा नारी तेपामाशीश्च दर्शनम् ॥ ४३ ॥ प्रासादगजशैलानां श्वेतोक्षासनवाजिनाम् ॥ दर्शनं रोहणं लाभः सिंहस्यारोहणं तथा ॥ ४४ ॥ छत्रध्वजसुवर्णांजरत्नरौप्यदधीनि च ॥ यवगोधूमसिद्धार्थाः फलं दीपश्च कन्यकाः ॥ ४५ ॥ श्रीखंडाक्षतदूर्वेक्षुर्दर्पणाः पुष्पितद्रुमाः ॥ लाभे वा दर्शने चैपां लाभः सौख्यं भवेद्यशः ॥ ४६ ॥ भोजनं रोदनं वीणावादनं नौप्ररोहणम् ॥ अगम्यागमनं विष्टालेपन शस्तमीरितम् ॥ ४७ ॥ आहूढो यो हि जागर्ति सपुष्पं फलितं द्रुमम् ॥ दण्ठः श्वेताहिना दक्षे करे स्यात्स महाधनः ॥ ४८ ॥ रुधिरस्नानपानं च सर्पदंशो मृतिर्निजा ॥ शय्या हर्म्यासिनानां च ज्वलनं सशिरच्छिदा ॥ ४९ ॥ रक्तस्वावो जलेः स्नानं मरणं मांसभक्षणम् ॥ सुरायाः पयसः पानं प्रशस्तं पायसाशनम् ॥ ५० ॥ कदलीकल्पवृक्षाश्च तीर्थं गंगादिकं सरित् ॥ तोरणं भूपणं राज्यं स्वन्नेश्च ग्रामवेष्टनम् ॥ ५१ ॥ वेदवाद्यादिनिर्घोपो गर्तान्निः सरणं तथा ॥ दंशो वृत्तिककीटानां तडागोद्यानदर्शनम् ॥ ५२ ॥ पीतं रक्तं फलं पुष्पं स्वप्ने प्राप्नोति यो नरः ॥ लभते सोचिरात्स्वर्णं पद्मरागमणिं तथा ॥ ५३ ॥ जयो द्यूते रणे वादे पुरुषूतध्वजेशणम् ॥ आत्मनो वंधनं शीर्पं वाह्नीरानंत्यमुक्तमम् ॥ ५४ ॥ अभिषेककरो विप्रो देवो वा छत्रधारणम् ॥

कुरुते महिपीव्याग्रीगोसिंहीस्तन्यपानकम् ॥ ६६ ॥
 स्वनाभौ तृणवृक्षाम्बुपुष्पाणामुद्भवस्तथा ॥ भुवो भूमि-
 धरस्यापि क्रमणोत्क्षेपणे शुभे ॥ ६६ ॥ मणिसौवर्णरी-
 प्यानां पात्रेवाभोजनीदले ॥ योऽश्राति पायसं स्वप्ने स
 राज्यमधिगच्छति ॥ ६७ ॥ गौलिंगी ब्राह्मणो राजा पिता
 मित्रं च देवता ॥ यद्रदेत्सदसत्स्वप्ने तत्तथैव प्रजायते ॥ ६८ ॥
 पूजितं शिवलिंगं च देवता वा यथाविधि ॥ स्वप्ने दृष्टाः
 प्रयच्छन्ति नराणां विपुलं धनम् ॥ ६९ ॥ त्यक्त्वा तक्ताणि
 कार्पासं श्वेतवर्णं शुभं मतम् ॥ सर्वं कृष्णमसद्वित्वा
 गोदेवांश्च गजद्विजान् ॥ ६० ॥

अब शुभद स्वप्न लिखते हैं—सत्युरुप राजा, ब्राह्मण, देवता,
 सिद्ध, गन्धर्व, किन्नर, गुरु, श्वेतवस्त्र पहरीहुई ल्ली इन सबका
 दर्शन होय ॥ ६३ ॥ देवमंदिर, हाथी, पर्वत, श्वेत वेल, आसन,
 घोडा इनका दर्शन अथवा इन सबपर चढना वा इनका लाभ
 होना, सिंहपर चढना ॥ ६४ ॥ छत्र, ध्वजा, सुवर्ण, कमल, रत्न,
 चांदी, दही, जो, गेहूं सरसों, फल, दीपक, कन्या ॥ ६५ ॥ चंदन,
 अक्षत, दूर्वा, ईख, दर्पण, पुष्पित वृक्ष इतनी वस्तुओंका दर्शन
 अथवा लाभ होय तो द्रव्यलाभ, सौख्य तथा यश मिलताहै ॥ ६६ ॥
 भाजन, रोइन, वीणाका बजाना, नावपर चढना, अगम्या ल्लीके साथ
 मैथुन करना, विषामें सन जाना इतनी वस्तु स्वप्नमें होय तो शुभ
 होताहै ॥ ६७ ॥ जो पुरुप स्वप्नमें फूलेफले वृक्षपर चढकर जाग-
 ताहै अथवा स्वप्नमें जिसके दाहिने हाथमें श्वेतसर्प डस लेताहै
 तो वह पुरुप महाधनी होताहै ॥ ६८ ॥ लोहमें स्तान करना, लोहका
 पीना, सर्पका डसना, अपनी मृत्यु होना, शम्या, महल, आसनका
 जलना, अपने शिरका कटना ॥ ६९ ॥ शरीरसे रुधिरका बहना,

जलसे खान करना, अपना मरना, मांस खाना, मदिरा या पानी पीना,
खीरखाना ऐसे स्वप्न शुभ होते हैं ॥ ५० ॥ केला, कल्पवृक्ष, तीर्थ,
गंगादि नदी, तोरण, भूषण, राज्य, शुभ अन्नोंसे धिराहुआ ग्राम
॥ ५१ ॥ वेद और वाजेआदिका शब्द होना, गढ़हेसे निकलना,
विच्छू कीड़ेआदिका काटना, तड़ाग और वगीचेका देखना, पीले
तथा लाल फलफूलोंका प्राप्त होना ऐसे स्वप्न देखनेवाले मनुष्यको
शीघ्रही सुवर्ण, पुखराज मणिका लाभ होता है ॥ ५२ ॥ ५३ ॥
जुआ वा युद्ध, अथवा विवादमें विजय होना, इंद्रध्वजाका देखना,
अपना बंधन होना, तथा अपने अनेक शिर और भुजाओंका होना
ऐसे स्वप्न उत्तम होते हैं ॥ ५४ ॥ अभिषेक करनेवाला ब्राह्मण अथवा
देवता अपने ऊपर छत्र धारण करे और आप भैंस, व्याघ्री, गौ, सिंहनी
इनके दूधका पान करे ॥ ५५ ॥ अथवा अपनी नाभिमें तृण, वृक्ष,
जल, पुष्प उत्पन्न हुए देखे अथवा पृथ्वी और पर्वतको क्रमसे
ऊपरको उड़ताहुआ देखे तो ऐसे स्वप्न शुभ होते हैं ॥ ५६ ॥ मणि,
सुवर्ण, चाँदीके पात्रोंमें अथवा कमलिनीके पत्तेपर जो मनुष्य स्वप्नमें
पायस भोजन करता है सो राज्यको पाता है ॥ ५७ ॥ गौ, संन्यासी,
ब्राह्मण, राजा, पिता, मित्र देवता इनमेंसे कोई एक स्वप्नमें जैसा
(शुभाशुभ) चुराभला कहें वैसाही फल होता है ॥ ५८ ॥ स्वप्नमें शिव-
लिंगका तथा देवताका यथाविधि पूजन और दर्शन करे तो विपुल
धनकी प्राप्ति होती है ॥ ५९ ॥ मट्टा और कपासको छोड़कर संपूर्ण
सफेद रंगकी वस्तु शुभ मानी हैं और गौ, देवता, हाथी, ब्राह्मण
इनको छोड़कर काले रंगकी सब वस्तुएँ अशुभ होती हैं ॥ ६० ॥

अथाशुभस्वप्नाः ।

तेलाभ्यक्तोथ दिग्वासा आरुदो माहिषं खरम् ॥ उष्ट्रं
कृष्णं वृपं वाशं याम्यां गच्छन्न जीवति ॥ ६१ ॥ पाक-

स्थाने वने रक्षपुष्पादचे सूतिकागृहे ॥ विकलांगो विशेष-
त्स्वप्ने सोऽसुभिर्विप्रयुज्यते ॥ ६२ ॥ जतुकांकुमसिहादि-
धातवो यस्य मंदिरे ॥ पतंति तरुतस्तस्य गेहदाराश्च चौरभीः
॥ ६३ ॥ नाभेरन्यत्र गात्रेषु तृणपुष्पदुमोद्रमः ॥ खरोष्ट-
कपिसर्पाद्यैर्यानं स्नेहस्य भक्षणम् ॥ ६४ ॥ कलुपेणांबुना-
मज्जाकर्दमैगरोमयेन च ॥ स्नेहेन वपुषो लेपः कर्दमे विनिम-
जनम् ॥ ६५ ॥ पातो हगदंतहस्तस्य जिह्वायाश्च वर्यं के
तथा ॥ एते शोकप्रदाः स्वप्ना दृष्टा इनिकरा अपि ॥ ६६ ॥
स्वप्ने संदोलनं गीतं कीडितं स्फोटितं तथा ॥ हसितं
भर्त्सितं श्रोतोवहानीरे ह्यधोगतम् ॥ ६७ ॥ सूर्येदुध्वज-
ताराणां पातः स्वस्य चितावपि ॥ रज्जवाच्छेदः शिरोभागे
कांस्यवर्णस्य धारणम् ॥ ६८ ॥ प्रवेशो जननीगर्भे दुष्ट-
मेतत्र रिष्टदम् ॥ करवीरमशोकं च लतापाशेन वंधनम् ॥
॥ ६९ ॥ कृष्णांवरथरा योपालिंगनं मृत्युकारकम् ॥
आरुद्यु पुण्पितान्वृक्षान्व्यो विचिन्त्य निजं वपुः ॥ ७० ॥
भूपयत्यरुणेः पुण्यैः सोपि प्राणैर्वियुज्यते ॥ धृतरक्तांवर-
स्थिष्ठो हत्यामाप्नोति मानवः ॥ ७१ ॥ यस्तु धूमोयमात्मानं
च्यासं धूमेन चेक्षते ॥ भस्माज्यलोहलाक्षं च स च लक्ष्म्या
वियुज्यते ॥ ७२ ॥ क्रोष्टकुक्टमार्जारगोधावभुमुजंगमाः ॥
मक्षिका धृश्चिका दंशा दृष्टाः स्वप्ने न शोभनाः ॥ ७३ ॥
रन्द्रद्रव्यायुधोपानच्छ्रव्याभूपाश्च योपिताम् ॥ वस्त्रादिप्रियव-
स्त्रूनामपहारोऽर्थनाशकः ॥ ७४ ॥ विवाहोत्सवयोः शोको
अंशो वा नखकेशयोः ॥ कराद्यवयवानां तु च्छेदने स्वप्रना-
शनम् ॥ ७५ ॥ वपनं शमथुकेशानां नेत्ररुक्षपतनं तथा ॥
कृपगर्तदरीध्वांतविवरेषु न शोभनम् ॥ ७६ ॥ कपोतश्वेन-

गृथाद्या ऋक्षकौशिकवायसाः ॥ शृगालशशकवानो हृष्टः
 स्वप्ने न शोभनाः ॥ ७७ ॥ शष्कुलीकृशरात्राणागुडाऽपू-
 पादिभक्षणम् ॥ गोमयं चोष्णपानीयं स्वप्ने पीतं न
 शोभनम् ॥ ७८ ॥ रक्तं पुरीपूत्रे वा स्वन्मृत्युमवा-
 म्रुयात् ॥ रक्तकृष्णानि वासांसि कृष्णानि च विभर्ति यः ॥
 ॥ ७९ ॥ पितृकार्यं प्रकुर्वाणो म्रियते स न संशयः ॥
 भूतप्रेतपिशाचाद्यैः श्वप्नैः सह संगतः ॥ ८० ॥ आहृतो
 वाथ तैर्याम्यां स्वल्पाहैर्म्रियते तु सः ॥ असूर्यं दिवसं
 रात्रिं विचंद्रां गततारकाम् ॥ ८१ ॥ वृष्टिं योऽकालजां पश्ये
 त्वप्ने सोपि विनश्यति ॥ सीसपित्तलकस्तारकांस्यता-
 ग्रायसंत्रपुः ॥ ८२ ॥ शुष्कवृक्षोषधं शिल्पी हृष्टश्वेते न
 शोभनाः ॥ प्रासादच्छब्दधरशिखराणां ध्वजस्य च ॥
 ॥ ८३ ॥ पतनं शकचापस्य नृपराघविनाशनम् ॥ तारं
 कोलाहलाहाननिंदाकोशादिसंत्रवान् ॥ ८४ ॥ विद्याद्राज-
 भयं दंपिशृंगिकीशाद्यभिद्रवान् ॥ ८५ ॥

अब अद्युभ स्वप्न लिखतेहैं—स्वप्नमें तैल मलेहुए, नंगा, भैंस वा
 गधेपर अथवा ऊँट, वा काले बैल, वा काले घोड़ेपर चढ़कर दक्षिण
 दिशाको जाताहुआ मनुष्य नहीं जीताहै ॥ ६१ ॥ स्वप्नमें रसोईधर
 वा लालफूलोंसे भरेहुए बन, वा सूतिका गृहमें अंगभंग पुरुष
 धसै तो उस मनुष्यके प्राणोंका वियोग होताहै अर्थात् मृत्युको
 ग्रास होताहै ॥ ६२ ॥ जिसके घरमें वृक्षपरसे लाख, केसर, शिला-
 जीतआदि धातु गिरं तो उस मनुष्यके घरमें आग लगतीहै और
 चोरका भय होताहै ॥ ६३ ॥ नाभिको छोड़कर अन्य अंगोंमें तृण,
 पुष्प, वृक्ष उत्पन्न होंय अथवा गधा, ऊँट, वंदर, सर्प आदि जीवों
 पर चढ़कर यात्रा करे अथवा तैलघीका पान करे ॥ ६४ ॥ मैले

अशुद्ध जल, अथवा स्याही, चर्खी, कीचड़, गोवर, तैल, धीका
 शरीरमें लेप करे अथवा कीचड़, दंडलेमें छवजाय ॥ ६५ ॥ नेत्र, दांत,
 हाथ, गिरपड़ें तीन जीभ होजायें ऐसे स्वम देखै तो शोक और
 हानि होतीहै ॥ ६६ ॥ स्वममें झूलना, गाना, खेलना, फोडना, हँसना,
 किसीको ललकारना, अथवा नदीके जलमें नीचेको चलाजाना
 ॥ ६७ ॥ अपनी चितामें सूर्य, चंद्रमा, ध्वजा, ताराओंका गिरना,
 रस्सीसे शिर काटना काँस्यवर्णका धारण करना ॥ ६८ ॥ माताके
 गर्भमें प्रवेश करना ऐसे स्वम दुष्ट फलदायक तथा रोगदायक
 होतेहैं कनेर और अशोक वृक्षका देखना, लताओंकी फाँसीमें
 चंधना ॥ ६९ ॥ कालेवस्त्र पहिरनेवाली स्त्रीका आलिंगन करना ऐसे
 स्पम मृत्युकारक होतेहैं. जो पुरुष पुष्पित वृक्षोंपर चढ़कर अपने
 शरीरको चिंतवन करताहुआ लाल फूलोंसे सजाताहै सोभी ग्राण-
 वियोग अर्थात् मृत्युको प्राप्त होताहै और लालवस्त्रधारी पुरुष शरी-
 रसे मिले तो यह स्वम देखनेवाले पुरुषको किसीकी हत्या लग-
 तीहै ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ॥ जो पुरुष अपने आपको धुवाँके समान
 अथवा धुँवासे व्याप्त देखे अथवा भस्म, धी, लोह, लाखको देखै
 तो लक्ष्मीसे वियुक्त होताहै अर्थात् लक्ष्मीकी हानि होतीहै. गीदड़,
 मुर्गा, विलाव, गोह, न्योला, सर्प, मक्खी, विच्छु, डांस इतने
 जीवोंको स्वममें देखै तो शुभ नहीं होताहै ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ रत्न,
 द्रव्य, शस्त्र, सत्तारी, शश्या, स्त्री, वस्त्रादिप्रियवस्तुकी चोरी होजाय
 अथवा यह वस्तु छिनजायें तो द्रव्यका नाश होताहै ॥ ७४ ॥
 स्वममें विवाह अथवा उत्सव देखे तो शोक होताहै तथा नख
 और केश गिरपड़ें तो भी शोक होताहै. हाथआदि अंगोंका कटना
 देखे तो अपने आत्माका नाश होताहै ॥ ७५ ॥ स्वप्नमें सूँठ डाढ़ीके
 पाल मुड़वाना, नेत्रोंका रोग होना, कूप, गड़हा, गुफा, अन्धकार,

विलम्बे गिरजाना देखै तो शुभ नहीं होताहै ॥ ७६ ॥ कवूतर
 वाज, गिढ़, रीछ, उम्ह, कौआ आदि पक्षी, गीढ़, खरहा, कुत्ता,
 इनको स्वप्नमें देखै तो शुभ नहीं होताहै ॥ ७७ ॥ कचौड़ी, पूआ,
 खिचड़ी, पकान्न, गुड आदिका भक्षण करै और गोवर अथवा
 गरम पानीको स्वप्नमें पीवै तो अशुभ होताहै ॥ ७८ ॥ विद्या अथवा
 मूत्रमें रुधिर टपकता देखै तो मृत्यु होतीहै और जो मनुष्य
 स्वप्नमें लाल काले अथवा केवल काले बब्बोंको पहिनताहै ॥ ७९ ॥
 और पितृकार्य आच्छादिको कररहा होय ऐसा स्वप्न देखै तो
 निस्संदेह मृत्युको प्राप्त होताहै स्वप्नमें भूत, प्रेत, पिशाचादि तथा
 श्वपच्चोंके साथ मिलाप होर्य अथवा वे भूतादि दक्षिण दिशाको
 खेंचकर लेजायँ तो वह पुरुष थोड़े दिनोंमें मर जाताहै और जो
 पुरुष स्वप्नमें विनासूर्यका दिन तथा विनाचन्द्रमा और तारओंकी
 रात्रिको देखै अथवा अकालवर्षाको देखै तो वह पुरुष भी विनाशको
 प्राप्त होताहै और सीसा, पीतल, जस्त, काँसी, तांवा, लोहा और
 रांगा देखै ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ अथवा सूखा वृक्ष, तथा
 औषधी, घट्ठको देखै तो अशुभ फल होताहै. देवमन्दिर,
 छत्र, पर्वत, शिखर, धजा, इन्द्रधनुष इनका गिरना देखै तो
 राजाके राज्यका विनाश होताहै. ऊंचा शब्द, कोलाहलसे पुकार-
 नेका शब्द, निंदाका शब्द, सुनै तो ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ राजभय होता
 है. सींगवाले, डाढ़वाले जीवों तथा वंदरोंको भागताहुआ देखै तो
 भी राजभय होताहै ॥ ८५ ॥

अथ स्वप्नस्य फलव्यवस्था ।

ये दृष्टाः स्वं प्रति स्वप्नाः स्वस्येव फलदाश्च ते ॥

परं प्रति च ते तस्य फलदाः किंचिदात्मनि ॥ ८६ ॥

अब स्वप्नकी फलव्यवस्था लिखतेहैं—जो स्वप्न अपने आत्माके
 लिये देखे गयेहैं वे अपने लियेही फलदायक होतेहैं और जो

स्वप्न अन्य पुरुषके प्रति देखे गयेहें वे स्वप्न अन्य पुरुषके लिये विशेषफल और अपने लिये अल्प फलदायक होतेहें ॥ ८६ ॥

अथ दुष्टस्वप्नदर्शने दोपशांतिः ।

दुष्टे त्वालोकिते स्वप्ने निवेद्य ब्राह्मणाय च ॥ आशीर्भिस्तो-
पितो विषेः पुनः स्वप्न्यान्नरेश्वरः ॥ ८७ ॥ न ब्रूयाच्च पुनः
स्वप्नं संस्नायात्पुण्यवारिभिः ॥ कायों मृत्युंजयो होमः शांतिं
स्वस्त्ययनादिकम् ॥ ८८ ॥ सेवाऽश्वत्थगवां प्रातर्दानं
स्वर्णादि शक्तिः ॥ अवणं भारतादीनां स्वप्नदोपनिवृत्तये
॥ ८९ ॥ वृहस्पतिप्रणीतं च स्वप्नाध्यायं पठेदपि ॥ ९० ॥

अब दुष्टस्वप्न दर्शनके दोपशांति लिखतेहें—राजा दुष्ट स्वप्न
देखे तो उस स्वप्नको ब्राह्मणोंसे निवेदन करके आशीर्वाद लेवे
और फिर प्रसन्नतामूर्वक सोजाय ॥ ८७ ॥ और फिर सोनेसे जागे
तो उस स्वप्नको किसीसे नहीं कहै पवित्र जलसे स्नान करै,
मृत्युंजय मन्त्रका जप तथा होम, शांति, स्वस्तिवाचनादि कर्म
करै ॥ ८८ ॥ प्रातःकाल पीपल, गौओंका पूजन यथाशक्ति सुवर्णादिका
दान, भारतादिका अवण करै तो स्वप्नदोपकी निवृत्ति होतीहै
॥ ८९ ॥ अथवा वृहस्पतिप्रणीत स्वप्नाध्यायका पाठ करै तो भी
स्वप्नदोपकी निवृत्ति होतीहै ॥ ९० ॥

अथोत्पाताः ।

उत्पातास्त्रिविधा ज्ञेया दिव्यभौमांतरिक्षजाः ॥ भेषु दिव्या-
स्तथा वृक्षध्वजादावंतरिक्षजाः ॥ ९१ ॥ भूमौ भौमः क्रमाद्वा-
ग्रमध्यमाल्पफलप्रदाः ॥ ९२ ॥

अब उत्पात लिखतेहें—दिव्य, भौम, आंतरिक्ष ये तीन प्रकारके
उत्पात जानने चाहिये. नक्षत्रोंमें दिव्य उत्पात होताहै. अर्थात्
नक्षत्र दृटै, वा ग्रहादिकोंमें युज्ज्वल, वा निर्धात, उल्कापात, गन्धर्व-
पुरदर्शन होय तो दिव्य उत्पात कहातेहें और वृक्ष, वा ध्वजा आदि

दूटकर गिरें तो आन्तरिक्ष उत्पात कहाते हैं ॥ ९१ ॥ और पृथ्वी
फटजाय अथवा पृथ्वीमेंसे अकस्मात् जल, वा अग्नि अथवा धुआँ
आदि निकलने लगे तो भौम उत्पात कहाते हैं। इन तीनों प्रकारके
उत्पातोंका फल क्रमसे उग्र, मध्यम तथा अल्प होता है ॥ ९२ ॥

अथोत्पातानां संग्रहः ।

भूमिकंपो दिशां दाहो निर्धातो धूलिवर्पणम् ॥ उल्कापात-
त्तरुच्छेदो नभस्त्रो वृष्टिरश्मनाम् ॥ ९३ ॥ अंघकारो दिवा
विद्युत्पातोप्यर्द्धविपर्ययः ॥ विकृतिप्रसवो जंतो रवीन्द्रोश्च
विपर्ययः ॥ ९४ ॥ ग्रहाणां वा युतिर्युद्धं स्वकाले यत्र
जायते ॥ वर्षकालं विना विवे रवीन्द्रोः परिमंडलम् ॥
॥ ९५ ॥ अकस्मात्तु स्थलाद्वित्वं खग्रासग्रहणद्रव्यम् ॥ बाल-
स्थीद्विजवर्णाणां वधः पीडाजनस्य च ॥ ९६ ॥ प्रासादस्य
च देवस्य ध्वंसः पातो ध्वजस्य च ॥ ध्वजवक्रातिचारस्थाः
सर्वे वा स्वर्क्षगाः खगाः ॥ ९७ ॥ सर्वेष्येकर्क्षगाः खेटा एकर्क्षे
शनिवाकपती ॥ शुक्रपक्षे भूगोरस्तोदयौ वा केतुदर्शनम् ॥
॥ ९८ ॥ मुसलं खगपंक्तिस्थं व्यादिचंद्रार्कदर्शनम् ॥
चुह्यामश्युद्धवोऽकस्माज्जले धूमादिकं भवेत् ॥ ९९ ॥ उलू-
खलघरट्टादिचलनस्फोटनेषि वा ॥ प्रतिमायाः प्रकंपो वा
हसनं रोदनं तथा ॥ १०० ॥ भुवो विवरमित्याद्या उत्पातास्त्व-
परेषि च ॥ ग्रथांतराच्च ते ज्ञेयाः फलमेषां प्रवचन्म्यथा ॥ १०१ ॥

अब उत्पातोंका संग्रह लिखते हैं—भूमिकंप, दिनाह (निर्धात)
पर्वत आदिका गिरना, धूलिकी वर्षा, उल्कापात, वृक्षका उखड़
जाना, आकाशसे पत्थरोंका वरसना ॥ ९३ ॥ दिनमें अनघकार
होना, विजलीका गिरना, फ्रतुका वदल होना अर्थात् शरदीमें
गरमी और गरमीमें शरदी होय, मृद्गर्भ अथवा विकारयुक्त जन्तुं

ओंका जन्म होय और सूर्यचन्द्रमाका विपर्यय अर्थात् स्वरूपमें
कुछ बदल होय ॥ १४ ॥ अपने समयपर ग्रहोंका युद्ध होय, वा
युति होय और वर्षाकालके विना सूर्यचन्द्रमाके विवपर पारस
होय ॥ १५ ॥ अकस्मात् सूखी पृथ्वी गीली होजाय, खग्रास दो
ग्रहण होंय, वालक, खी, त्राह्मणका वध होय, मनुष्योंको पीडा
होय ॥ १६ ॥ देवमंदिर, देवता, ध्वजा टूटकर गिरपड़े, ध्वजा वा
वक या अतिचारमें सब ग्रह स्थित होंय अथवा अपनी अपनी राशि-
योंपर स्थित होंय ॥ १७ ॥ अथवा सब ग्रह एक राशिपर स्थितहोंय
अथवा शनैश्चर बृहस्पति एकराशिपर स्थित होंय अथवा शुक्रपक्ष-
में शुक्रका अस्त उदय होय अथवा केतुका दर्शन होय ॥ १८ ॥
ग्रहोंकी पंक्तिमें सूसलकी स्थिति होय, दो वा तीन अथवा और
अधिक चंद्रमां वा सूर्य दीखें, चूलहेमें अकस्मात् अग्नि पैदा होजाय,
जलमें अचानक धुआँ उठने लगे ॥ १९ ॥ ओखली, ढेंकुरी आदि
आपसेआप चलें अथवा फूट जाँय, प्रतिमा काँपने लगे, वा हंसने
लगे अथवा रोने लगे ॥ २० ॥ पृथ्वीमें विल होजाय अर्थात् फट-
जाय ये सब उत्पात तथा अन्य उत्पात अंथान्तरोंसे जानलेने चाहि-
ये अब इनका फल कहते हैं ॥ ३०१ ॥

अथोत्पातफलज्ञानाय चतुर्विधमंडलम् ।

कृत्तिकाभरणीपुष्यमधापूभाविशाखकाः ॥ पूर्वाफालगुनि-
कैतानि भानि सताग्निमंडलम् ॥ १०२ ॥ मूलाऽऽक्षेपाश-
ताद्रांत्योत्तराभाद्रपदास्तथा ॥ पूर्वापादाभिवैतानिसतवारु-
णमंडलम् ॥ १०३ ॥ पुनर्भांकाविनीहस्तवितयं मृगशीर्ष-
कम् ॥ वायुमंडलसंज्ञानि भानि सप्त स्मृतानि च ॥ १०४ ॥
अभिजिज्ञोत्तरापादाऽनुराधाथवणद्रयम् ॥ ज्येष्ठा च
रोहिणी भानि सप्त वेन्द्रस्य मंडलम् ॥ १०५ ॥ भूकं-

पादिमहोत्पातो जायते यत्र मंडले ॥ तत्तत्स्वभावजं द्रव्यं
जंतुन्देशं च पीडयेत् ॥ १०६ ॥ वाय्वशिमंडलोद्भूता अनिष्टा:
परिकीर्तिताः ॥ १०७ ॥

अब उत्पातफलज्ञानके अर्थ चतुर्विध मंडल लिखते हैं—कृतिका,
भरणी, पुष्य, मधा, पूर्वाभाद्रपदा, विशाखा, पूर्वाफालगुनी ये सात
नक्षत्र अग्निमंडलके हैं. मूल, आश्लेषा, शतभिषा, आद्री, रेती,
उत्तराभाद्रपदा, पूर्वापादा ये सात नक्षत्र जलमंडलके हैं ॥ १०२ ॥
॥ १०३ ॥ पुनर्वसू, उत्तराफालगुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, मृगशीर्ष ये सात
नक्षत्र वायुमंडलके हैं ॥ १०४ ॥ अभिजित्, उत्तरापादा, अनुराधा,
अवण, धनिष्ठा, ज्येष्ठा, रोहिणी ये सात नक्षत्र चंद्रमंडलके हैं ॥ १०५ ॥
भूकम्पादि महोत्पात जिस मंडलके नक्षत्रोंमें होय तो उसीउसी-
स्वभावके द्रव्य, जन्तु, देशको पीडा देते हैं ॥ १०६ ॥ वायु तथा
अग्नि मंडलमें उठे हुए उत्पात अनिष्टकारक कहे हैं ॥ १०७ ॥

अथोत्पातानां फलानि ।

प्रजाभीतिर्भुवः कंपे निर्वाते भूपतेर्मृतिः ॥ अर्वपॄणं च
दिग्दाहे दुर्भिक्षं धूलिवर्षणे ॥ १०८ ॥ महर्घं चाश्मनां वृष्टा-
वुल्कापाते जनक्षयः ॥ राज्ञां नाशस्तरुच्छेदे विद्युत्पातैः-
वुशोपणम् ॥ १०९ ॥ क्रतौ विपर्यये रोगो दिवा ध्वाते
प्रजाक्षयः ॥ राजविघ्नकरो जंतोर्विकृतिः प्रसवो मतः ॥
॥ ११० ॥ खींद्रोश विपर्यासे घोरो भवति विग्रहः ॥
युद्धे युद्धे खगेंद्राणां संयुतौ च महर्घता ॥ १११ ॥
खींद्रोः परिधौ दूरे फलं चान्यत्र मंडले ॥ मध्यमे स्वीय-
देशी स्यादन्यदेशो न दुप्यति ॥ ११२ ॥ द्वित्रिमंडलके
तद्वत्तत्स्वाननिवासिनाम ॥ छिन्ने खंडफलं चातिदूरेना-
स्ति फलं त्विदम् ॥ ११३ ॥ श्वेते भयं च पीते रुग्वृष्टिर्नीले-

इरुणे रणः ॥ कृष्णे भूपक्षयो धूम्रे नीहारः परिधौ भवेत् ॥
 ॥ ११४ ॥ प्रावृङ्गलं विनाऽन्यत्र परिधिश्च तदा त्विदम् ॥
 तस्मिन्काले तु वृष्टिः स्यात्परिधौ रूक्षितां सिते ॥ ११५ ॥
 अकाले फलपुष्पाणामुदये धान्यनाशनम् ॥ स्थलाद्रित्वे
 स्थले वृष्टिर्महती परिकीर्तिता ॥ ११६ ॥ स्त्रीवधे चातिदु-
 र्भिक्षं विप्रवालवधेषि तत् ॥ देवध्वंसे च तदेशराजध्वंसः
 प्रजायते ॥ ११७ ॥ सर्वश्रासे ग्रहे सर्ववस्तूनां च महर्घता ॥
 दुर्भिक्षं कुरुते खेटा भौमाद्या वक्तगामिनः ॥ ११८ ॥ अति-
 चारगताः सर्वे स्वक्षेपे स्वोच्चगता अपि ॥ ज्ञेया भद्रफला वै-
 कराशिस्था देशनाशकाः ॥ ११९ ॥ स्यातामस्तोदयो शुक्ले
 पक्षे चेद्राग्वस्त्य च ॥ राजयुद्धं तदा घोरं वृष्टिः स्यात्तु-
 निरंतरम् ॥ १२० ॥ जीवार्कपुत्रयोर्योगे दुर्भिक्षं विग्रह-
 स्तथा ॥ संत्रामश्चातिदुर्भिक्षं जायते मुसलोदये ॥ १२१ ॥

अब उत्पातोंका फल लिखते हैं—भूमिकंप होय तो प्रजाको भय,
 निर्धात होय तो राजाकी मृत्यु, दिग्दाह होय तो वर्षाका अभाव,
 धूलीकी वर्षा होय तो दुर्भिक्ष होता है ॥ १०८ ॥ पत्थरोंकी वर्षा
 होय तो महर्घ, उल्कापात होय तो मनुष्योंका नाश, वृक्ष उखड़पड़े
 तो राजाओंका नाश, विजली गिरै तो (जलशोष) जल सूखजाय
 ॥ १०९ ॥ ऋतुका विपर्यय होय तो रोग, दिनमें अंधकार होय तो
 प्रजाका नाश और विकृत जीवोंका जन्म होय तो राजाके लिये
 विघ्नकारी होता है ॥ ११० ॥ और सूर्य चंद्रमाका विपर्यय होनेसे
 घोर विग्रह होता है, ग्रहोंका युद्ध होय तो जाराओंमें युद्ध, ग्रहोंमें
 युति होय तो महर्घता ॥ १११ ॥ सूर्य तथा चंद्रमाके मंडलपर पारस
 दूर वैठे तो उसका फल अन्य देशमें होता है और जो मध्यम दूरी-
 पर पारस वैठे तो अपने देशमें फल होता है परन्तु अन्य देशमें
 दूषित, नहीं होता है ॥ ११२ ॥ और चंद्रमा वा सूर्यपर दो वा तीन-

पारस वैठे तो उनउन देशवासियोंके लिये फल होताहै और जो कटीहुई पारस वैठे तो खंडफल होताहै और जो सूर्य चंद्रमासे बहुत दूरीपर पारस वैठे तो यह फल नहीं होताहै ॥ ११३ ॥ श्वेत वर्णकी पारस वैठे तो भय, पीलेवर्णकी पारस वैठे तो रोग और नीलवर्णकी पारस वैठे तो वर्षा और लालवर्णकी वैठे तो युद्ध, कालेवर्णकी वैठे तो राजाका नाश, ध्रुम्रवर्णकी पारस वैठे तो कुहर होताहै ॥ ११४ ॥ वर्षाकालके विना अन्य कहतुओंमें जो परिधि होय तो यह उक्तफल होताहै और यदि वर्षाकालमें चंद्रमा वा सूर्यकी पारस रुखी वा श्वेतवर्णकी होय तो अवश्य वर्षा होतीहै ॥ ११५ ॥ और जो अकालमें फल वा पुष्पोंका उदय होय तो धान्यका नाश होताहै और जो सूखी भूमी अचानक जलसे गीली होजाय तो महती दृष्टि होतीहै ॥ ११६ ॥ खीका वध होय तो अतिदुर्भिक्ष तथा ब्राह्मण और वालकोंका वध होनेपरभी अतिदुर्भिक्ष होताहै. देव वा देवस्थानका नाश होय तो राजाका नाश होताहै ॥ ११७ ॥ सर्वग्रासग्रहण पड़े तो सब वस्तु महँगी होजातीहैं और मंगलादिक ग्रह वक्री होंय तो दुर्भिक्ष होताहै ॥ ११८ ॥ यदि सब ग्रह अतिचारी होंय अथवा अपनीअपनी राशिके होंय वा उच्चके होंय तो शुभफलदायक जानने और यदि सब ग्रह एकराशिपर स्थित होंय तो देशका नाश होताहै ॥ ११९ ॥ यदि शुक्रपक्षमें शुक्रका उदय और अस्त होय तो राजाओंमें घोर युद्ध और लगातार वर्षा होतीहै ॥ १२० ॥ वृहस्पति और शनैश्चर एकराशिपर स्थित होंय तो दुर्भिक्ष तथा विग्रह होताहै और यदि मुसलका उदय होय तो संग्राम तथा अतिदुर्भिक्ष होताहै ॥ १२१ ॥

अथ केतवः ।

मुसल तिवृत्ता २०८८ न् ये ॥ त १
खाकारा वियत्सोतोनिभास्त् २ ॥ इत्या ॥

१०० सर्वे राष्ट्रभंगकरा मताः ॥ धूम्रकेतुदये मृत्युर्जायते
 पृथिवीपतेः ॥ १२३ ॥ शिखास्तोनिभाः केचिच्छोभनाः
 परिकीर्तिताः ॥ सितः स्तिंग्धोऽल्पको दीर्घः शीघ्रोतीव शु-
 भग्रदः ॥ १२४ ॥ वहिमीरुक्तामे कृष्णवर्णो मृतिप्रदः ॥
 शत्रुघ्वजसमो नेष्टो धूम्रवर्णोपि तद्विधः ॥ १२५ ॥ नेष्टो
 द्वित्रिचतुःशूली हुत्पातः कथितो द्वृधैः ॥ रक्तपंक्तिनिभे
 स्वर्णवर्णे प्रागपरोदये ॥ १२६ ॥ नृपनाशस्तथैशान्यां तैलाभे
 च महर्घता ॥ नाशकृत्कथितरूपयस्यसो वा तारकाप्रभः ॥
 ॥ १२७ ॥ कवंधसद्वशो योम्यां दुःखदो भूमिचारिणाम् ॥
 यावद्विवसमुत्पातः समुदेति नभस्तले ॥ १२८ ॥ तावन्मासं
 फलं धत्ते मासैर्वर्पणि संवदेत् ॥ १२९ ॥

अब केतु लिखते हैं—मूसलाकार, वा धूम्ररंग वाले, वा दीर्घ-
 पुच्छवाले, वा श्वेतशिखावाले, अथवा आसमानी रंगवाले, वा
 नदीके प्रवाहसरीखे इत्यादि सौं प्रकारके केतु हैं सब केतु राज्यका
 भङ्ग करनेवाले मानेगये हैं. धूम्रकेतुका उदय होय तो राजाकी मृत्यु
 होती है ॥ १२२ ॥ १२३ ॥ कुछ आचार्य कहते हैं कि, शिखा और
 नदीके प्रवाहसरीखे केतु शुभ होते हैं. सफेद, चिकना, छोटा, लंबा,
 शीघ्र चलनेवाला इतने केतु अति शुभफलदायक होते हैं ॥ १२४ ॥
 जलवर्ण वा लालवर्णके केतुका उदय होय तो अग्निका भय होता
 है. कालेरंगके केतुका उदय होय तो मृत्युप्रद होता है. शत्रुघ्वजके
 समान केतुका उदय होय अथवा धूम्ररंगके केतुका उदय होय तो
 नेष्टफल होता है ॥ १२५ ॥ दो वा तीन वा चार शूलवाले केतुका
 उदय होय तो पंडितोंने उत्पात कहा है. लालपंक्तिके समान अथवा
 सुवर्णके रंगसमान केतुका उदय पूर्वदिशा वा पश्चिमदिशामें होय
 तो ॥ १२६ ॥ राजाका नाश होता है और ईशानदिशामें तेलके रंग-

वाले केतुका उदय होय तो महर्घ होता है. तीन नींकों वा तीन कोणोंवाले अथवा नक्षत्रके समान केतुका उदय होय तो प्रजाका नाश होता है ॥ १२७ ॥ और दक्षिणदिशामें कवचधके समान केतुका उदय होय तो भूमिचारियोंको दुःखदायक होता है. आकाशमें जितने दिन उत्पात उदय रहता है ॥ १२८ ॥ उतनेही महीने फल देता है. या जितने महीनेतक उत्पात उदय रहता है उतनेही वर्ष फल देता है ऐसा बतावै ॥ १२९ ॥

अथोत्पाताः ।

आरण्याः पश्वो ग्रामं चेद्विशंति निजेच्छ्या ॥ कुरुते जनशून्यं तमुलूकोपि गृहं विशेत् ॥ १३० ॥ वल्मीकिर्मिद्र-
जालं वा यस्य सञ्चनि जायते ॥ तदा गेहपतेर्नाशः कपोते वा गृहं गते ॥ १३१ ॥ द्वादिचंद्रार्कविंवे स्याद्रोगो भीती रणे मृतिः ॥ ग्रहाभावे फलं नेष्ट द्वादिजीवे तु शोभनम् ॥ १३२ ॥ धरणीविवरे देशे नृपनाशोरिपोर्भयम् ॥ त्रयो-
दशदिनः पक्षो यस्मिन्वर्षे भवेत्तदा ॥ प्रजानाशोथ दुर्भिक्षं तथा भूमिभुजां क्षयः ॥ १३३ ॥

अब उत्पात लिखते हैं—यदि वनेलेपशु अपनी इच्छासे ग्राममें ग्रवेश करें तो वह ग्राम मनुष्योंसे शून्य होजाता है अथवा घरमें उलूक धर्से तो वह घरभी मनुष्योंसे शून्य होजाता है ॥ १३० ॥ जिस मनुष्यके घरमें धौर्घट्वा इन्द्रजाल उत्पन्न होय अथवा जंगली कवृत्तर घरमें वसें तो उस घरके स्वामीका नाश होता है ॥ १३१ ॥ चन्द्रमा और सूर्यके विव दो अथवा दोसे अधिक दीखें तो रोग, भय तथा युद्धमें मृत्यु होती है और जो नवमह नहीं दीखें तो नेष्ट फल होता है और जो दो वा दोसे अधिक तीन वा चार वृहस्पति दीखें तो शुभफल होता है ॥ १३२ ॥ एव्यामें विवर होजाय तो देश

तथा राजाका नाश और शब्दुसे भय होता है और जिस वर्षमें तेरहदिनका पक्ष होता है उसवर्षमें प्रजाका नाश, दुर्भिक्ष तथा राजाओंका क्षय होता है ॥ १३३ ॥

अथ निर्धातस्वरूपं तत्फलञ्च ।

प्रचंडवातसंजातनिर्धातपतनं भुवि ॥ पक्षिदीते रुते नेष्टुं
नृपहा भास्करोदये ॥ १३४ ॥ निर्धातश्वंडशब्दोथ गच्छं-
स्तान्नाशयेद्विशम् ॥ द्रिजान्द्वित्रियवैश्यांश्च हन्याद्यामेः
क्रमाद्वा ॥ १३५ ॥ अस्ते चैवांत्यजानर्थान्प्रहरेण्य यथा-
क्रमात् ॥ यामिन्यां धान्यपैशाचान्हन्याच्चैव तुरंग-
मान् ॥ १३६ ॥

अब निर्धातस्वरूप और उसका फल लिखतेहैं—प्रचण्डपवनसे उत्पन्न होनेवाला निर्धात पृथ्वीपर गिरे, पक्षी दिनमें रोनेका शब्द करें तो अशुभ होता है, सूर्यके उदयपर निर्धात गिरे तो राजाकी हानिकारक होता है ॥ १३७ ॥ निर्धात अथवा प्रचण्डशब्द जिस दिशाको जाय उसी दिशाका नाश होता है, दिनके प्रथम प्रहरमें निर्धात गिरे या प्रचण्ड शब्द होय तो ब्राह्मणोंका, दूसरे प्रहरमें क्षत्रियोंमें, तीसरे प्रहरमें वैश्योंका, चौथे प्रहरमें शूद्रोंका नाश करता है, अस्तके समय गिरे तो अन्त्यजोंका, रात्रिके दूसरे प्रहरमें निर्धात गिरे तो द्रव्योंका, तीसरे प्रहरमें गिरे तो धान्य तथा पिशा-चौंका, चौथे प्रहरमें गिरे तो घोडोंका नाश होता है ॥ १३५ ॥ १३६ ॥

अथोल्कालक्षणं तत्फलञ्च ।

धरणी प्राणिसंचारा घोरसत्त्वा विनिर्मिता ॥ तट्तट्टद्वा
विद्युद्वलंती दीर्घवक्रपात् ॥ १३७ ॥ अल्पपुच्छाग्निभा
विष्ण्या द्रिहस्तापसमीपगा ॥ तिर्यग्गृध्वंगता श्वता रक्ता
तन्वी तु तारका ॥ उल्कातिविविधाकारा कृष्णपुच्छाति-
दारुणा ॥ १३८ ॥

अब उल्कालक्षण और उसका फल लिखते हैं—धरणी, प्राणि-सञ्चारा, घोरसत्त्वा, तटनटद्रवा, विद्युज्ज्वलंती, दीर्घवक्रपात्, अल्पपुच्छा, अग्निभा, धिष्पया, द्विहस्ता, अपसमीपगा, तिर्यग्गता, ऊर्ध्वगता, श्वेता, रक्ता, तन्वी, ताड़का इत्यादि नानाप्रकारकी उल्का-होती हैं। तिसमें कालीपूँछकी आतिदारुण कही है और पूर्वोक्त उल्का-ओंका स्वरूप उनके नामोंके अर्थसे जानलेना चाहिये ॥१३७॥१३८॥

अथ दिग्दाहफलम् ।

दिग्दाहः पीतवर्णश्वेद्धमिपालं निहंति सः ॥ अग्निवर्णो निजं देशं वर्णानुत्तरतः क्रमात् ॥ १३९ ॥ धूभ्रोऽव्यपसस्त्यतां कुर्यात्कृष्णो देशं तु निर्मलम् ॥ प्राच्यां भूमिभुजं हन्यादैशान्यादिविदिक्कमात् ॥ १४० ॥ वैश्याञ्छलिपजनांश्चौरान्तुरंगान्कमतस्त्वथ ॥ निशि स्वर्णनिभः सव्यवायो खे विमले शुभः ॥ १४१ ॥

अब दिग्दाहफल लिखते हैं—यदि पीले रंगका दिग्दाह होय तो राजाको मारता है। अग्निवर्णका दिग्दाह होय तो अपने देशका नाश करता है। उत्तरदिशामें दिग्दाह होय तो ब्राह्मणोंका, पूर्वमें होय तो क्षत्रियोंका, दक्षिणमें होय तो वैश्योंका, पश्चिममें होय तो शूद्रोंका नाश करता है ॥ १३९ ॥ धूम्रवर्णका दिग्दाह होय तो खेती थोड़ी होती है। कालेवर्णका होय तो देशकी निर्मलता होती है, पूर्वमें होय तो राजाओंका, ईशानमें होय तो वैश्योंका, आश्रेयमें होय तो शिलिपजनोंका, नैऋत्यमें होय तो चोरोंका, वायव्यमें होय तो घोड़ोंका नाश करता है। रात्रिमें दक्षिण पवन चले तथा आकाश निर्मल होनेपर सुवर्णके रंगसा दिग्दाह होय तो शुभ होता है ॥ १४० ॥ १४१ ॥

अथ भूकंपफलम् ।

भूकंपो यामतो वर्णकमाद्यादिवानिशम् ॥ वायुमंडलजो
भूपसस्यांशुमगधं तथा ॥ १४२ ॥ आमान्नमुदकं वह्निमंडलो-
त्थो निहंति च ॥ इंद्रमंडलजो भूपांस्तथा गुर्जरदेशकान् ॥
॥ १४३ ॥ भूपालांश्चीनदेशांश्च प्रचेतोमंडलोद्धवः ॥ १४४ ॥

अब भूकंपफल लिखते हैं—दिनके अथवा रात्रिके समय प्रथम
प्रहरमें भूकंप होय तो ब्राह्मणोंका, दूसरे प्रहरमें होय तो
क्षत्रियोंका, तीसरे प्रहरमें होय तो वैद्योंका और चौथे प्रह-
रमें होय तो शूद्रोंका नाश होता है. वायुमण्डलके नक्षत्रोंमें
भूकंप होय तो राजा, खेती, जल तथा मगधदेश का नाश होता है
॥ १४२ ॥ और अग्निमंडलसे उत्पन्नहुआ भूकंप ग्राम, अन्न, जलका
नाश करता है और इंद्रमंडलका कियाहुआ भूकंप होय तो राजाओं
और गुर्जर देशोंका नाश होता है और वरुणमंडलका किया हुआ
भूकंप होयतो चीन देशके राजाओंका नाश होता है ॥ १४३ ॥ १४४ ॥

अथ रजोदृष्टिदर्शनम् ।

रजश्चेच्छादयेद्वामप्रमुखादृपतीस्तदा ॥ भयं तदिशि धूप्रामे
तस्मिन्कृष्णे रुजां भयम् ॥ १४५ ॥ रजः सूर्योदये व्योम
च्छादयेद्वित्यहं यदा ॥ तदा रोगाः प्रभूताः स्युर्निशामेकां
तु भूपतेः ॥ १४६ ॥ नित्यं रात्रिद्वयं नेःस्वं क्षुद्रयं विचतु-
र्दिनम् ॥ पंचाहं चेद्वयं घोरमृते कालं च शैशिरम् ॥ १४७ ॥

अब रजो दृष्टि लिखते हैं—यदि धूलि ग्राम, शहर आदिको अथवा
राजाओंको ढक देय तो उस दिशामें भय होता है जिस दिशामें वह
धूलि जाय; यदि धूम्ररंगकी वा कालेरंगकी धूलि जिस दिशामें वर्षे
उसी दिशामें रोगोंका भय होता है ॥ १४५ ॥ यदि सूर्योदयेके समय
धूलि आकाशको ढक देय और दो वा तीन दिन वरावर छाईरहे तो
वहुतसे रोग पैदा होते हैं और जो एक रात्रिभर छाईरहे तो राजा का

नाश होता है ॥ १४६ ॥ और दोरात्रि वरावर धूलि छार्डरहै तो निर्धन्ता तथा क्षुधाका भय होता है, शिद्विर झटुके विना अन्य कस्तुमें तीन वा चार वा पांच दिन धूलि आकाशमें छार्डरहै तो घोर भय होता है ॥ १४७ ॥

अथ गांधर्वनगरं तत्फलञ्च ।

गांधर्वनगरं हंति वर्णञ्ज्वेतादिवर्णकम् ॥ क्रमात्पूर्वदिशो
भूपामात्यसैन्यपुरोहितान् ॥ १४८ ॥ सध्वजं निर्धनं
कुर्यादायुधान्निनिभं भयम् ॥ १४९ ॥

अब गांधर्वनगरका फल लिखतेहैं—अकाशमें गांधर्वनगर, द्वेतरेंगका होय तो ब्राह्मणोंका, लालरंगका होय तो क्षत्रियोंका, पर्लेरंगका होय तो वैश्योंका और इयामरंगका होय तो शूद्रोंका नाश करता है और यदि गांधर्वनगर पूर्वदिशामें होय तो राजाका, दक्षिणमें होय तो मंत्रीका, पश्चिममें निकलै तो सेनाका और उत्तरमें निकलै तो पुरोहितका नाश करता है ॥ १४८ ॥ ध्वजासहित निकलै तो निर्धन और आयुध तथा अग्निके समान निकलै तो भय करता है ॥ १४९ ॥

अथैपामुत्पातानां फलपाकसमयः ।

पङ्गभिर्मासैर्भुवः कंपे जायते फलमुक्तवत् ॥ दिग्दाहे विकृतौ
भूतौ केतुनिर्धातियोस्त्रिभिः ॥ रजोग्निवर्षणे सद्य उत्पातेऽ-
न्यत्र हायनात् ॥ १५० ॥

अब इन उत्पातोंका फलपाकसमय लिखतेहैं—भूकंप होय तो उक्तफल छह महीनेमें और दिग्दाह तथा विकृतप्राणीका जन्म, केतु, निर्धात ये उत्पात होय तो इनका फल तीन महीनेमें और रज तथा अग्निकी वर्षा होय तो तुरन्त और अन्य प्रकारका उत्पात होय तो एकवर्षमें फल होता है ॥ १५० ॥

अथ वृष्टिविकृतिस्तत्फलञ्च ।

अकाले रुद्रनुपार्तिंश्च साताहं ह्यभ्रकेऽपि च ॥ वर्षणे वाऽसृजो
नैःस्वं भवेन्मांसादिभिर्मृतिः ॥ १५१ ॥ भयमंगारकैर्धान्यैः
फलाद्यैः स्यान्न संशयः ॥ देशनाशस्तु कोष्णांबुरक्तवृष्टौ
प्रजायते ॥ १५२ ॥ दीते सूर्ये प्रतीपा स्याच्छाया चेदीतितो
भयम् ॥ इंद्रचापेऽतिवृष्टिः स्याद्बोधि चंडांशुदी-
पिते ॥ १५३ ॥

अब वृष्टिविकृतिफल लिखते हैं—अकालवर्षा होय तो रोग, राज-
पीडा रहती है और जो सात दिनतक आकाशमें वाढ़ल छाया रहे
तो भी यही फल होता है और जो सूधिरकी वर्षा होय तो निर्धनता
होती है और यदि मांसादिसहित वृष्टि होय तो मृत्यु होती है ॥ १५१ ॥
अंगारोंके साथ वर्षा होय अथवा धान्य तथा फलादिकोंके सहित
वर्षा होय तो भय होता है और गर्म जल अथवा सूधिरकी वर्षा
होय तो देशका नाश होता है ॥ १५२ ॥ दिनमें छाया प्रतिकूल हो
अर्थात् उलटी छाया होय तो ईति ० से भय होती है और इंद्रधनुष
दीखे तो अतिवर्षा होती है तथा आकाशमें सूर्यकी अत्यन्त तेजी
वा दीप्ति किरणें होंय तो भी अत्यन्त वर्षा होती है ॥ १५३ ॥

अथ पक्षिमृगादिविकृतिस्तत्फलं च ।

ग्राम्यारण्यास्तथा नीरस्थलजा वृनिशाचराः ॥ प्राणिनो
व्यत्ययं याताः स्वचक्रं पीडयन्त्यमी ॥ १५४ ॥ संध्याकाले
हि दीतायां दिशो मार्गं पतञ्जिणः ॥ क्रोशंति जंबुकादीनां
संवा द्वारे च तदिशि ॥ १५५ ॥ विहगा वियति व्यस्त-
चक्रा यांत इतस्ततः ॥ कुकुटोऽस्ते च गार्नेकं हेमंते रोति

० अतिवृष्टिसावृष्टिमूर्त्राः शब्दाः शुराः ॥ स्वनकं स्वनकं च पदेते ईतरः सूर्याः ॥

कोकिलः ॥ १५६ ॥ खराः शानोऽथवा स्वैरं प्रकीडंतिपर-
स्परम् ॥ इत्यादिविकृतौ चक्रे पीडा भवति भूयसी ॥ १५७ ॥

अब पक्षिमृगादिविकृति और उसका फल लिखते हैं—प्राम, वन, जल, स्थल, दिन, रात्रिके विचरनेवाले जीव विपरीतभावको प्राप्त होंय अर्थात् ग्रामके जीव वनमें और वनके ग्राममें एवं जलके स्थलमें और स्थलके जीव जलमें और दिनके विचरनेवाले रात्रिमें और रात्रिके विचरनेवाले दिनमें विचरें तो अपने राज्यको पीडा होती है ॥ १५४ ॥ संध्यासमय (दीसदिशा) पश्चिमदिशाके मार्गमें पक्षी घोलें अथवा पश्चिमदिशाके द्वारपर गीदडोंके समूह रोवें ॥ १५५ ॥ और आकाशमें पक्षी विपरीत चक्र घोँधकर चारोंओरको इधरउधर उड़ें और मुर्गा अस्तके समय, गौ रात्रिमें, कोकिल हेम-त फटुमें घोलें ॥ १५६ ॥ गधे और कुत्ते परस्पर कीडा करें इत्यादि विकार उत्पन्न होंय तो अपने राज्यमें बहुत पीडा होती है ॥ १५७ ॥

अथान्येष्यगुभदा उत्पाताः ।

अस्थिक्षिपति गेहे शा संमुखोस्ते च रोदिति ॥ यस्य तद्देह-इनाशः स्यात्पण्मासाभ्यन्तरे तदा ॥ १५८ ॥ रोति सूर्यो-दये शा चेद्वामांते सूर्यदिष्टमुखः ॥ भूपनाशस्तदा चास्ते कृपीशा नाशमाप्नुयुः ॥ १५९ ॥ स्तंभद्वारनिपातश्वेष्टुमोत्पत्तिर्विनाग्निना ॥ युध्यन्ते वालकाः स्वैरं काष्ठलोष्टैः परस्परम् ॥ १६० ॥ तदा भूपमयं घोरं विज्ञेयं दीर्घदर्शिभिः ॥ अंगना वालका माता त्रुत्ते यत्स्वभावतः ॥ सत्यं तज्जायते यस्मादृदा चेयं सरस्वती ॥ १६१ ॥

अब अन्यभी अशुभदायक उत्पात लिखते हैं—यदि कुत्ता एड़ी लाकर घरमें डालदे अथवा अस्तके समय जिसके घरमें सूर्यके सामने मुर्ग करके रोवे तो छह मासके भीतर उस घरका नाश

होजाताहै ॥ १५८ ॥ यदि कुचा सूर्योदयके समय सूर्यकी ओर मुख-
करके ग्रामके अंतमें रोवै तो राजाका नाश होताहै और जो अस्तके
समय सूर्यकी ओर मुख करके रोवै तो खेती करनेवालोंका नाश
होताहै ॥ १५९ ॥ मकान, खंभा अथवा दरवाजा गिरपडै, विना-
अप्तिके धुँआँ उठै और काष वा मट्टीके ढेलोंसे वालक परस्पर
युद्ध करें ॥ १६० ॥ तो दीर्घदर्शियोंने राजाकेलिये घोर भय होताहै
ऐसा कहाहै. बी, वालक, माता अपने स्वभावसे जो वात कहें सो
सत्य होजातीहै क्योंकि, यह गुस (सरस्वती) वातहै ॥ १६१ ॥

अथोत्पातदोपाऽपवादः ।

स्वस्वशांत्या होमजपैर्विनश्यन्ति च सर्वशः ॥

सत्ताहाभ्यन्तरे वृष्टया शुभया वा न दुःखदाः ॥ १६२ ॥

अब उत्पातदोपापवाद लिखतेहैं—अपनी अपनी शांति करनेसे
और होम, जप करनेसे सब उत्पातोंका अशुभ फल नाशको प्राप्त
होजाताहै और उत्पात होनेसे सात दिनके भीतर जलकी वर्षा
होय तो दुःखदायक नहीं होताहै अर्थात् उत्पातका अशुभफल
नए होजाताहै ॥ १६२ ॥

अथोत्पातानामुपसंहाराः ।

भ्रांतिश्च धूपकेतुश्च दिग्दाहो भूमिकंपकः ॥ भुवो गर्तश्च
निर्वात उल्कापातादयोऽपरे ॥ १६३ ॥ यस्मिन्देशे प्रजा-
यन्ते महोत्पाता महाभयाः ॥ प्रजापीडा भवेत्तत्र विनाशः
पृथिवीपतेः ॥ १६४ ॥ तदा शांतिर्विवातव्या देशे ग्रामे
पुरेऽखिलेः ॥ शांत्या दोषा विनश्यन्ति त्वन्यथा रिष्मद्गु-
तम् ॥ १६५ ॥

अब उत्पातोंका उपसंहार लिखतेहैं—भ्रांति, धूपकेतु, दिग्दाह,
भूकम्प, भूमिगर्च, निर्वात, उल्कापातादि अन्य महोत्पात ॥ १६६ ॥

जिस देशमें होते हैं उस देशमें महाभय, प्रजापीडा, राजाका विनाश होता है ॥ १६४ ॥ इसी कारण देशमें, आममें, पुरमें सब मनुष्योंको शांति करनी चाहिये. क्योंकि, शांति करनेसे सब दोष विनाशको प्राप्त हो जाते हैं अन्यथा अद्भुत अरिष्ट होता है ॥ १६५ ॥

अथ काकस्पशफलम् ।

मस्तके वायसस्पर्शों दारिद्र्यं मरणं कलिः ॥ कव्या स्कंधे
महाभीती रिष्टं चैव प्रकीर्तिम् ॥ १६६ ॥ योपितां मस्तके
भर्तुर्विनाशो वा सुतस्य च ॥ १६७ ॥

अब काकस्पर्शका फल लिखते हैं—मस्तकपर कौएका स्पर्श हो जाय तो दारिद्र्य, मरण तथा कलह होती है और कमर अथवा कन्धेपर स्पर्श हो जाय तो महाभय तथा रिष्ट होता है ॥ १६६ ॥ और यदि हिँयोंके मस्तकपर कौएका स्पर्श हो जाय तो भर्ता वा पुत्रका विनाश होता है ॥ १६७ ॥

अथ कदाचित् काकस्पर्शोऽपि दोषाऽभावः ।

वृक्षाधो वाथ सिद्धान्नभक्ष्ये दध्यादियोगतः ॥ काकस्पर्शों
न दोपायाऽकस्माच्चेहूपणं तदा ॥ १६८ ॥ पण्मासाभ्यन्तरे
मृत्युः काकमैथुनदर्शने ॥ तदोपशांतये ककशांतिं कुर्या-
द्विचक्षणः ॥ १६९ ॥ कपोतो वायसः पछी सरठो मूर्मि
चेत्पतेत् ॥ पण्मासाभ्यन्तरे तस्य स्वामिनो वा मृतिस्तदा ॥
॥ १७० ॥ इत्युत्पातलक्षणफलम् ॥

अब कदाचित्काकस्पर्शमें भी दोषाभाव लिखते हैं—वृक्षके नीचे अथवा पञ्चान्नको खाताहुआ अथवा दध्यादिके साथ खाते समय कोआ मस्तकादि अंगोंका स्पर्श करे तो दोष नहीं होता है ॥ १६८ ॥ और जो काकमैथुनका दर्शन होय तो छह महीनेके भीतर मृत्यु होती है, इस कारणसे वुद्धिमानको चाहिये कि, उसका दोष दूर

करनेके लिये काकशांति करै ॥ १६९ ॥ कवृतर, कौआ, छिपकली, कर्केटा इनसेसे कोईएक शिरपर गिरै तो छह महीनेके भीतर उसके स्वामीकी मृत्यु होतीहै ॥ १७० ॥ ॥ इति उत्पातलक्षण ॥

अथ छिक्काफलम् ।

औषधेऽध्ययने वादे वाहने शयनेऽशने ॥ वीजवापे दुधैः
प्रोक्तं शोभनं सप्तसु-क्षुतम् ॥ १७१ ॥ मृत्युर्विभयं हानि-
स्तुष्टिर्द्वयागमः सुखम् ॥ क्षेशोऽर्थागमनं प्रोक्तं दिक्षु छिक्का-
फलं क्रमात् ॥ यामार्द्धसंख्यकाष्टातो विज्ञेयं च पृथक्
पृथक् ॥ १७२ ॥

अब छिक्काफल लिखतेहैं—ओषध खाना, बनाना, पढना, बाद-
विवाद करना, सवारीपर चढना, शयन करना, भोजन करना,
वीज बोना इन सात कार्योंमें पंडितोंने छींकको शुभ कहाहै ॥ १७१ ॥
मृत्यु, अग्नि, भय, हानि, तुष्टि, द्रव्यागम, सुख, क्षेश, अर्थागम
पूर्वादि आठ दिशाओंमें क्रमसे छींक होय तो उक्कफल होताहै.
आधेप्रहरकी गिनती लगायकर पूर्वादि दिशाओंमें छींकका यह
उक्कफल पृथक् पृथक् जानलेना चाहिये ॥ १७२ ॥

अत्रोदाहरणं यथा ।

आद्येद्वप्रहरे प्राच्यां द्वितीयेऽग्निदिशि क्रमात् ॥

तृतीये याम्बदिग्भागे फलमुक्तं विचक्षणैः ॥ १७३ ॥

यहां उदाहरण लिखतेहैं—सूर्योदयसे आधे प्रहरके भीतर
पूर्वदिशामें छींक होय तो पूर्वोक्कफल जानें. तदनंतर आधे
प्रहरके भीतर आश्वेयमें फिर आधे प्रहर दक्षिणमें, उससे आगे
आधे प्रहर नैऋत्यमें छींक होय तो पूर्वोक्कफल होताहै. इसी प्रकार
सब दिशाओंकी छींकका फल विचार लेना चाहिये. ऐसा पंडितोंने
कहाहै ॥ १७३ ॥

अथार्धकांडः । तत्रादौ वर्षे राजादिसप्तनाथविचारः ।

चैत्र मासि सिते पक्षेऽकोदये प्रतिपत्तिथौ ॥ यो वासरः स राजा स्यात्तस्मिन्वर्षे ततः फलम् ॥ १७४ ॥ मेषेऽर्कस्य प्रवेशे यो वारो मंत्री स कृद्यते ॥ चापे धान्यपतिक्षेय आर्द्धायां जलदाधिपः ॥ १७५ ॥ रसाधिपस्तुलायां स्यात्कर्के सस्यपतिस्तथा ॥ मकरे स्वर्णरत्नादिनीरसेशो बुधैः स्मृतः ॥ १७६ ॥

अब अर्धकांड लिखते हैं—तहां पहिले वर्षके राजादि सप्तनाथ विचार लिखते हैं—चैत्रमासके शुक्रपक्षकी प्रतिपदाको सूर्योदयके समय जो वार होय वहही उस वर्षका राजा होता है, उससे सालका फल विचारे ॥ १७३ ॥ मेषके सूर्यकी संक्रांति जिस वारमें लगै वहही वार मंत्री कहता है और जिस वारमें धनुकी संक्रांति लगै वहही वार धान्यपति कहता है और जिस दिन आर्द्धा लगै वह वार मेघाधिप होता है ॥ १७४ ॥ जिस वारमें तुलाकी संक्रांति लगै वह वार रसाधिप होता है और कर्ककी संक्रांतिका वार शस्याधिप होता है और मकरकी संक्रांतिका वार स्वर्णरत्नाधिपति तथा नीरसाधिपति होता है ॥ १७५ ॥

अथ विशेषोपकानयनम् ।

शके व्रि ३ व्रे हृते शेले ७ लघ्वं स्थाप्यं पृथक्कचिद् ॥ पेशं द्वि २ ग्रं शरे ६ धुक्तं वर्षा स्यात्त ततः पुनः ॥ १७७ ॥ लघ्वं शाकं प्रकल्प्येवं कर्तव्या प्रोक्तवत्किया ॥ धान्यं २ तृणं ३ ततः शीत ४ मुष्ण ५ मारुत ६ वृद्धयः ७ ॥ नाशोध ८ विश्रहश्चेवं जायते क्रमशस्त्वमे ॥ १७८ ॥

अब विशेषोपकानयन लिखते हैं—शाकेको तीन गुणा करके सातका भाग देनेसे जो लघ्व मिले उसको कहीं अलग स्थापित करे

शेषरहे अंकको दोगुणा करके उसमें पांच जोड़ देवे जो अंक होय सो उतने विश्वे वर्णा होतीहै ॥ १७७ ॥ और फिर पूर्वोक्त लब्ध जो कि, अलग स्थापितहै उनको शाका मानकर उक्तवत् किया करनेसे धान्य २, तृण ३, शीत ४, उष्ण ५, वायु ६, वृद्धि ७, नाश ८, विघ्रह ९ इन सबके विश्वा इसी क्रमसे बनजातेहैं ॥ १७८ ॥

अथ सर्वनिष्पत्तिर्धर्मसत्यके च ।

वर्षादिनवकस्याथ योगे दशहते पुनः ॥

तल्लव्धं निष्पत्तिरुक्ता सार्धाद्वं धर्मसत्यके ॥ १७९ ॥

अब सर्वनिष्पत्ति और धर्म तथा सत्य लिखतेहैं—वर्षादिक जो नौ वस्तु हैं तिनके सब विश्वोंको जोड़कर दशका भाग देनेसे जो लब्ध मिले सो (निष्पत्ति) सिद्धिके विश्वे निकलतेहैं और फिर निष्पत्तिके आधे विश्वे धर्म और धर्मके आधे विश्वे सत्य बन जाताहै ॥ १७९ ॥

अथ क्षुधाद्यानयनम् ।

शाके सत ७ गुणे नंदै ९ भक्ते लब्धं तु तत्कचित् ॥

निधाय द्विगुणं शेषं सेकं क्षुत्स्यात्ततः पुनः ॥ १८० ॥

लब्धं शाकं प्रकल्प्येवं कर्तव्या प्रोक्तवत्किया ॥ तृपा २

निद्रा ३ तथा आलस्य ४ मुद्यमः ५ शांतिरेव ६ च ॥ १८१ ॥

क्रोधो ७ दंडो ८ इथ मित्रत्वं ९ मुत्सवः १० पाप ११-
पुण्यके १२ ॥ १८२ ॥

अब क्षुधादि आनयन लिखतेहैं—शाकेको सात गुणा करके नौका भाग देनेसे जो लब्ध मिले, उसको कहीं अलग स्थापित करदेवे और शेष रहे अंकको दूना करके उसमें एक और जोड़देवे तो क्षुधाके विश्वे निकल आतेहैं ॥ १८० ॥ और उसी लब्धको इसी प्रकार शाका मानकर पूर्वोक्त किया करनेसे तृपा २, निद्रा ३, आलस्य ४, उद्यम ५

शांति ६, ॥१८१॥ क्रोध ७, दंड ८, मित्रत्व ९, उत्सव १०, पाप ११, पुण्य १२ इन सबके विश्वे निकलते हैं ॥ १८२ ॥

अथ प्रकारान्तरेण क्षुधाद्यानयनम् ।

शाके वेदै ४ हते शैले ७ भक्ते लब्धं च पूर्ववत् ॥ शेषं च द्विगुणं सैकं १ क्षुधा १ तृष्णा २ सुषुप्तिका ३ ॥ १८३ ॥ आलस्य ४ मुद्यमः ५, शांतिः ६, क्रोधो ७ लोभोऽथ भेदकः ९ ॥ दंडोऽथ १० मैथुनं ११ चौर्यं १२ रसनिष्पत्तिरेव १३ च ॥ १८४ ॥ फलनिष्पत्ति १४ उत्साहः १५, पुण्यं १६ पापं १७ तथैव च ॥ सर्वनिष्पत्ति १८ रित्येवं संपत्तिश्च १९ यथाक्रमात् ॥ १८५ ॥

अब प्रकारान्तरसे क्षुधादिका आनयन लिखते हैं—शाकेको चारसे गुण करके सातका भाग देनेपर जो लब्ध मिलें तिनको अलग रखदेवे और शेषको दूना करके उसमें एक और जोड़देवे तो क्षुधाके विश्वे निकलते हैं और फिर लब्धांकको शाका मानकर पूर्वोक्त क्रिया करनेसे तृष्णा २, निद्रा ३ ॥ १८३ ॥ आलस्य ४, उद्यम ५, शांति ६, क्रोध ७, लोभ ८, भेद ९, दंड १०, मैथुन ११, चोरी १२, रसनिष्पत्ति १३, फलनिष्पत्ति १४, उत्साह १५, पुण्य १६, पाप १७, सर्वनिष्पत्ति १८, संपत्ति १९ इन सबके यथाक्रमसे विश्वे निकलते हैं ॥ १८४ ॥ १८५ ॥

अथोग्रत्वाद्यानयनम् ।

शाकश्चापृगुणः ८ खेटै ९ भक्तो लब्धं च पूर्ववत् ॥ द्वि २-त्रिं शेषं त्रिभि ३ युक्तमुग्रत्वं १ च रसोद्भवः २ ॥ १८६ ॥ फलोत्पत्ति ३ स्तथा व्याधी ४ रोगनाश ६ स्तथैव च ॥ आचार ६ श्वाप्यनाचारो ७ मृति ८ जर्नम् ९ ततः परम् ॥ १८७ ॥ चौरोपशमनं १० वह्नेभीति ११ रग्निः शमः १२ क्रमात् ॥

अब उग्रत्वादिका आनयन लिखते हैं—शाकेको आठगुणा करके नौका भाग देनेसे जो लब्ध मिले उसको पूर्ववत् अलग लिखदेवे और शेषांकको ढूना करके तीन जोड़देवे तो उग्रत्वके विश्वे निकल आते हैं फिर अलग लिखेहुए पूर्वोक्त लब्धांकको शाका मानकर पूर्वोक्तवत् क्रिया करनेसे रसोत्पत्ति ३, फलोत्पत्ति ३, व्याधि ४, रोगनाश ५, आचार ६, अनाचार ७, मृत्यु ८, जन्म ९ और फिर ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ चौरोपशमन १०, अग्निभय ११, अग्नि शांति १२ इन सबके विश्वे यथाक्रमसे निकल आते हैं ॥

अथ शलभाद्यानयनम् ।

शाके विश्वे ३ हते नंदे ९ लब्धं स्थाप्यं तदुक्तवत् ॥ द्विन्नं २ शेषं विभिर्युक्तं शलभो मूपकस्तथा ॥ १८८ ॥ देविकं पीततामे च चक्रं च परचक्रकम् ॥ १८९ ॥

अब शलभादिका आनयन लिखते हैं—शाकेको तीनगुणा करके नौका भाग देनेसे जो लब्ध मिले उसको पहिलेकी न्याँई अलग स्थापित करदेवे और शेषांकको दोगुणाकरके तीन और जोड़देवे तो टीड़ीके विश्वे बनजाते हैं और फिर पूर्वोक्त लब्धको शाका मानकर पूर्ववत् क्रिया करनेसे मूपक २ ॥ १८८ ॥ देविक ३, पीतल ४, ताम्र ५, स्वचक्र ६, परचक्र ७ इन सबके विश्वे निकल आते हैं ॥ १८९ ॥

अथ प्रकारान्तरेण शलभाद्यानयनम् ।

शेल ७ ग्रो नव ९ हच्छाकः शेषं द्विन्नं २ युतं विभिः ३ ॥ शलभो १ मूपको २ देवं ३ पीतं ४ ताम्रं ५ स्वचक्रकम् ॥ ६ ॥ परचक्रा ७ गमश्वेचं कमाज्जेयं च पूर्ववत् ॥ १९० ॥

अब प्रकारान्तरसे शलभाद्यानयन लिखते हैं—शाकेको सातगुणा करके नौका भाग देनेसे जो लब्ध मिलें उनको अलग लिख देवे और शेषांकको दोगुणा करके तीन जोड़देवे तो टीड़ीके विश्वे

निकल आते हैं और फिर लब्धांकको शाका मानकर- पूर्वोक्तवृत् क्रिया करनेसे मूपक २, दैव ३, पीतल ४, ताम्र ५, स्वचक्र ६, परचक्र ७ इन सबके विश्वे क्रमसे जानेजाते हैं ॥ १९० ॥

अथोऽद्विजादिप्राण्यानयनम् ।

शके बाणै ५ नैगै ७ रक्षै १२ रीशै ११ रिन्ने पृथक्पृथक् ॥

रामभक्तेऽवशेषं यद्विन्नं २ पञ्च ६ युतं क्रमात् ॥ १९१ ॥

उद्दिजः १ स्वेदज २ शैव जरायुः ३ प्रभवोऽड-
जाः ४ ॥ १९२ ॥

अब उद्दिजादिप्राणियोंका आनयन लिखते हैं—शाकेको चारज-
गह लिखकर क्रमसे पांच ५, सात ७, चारह १२, ग्यारह ११ से
अलगअलग गुणा करदेवे और फिर अलगअलग तीनका भाग
देवे जो शोपांक वचै उनको अलगअलग दोसे गुणा करके चारों-
जगह पांचपांच जोड़ देवे तो क्रमसे उद्दिज १, स्वेदज २, जरा-
युज ३, अंडज ४ इन सबके विश्वे निकल आते हैं ॥ १९१ ॥ १९२ ॥

अथ युगानां प्रमाणम् ।

द्वाविंशद्विः सहतैश्च युक्तं लक्षचतुष्टयम् ॥ प्रमाणं कलिव-
र्षाणां प्रोक्तं पूर्वमहर्षिभिः ॥ १९३ ॥ युगानां कृतमुख्यानां

क्रमान्मानं प्रजायते ॥ कलेर्मानं क्रमान्निन्नं चतु ४ द्वि-
३ द्वि २ मितैस्तदा ॥ १९४ ॥ कृतमानम् १७२८००० ॥

घ्रेतामानम् १२९६००० । द्वापरमानम् ८६४००० ॥

कलिमानम् ४३२००० ॥ महायुगप्रमाणम् ४३२०००० ॥

अब युगोंका प्रमाण लिखते हैं—चारलाखवर्तीसहजार ४३२०००
वर्षे कलियुगका प्रमाणहै ऐसा पूर्वमहर्षियोंने कहा है ॥ १९३ ॥ और
कलियुगके वर्षप्रमाणको क्रमसे चार, तीन, दोसे गुणा करदेनेपर
सत्ययुग, घ्रेता, द्वापर युगका प्रमाण घनजाता है ॥ १९४ ॥ सत्ययु-

गका प्रमाण १७२८००० । त्रेतायुगका प्रमाण १२९६००० । द्वारपर-
युगका प्रमाण ८६४००० । कलियुगका प्रमाण ४३२००० वर्षोंका है ॥

अथ गतकलिमानानयनम् ।

खगशोलेंदुरामा ३१७९ व्येर्युक्ताः शाकाः कलेर्गताः ॥

तर्विहीनं कलेर्मानं शेपं शेपकलेर्मितिः ॥ १९५ ॥

अब गतकलिमान लानेकी विधि लिखते हैं—शाकमें ३१७९ इक-
तीससौ उनासी जोड़देनेसे कलियुगके गतवर्षोंका प्रमाण निकल
आता है और कलियुगका प्रमाण चार लाख वर्तीस हजारमेंसे गत-
कलिके वर्ष घटाय देनेसे जो शेप वचे सो कलियुगके शेपवर्ष
होते हैं ॥ १९५ ॥

अथ धर्मानयनम् ।

खाप्रखाप्रांकवेदेश्च ४९०००० कलिशेपसमा युताः ॥

कलिमानेन संभक्ता यल्लव्यं धर्मराशयः ॥ १९६ ॥

अब धर्मानयन लिखते हैं—कलियुगके शेपवर्षोंमें चार लाख नव्वे
हजार ४३०००० जोड़कर (कलिमान) चारलाख वर्तीसहजारका
भाग देनेसे जो लव्य मिलें सो धर्मकी राशि अर्थात् विश्वे
होते हैं ॥ १९६ ॥

अथ प्रकारांतरेण धर्मज्ञानम् ।

शाकाद्वं च युतं जीवराशिभिरुद्धृते शके ॥

लव्यं पुण्यं च तश्यूना विंशतिः पापमुच्यते ॥ १९७ ॥

अब प्रकारान्तरसे धर्मज्ञान लिखते हैं—शाकेके आधेको वृह-
स्पतिकी राशिमें जोड़कर तीनका भाग देनेसे जो लव्य मिले सो
पुण्य और उसी पुण्यको बीसमें घटादेवे तो शेषको पापके विश्वे
जाने ॥ १९७ ॥

अथायव्ययानयनार्थं ध्रुवांशकाः ।

रसा ६ स्तिथ्यो १६ गजाः ८ शैलचंद्रा १७ नन्देदव १९
स्तथा ॥ स्वर्गा २१ दिशः १० क्रमाज्ञेया रव्यादीनां
ध्रुवा इमे ॥ १९८ ॥

अब आयव्यय आनयनार्थं ध्रुवांशक लिखते हैं—छह ६, पंद्रह १५
आठ ८, सत्रह १७, उन्नीस १९, इक्कीस २१, दश १० ये ध्रुवांक
क्रमसे सूर्यादि ग्रहोंके कहेहैं ॥ १९८ ॥

अथ मेपादिराशीनामायव्ययाः ।

निजराशिपतेर्वर्षस्वामिनो ध्रुवयोगके ॥ त्रिमे ३ वाण ५
युते भक्ते तिथिभिः १६ शेषसंमिताः ॥ १९९ ॥ आयाः
स्युस्त्रिगुणे ३ लब्धे शरा ५ व्यास्तिथिभि१९८ते ॥
शेषे व्ययाः क्रमात्स्वस्य राशीनां कथिता वृधैः ॥ २०० ॥

अब मेपादिराशिओंके आयव्यय लिखते हैं—अपनी जन्मराशिके
स्वामीका ध्रुवांक और संवत्सरके राजाका ध्रुवांक इन दोनोंको
जोड़कर तीनगुणा करनेपर जो अंक होय उसमें पांच जोड़कर
१५ पंद्रहका भाग देनेसे जो शेष वचे वह (आय) लाभ होताहै
और पंद्रहका भाग देनेसे जो लब्ध मिले उनको तीनगुणा करके
पाँच जोड़देवे और पंद्रहका भाग देवे जो शेष वचे सो खर्च होताहै
इसी प्रकार क्रमसे अपनी अपनी राशियोंका आयव्यय जाने येसा
पंटितोंने कहाहै ॥ २१९ ॥ २०० ॥

अथ शकात्सुभिक्षादिज्ञानम् ।

शके त्रिमे ३ युते वाणे: ५ शैले ७ भक्तेऽथ शेषकः ॥
क्रमान्मध्यं १ सुभिक्षं २ च दुर्भिक्षं ३ च सुभिक्ष ४-
कम् ॥ २०१ ॥ महाद्वं ५ समता ६ ज्ञेया चैकतो रौखं तु
ले ० ॥ २०२ ॥

अब शाकेसे सुभिक्षादिज्ञान लिखतेहैं—शाकेको तीनगुणा करके पांच जोड़देवे फिर उस योगांकमें सातका भाग देनेसे एक वचे तो मध्यम ३, दो वचे तो सुभिक्ष ८, तीन वचे तो दुर्भिक्ष ३, चार वचे तो सुभिक्ष ४, पांच वचे तो महर्घ ५, छह वचे तो समता ६ और शून्य वचे तो घोरता जाने ॥ २०१ ॥ २०२ ॥

अथ संवत्सरात्सुभिक्षादिज्ञानम् ।

विप्रे ३ संवत्सरे युक्ते शरे ५ भक्तेऽथ सप्तमिः ७ ॥ चतुर्द्विकमिते ४ । २ शेषे सुभिक्षं विषुलं भवेत् ॥ २०३ ॥
वि ३ पंचके ५ च दुर्भिक्षं पद्मभू ६ । १ संख्ये च मध्यमम् ॥ शून्ये तु रौख्यं द्वयं फलं वर्णं बुधैः स्मृतम् ॥ २०४ ॥

अब संवत्सरसे सुभिक्षादिज्ञान लिखतेहैं—संवत्सरको तीनगुणा करके उसमें पांच जोड़देवे और फिर सातका भाग देनेसे चार, दो शेष वचे तो वहुत सुभिक्ष होताहै ॥ २०५ ॥ और तीन, पांच वचे तो दुर्भिक्ष और छह वा एक वचे तो मध्यम और शून्य शेष वचे तो रोरव फल जाने ऐसा पंडितोंने कहाहै ॥ २०६ ॥

अथ प्रकारान्तरेण संवत्सरात्फलम् ।

द्वि २ गः संवत्सरो रामे ३ हीनो भक्ते नगे ७ स्ततः ॥
शेषे वाणमिते युग्मे २ सुभिक्षं हायने भवेत् ॥ २०५ ॥
वेदे ४ चंद्र १ मिते द्वयं दुर्भिक्षं खेऽ तु रौख्यम् ॥ रसा ६
इनल ३ मिते मध्यमेतदर्वफलं बुधैः ॥ २०६ ॥

अब प्रकारान्तरसे संवत्सर परसे सुभिक्षादि ज्ञान लिखतेहैं—संवत्सरको दूना करके उसमेंसे तीन घटाय देवे शेषमें सातका भाग देनेसे पांच वा दो वाकी वचे तो उस वर्षमें सुभिक्ष होताहै ॥ २०५ ॥ और चार अथवा एक शेष वचे तो दर्भिक्ष और शून्य

वचै तो भयंकर और छह वा तीन शेष वचैं तो मध्यम फल होता है ॥ २०६ ॥

अथ वर्षे राजादीनां संक्षेपात्फलम् ।

राजाऽमात्यादिकानां च वच्चिम संक्षेपतः फलम् ॥ गुरुशु-
क्रेद्वोऽधीशाः संति चेज्जनसौख्यदाः ॥ २०७ ॥ सुभिक्षं
शोभना वृष्टिदेशे स्वास्थ्यं प्रकुर्वते ॥ शनि भौमो प्रकुर्वतां
दुर्भिक्षं विग्रहं भयम् ॥ २०८ ॥ अल्पसौख्यप्रदः सोम्यः खलु-
दुःखप्रदो रविः ॥ फलं सविस्तरं चैपां विज्ञेयं संहितादिषु
॥ २०९ ॥ तथा प्रभवसुख्यानां हायनानां पृथक्पृथक् ॥
नास्माभिलिख्यते चात्र ग्रंथविस्तरभीतिः ॥ २१० ॥

अब वर्षमें राजादिकोंका संक्षेपसे फल लिखते हैं—यदि वृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा इनमेंसे कोई वर्षका राजा होय तो मनुष्योंको सुख-दायक होता है ॥ २०७ ॥ और सुभिक्ष, शोभन वर्षा, देशमें (स्वास्थ्य) नीरोगता रहती है और शनि वा मङ्गल संवत्सरके राजा होंय तो दुर्भिक्ष, विग्रह, भय रहता है ॥ २०८ ॥ बुध राजा होय तो अल्प-सौख्यदायक होता है, सूर्य राजा होय तो दुःखदायक होते हैं; इन सब ग्रहोंका विस्तारसहित फल संहितादि ग्रंथोंमेंसे जान लेना चाहिये ॥ २०९ ॥ तथा पृथक्पृथक् प्रभवादिक संवत्सरोंकाभी फल संहितादि ग्रंथोंसेही जानना चाहिये हमने यहांपर ग्रंथविस्तारके भयसे नहीं लिखा है ॥ २१० ॥

अथ दीपमालिकायोगे नेष्टुं फलम् ।

दर्शे चायुष्मतो स्वातों पापाहे मासि कार्तिके ॥

प्रदोपे चेत्प्रजापीडा राजयुद्धाद्युपद्रवाः ॥ २११ ॥

अब दीपमालिकाके योगमें नेष्टुफल लिखते हैं—कार्तिकमासमें अमावास्याके दिन प्रदोपके समय स्वातीनक्षत्र और पापग्रहका चार

तथा आयुष्मान् योग होय तो प्रजापीडा तथा राजयुद्धादि उपद्रव होते हैं ॥ २११ ॥

अथ ज्येष्ठप्रतिपदि योगः ।

ज्येष्ठे शुक्रे तिथावाद्ये चंद्रेज्यभृगुवासरे ॥

सुभिक्षं शोभना वृष्टिर्दुर्भिक्षं पापवासरे ॥ २१२ ॥

अब ज्येष्ठप्रतिपदाके योग लिखते हैं—ज्येष्ठमासमें शुक्रपक्षकी प्रतिपदाको चंद्र वा वृहस्पति वा शुक्र वार होय तो सुभिक्ष तथा सुन्दर वर्षा होती है और पापवार होय तो दुर्भिक्ष होता है ॥ २१२ ॥

अथापाठद्वितीयानवमीयोगः ।

आपादे शुक्लपक्षे च द्वितीयानवमीदिने ॥ चंद्रेज्यभृगुवाराः स्युः सुवृष्टिश्च समर्धता ॥ २१३ ॥ बुधे साम्यं रवौ तापः कुजे वृष्टिर्न जायते ॥ शनिवारे प्रजापीडा दुर्भिक्षं रौखं तदा ॥ २१४ ॥

अब आपाठ शुक्लमें द्वितीया और नवमीका योग लिखते हैं—आपाठमासमें शुक्रपक्षकी द्वितीया वा नवमीके दिन चंद्रमा, वृहस्पति वा शुक्र वार होय तो सुवृष्टि तथा समर्धता होती है ॥ २१३ ॥ और बुधवार होय तो समता, रविवार होय तो ताप, मङ्गलवार होय तो अवृष्टि, शनिवार होय तो प्रजापीडा, दुर्भिक्ष तथा भयंकरता होती है ॥ २१४ ॥

अथ शनिराशिफलम् ।

गुर्जरेऽजे १ शनौ पीडा प्रभासे च वृपस्थिते २॥ मरुस्थले च युग्मक्षें ३ कक्षे ४ काश्मीरमंडले ॥ २१५ ॥ शकप्रस्थं च सिंहक्षें ५ कन्यास्थे ६ मालवे तथा ॥ तुलादिविनये पृथ्यां दुर्भिक्षं जनपीडनम् ॥ सुभिक्षं मकरं कुंभं मीनं मर्यं प्रजाक्षयः ॥ २१६ ॥

अब शनिराशिका फल लिखते हैं—मेषराशिका शनैश्चर होय तो गुर्जरदेशमें पीडा, वृष्णराशिका शनैश्चर होय तो प्रभासक्षेत्रमें पीडा, मिथुनराशिका शनैश्चर होय तो मारवाडदेशमें पीडा, कर्कका शनैश्चर होय तो काढमीरदेशमें पीडा ॥ २१५ ॥ सिंहराशिका होय तो दिल्लीके देशमें, कन्याका होय तो मालवदेशमें; तुला, वृथिक, धनुका होय तो पृथ्वीपर दुर्भिक्ष तथा भनुज्यपीडा; मकर कुम्भका शनैश्चर होय तो सुभिक्ष और मीनका शनैश्चर होय तो सर्वप्रजाका नाश होता है ॥ २१६ ॥

अथ कूर्मचक्रम् ।

कूर्मचक्रे शनिर्मध्ये ततः प्राच्यादिषु क्रमात् ॥ नाशयेत्क-
मतो देशान्कृत्तिकाद्यस्त्रिभिस्त्रिभिः ॥ २१७ ॥ निजाधि-
ष्टितमेंद्रेशानंतर्वेदिसुखां ३ स्ततः ॥ मागधांश्च ६ कलिंगा-
९ दीनवन्तिक १२ मुखांस्तथा ॥ २१८ ॥ ततः कौंकण-
पौङ्ड्रा १५ दीनिंसधुसौराष्ट्र १८ कादिकान् ॥ पौलिंदचीन-
काद्यांश्च कुरुकाश्मीरमत्स्यकान् ॥ २१९ ॥ खसवाहीकला-
टा२७द्याब्रवखंडानिमांस्तथा ॥ द्वाद्वा स्वाधिष्ठितादेशाद-
न्यांश्च यमदिग्गतान् ॥ २२० ॥

अब कूर्मचक्र लिखते हैं—नौ कोठेका कूर्मचक्र लिखे और कृत्तिकादि तीनतीन नक्षत्र मध्यभागसे लेकर पूर्वादि आठों दिशाओंमें क्रमसे लिखदेवे जिस खंडके तीननक्षत्रोंमेंसे किसी नक्षत्रपर शनैश्चर अधिष्ठित होय उसी देशका नाश करताहै तथा अपने अधिष्ठित देशसे अन्य दक्षिणदेशोंकाभी नाश करताहै. यहां-पर सत्ताईस नक्षत्रोंके नौखंड वर्णन कियेगये हैं जैसे मध्यखंड अन्तर्वेद्यादिक ३, पृथ्वीदिशांका खंड मागधादिक ६, अश्विकोणका खंड कलिंगादिक ९, दक्षिणका खंड अवन्तिकादिक १२ ॥ २१७ ॥ १ ॥ २१८ ॥ नैर्भित्यका खंड कौंकण पौङ्ड्रादिक १५, पश्चिमकाखंड

सिंधु सौराष्ट्रकादिक १८, वायव्यका खंड पौलिंद चीनादिक २३, उत्तरका खंड कुरु, काश्मीर, मत्स्यकादिक २४ ॥२१६॥ और ईशानका खण्ड, खस वाहीक, लाटादिकदेशहैं सो नीचे चक्रमें समझलेने चाहिये ॥ २२० ॥

उत्तरी, अधिधनी, भरणी, सम वाहिकलाटादि देश ईशानखंड	जात्रा, पुनर्वसु, उत्तर मग्नशादि देश, पूर्व खंड.	आशेषा, मया, पूर्ण बोफा, कालिगादि देश आप्रेमचंड.
श्रद्धभिया, पूर्वभाद्रपदा, उत्तरा, कुरु, काश्मीर मत्स्यादिदेश, उत्तररम्यंड.	कृष्ण रो० मृ अन्तर्वेशा दिक देश, मध्यरम्यंड.	उत्तराख. हन्त, चित्रा, अनन्तिकादि देश दीक्षिणस्तण्ड.
उत्तरापाटा, अवध, घ निष्ठा पौलिंद, चौनकादि देश वायव्यम्यंड.	निष्ठा, मूल, पूर्णपाटा सिंधु सौराष्ट्रकादि देश पश्चिमखंड.	न्वार्ति-विद्यात्मा-अनु- रामा, कौशल पौड़िका दिदेश नैन्दनखंड

अथ शनिचारप्रसंगाच्छनिचक्रम् ।

शनिभाद्वानिकृच्चैकं १ मुखेऽथो वेदमै५४४४ः ॥ भुजे दक्षे
ततः पद्मि ११ वृद्धेश्व भ्रमणं ततः ॥ २२१ ॥ भुजे वामेऽ-
विधि १६ भे रोगो हत्स्थेः शरमितेः २० विधिः ॥ विभि-
भे २३ मस्तके राज्यं नैवे हुद्वद्वये २६ सुखम् ॥ भद्रये
२७ गुद्वये मृत्युः शनिचक्रे फलं क्रमात् ॥ २२२ ॥

अब शनिचारके प्रसंगसे शनिचक्र लिखतेहैं—शनिके नक्षत्रसे
जन्मके नक्षत्रतक गिने प्रथम एक नक्षत्र शनेश्वरचक्रके मुखमें लिखे
जिसका फल हानिकारक है और फिर चार नक्षत्र शाहिनी भुजामें
लिखे जिनका फल विजय और फिर छह नक्षत्र चरणोंमें लिखे
जिनका फल भ्रमण ॥ २२३ ॥ और फिर चार नक्षत्र वांद्रि भुजामें
लिखे जिनका फल रोग और फिर पांचनक्षत्र हृदयमें लिखे जिनका

फल लक्ष्मी और फिर तीन नक्षत्र मस्तकमें लिखे जिनका फल राज्य और फिर दो नक्षत्र नेत्रोंमें लिखे जिनका फल सुख; तदनन्तर दो नक्षत्र गुदामें लिखे जिनका फल मृत्यु होतीहै ॥ २२२ ॥

अथ ग्रहचारवशान्महर्घादि ।

सर्वधान्यं महर्घं स्याच्छुक्क्षेत्रगते कुजे ॥ राहो मंदे च
दुर्भिक्षं शुभं चंद्रग्रहे स्थिते ॥ २२३ ॥ बुधक्षेत्रे भास्करे चंद्रे
विरोधो धरणीभुजाम् ॥ तत्रार्कनंदने चंद्रे सर्वधान्यमहर्घता
॥ २२४ ॥ शनौ राहो शनिक्षेत्रे तृणाऽभावात्पशुक्षयः ॥
विरोधो भूभुजां भौमे वृष्टिः स्याद्धूयसी बुधे ॥ २२५ ॥
कुजक्षेत्रे राहुमंदज्ञैर्नेश्यंति पशवो नराः ॥ महर्घं भृगुपुत्रेण
शेषैः खेटैः फलं शुभम् ॥ २२६ ॥ कूरा वक्रगताः खेटाः
सौम्या यद्यतिचारगाः ॥ तदा भूपक्षयं युद्धं जगद्वोरभया-
र्दनम् ॥ २२७ ॥

अब ग्रहचारके वशसे महर्घादि लिखते हैं—(शुक्क्षेत्र) तुला,
वा वृपराशिका मंगल होय तो सर्वधान्य मँहगे रहते हैं और यदि
शुक्क्षेत्री राहु वा शनैश्चर होय तो दुर्भिक्ष रहता है और जो (चंद्रमा
की राशि) कर्कके मंगल, राहु, शनैश्चर होय तो शुभफल होता है
॥ २२३ ॥ यदि (बुधकी राशि) कन्या मिथुनके सूर्य तथा चंद्रसा
होय तो राजाओंमें विरोध होता है और जो बुधकी राशिके शनै-
शर चंद्रमा होय तो सब धान्य महँगे रहते हैं ॥ २२४ ॥ शनि वा
राहु (शनैश्चरकी राशि) मकर वा कुंभके होय तो तृणका अभाव
होनेसे पशुओंका नाश होता है और यदि शनिकी राशिपर मंगल
होय तो राजाओंमें विरोध होता है और बुध होय तो बहुत वर्षा
होतीहै ॥ २२५ ॥ मंगलकी राशिपर शनैश्चर, राहु, बुध होय तो पशु
तथा मनुष्योंका नाश होता है और मंगलकी राशिपर शुक्र होय

तो सब भाव महंगा रहता है और शेषग्रह मंगलकी राशिपर होंय
तो शुभ फल होता है ॥ २२६ ॥ यदि कूर्यह वक्रीहोंय और सौम्य-
यह अतिचारी होंय तो राजाओंका नाश तथा युद्ध होता है और
जगत्‌के लिये घोरभय तथा पीड़ा होती है ॥ २२७ ॥

अथ प्रतिमासमर्धज्ञानाय चंद्रोदयज्ञानम् ।

ऊर्ध्वभागे तु विज्ञेया राहुराशिप्रकोष्ठकाः ॥ तिर्यग्भागे तु
विज्ञेया रविराशिप्रकोष्ठकाः ॥ २२८ ॥ चक्रे तत्राकराहोश्च
घटिकाः परिकीर्तिताः ॥ प्रोद्य दर्शघटीः पष्टचां द० शेषा
घटचोयुतास्तथा ॥ २२९ ॥ दिनमानघटीभिस्ता घटीभ्यो
राहुसूर्ययोः ॥ अधिकाश्वेतदा चंद्रदर्शनं प्रतिपद्यते ॥ २३० ॥

अब प्रतिमासमें अर्धज्ञानके लिये चंद्रोदयज्ञान लिखते हैं—ऊर्ध्व-
भागमें राहुकी राशिके कोठे जाने और तिरछे भागमें सूर्यकी राशिके
कोठे जाने इस प्रकार बनेहोए चक्रमें सूर्य और राहुकी घटी कही-
गई हैं सिंडान्तश्रयोंमें इस चक्रका वर्णन है अमावास्याकी घटियोंको
साठिमेंसे घटादेवे शेषरही घटियोंमें दिनमानकी घटी जोड़देवे
चक्रलिखित राहुसूर्यकी घटियोंके जोड़से पूर्वोक्त घटियोंका जोड़
अधिक होय तो शुक्रपक्षकी प्रातिपद्यके दिन चंद्रोदयका दर्शन होता है
और जो कम होय तो चंद्रोदयका दर्शन नहीं होता है २२८॥२२९॥२३०

अथ चंद्रस्य शृंगोन्नतिस्तत्फलञ्च ।

चंद्रो याम्योन्नतो मीनमेपगोऽभ्युदितो मतः ॥ समशृंगो
वृषे कुंभे शेषभैपृत्तरोन्नतः ॥ २३१ ॥ याम्योन्नते च दुर्भिर्ङ्गं
विड्रः स्यात्समे विधौ ॥ सुभिर्ङ्गं सौम्यदिग्भागे चोन्नते
मृगलाञ्छने ॥ २३२ ॥ शूलकारे विधौ भीतिः प्रोदिता
महती रुता ॥ २३३ ॥

अब चंद्रकी शृंगोन्नति और उसका फल लिखते हैं—मीन, सेपका चंद्रमा होय तो दक्षिणशृंगोन्नत कहा है। वृष्टि, कुंभ राशिके चंद्रमाका उदय होय तो समशृंग होता है शेषराशियोंके चंद्रमाका उदय होय तो उत्तर शृंगोन्नत होता है ॥ २३१ ॥ दक्षिणोन्नत चंद्रमा होय तो दुर्मिश्र और समशृंगोन्नत चंद्रमा होय तो मध्यमफल और उत्तर-शृंगोन्नत चंद्रमा होय तो सुभिश्र होता है ॥ २३२ ॥ और विशूलाकार चंद्रमाका उदय होय तो महाभय और पुकार होती है ॥ २३३ ॥

अथ रवेर्वामदक्षिणभागयोश्चंद्रोदयफलम् ।

यदि शुक्लद्वितीयायां वामे चंद्रोदयो रवेः ॥ शुभं तदास्तिले
मासि नो शुभं दक्षिणोदये ॥ २३४ ॥ चंद्रोदये वृहत्संज्ञे
भवेद्वान्यं समर्धकम् ॥ जघन्यभे महर्घं च ज्ञेयं धान्यं
समे समम् ॥ २३५ ॥

अब रविके वामदक्षिणभागमें चन्द्रोदयफल लिखते हैं—याद शुक्लपक्षकी द्वितीयाके दिन सूर्यसे वाम भागमें चंद्रमाका उदय होय तो संपूर्णमासमें शुभ फल होता है और सूर्यसे दक्षिणभागमें चंद्रमाका उदय होय तो शुभ फल नहीं होता है ॥ २३४ ॥ वृहत्संज्ञक नक्षत्रोंमें चंद्रमाका उदय होय तो अन्नस्ता और जघन्यसंज्ञक नक्षत्रोंमें चंद्रमाका उदय होय तो अन्नका भाव महँगा और समसंज्ञक नक्षत्रोंमें चंद्रमाका उदय होय तो अन्नका भाव सम रहता है ॥ २३५ ॥

अथ प्रतिमासेदर्शफलम् ।

शुभवारान्विते दर्शे स्यात्सुभिश्रं प्रजासुखम् ॥

पापवारान्विते दुःखं तथा धान्यमहर्घता ॥ २३६ ॥

अब प्रतिमासमें दर्शका फल लिखते हैं—यदि शुभवारसे युक्त अमावास्या होय तो सुभिश्र और प्रजाको सुख होता है और जो

पापवारयुक्त अमावास्या होय तो दुःख तथा धान्य महँगा रहता है ॥ २३६ ॥

अथैकमासे पञ्चवारफलम् ।

शुक्लाद्यमासि चेत्पंच पापखेटस्य वासराः ॥ प्रजापीडा
भवेत्तत्र धान्यस्यापि महर्घता ॥ २३७ ॥ मासे पंच शुभा
वारा यदेकस्मिन्प्रजायते ॥ सुभिक्षं सर्वसस्यानां तदा सर्व-
सुखी जनः ॥ २३८ ॥

अब एकमासमें पांचवारका फल लिखते हैं—शुक्लप्रतिपदासे लेकर अमावास्या तक मासमें पापग्रहोंके पांचवार पढ़ें तो उस मासमें प्रजापीडा और अन्नका भाव महँगा रहता है ॥ २३७ ॥ और यदि एकमासमें पांच शुभवार पढ़ें तो सम्पूर्ण अन्नोंका सुभिक्ष और सवजन सुखी रहते हैं ॥ २३८ ॥

अथ प्रतिमासं संक्रांतिवशात्समर्धमहर्घज्ञानम् ।

सुभिक्षं संक्रमे सौम्यवारेऽधिकमुहूर्तके ॥ महर्घ पापवारे
वा मुहूर्ते चाक्षभू १६ मिते ॥ २३९ ॥ पूर्वसंक्रमभाद्विमिते
भे संक्रमे रवेः ॥ सुभिक्षं स्याच्चतुःपंचमिते भे च महर्घता ॥
पृष्ठे भे संक्रमे चातिदुर्भिक्षं रौरवं भवेत् ॥ २४० ॥

अब प्रतिमासमें संक्रातिके वशसे समर्धमहर्घज्ञान लिखते हैं—
यदि शुभवारमें पैंतालीसि मुहूर्त संक्रांति होय तो सुभिक्ष होता है और पापवारमें पंद्रह १५ मुहूर्त संक्रांति होय तो अन्नका भाव महँगा रहता है ॥ २३९ ॥ पहिली संक्रातिके नक्षत्रसे दूसरे तीसरे नक्षत्रमें सूर्यकी संक्राति होय तो सुभिक्ष और चौथे पांचवें नक्षत्रमें सूर्यकी संक्रान्ति होय तो अन्नका भाव महँगा और छठे नक्षत्रमें सूर्यकी सांक्रांति होय तो अतिदुर्भिक्ष तथा भयंकरता होती है ॥ २४० ॥

अथ ग्रीष्मशारदधान्यनिष्पत्तिज्ञानम् ।

वृपसंक्रमणे भानोः केंद्रस्वाय १ । ४ । ७ । १० । २ ।
 ११ गतैः शुभैः ॥ शारदीधान्यनिष्पत्तिरुत्तमा कथिता
 बुधैः ॥ २४१ ॥ पापैखस्थितैः स्वल्पा मिश्रैर्मिश्रा प्रकी-
 र्तिता ॥ पापे द्यून ७ गते नश्येदुत्पन्नमपि सस्यकम्
 ॥ २४२ ॥ द्यूनशब्दु ७ । ६ गते पापे निष्पत्तिः स्वल्पका
 भवेत् ॥ हस्तं वृथिकसंक्रांतौ विज्ञेयं ग्रेष्मधान्यकम् ॥ २४३ ॥

अब ग्रीष्मशारदधान्यनिष्पत्तिज्ञान लिखते हैं—वृपके सूर्यकी
 संक्रांति लगनेके समय केंद्र १ । ४ । ७ । १० । और दूसरे र्यार-
 हवें स्थानमें शुभग्रह होंय तो शरत्कालके अन्नकी उत्पत्ति उत्तम
 होतीहै ऐसा पंडितोंने कहा है ॥ २४१ ॥ और जो उक्तस्थानोंमें
 पापग्रह वैठे होंय तो शरत्कालके अन्नकी उत्पत्ति थोड़ी होतीहै
 और जो शुभ तथा पापग्रह दोनों मिलेजुले वैठे होंय तो पूर्वोक्त
 अन्नकी उत्पत्ति मध्यम होतीहै और यदि सातवें स्थानमें पापग्रह
 होंय तो उत्पन्न हुआभी अन्न नष्ट होजाता है ॥ २४२ ॥ और सातवें
 तथा छठे स्थानमें पापग्रह होंय तो थोड़ा अन्न उत्पन्न होता है। इस
 प्रकार वृथिककी संकान्ति लगनेके समय ग्रीष्म कालके अन्नकी
 उत्पत्ति जानलेनी चाहिये ॥ २४३ ॥

अथ संग्रहसमयः ।

चापादिवितये सूर्ये सौम्यैर्युक्तेक्षिते ग्रहैः ॥ शरद्धान्यं समर्धं
 स्याद्वाह्यं तद्वान्यजीविभिः ॥ २४४ ॥ पापैर्युक्तेक्षिते धान्यं
 महर्वं जायतेऽखिलम् ॥ एवं मेपत्रिगे ग्रेष्मे विधी ज्ञेयं विच-
 क्षणेः ॥ २४५ ॥

अब संग्रहके समय लिखते हैं—धनु, मकर, कुंभके सूर्य शुभग्रहोंसे
 दृष्ट वा युक्त होंय तो शरत्कालका अन्न मन्दा होता है। भृंडसाल

करनेवालोंको ग्रहण करना चाहिये ॥२४६॥ और जो सूर्य पापग्रहोंसे युक्त वा दृष्ट होंय तो सब अन्नोंका भाव महँगा होजाताहै इसी प्रकार सेप, वृप, मिथुन राशिके चंद्रमासे ग्रीष्मकालके अन्नका विचार करेंऐसा पंडितोंको जानना चाहिये ॥ २४५ ॥

अथ संक्रांतिवशादर्शपौर्णमासयोरुत्पातादिवशाढान्यादीनां समर्धमहर्वताज्ञानम् ।

ग्रैष्मं सस्यं १ ततो मूलं २ रसधान्यं ३ घृतादिकम् ४ ॥
हेमाद्यं ५ तुरगो ६ वस्त्रं ७ मणिः ८ काचां ९ बु १०
धान्यकम् ११ ॥२४६॥ मूलं १२ चक्रमतो ज्ञेयं मेपाद्यके
खलेक्षिते॥दर्शे वा पूर्णिमायां चेदुपरागोतिवर्षणम् ॥२४७॥
परिवेपस्तथा देंड उल्कापाताद्युपद्रवाः ॥ जायंतेऽत्र तदा
तेपां वस्तुनां च महर्वता ॥ २४८ ॥ रवौ सौम्येक्षिते ज्ञेय
उत्पातोत्र समर्धता ॥

अब संक्रांतिके वशसे तथा दर्शे और पौर्णिमास्तियोंमें उत्पातादि वशसे धान्यादिकोंका समर्धताज्ञान लिखतेहैं—ग्रीष्मकालकी खेती १, मूल २, रसधान्य ३, घृतादिक ४, सुवर्णादिक ५, धोड़ा ६, वस्त्र ७, मणि ८, काच ९, जल १०, अन्न ११ ॥ २४६ ॥ मूल १२ ये वस्तुएँ क्रमसे मेपादिराशियोंके सूर्यको पापग्रह देखते होंय तो महँगी होजातीहैं, यदि अमावास्या वा पौर्णिमासीके दिन ग्रहण अथवा अतिवर्षा होय अथवा सूर्यचंद्रपर पारस वेंठे, दंडका उदय होय, उल्कापात होय इत्यादि उपद्रव होंय तो पूर्वोक्त वस्तुओंका भाव महँगा होजाताहै ॥ २४७ ॥ २४८ ॥ और सूर्यको शुभ-ग्रह देखते होंय तो उत्पात नहीं होताहै तथा अन्नका भाव मन्दा रहता है ॥

अथ वृक्षादौ पुष्पफलाद्यैर्धान्यादिनिष्पत्ति- वृष्टिज्ञानम् ।

वृक्षादौ वहुभिः पुष्पैर्महावृष्टिः प्रजायते ॥ यत्र स्वल्पतरा
वृष्टिर्द्वाराभिश्चेक्षवोधिकाः ॥ २४९ ॥ मधूकैर्बहुगोधूमा यवाः
स्युर्वटजैः फलैः ॥ सुभिक्षं नागर्निवैः स्याच्छालवृक्षैस्तु
शालयः ॥ २५० ॥ अश्वत्थादधिकं धान्यमर्जुनादधिकं
जलम् ॥ क्षेममासैश्च पालाशैः कोद्रवा जंबुतस्तिलाः ॥ २५१ ॥
दुर्भिक्षं खदिरे रोगाः कुटजैः पारिकीर्तिंताः ॥ २५२ ॥

अब वृक्षादिमें पुष्पफलादि करके धान्यादिनिष्पत्ति और वृष्टिज्ञान लिखते हैं—वृक्षादिकोंपर वहुत फूल आवैं तो महावर्षा होती है और थोड़े फूल आवैं तो थोड़ी वर्षा होती है और दूध वहुत पैदा होय तो ईख वहुत होती है ॥ २४९ ॥ और महुएपर वहुत फूल फल आवैं तो गेहूं अधिक होतेह और वड़के वृक्षपर वहुतसे फल लगें तो जौ अधिक होतेहैं और नागफनी वा नीवमें वहुत फल लग तो सुभिक्ष होताहै और सालक वृक्षपर वहुत फल लगें तो धान साठी अधिक होतेहैं ॥ २५० ॥ पीपलके वृक्षोंपर वहुत फूलफल आनेसे अन्न अधिक होताहै. अर्जुन वृक्षोंपर वहुत फूलफल आनेसे जल अधिक वर्षताहै. आम्रके वृक्षोंपर वहुत फूल फल आनेसे कल्याण अधिक रहता है, दाक फलें फलें तो कोदों अधिक होतेहैं. जामुन वहुत फूलै फलै तो तिल अधिक होतेहैं ॥ २५१ ॥ खेंके वृक्षपर वहुत फूलफल लगें तो दुर्भिक्ष होताहै और कुटैयाके वृक्षपर वहुत फलफूल आवैं तो रोग वहुत होतेहैं ॥ २५२ ॥

अथापाण्यां पोर्णमास्यां वायुपरीक्षा ।

आपाढे पूर्णिमायां च प्रदोपे वा दिवानिशम् ॥ प्राच्यां
वायोस्तु वृष्टिः स्याद्वान्यनिष्पत्तिरुत्तमा ॥ २५३ ॥ अल्प-

वृष्टिस्तथाऽग्नेययामग्नेर्भीतिर्महर्घता ॥ अनावृष्टिर्भवेद्याम्यां
प्रजापीडा महर्घता ॥ दुर्भिक्षं रौरवं घोरमनावृष्टिश्च नैऋत्य-
तौ ॥ २५४ ॥ वारुण्यां च महावृष्टिर्धान्योत्पत्तिस्तु मध्य-
मा ॥ वायौ वायुः प्रचंडः स्याद्वृष्टिर्धान्यं च मध्यमम् ॥ २५५ ॥
वहु धान्यं शुभा वृष्टिस्तरस्यां सुखी जनः ॥ ऐशान्यां
सस्यसंपत्तिर्धनाद्याः सुखिनो जनाः ॥ २५६ ॥

अब आपादकी पौर्णमासीमें वायुपरीक्षा लिखते हैं—आपादकी पौर्ण-
मासीके दिन प्रदोषके समय अथवा दिनमें वा रात्रिमें पूर्वका पवन
चलै तो वर्षा और धान्यकी उत्पत्ति उत्तम होती है ॥ १५३ ॥ और आगे-
यदिशाका पवन चलै तो थोड़ी वर्षा तथा भय और महँगाभाव रहता है
और दक्षिणका पवन चलै तो (अनावृष्टि) वर्षाका अभाव, प्रजाको
पीडा और महर्घता होती है और नैऋत्यका पवन चलै तो घोर दुर्भिक्ष
और भयंकर अनावृष्टि होती है ॥ २५४ ॥ और पश्चिमका पवन चलै
तो महावृष्टि तथा अन्नकी उपज मध्यम होती है और वायव्यका
प्रचंड पवन चलै तो वर्षा तथा मध्यम अन्न होता है ॥ २५५ ॥ उत्त-
रका पवन चलै तो बहुत अन्न, अच्छी वर्षा होती है और मनुष्य
सुखी रहते हैं और ईशानका पवन चलै तो खेतीकी संपत्ति और
मनुष्य धनाद्य तथा सुखी रहते हैं ॥ २५६ ॥

अथापादयां धान्यादितोलनम् ।

आपादयां सर्वधान्यानि संध्यायां च पृथक्पृथक् ॥ तोलये-
द्वर्णमानेन जलादीनपि सर्वशः ॥ २५७ ॥ मंत्रैस्ततोऽभिमं-
त्र्याथ निशि तानविवासयेत् ॥ तोलयेच पुनः प्रातस्तेन
मानेन देववित् ॥ २५८ ॥ वृद्धो वृद्धिः समे साम्यं हासे
हानिस्तु तस्य च ॥ २५९ ॥

अब आपादकी पूर्णमासीमें धान्यादितोलन लिखते हैं—आपादकी
पौर्णमासीको सांयंकालमें सब अन्नोंको तथा जल आदि सब वस्तु-

ओंको अलग अलग वर्णमानसे तोलै और फिर उन सब अन्नादि वस्तुओंको मंत्रोंसे अभिमन्त्रित करके रातभर धरे रहनेदेय प्रातः काल होतेही ज्योतिषीपंडित उसी तोलसे उन सब वस्तुओंको फिर तोलै जो अन्न तोलमें घटजाय उसकी वृद्धि और जो समान रहे उसकी समता और जो घटजाय उसकी हानि होतीहै ऐसा जानै ॥ २५७ ॥ २५८ ॥ २५९ ॥

अथ होलिकावातपरीक्षा ।

होलिकासमये वायो पूर्वे भूपनृणां सुखम् ॥ याम्यनैर्झत्य-
दिग्भागे दुर्भिक्षं च पलायनम् ॥ २६० ॥ प्रतीच्यासुतरे
शैवे सुभिक्षं स्यात्प्रजासुखम् ॥ अग्नेभीतिरथाग्नेव्यां वा-
यव्यां वहवोऽनिलाः ॥ २६१ ॥

अब होलिकावातपरीक्षा लिखते हैं—होली जलानके समय पूर्वका पवन चलै तो राजा और प्रजाको सुख होता है और दक्षिण वा नैर्झत्य दिशाका पवन चलै तो दुर्भिक्ष तथा (पलायन) भागना होता है ॥ २६० ॥ और पश्चिम उत्तर वा ईशानका पवन चलै तो सुभिक्ष तथा प्रजाको सुख होता है और अग्निकोणका पवन चलै तो अग्निका भय और वायव्यका पवन चलै तो बहुत पवन चलता है ॥ २६१ ॥

अथ वृष्टिज्ञानार्थं मेघगर्भज्ञानम् ।

मार्गे शुक्लादितो ज्ञेयो मेघगर्भसमुद्गवः ॥ तुहिनात्परिधेवृ-
ष्ट्या संध्यारागात्तथापि वा ॥ २६२ ॥ पौपेऽतिशीततो माघे
संध्याभ्रादनिलादपि ॥ फालगुने ताव्रवर्णाऽर्कात्स्नग्धा-
भ्राङ्गा खरानिलात् ॥ चैत्रे तु परिधेवृष्ट्या वायुना वात्रे-
खया ॥ २६३ ॥

अब वृष्टिज्ञानार्थ मेघगर्भज्ञान लिखते हैं—मार्गशीर्षमासके शुक्र-पक्षसे लेकर मेघगर्भकी उत्पत्ति तुपारसे, पारस वैठनेसे, वर्षासे, संध्याके रंगसे जाननी चाहिये ॥ २६२ ॥ और पौषमें अतिशीत पड़नेसे, माघमें संध्यासमयके वादलोंसे, पवनसे; फालगुनमें ताम्र-वर्णके सूर्यसे, चिकने वादलोंसे, तीक्ष्ण पवनसे; चैत्रमें सूर्यचंद्रमा-पर पारस वैठनेसे, वर्षासे, पवनसे, वादलोंकी रेखासे मेघगर्भकी उत्पत्ति जानै ॥ २६३ ॥

अथ केषांचिन्मतांतरम् ।

केचिन्मार्गादिमासेषु प्रोक्तुर्गर्भस्य लक्षणम् ॥

गर्जनात्पवनात्तोयवर्पणाद्विद्युतोऽथवा ॥ २६४ ॥

अब किसीका मतान्तर लिखते हैं—किन्हीं आचार्योंने ऐसा कहा है कि, मार्गादि मासोंमें गर्जनेसे वा पवनसे वा जल वर्षनेसे वा विजली चमकनेसे मेघगर्भका लक्षण होता है ॥ २६४ ॥

अथ शुभगर्भलक्षणानि ।

- श्वेतनीलांडजाऽध्राये न चातिविगलजलाः ॥ शस्तगर्भाच्च-
ते मेघा उद्गीशानपूर्वजाः ॥ २६५ ॥ पुष्टि प्रयांति
ते गर्भा विद्युद्वातात्रगर्जितेः ॥ भाद्रापादाद्योत्पन्ना विशा-
खोत्था वहूदकाः ॥ २६६ ॥

अब शुभगर्भलक्षण लिखते हैं—सफेद तथा नीले रंगके पक्षीके समान वादल होय जिनमेंसे अतिजल न वर्षता होय अथवा उत्तर, ईशान, पूर्वदिशामें वादल होंय तो शुभगर्भ होते हैं ॥ २६५ ॥ और वे गर्भ पुष्टिको प्राप्त होते हैं. जिनमें विजली, पवन, वादलोंकी गर्जन होती होय और भाद्रपद तथा आपाद इन दो महीनों अथवा विशाखा नक्षत्रमें उत्पन्न हुए गर्भ वहुत जल वर्षते हैं ॥ २६६ ॥

अथ गर्भधारणदिनाहृष्टिज्ञानम् ।

वृष्टिर्गर्भाहमारभ्य पक्षैर्विश्वमिते १३ र्भवेत् ॥

रात्रिगर्भे दिवा वृष्टिर्दिवागर्भे निशि स्मृता ॥ २६७ ॥

अब गर्भधारणदिनसे वृष्टिज्ञान लिखते हैं—गर्भदिनसे लेकर तेरहवें पक्षमें वर्षा होती है। जो गर्भ रात्रिमें रहा होय तो दिनमें वर्षा होती है और यदि दिनमें रहा होय तो रात्रिमें वर्षा होती है॥२६७॥

अथ प्रकारांतरेण गर्भाहाहृष्टिज्ञानम् ।

आरभ्यैकादशीं कृष्णां शुक्लादो माघमासके ॥ द्वादशस्वपि वसेपु विद्युद्राताऽप्रगर्जिते ॥ रोहिण्यादिपु सूर्यस्य भेषु वृष्टिर्भवेत्कमात् ॥ २६८ ॥

अब प्रकारान्तरसे गर्भदिनसे वृष्टिज्ञान लिखते हैं—माघमासमें कृष्णपक्षकी एकादशीसे लेकर शुक्लपक्षकी सप्तमीतक वारहदिनके भीतर जिसरोज विजली चमकै, पवन चलै, वाइल गर्जे तो सूर्यके रोहिण्यादिक वारह नक्षत्रोंमें क्रमसे वर्षा होती है॥२६८॥

अथ पुनरन्यप्रकारेण मेघगर्भज्ञानं वृष्टिज्ञानं च ।

मूलक्षें भास्करे याते तदाऽरभ्य दशाहकम् ॥ विद्युद्भ्रादिना गर्भो यवयत्र दिने भवेत् ॥ क्रमाद्वार्द्धादिनक्षत्रे भानौ वृष्टिः प्रजापते ॥ २६९ ॥

अब फिर अन्यप्रकारसे मेघगर्भज्ञान और वृष्टिज्ञान लिखते हैं—सूर्य जब मूल नक्षत्रपर जावें तबसे लेकर दश १० दिनके भीतर जिसकिसीदिन विजली चमकै, मेघ गर्जे, पवन चले तो क्रमसे सूर्यके आद्वादि दश नक्षत्रोंमें वर्षा होती है॥२६९॥

अथ प्रकारांतरम् ।

मूलभाद्वरणीं यावद्देषु चैकादशस्वपि ॥ पौषे मासि दिन-क्षेषु गर्भस्त्वभ्रादिना भवेत् ॥ २७० ॥ तत आद्वादिगे सूर्ये क्रमाहृष्टिः प्रजापते ॥ २७१ ॥

अब प्रकारान्तर लिखते हैं—पौषमासमें मूलनक्षत्रसे लेकर भरणीतक ग्यारह नक्षत्रोंमें वादल, विजली, पवन आदिसे गर्भ रहे तो ॥ २७० ॥ क्रमसे सूर्यके आद्रादि एकादश नक्षत्रोंमें वर्षा होती है ॥ २७१ ॥

पुनः प्रकारांतरम् ।

अश्विन्यादिषु धिष्णयेषु चैत्रे दशसु चेद्गवेत् ॥ अन्नादिकं तदा गर्भ आद्रादौ वृष्टिदः क्रमात् ॥ मेषार्कदिनमारम्भ्य ज्येष्ठमेवमथापि वा ॥ २७२ ॥

फिर प्रकारान्तर लिखते हैं—चैत्रके महीनेमें अश्विन्यादि दश नक्षत्रोंमें मेघादिकरके गर्भ रहे तो वर्षाके आद्रादि दश नक्षत्रोंमें क्रमसे वर्षा होती है। इसी प्रकार मेषके सूर्यकी संक्रान्तिके दिनसे लेकर दशादिनके भीतर जिसदिन गर्भ रहे आद्रादि दश नक्षत्रोंमें क्रमसे उसी नक्षत्रमें वर्षा होती है ॥ २७२ ॥

अथ सामान्यतोवृष्टिज्ञानम् ।

यदि साख्रं नभोऽमायां सुभिक्षं च भवेद्गवम् ॥ यद्यत्रं दृश्यते व्योम्नि चैकादश्यां तु कार्त्तिके ॥ २७३ ॥ आपादे मासि दृष्टिः स्यात्तदा भवति भूयसी ॥ मार्गाष्टम्यां यदा विद्युद्गर्पणं श्रावणे तदा ॥ २७४ ॥ पौषे कृष्णे दशम्यां चेद्गविभाद्रपदे तथा ॥ सतम्यां माघशुक्ले स्याद्गवेद्मादिकं यदा ॥ २७५ ॥ ज्येष्ठे मूले न चेद्गविः सुवृष्टिर्वहुला तदा ॥ २७६ ॥

अब सामान्य वृष्टिज्ञान लिखते हैं—यदि अमावास्याके दिन आकाशमें वादल होंय तो निश्चयही सुभिक्ष होता है और कार्त्तिकमासकी एकादशीके दिन आकाशमें वादल दीखें तो ॥ २७३ ॥ आपाद मासमें बहुत वर्षा होताह. यदि मार्गशीर्षकी अष्टमीके दिन

विजली चमकै तो श्रावणमें वर्षा होतीहै ॥ २७४ ॥ यदि पौषकृष्ण-
पक्ष दशमीके दिन वादल वा वर्षा होय तो भाद्रपदमें वर्षा होती
है और यदि माघशुक्लपक्षकी सप्तमीके दिन वादल विजली आदि
होय ॥ २७५ ॥ और ज्येष्ठके महीनेमें मूलनक्षत्रके दिन वर्षा न होय
तो वहुत वर्षा होतीहै ॥ २७६ ॥

अथ ज्येष्ठशुक्लाष्टम्यादिदिनचतुष्टये वायुफलम् ।

ज्येष्ठशुक्लाष्टम्यास्तु शुक्लायाश्चतुर्षु दिवसेषु च ॥
श्रावणादौ क्रमाद्वृष्टिमदैः शस्तैः समीरणैः ॥ २७७ ॥

अब ज्येष्ठशुक्लाष्टम्यादि दिनचतुष्टयमें वायुफल लिखते हैं—ज्येष्ठ
मासकी शुक्लाष्टमीसे लेकर चारदिनके भीतर किसीदिन मन्द पवन
चले तो क्रमसे श्रावणादिक चार महीनोंमें वर्षा होतीहै ॥ २७७ ॥

अथ स्वात्यादिषु वृष्टौ श्रावणादावनावृष्टिः ।

ज्येष्ठे चतुर्षु धिष्ण्येषु स्वातीमारभ्य वर्षणे ॥

क्रमान्वयावणतो वृष्टिनों भवेत्ततत्र च ॥ २७८ ॥

अब स्वात्यादिमें वृष्टि होनेसे श्रावणादिमें अनावृष्टि लिखते हैं—
ज्येष्ठ मासमें स्वात्यादि चार नक्षत्रोंमें किसी दिन वर्षे तो क्रमसे
श्रावणादि चारमहीनोंके भीतर उसीसंख्याके महीनेमें वर्षा नहीं
होतीहै ॥ २७८ ॥

आथापाद्वितीयादिषु चतुर्षु फलम् ।

आपादे मासि शुक्लायां द्वितीयायां प्रवर्षणे ॥ तृतीयायां
पुरो वायुमें वा पूर्वदिग्गतः ॥ २७९ ॥ चतुर्थ्यां जलदः
प्राच्यां दक्षिणो यदि मारुतः ॥ पंचम्यां पूर्वदिद्व्यमेवत्तदा
श्रावणमासतः ॥ २८० ॥ ध्रुवं वृष्टिः शुभा ज्येष्ठा क्रमान्मा-
सचतुष्टये ॥ चतुर्ष्वेषु दिनेष्वेव यदि वृष्टिर्निरंतरम् ॥ २८१ ॥

तदा स्यादतिवृष्टिश्च धान्यनाशः प्रजायते ॥ याम्यप्रत्यग्भवे वायौ व्यहं दुर्भिक्षमीरितम् ॥ २८२ ॥ तृतीयापंचमी-घसे यद्युद्धपूर्वजो मरुत् ॥ तदा स्याद्वान्यनिष्पत्तिर्वहुला वृष्टिरुत्तमा ॥ २८३ ॥

अब आपादशुकुद्वितीयादि चारतिथिमें फल लिखतेहैं—यदि आपादमासमें शुकुपक्षकी द्वितीयाके दिन वर्षा होय, तृतीयाके दिन पूर्वका पवन चले अथवा पूर्वदिशामें वादल होय ॥ २७९ ॥ चतुर्थीके दिन पूर्वदिशामें वादल होय, दक्षिणका पवन चले और पंचमीके दिन पूर्वदिशामें वादल होय तो श्रावणादिक चार महीनोंमें ॥ २८० ॥ क्रमसे निश्चयही बहुत अच्छी वर्षा होतीहै और यदि इन द्वितीयादिक चार दिनोंमें लगातार वर्षा होय तो ॥ २८१ ॥ श्रावणादि चारों महीनोंमें अतिवृष्टि और धान्यका नाश होताहै अथवा पूर्वोक्त दो दिन दक्षिण वा पश्चिमका पवन चले तो दुर्भिक्ष होताहै ॥ २८२ ॥ यदि तृतीया वा पंचमीके दिन उत्तर वा पूर्व दिशाका पवन चले तो बहुत अन्नकी उपज और अच्छी वर्षा होतीहै ॥ २८३ ॥

अथ श्रावणशुकुपंचमीफलम् ।

पंचम्याः श्रावणे शुकु व्यहे वृष्टिर्भवेद्यदि ॥

याम्यप्रत्यग्भवो वायुदुर्भिक्षं जायते तदा ॥ २८४ ॥

अब श्रावणशुकुपंचमीका फल लिखतेहैं—यदि श्रावणशुकुपंचमीसे लेकर दोदिनके भीतर वर्षा होय और दक्षिण वा पश्चिम दिशाका पवन चले तो दुर्भिक्ष होताहै ॥ २८४ ॥

अथ सूर्यस्य रेवत्यादिषु नक्षत्रेषु वृष्टेः फलम् ।

रेवत्यां वर्षणे तापं नश्येद्वान्यमथाश्विभे ॥ भरण्यां तद्वयं वृष्टिः कृत्तिकायां न चेद्रविः ॥ २८५ ॥ रोहिण्यां गर्जिते

वृष्टिज्ञेया मासद्वयोत्तरम् ॥ मृगशीर्षे यदा न स्याद्वेद्वृष्टि-
वृहृदका ॥ २८६ ॥

अब सूर्यके रेवत्यादि नक्षत्रमें रहते वृष्टिका फल लिखते हैं—यदि सूर्यके रेवती नक्षत्रमें वर्षा होय तो ताप और अश्विनी नक्षत्रम वर्षा होय तो अन्नका नाश और भरणी नक्षत्रमें वर्षा होय तो (द्वयम्) ताप तथा अन्नका नाश होता है और जो कृत्तिका नक्षत्रमें वर्षा न होय तो वर्षाकालमें वर्षा होती है ॥ २८५ ॥ और रोहिणी नक्षत्रमें वादल गंजे तो दो महीने पीछे वर्षा होती है और यदि मृगशीर्षमें वर्षा नहीं होय तो वर्षाकालमें बहुत जलकी वर्षा होती है ॥ २८६ ॥

अथ संक्रातिदिने वृष्टिफलम् ।

संक्रांतिदिवसे वृष्टौ मार्गकार्त्तिकयोर्यदा ॥ वर्षं तन्मध्यमं ज्येयं पौर्णे माघे तु चोत्तमम् ॥ २८७ ॥ सुभिक्षं च शुभा वृष्टिः फालगुनादिचतुष्टये ॥ रोगश्चापाठमासे स्याच्छ्रावणे वृष्टिरुत्तमा ॥ २८८ ॥ भाद्रे रोगस्तथा सौख्यमाश्विने वर्षणं भवेत् ॥ २८९ ॥

अब संक्रातिदिनमें वृष्टिफल लिखते हैं—मार्गशीर्ष और कार्त्तिक मासकी संक्रातिके दिन वर्षा होय तो मध्यम वर्षा होती है । पौर्ण और माघमासमें संक्रान्तिके दिन वर्षा होय तो उत्तम वर्षा होती है ॥ २८७ ॥ और फालगुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ मासमें संक्रांतिके दिन वर्षा होय तो सुभिक्ष तथा शुभवृष्टि होती है । आपाठमासमें संक्रातिके दिन वर्षे तो उत्तम वर्षा होती है ॥ २८८ ॥ भाद्रपदमें संक्रांतिके दिन वर्षे तो रोग और आश्विन मासमें संक्रातिके दिन वर्षा होय तो सौख्य होता है ॥ २८९ ॥

अथ काकनीडफलम् ।

सदृशे काकनीडं स्यात्प्रतीच्यां वृष्टिरुत्तमा ॥ उदगयाम्ये
भयं मध्ये नैर्कृतावंतिमा स्मृता ॥ २९० ॥ अल्पवृष्टिरथा-
येच्यां सदन्नं स्याच्छिवेनिले ॥ मध्ये मध्याय वृक्षाश्च वहुला
वृष्टिरिता ॥ २९१ ॥ ईतिभीतिर्महाघोरा नीडे सर्वदिशां
गते ॥ नीडे सकंटके भीती रसानां जायते ध्रुवम् ॥ २९२ ॥
प्राणुदक्षपथिमार्द्धस्य सुवृष्टिः केश्विदीरिता ॥

अब काकनीडफल लिखतेहैं—यदि शुभ वृक्षपर कौएका धोंसला
पश्चिम दिशामें होय तो वर्षा उत्तम होतीहै और उत्तर वा दक्षिण
दिशामें होय तो भय होताहै और वृक्षके मध्यमें वा नैर्कृत्यमें धों
सला होय तो वर्षाकालके अन्तपर वर्षा होतीहै ॥ २९० ॥ और
आग्नेय दिशामें काकनीड होय तो अल्प वर्षा होतीहै और ईशान
वा वायव्यमें होय तो अन्न अच्छा होताहै और वृक्षके मध्यमें होय
तो मध्यम वर्षा होतीहै और वृक्षके अग्र भागमें होय तो बहुत वर्षा
होतीहै ॥ २९१ ॥ और सब दिशाओंमें कौओंके धोंसले हॉय तो
संहारधोर ईतिक्षा भय होताहै और कँटोंसहित धोंसला होय तो
रसोंके लिये भय होताहै ॥ २९२ ॥ किन्हीं आचारोंने ऐसा कहाहै
कि, पूर्व, उत्तर, पश्चिम दिशाओंके अर्द्धभागमें काकनीड होय तो
अच्छी वर्षा होतीहै ॥

अथ टिड्डिभांडफलम् ।

स्थितेपूज्यप्रदेशेषु टिड्डिभांडेषु चोत्तमा ॥ वृष्टिः संजायते
मासेरयोवक्रांडसंख्यके: ॥ २९३ ॥ निमग्रदेशसंस्थेषु स्वल्पा
वृष्टिः प्रजायते ॥ वृष्टिर्व भवन्मासे चोर्ध्वेवक्रांडसं-
ख्यके ॥ २९४ ॥

अब टिटिमांडफल लिखतेहैं—टिटहटी ऊँचे स्थानपर अण्डे धरें तो उत्तम वर्षा होतीहै और जितने अंडोंके मुख नीचेको होंय उतने महीनोंमें वर्षा होतीहै ॥ २९३ ॥ और नीचे स्थानमें टिटहरी अण्डे धरें तो थोड़ी वर्षा होतीहै और उन अण्डोंमें जितने अंडोंके मुख ऊँचूँको होंय उतने महीनोंमें वर्षा नहीं होतीहै ॥ २९४ ॥

अथ रोहिणीचक्रम् ।

द्वादशांशं लिखेचक्रं मेषसंक्रान्तिभादितः ॥ चतुर्दिक्षु समुद्राश्च
चतुष्कोणेषु पर्वताः ॥ २९५ ॥ समुद्रपार्श्योरप्तौ तटस्तच्छै-
ल्योस्तथा ॥ मध्येष्टौ संध्यस्तत्र साभिजिङ्गणं न्यसेत्
॥ २९६ ॥ द्वयंद्वयं समुद्रेषु तथैकैकं तटादिषु ॥ रोहिणी
संस्थिता यत्र ज्ञेयं वृष्टिफलं ततः ॥ २९७ ॥ तटेषु शोभना
वृष्टिर्महावृष्टिस्तु सागरे ॥ अनावृष्टिर्गिरी देशे खंडवृष्टि-
स्तुं संविषु ॥ २९८ ॥

अब रोहिणी चक्र लिखतेहैं—वारह कोठोंका रोहिणीचक्र लिखै और उसचक्रमें मेषकी संक्रान्ति लगनेके दिन जौनसा नक्षत्र होय उससे लेकर अट्टाईस नक्षत्र भरदेवे चारों दिशाओंमें समुद्र बनावै, चारों कोणोंमें पर्वत लिखै और समुद्रके दोनों करवटोंमें आठ तट बनावै तथा तट और पर्वतोंके बीचमें आठ संधि बनावै ॥ २९५ ॥ २९६ ॥ इस चक्रमें अभिजित्सहित अट्टाईस नक्षत्र इस प्रकारसे रखवे कि, दोदो नक्षत्र समुद्रोंमें और एकएक नक्षत्र तटादिकोंमें लिखै जहाँ रोहिणी नक्षत्र पढ़ै उसी स्थानसे वर्षाका फल जानै ॥ २९७ ॥ तटमें रोहिणी पढ़ै तो शोभन वृष्टि और समुद्रमें पढ़ै तो महावृष्टि और पर्वतमें पढ़ै तो अनावृष्टि, संधियोंमें पढ़ै तो खंडवृष्टि होतीहै ॥ २९८ ॥

संघि रोहिणी नारायण वृत्त आर्जु गाय	तट कु	समुद्र अ भ	तट रेवती	संघि प्रांगण सूर्य महाल लक्ष्मी चंद्र
पुनर्वृ तट				
समुद्र अभिजित् श्रवण	३.थ रोहिणीचक्रम् ।		समुद्र पुण्य जाग्रेरा	
तट उत्तरायां			माघा तट	
संघि प्रांगण सूर्य महाल लक्ष्मी चंद्र	अनुरा धा तट	समुद्र स्वाति विशाङ्का	चि न्ना तट	उत्तराया द्विसंका हृष्ट लक्ष्मी पात

अथ सप्तनाडीचक्रम् ।

कृतिकादिलिखेचक्रं साभिजित्सप्तनाडिकम् ॥ चंडा १
वायु २ स्तथा वह्निः ३ सौम्या ४ नीरा ५ जला ६ अमृता
७ ॥२९९॥ नौडीनां सप्त नामानि ज्ञेयान्येतानि पंडितेः ॥
क्रमान्मंदार्कभौमेज्यशुक्रज्ञावजास्तदीश्वराः ॥ ३०० ॥

अब सप्तनाडीचक्र लिखतेहे—कृतिकांसे लेकर अभिजित्समेत
अद्वाईस नक्षत्रोंका सप्तनाडी चक्र लिखे. चंडा १, वायु २, आग्नि ३,
सौम्या ४, नीरा ५, जला ६, अमृता ७ ॥२९९॥ नाडियोंके ये सात
नाम हैं; यह पंडितोंको जानलेने चाहिये. इन सातों नाडियोंके
क्रमसे शनैश्वर १, सूर्य २, महाल ३, वृहस्पति ४, शुक्र ५, शुध ६,
चन्द्रमा ७ स्वामीहैं ॥ ३०० ॥

अथ तदेव स्पष्टयति ।

चंडाख्या भरणीद्विंद्रं विशाखाद्वितयं शनेः ॥ ज्येष्ठाऽश्विरो-
हिणीस्वात्यो वायुनाडी रवेः स्मृता ॥ ३०१ ॥ चित्रा
मूलो मृगोत्यं च दहनाख्या कुजस्य च ॥ पूर्वापादा करो
भाद्रा सौम्यां नाडी वृहस्पतेः ॥ ३०२ ॥ पूर्भोपा च पुन-
र्धिष्ण्यमुफा नीरा भृगोः स्मृता ॥ पूर्भाशत्राभिजित्पुष्यं
जलनाडी वुधस्य सा ॥ ३०३ ॥ श्रवोद्रव्यं मघाऽश्लेषा
चेंदोरस्मृतनाडिका ॥

अब उसीको स्पष्टकरके लिखतेहैं—भरणी, कृत्तिका, विशाखा,
अनुराधा ये नक्षत्र चण्डनाडीके हैं; इनका स्वामी शनैश्चरहै.
ज्येष्ठा, अश्विनी, रोहिणी, स्वाती ये नक्षत्र सूर्यकी वायुनाडीके हैं
॥ ३०१ ॥ चित्रा, मूल, मृगशिर, रेवती ये नक्षत्र मङ्गलकी अग्नि-
नाडीके हैं. पूर्वापादा, हस्त, उत्तराभाद्रपद, आर्द्रा ये नक्षत्र वृह-
स्पतिकी सौम्यनाडीके हैं ॥ ३०२ ॥ पूर्वाभाद्रपद, उत्तरापादा, पुन-
र्वसू, उत्तराफाल्गुनी ये नक्षत्र शुक्रकी नीर नाडीके हैं. पूर्वाफाल्गुनी,
शतभिपा, अभिजित्, पुष्य ये नक्षत्र वुधकी जलनाडीके हैं ॥ ३०३ ॥
श्रवण, धनिष्ठा, मघा, आश्लेषा ये नक्षत्र चन्द्रमाकी असृत
नाडीके हैं ॥

अथेतासु ग्रहेषु संस्थितेषु फलम् ।

व्याद्या यद्येकनाडीस्थाः सौम्याः पापाश्च खेचराः ॥ तेभ्यो
नाडीफलं वाच्यं सदसद्वा विचक्षणैः ॥ ३०४ ॥ चंडना-
डचां महावातान्वातनाडचां तथाऽनिलम् ॥ वह्निनाडचां
स्थिता दाहं सौम्यनाडचामथोदकम् ॥ ३०५ ॥ नीरनाडचां
पयोवृष्टिर्जलनाडचां च वर्षणम् ॥ कुवंत्यस्मृतनाडचां च महा-
वृष्टिं नभश्चराः ॥ ३०६ ॥ एकोपि निजनाडीस्थो धते

तत्तत्फलं ग्रहः ॥ कुजस्तु सर्वनाडीषु स्थितो नाडीसमुद्र-
वम् ॥ ३०७ ॥ आद्र्द्वयर्कगते सूर्ये नाड्यैक्ये फलमुच्यते ॥
यदिने चैकनाडीस्थाः पापाः सौम्याश्च खेचराः ॥ ३०८ ॥
मिश्राचंद्रमसायुक्तास्तदिने वृष्टिरुक्तमा ॥ तोयराश्यांशगा-
मिश्रा तावद्वृष्टिं प्रकुर्वते ॥ ३०९ ॥ यावत्तोयांशगच्छंद्रः
केवलाः स्वल्पवृष्टिदाः ॥ एमिश्र खेचरैः सौम्यैः पापैवद्वृष्टो
यदा शशी ॥ ३१० ॥ पानीयं च तदा तुच्छं धान्यादीनां
च नाशनम् ॥ यस्य खेटस्य नाडीस्थो विधुस्तेन ग्रहेण
च ॥ ३११ ॥ युक्तश्चेद्वृष्टिदो ज्ञेयो यदि क्षीणतरो न हि
॥ चंद्रः पीयूपनाडीस्थो मिश्रैः खेटैश्च संयुतः ॥ ३१२ ॥
विचतुः सप्तपञ्चाहं शुभवृष्टिप्रदो भवेत् ॥ जलनाडीस्थिते
चंद्रे मित्रखेचरसंयुते ॥ ३१३ ॥ दिनाद्व प्रत्यहं वृष्टिः पञ्चाहं
जायते शुभा ॥ नीरनाडीयां गते चंद्रे मिश्रैः खेटैश्च संयुतः
॥ ३१४ ॥ पादोनविदिनं वृष्टिर्वहुतोया भवेच्छुभा ॥
नीराख्यजलपीयूपनाडीस्थाः खेचराः क्रमात् ॥ ३१५ ॥
धृत्य १८ के १२ रस ६ संख्याकान्वासरान्वहुवृष्टिदाः ॥
सौम्यनाडीस्थिताः सर्वे त्यहं वृष्टिप्रदाः खगाः ॥ चंद्रवाच्च-
मिनाडीस्था महावातातप्रदाः ॥ ३१६ ॥ योगे शुभा-
धिके नाडी निर्जलाऽपि जलप्रदा ॥ योगे क्राराधिके ज्ञेया
सजला निर्जला बुधैः ॥ ३१७ ॥ सौम्यनाडीयां स्थिताः
पापा अनावृष्टिकरा मताः ॥ शुभास्तोयांशकश्चेत्स्युः
स्वल्पवृष्टिप्रदास्तदा ॥ ३१८ ॥ एकनाडीस्थिता भौमजी-
वचंद्रमसो यदि ॥ वारिपूर्णा भवेत्पृथ्वी वहुवृष्टया तदाऽ-
खिला ॥ ३१९ ॥ भृगुसौम्यौ यदैकत्र स्यातां जीवान्वितौ
तदा ॥ वृष्टिः स्याद्वलाकस्माचंद्रयोगे विशेषतः ॥ ३२० ॥

भृगुचंद्रमसौ पापैः खेचरैर्यदि संयुतौ ॥ तदा स्वल्पोदका
वृष्टिर्जलयोगे महत्यपि ॥ ३२१ ॥

अब इसमें स्थित ग्रहका फल लिखतेहैं—जब दो आदि अर्थात्
दोसे लेकर अधिक शुभग्रह वा पापग्रह एकनाडीमें स्थित होंय
तब पण्डितोंको चाहिये कि, नाडीका शुभाशुभ फल विचारें, यदि
पापग्रह अधिक होंय तो अशुभ और सौम्यग्रह अधिक होंय तो शुभ
फल पण्डितोंने कहा है ॥ ३०४ ॥ चंडनाडीमें सब ग्रह होंय तो
महापवन चलै और वायुनाडीमें सब ग्रह स्थित होंय तोभी पवन
चलता है और अग्निनाडीमें सब ग्रह होंय तो दाह होताहै और
सौम्यनाडीमें सब ग्रह होंय तो जल वर्षताहै ॥ ३०५ ॥ और नीर
नाडीमें होंय तोभी जलकी वर्षा होतीहै और जलनाडीमें होंय तोभी
जल वर्षताहै और अमृतनाडीमें सब ग्रह होंय तो महावर्षा होतीहै
॥ ३०६ ॥ और अपनी नाडीमें वैठाहुआ अकेला ग्रहभी उसी
नाडीका फल देताहै और मंगल तो सब नाडियोंमें वैठकर उसी २
नाडीका फल देताहै ॥ ३०७ ॥ और जब आर्द्धादि नक्षत्रोंपर सूर्य होंय
तब एक उसी नाडीका फल होताहै और जिस दिन पापग्रह अथवा
शुभग्रह वा दोनों मिले जुले ग्रह चंद्रमासे युक्त होंय तो उत्तम वर्षा
होतीहै और मिश्रग्रह जबतक जलराशियोंके नवांशोंमें रहें तबतक
वर्षा करते हैं ॥ ३०८ ॥ ३०९ ॥ और जबतक जलराशिके नवांशमें
अकेला चंद्रमाही रहे तो थोड़ी वर्षा होतीहै और जो इन पाप तथा
शुभग्रहोंसे चन्द्रमा विद्ध होय तो ॥ ३१० ॥ बहुत थोड़ा जल वर्षता
है और अद्वका नाश होताहै और जिस ग्रहकी नाडीमें चन्द्रमा
स्थित होय और उसी ग्रहसे युक्त होय तो ॥ ३११ ॥ वृष्टिदायक
होताहै और क्षीणचन्द्रमा होय तो वर्षा नहीं होतीहै, चन्द्रमा अमृत
नाडीमें स्थित होकर मिश्रग्रहोंसे संयुक्त होय तो ॥ ३१२ ॥ तीन,

चार, पांच, सात दिनतक वहुत अच्छी वर्षा करता है और मिश्र-
ग्रहोंसे संयुक्त चन्द्रमा जलनाडीमें स्थित होय ॥ ३१३ ॥ तो
पांच दिनतक हररोज दोदो प्रहर अच्छी वर्षा होती है और
मिश्र ग्रहोंसे संयुक्त चन्द्रमा नीरनाडीमें स्थित होय तो
॥ ३१४ ॥ तीन दिनतक प्रतिदिन दिनके तीन भागोंमें
खूब वर्षा होतीहै. यदि सब ग्रह नीर, वा जल, वा अमृत नाडीमें
स्थित होंय तो क्रमसे ॥ ३१५ ॥ अठारह, वारह, छह दिनतक वहुत
वर्षा करतेहैं और यदि सब ग्रह सौम्यनाडीमें स्थित होंय तो तीन
दिन वर्षा करतेहैं और चंड अथवा वायु वा अग्नि नाडीमें सबग्रह
होंय तो महापवन चलताहै और धाम तेज पड़तीहै ॥ ३१६ ॥ जिस
नाडीमें शुभग्रह अधिक होंय वह निर्जलनाडीभी जलदायिनी होतीहै
और जिस नाडीमें क्रूरग्रह अधिक होंय वह सजलनाडीभी निर्जल
होजातीहै ऐसा पंडितोंने कहाहै ॥ ३१७ ॥ यदि सौम्यनाडीमें पाप-
ग्रह स्थित होंय तो अनावृष्टि होतीहै और शुभग्रह जलराशिके
नवांशकमें होंय तो स्वल्पवृष्टि होतीहै ॥ ३१८ ॥ यदि एकनाडीमें
मंगल, वृहस्पति, चंद्रमा स्थित होंय तो वहुत वर्षा होनेसे समस्त
पृथ्वी जलसे पूर्ण होजातीहै ॥ ३१९ ॥ यदि शुक्र, बुध, वृहस्पति
एक नाडीमें स्थित होंय तो अचानक वहुत वर्षा होतीहै और जो
चंद्रमा इन्हीं ग्रहोंके साथ होय तो विशेष वर्षा होतीहै ॥ ३२० ॥
यदि शुक्र, चंद्रमा पापग्रहोंसे संयुक्त होंय तो थोड़ी वर्षा होतीहै
और यही ग्रह (जलयोग) जलराशिमें होंय तो महती वर्षा
होतीहै ॥ ३२१ ॥

अथ शुक्रस्थितिवशाद्ग्रहयोगवशाच्च वृष्टिज्ञानम् ।
मघादिपंचविष्णवस्थः शुक्रः प्रागुदितोनिशम् ॥ ३२२ ॥
वृष्टिकृत्पञ्चमाशास्थः स्वात्यादित्रितये स्थितः ॥ वैपरी-

त्यमितो यातो भृगुः कुर्यादवर्षणम् ॥ ३२३ ॥ कुर्विते
बहुलां वृष्टिं बुधशुक्रौ च संयुतौ ॥ समुद्रशोपणे शक्तस्त-
योरंतर्गतो रविः ॥ ३२४ ॥ शुक्रात्सप्तमगच्छ्रद्धो वृष्टिदः
स्थाच्छुभेदितः ॥ मंदाद्वा वून ७ कोणस्थ ५ । ९ चंद्रमा
वृष्टिकृतदा ॥ ३२५ ॥ ग्रहाणामुदये चास्ते राश्यंतरगमेऽयने ॥
संयोगे वाऽथ पक्षांते प्रायो वृष्टिः प्रजायते ॥ ३२६ ॥
उदये वाक्पतेर्वृष्टी राशिभांतरगे कुजे ॥ शुक्रे चास्तमिते
मंडे त्रिविधेऽपि प्रजायते ॥ ३२७ ॥ भौमार्की एकराशौ चेद-
न्योन्यं समसप्तगौ ॥ गुरुशुक्रौ कुजार्कीं वा विदुरावर्षणं
तदा ॥ ३२८ ॥

अब शुक्रस्थितिवशसे और ग्रहयोगवशसे वृष्टिज्ञान लिखते हैं—
यदि मध्यादिक पांच नक्षत्रोंमें स्थित शुक्रका उदय पूर्वदिशामें होय
तो लगातार वर्षा होती है ॥ ३२२ ॥ और यदि स्वात्यादिक तीन
नक्षत्रोंपर स्थित शुक्रका उदय पश्चिम दिशामें होय तो वर्षा होती है
और इन नक्षत्रोंसे अन्य नक्षत्रोंपर शुक्रका उदय होय तो वर्षा
नहीं होती है ॥ ३२३ ॥ और बुध तथा शुक्रका योग होय तो बहुत
वर्षा करते हैं और इन दोनोंके वीचमें सूर्य होय तो समुद्रके भी
सुखा देनेमें समर्थ होते हैं ॥ ३२४ ॥ यदि शुक्रसे सातवें स्थानमें
चंद्रमा शुभग्रहोंसे दृष्ट होय तो वृष्टिदायक होता है अथवा शनैश्चरसे
सातवें, नौवें, पांचवें स्थानमें चंद्रमा स्थित होय तो वृष्टिकारक
होता है ॥ ३२५ ॥ ग्रहोंका उदय वा अस्त होय अथवा एकराशिसे
दूसरी राशिपर गमन होय अथवा अयनपर गमन होय अथवा
परस्पर ग्रहोंका संयोग होय अथवा पक्षकी समाप्ति होय तो प्रायः
वर्षा होती है ॥ ३२६ ॥ बृहस्पतिका उदय होय वा मंगलका राशि
और नक्षत्रपर गमन होय अथवा शुक्रका अस्त होय इसी प्रका-

रसे शनैश्चर होय अर्थात् शनैश्चरका उदय वा अस्त अथवा राशि वा नक्षत्रपर गमन होय तो वर्षा होतीह ॥ ३२७ ॥ यदि मंगल, शनैश्चर एकराशिमें होय अथवा परस्पर एक दूसरेसे सातवें स्थानमें होय अथवा इसी प्रकार बृहस्पति, शुक्र और मंगल, सूर्य होय तो वपा नहीं होतीहै ॥ ३२८ ॥

अथार्द्वादिरविनक्षत्रप्रवेशो स्त्रीपुंयोगादौ वृष्टिज्ञानम् ।

स्त्रीसंज्ञानि दशाद्वातो भानि प्रोक्तानि कोविदैः ॥ विशाखा-
दिवयं क्लीवं पुंसंज्ञानीतराणि च ॥ ३२९ ॥ रवेधिष्ण्यप्र-
वेशस्य काले चंद्राकर्योरुभे ॥ घिष्ण्ये च याद्वशे स्यातां
विज्ञेयं तद्वशात्फलम् ॥ ३३० ॥ स्त्रीपुंसयोर्भावृष्टिरूपा-
स्त्रीक्लीवयोः क्वचित् ॥ अब्रच्छाया स्त्रियोः पुंसोः क्लीव-
योर्वा न किंचन ॥ ३३१ ॥ तोयचारिविलग्ने च वृष्टियोगे
यदा रवेः ॥ नक्षत्रस्य प्रवेशः स्यात्तदा वृष्टिस्तु शोभना ॥
॥ ३३२ ॥ निशायामर्द्धरात्रे वा रवेर्क्षप्रवेशने ॥ बहु-
तोया सुवृष्टिः स्यादन्यथा नैव जायते ॥ ३३३ ॥

अब आर्द्वादि रविनक्षत्रप्रवेशमें स्त्रीपुंयोगादिमें वृष्टिज्ञान लिखते हैं-
आर्द्वासे लेकर दश नक्षत्र पंडितोंने स्त्रीसंज्ञक कहेहैं और विशाखासे,
तीन नक्षत्र 'नपुंसक' संज्ञक और शेष नक्षत्र पुरुष संज्ञक कहेहैं
॥ ३२९ ॥ जिस समय सूर्यके नक्षत्रका प्रवेश होय उसी समय
चंद्रमाके नक्षत्रकी और सूर्यके नक्षत्रकी संज्ञा जानकर वर्षाका फल
विचारै ॥ ३३० ॥ एक नक्षत्र स्त्री और एक पुरुष होय तो महावृष्टि
और स्त्री नपुंसकका योग होय तो कहींकहीं अल्पवृष्टि और स्त्रीस्त्रीका
योग होय वा पुरुषपुरुषसंज्ञक नक्षत्रोंका योग होय तो वाढ़लोंकी
छाया तथा नपुंसकनपुंसकका योग होय तो अनावृष्टि होतीहै
॥ ३३१ ॥ यदि जलचारीलम्भमें और वृष्टियोगमें सूर्यके नक्षत्रका

प्रवेश होय तो वहुत अच्छी वर्षा होतीहै ॥ ३३२ ॥ रात्रिमें वा अर्द्धरात्रिमें सूर्यके नक्षत्रका प्रवेश होय तो वहुतजलवाली सुवृष्टि होतीहै और अन्य समयमें सूर्यनक्षत्रका प्रवेश होय तो वर्षा नहीं होतीहै ॥ ३३३ ॥

अथ सूर्यक्षयोगे वृष्टिज्ञानम् ।

आद्रादिपञ्चकं पूभारेवत्यादिचतुष्यम् ॥ पूर्वापाठाचतुष्कं च चंद्रक्षर्णिणि चतुर्दश ॥ ३३४ ॥ शेषाणि रविधिष्ण्यानि विज्ञेयानि मनीषिभिः ॥ सूर्येचंद्रक्षये वृष्टिश्वंद्रे सूर्यक्षये सति ॥ ३३५ ॥ पूफादिपञ्चके सूर्ये चंद्रे चंद्रक्षये ऽपि च ॥ उभौ चंद्रक्षयों स्यातां स्वल्पा वृष्टिस्तदा भवेत् ॥ तावेव यदि सूर्यक्षें तदा वृष्टिर्न जायते ॥ ३३६ ॥

अब सूर्यक्षयोगमें वृष्टिज्ञान लिखतेहैं—आद्रा, पुनर्वसू, पुष्य, आश्लेषा, मधा, रेवती, अश्विनी, भरणी, पूर्वापाठा, उत्तरापाठा, श्रवणा, धनिष्ठा ये चौदह नक्षत्र चंद्रमाके हैं ॥ ३३४ ॥ और शेष नक्षत्र सूर्यके हैं ऐसा पंडितोंने कहा है. सूर्य तो चंद्रमाके नक्षत्रपर और चंद्रमा सूर्यके नक्षत्रपर होंय तो वर्षा होतीहै ॥ ३३५ ॥ पूर्वापालगुनी, उत्तरापालगुनी, हस्त, चित्रा इन चार नक्षत्रोंमेंसे किसी नक्षत्रपर सूर्य होय और चंद्रमा अपने नक्षत्रोंमेंसे किसी नक्षत्रपर होय अथवा सूर्य चंद्रमा दोनोंही चंद्रमाके नक्षत्रपर होंय तो स्वल्प वृष्टि होतीहै और यदि दोनों ग्रह सूर्यके नक्षत्रपर होंय तो वर्षा नहीं होतीहै ॥ ३३६ ॥

अथ वर्षाकाले सद्योवृष्टिलक्षणानि ।

नभः काकांडभं गोद्वङ्गनिभं तित्तिरसंनिभम् ॥ प्रात्येजला वा नेवा स्युर्गिरिकज्जलसत्रिभाः ॥ ३३७ ॥ जलजंतुसमा-

कारा मूलाध्रा सव्यगा अपि ॥ गिरयोंजनसंकाशाः
 सवाष्पशिखिनर्तनम् ॥ ३३८ ॥ शुकनेत्रनिभाः क्षौद्रसं-
 निभाः सलिलसुतः ॥ सत्रिघौ परिवेषाद्यश्वंद्रमाः
 शीघ्रवृष्टिकृत् ॥ ३३९ ॥ विकृतिर्लवणे वालाः सेतु-
 वंधोद्यमाः पथि ॥ जले मीनोत्पुवो रावो भेकानां नीरसं
 जलम् ॥ ३४० ॥ व्यालानां मैथुनं वृक्षाद्यारोहः प्रसव-
 स्तथा ॥ मक्षिकाऽनल्पतां यांति सांडाः स्युस्तु पिपीलिकाः
 ॥ ३४१ ॥ उत्सृष्टाश्च गृहाङ्गावो नेच्छंति गमनं वहिः ॥
 खनंति भूतलं श्वानो मार्जाराः पशवः खुरैः ॥ ३४२ ॥
 यांति वल्यंकुराश्चोर्ध्वं शरटारोहणं तरौ ॥ तृणाग्रवृश्चिकारोहो
 गवामूर्ध्वनिरीक्षणम् ॥ ३४३ ॥ पक्षिणां धूलिभिः स्नानं
 प्रदोपे मेघगर्जितम् ॥ अहिंडाकृतिर्मेघः शीतः प्राचीभवो
 मरुत् ॥ ३४४ ॥ प्रत्यगिंद्रधनुः संध्यारागांधो मेघगर्जनम् ॥
 प्राणुदक्षरैवदिग्जाता रक्तसौदामिनी तथा ॥ ३४५ ॥ मध्ये
 तीव्रा तपश्चाह्रो नरा निद्रालवो भृशम् ॥ विज्ञेया लक्षणै-
 रेभिः सद्योवृष्टिर्वनागमे ॥ ३४६ ॥

अब वर्षाकालमें सद्योवृष्टिलक्षण लिखते हैं—आकाशका रंग
 कौएके अंडेके रंगके समान होय, अथवा गौके नेत्र, वा तीतरके रंगके
 समान होय, अथवा कोणोंमें भरेहुए जलवाले वादल अथवा पर्वत
 और कज्जलके समान अथवा जलजंतुओंके समान आकारवाले वादल
 होंय अथवा मुख्यमेघ दक्षिणभागको चलते होंय और पर्वतोंका
 रंग कज्जलके समान होजाय, आसुओं सहित मोरनाचने लगें ॥ ३३७ ॥
 ॥ ३३८ ॥ अथवा तोतापपक्षीके नेत्रके समान वा शहतके समान
 वादल होंय, समीपमें जलका शब्द होय, परिवेषयुक्त चंद्रमा होय
 तो शीत्र वृष्टिकारक होता है ॥ ३३९ ॥ लवण पसीझने लगै, मार्गमें

वालक पुल वांधने लगें, जलमें मछली ऊपरको उछलें और मेहक शब्द करें तो नीरस जलकी वर्षा होती है ॥ ३४० ॥ सर्प मैथुन करें, अथवा वृक्षोंपर चढ़ें, सर्पिणी अंडा देवे, मत्रिखयोंकी बढ़वार होय, अंडा लेकर चीटी चलें ॥ ३४१ ॥ जंगलमें चरनेके लिये छोड़ी हुइ गौएँ घरसे वाहिर जानेकी इच्छा न करें, कुत्ता, विलाव, पशु अपने खुरोंसे पृथ्वीको खोदें ॥ ३४२ ॥ वेलोंके अंकुर ऊपरको चलें, वृक्षपर करकैटा चढ़ै, (त्रुण) घास फूसके ऊपर विच्छू चढ़ै, गौएँ ऊपर आकाशको देखें ॥ ३४३ ॥ पक्षी धूलिमें खान करें, प्रदोपसमय मेघ गर्जें, आकाशमें सर्प और दंडाके आकार वादल होवें, शीतल पुरबाई चलै ॥ ३४४ ॥ पश्चिममें इंद्रधनुष दीखें, संध्यासमय लाली अधिक होय, संध्यारागसे नीचे वादल गर्जें; पूर्व, उत्तर, ईशान दिशामें लालरंगकी विजली चमकै ॥ ३४५ ॥ मध्याह्नमें तीव्र घास पड़ै, मनुष्योंको अत्यन्त नांद आवै तो इन लक्षणोंसे चर्पाक्तुमें जानना कि, शीघ्रही वर्षा होनेवाली है ॥ ३४६ ॥

अथोपश्रुतिशकुनाः ।

गणाधीशं प्रपूज्यादौ कार्यं तस्मै निवेद्य च ॥ साक्षतं सफलं तोयपात्रमादाय संब्रजेत् ॥ ३४७ ॥ उपश्रुतिर्महालक्ष्मीश्चांडालगृहवासिनी ॥ यन्मया चिंतितं कार्यं सत्यं वद सुरेश्वरि ॥ ३४८ ॥ भवत्या विदितं सर्वं शकाकार्यं द्विशेषतः ॥ ईत्युक्त्वा शृणुयाद्वाणीं शुद्धां वाक्यव्यान्विताम् ॥ ३४९ ॥ प्रक्षिप्य च जलं तत्र समागच्छेत्स्वमालयम् ॥ तद्राक्ष्यस्यानुसारेण फलं ज्ञेयं यथार्थतः ॥ ३५० ॥

अब उपश्रुति शकुन लिखते हैं—प्रथम गणेशजीका पूजन करें और फिर गणेशजीके सम्मुख अपने कार्यका निवेदन करके अक्षत तथा फलोंसहित जलपात्र लेकर चांडालीके द्वारपर जावें ॥ ३५१ ॥

और फिरं वहां यह मंत्र पढ़े कि, हे सुरेश्वरि तुम उपश्रुतिनामकी महालभीजी हो चाणडालके यहमें निवास करतीहो, मैंने जो कार्य विचाराहे उसको सत्य कहो होगा वा नहीं ॥ ३४८ ॥ आप सब कार्योंको जानतीहें. इन्द्रके कार्योंकाभी आपको विशेष ज्ञान है इतना कहनेके पश्चात् उस चाणडालीके तीन शुभ वचन सुने ॥ ३४९ ॥ तदनन्तर जलको वहीं पृथ्वीपर छोड़कर अपने घरको चला आवे उस चाणडालीने शुभ वचन कहे होवें तो कार्यका शुभफल और अशुभ वचन कहे होवें तो अशुभ फल जाने ॥ ३५० ॥

अथ वारविशेषे विशेषः ।

चांडालीभवने सूर्ये चंद्रे नापितमंदिरे ॥ रजक्या मन्दिरे भौमे वोधने वैश्यमंदिरे ॥ ३५१ ॥ ब्राह्मण्या मंदिरे जीवे भार्गवे पण्ययोपितः ॥ दास्या डारि शनौ यायाच्छ्रोतुं चोपश्रुतिं शुभाम् ॥ ३५२ ॥

अब वारविशेषमें विशेष लिखतेहैं—शुभ उपश्रुति सुननेके लिये रविवारके दिन चाणडालीके द्वारपर, चंद्रवारके दिन नाईके द्वारपर, मंगलके दिन धोविनके द्वारपर, वृश्कके दिन वैश्यके द्वारपर ॥ ३५३ ॥ वृहस्पतिके दिन ब्राह्मणीक द्वारपर, शुक्रके दिन वैश्याके द्वारपर, शनैश्चरके दिन चाणडालीके द्वारपर जावे ॥ ३५२ ॥

अथ रघुवंशादि ।

शकुना रघुवंशस्य दुर्गाया निगमस्य वा ॥ पूजितं पुस्तकं पुष्पेरक्षतैश्च फलादिभिः ॥ ३५३ ॥ शनौ संस्थाप्य सूर्यहे प्रातरेव विलोकयेत् ॥ कृमायोक्तप्रमाणेन निष्कास्य श्लोकमुत्तमम् ॥ ३५४ ॥ विज्ञेयाः शकुनास्तस्माद्यथार्थवचना हि ते ॥ अविसर्गात्पूर्वार्द्धस्तवगोत्तरपंचमः ॥ स्तुतिलिङ्गवर्जितः श्लोकः शकुने च शुभावहः ॥ ३५५ ॥

अब रघुवंशादि शकुन लिखते हैं—शनैथरके दिन रघुवंश वा रामायण, अथवा दुर्गाकी, वा वेदकी पुस्तकको रखकर फूल, अक्षत, वा फलादिकोंसे पूजन करै और रविवारके दिन प्रातःकाल कुमारी कन्यासे पूछै कि, इसमेंसे कौनसा श्लोक निकालें? तब जौन संख्यक श्लोकके निकालनेके लिये बतलावै उसीको देखै और उसी श्लोकसे शकुन पहिचानै क्योंकि, उक्त पुस्तकोंके श्लोक ठीकठीक फल कहदेतेहैं, यदि श्लोकके पूर्वार्द्धके अंतमें विसर्ग नहीं होय और श्लोकके पांचवें अक्षरसे पीछे तवर्ग होय तथा उस श्लोकमें स्तुति-संवधि लिद लकार नहीं होय तो ऐसा श्लोक शकुनमें शुभकारक होताहै ॥ ३५३ ॥ ३५४ ॥ ३५५ ॥

अथ सामुद्रिकपरीक्षा ।

विशालभालवक्राक्षिवक्षोवाहुकरांग्रिकम् ॥ सुवृत्तमस्तकं
नाभिगंभीरा नासिकोन्नता ॥ ३५६ ॥ स्निग्धदंतत्वचं
केशाः श्यामाः स्निग्धाश्च कुंचिताः ॥ नेत्रप्रांत्याहृणं स्निग्धं
विशालं कृष्णतारकम् ॥ ३५७ ॥ दक्षावर्तवपु रोमास्निग्ध-
गंभीरनिःस्वनः ॥ सफेनमूत्रको धन्यो नरो नोत्पल-
पार्णिकः ॥ ३५८ ॥ नरो मातृमुखो धन्यो नारी
पितृमुखी तथा ॥ रक्तमोष्टनखं पाणी पादयुग्मतलं
शुभम् ॥ ३५९ ॥ औदर्यधेर्यगंभीर्यमहारंभयशः प्रियः ॥
प्रसन्नवदनो वंशाभिमानी प्रियसत्यवाक् ॥ ३६० ॥ नीति
मान्युरुवाक्यस्थः शुचिर्दक्षोऽथ पापभीः ॥ इत्यादिगुण-
संपत्रो नरो भवति भाग्यवान् ॥ ३६१ ॥ रेखा या तर्जनीं
याता तिर्यक्साऽयुप्यसंज्ञका ॥ तर्जन्यंगुणयोर्मध्ये तिर्यक्सै-
श्वर्यसंज्ञका ॥ ३६२ ॥ मणिवंधतरैश्वर्यं रेखामूलं युनक्ति या ॥
सा रेखा पितृवंशाख्या त्वच्छिन्ना गेहसौख्यदा ॥ ३६३ ॥

सम्यग्भोगवती चैषा मातृवंशविवर्द्धनी ॥ आयुःकनिष्ठ-
योर्मध्ये रेखा कांतकलचिका ॥ ३६४ ॥ करभांत्य
गता रेखा सा तु मातुलवर्गिका ॥ सूक्ष्मा मातृष्वसुः
स्थूला मातुलस्यैवमन्यतः ॥ ३६५ ॥ अंगुष्ठमूल-
रेखाभिर्विज्ञेया संततिर्बुद्धैः ॥ सूक्ष्माभिः कन्यकाः पुत्राः
स्थूलाभिश्च तथाभिधाः ॥ ३६६ ॥ अच्छन्नाभिन्नरेखाभिः
संततिर्दीर्घजीविनी ॥ रेखा याऽनामिकामूले यशः पुण्याभिधा
तु सा ॥ ३६७ ॥ धनरेखा तु सा याता मणिवंधातु
मध्यमा ॥ स्याज्जेदखंडिता पूर्णा सोर्ध्वरेखा तु राज्यदा ॥
॥ ३६८ ॥ गंभीराः सुंदराः स्त्रिघाः शुभदा मधुपिंगलाः ॥
दक्षिणे तु करे पुंसां वामाक्षीणां तु वामके ॥ ३६९ ॥
अंगुष्ठाते यवो यस्य स भवेद्राज्यभाङ्गनरः ॥ श्रीवत्साथर-
थादर्शध्वजस्तंभगिरिस्तजः ॥ ३७० ॥ हस्ती छत्रांबुजे कुंभः
श्रीवत्सकुलिशांकुशम् ॥ भृंगारो व्यंजनं वीणा यवो
मत्स्यादिकं तथा ॥ ३७१ ॥ करपादतले यस्य स भवे-
द्धरणीपतिः ॥ खल्वाटस्तु धनी विद्रान्दंतुरः संहतांगुलिः
॥ ३७२ ॥ धनांब्लोऽल्पवयः शूरो हुदारो विरलांगुलिः ॥
तिलः पादतले हस्ते नासायां दृष्टिगोचरः ॥ ३७३ ॥ हृदि
प्रजनने भाले धन्यभाग्यप्रदो नृणाम् ॥ रेखाः करतले
चेत्स्युरुक्ताश्चाप्यधिकास्तथा ॥ ३७४ ॥ रुक्षाः सूक्ष्माः
सिताश्छन्नास्तदा स्याज्ज दरिद्रता ॥ स्थूलं प्रजननं दीर्घ
वकं वानेकधारणम् ॥ ३७५ ॥ यस्य चेत्स दरिद्रः स्याच्छु-
भलक्षणवानपि ॥ दरिद्रः करयुग्मेन कंडूयति शिरस्तु
यः ॥ ३७६ ॥

अब सामुद्रिकपरीक्षा लिखते हैं—शिर, सुख, नेत्र, हृदय, भुजा,
हाथ, पैर इतने अंग (विशाल) अर्थात् वडे होंग और मस्तक

गोल होय, नाभि गहरी होय, नासिका ऊँची होय ॥ ३५६ ॥ द्वाँत तथा खचा चिकनी होय और काले, चिकने, धुँधराले वाल होंय, नेत्रप्रान्त लाल होंय, नेत्रकी पुतली विशाल तथा चिकनी और काली होय ॥ ३५७ ॥ शरीरके रोमं दक्षिणावर्त होंय, शब्द मधुर तथा गम्भीर होय, मूत्र फेन सहित होय, एड़ी कमलसी लाल होंय तो ऐसे लक्षणोंवाला पुरुष धन्य होताहै ॥ ३५८ ॥ माताके मुखके सदृश मुखवाला पुरुष और पिताके मुखसमान मुखवाली खी धन्य होतीहै. होठ, नख, हाथ, पाँवका तल ये अंग लाल बर्णके होंय तो शुभ होतेहैं ॥ ३५९ ॥ उदारता, धैर्य, गम्भीरता, बड़े कामका आरंभ, यशके काम करनेसे प्रसन्न, तथा प्रसन्न मुख, वंशाभिमानी प्रिय और सत्य बोलनेवाला ॥ ३६० ॥ नीतिमान्, गुरुवाक्यको माननेवाला, पवित्र रहनेवाला, चतुर, पापोंसे भय करनेवाला इत्यादि गुणयुक्त पुरुष भाग्यवान् होताहै ॥ ३६१ ॥ जो रेखा तर्जनी अंगुलीके समीप तिरछी होय सो आयुकी रेखा होतीहै और तर्जनी तथा अँगूठाके मध्यमें जो रेखा तिरछी होतीहै सो ऐश्वर्यकी रेखा कहातीहै ॥ ३६२ ॥ पहुँचेके मूलसमीप जो रेखा जुड़ी होतीहै सो ऐश्वर्यकी देनेवाली कहीहै और येही पितृवंशा नामकी है. पूर्ण होय तो यहसौख्यकी देनेवाली है ॥ ३६३ ॥ और यहही रेखा अच्छे भोगोंकी देनेवाली मातृवंशकी घटानेवाली होतीहै. तथा आयुकी रेखा और कनिष्ठा अंगुलीके मूलके मध्यमें जो रेखा होतीहै सो कांत तथा खीकी कहाती है ॥ ३६४ ॥ पहुँचेसे लेकर कनिष्ठिका अंगुलीतकका जो भाग है उसके नीचेकी रेखा मातुलवर्गकी होतीहै. यदि वह रेखा सूक्ष्म होय तो मोसीकी और स्थूल होय तो मामाकी होतीहै ॥ ३६५ ॥ अंगुष्ठके मूलमें जो रेखाएँ होतीहैं वे सन्तानकी कहातीहैं, यदि सूक्ष्म होय तो कन्या

और स्थूल होय तो पुत्रोंको देनेवाली हैं ॥ ३६६ ॥ यदि ये उक्त रेखा कटी, दृटी नहीं होय तो दीर्घजीविनी संतान होतीहै और जो रेखा अनासिकाके मूलमें होतीहै वो यश और पुण्यकी देनेवाली होतीहै ॥ ३६७ ॥ जो रेखा पहुँचेसे मध्यमा अंगुलीतक जातीहै सो धन रेखाहै; यदि वह अखंडित तथा पूर्ण होय तो उद्धरेखा कहातीहै और राज्यकी देनेवाली है ॥ ३६८ ॥ गंभीर, सुन्दर, चिकनी, शहतके समान पिङ्गलवर्णकी रेखा शुभदायक होतीहैं. पुरुषोंके दाहिने और खियोंके बाँये हाथमें देखें. अँगूठाके नीचे यबके आकारकी रेखा होय तो वह पुरुष राज्यभागी होताहै. श्रीवत्स, घोड़ा, रथ, दर्पण, घजा, स्तम्भ, पर्वत, माला ॥ ३६९ ॥ ॥ ३७० ॥ हाथी, छत्र, कस्तुल, कलश, श्रीवत्स, बज्र, अंकुश, सुवर्णका पात्र, पंखा, बीणा, चब, मत्स्य इत्यादिके चिह्न जिस मनुष्यके हाथकी हथेली और पैरके तलबेमें होय वह पृथ्वीपति राजा होताहै और जो पुरुष चन्दुला होय अर्थात् जिसके शिरपर चाल नहीं जासें वह धनी होताहै और जिसके बड़े बड़े दांत होठोंसे वाहिर निकल आयेहोय वह विद्वान् होताहै और जिसकी अंगुली भिड़ी हुई होय वहभी धनाढ्य होताहै और जिसकी अंगुली मिलानेपर (छिद्रसहित) छीदी होय तो वह थोड़ी उमरमेंही शूर तथा उदार होजाताहै जिसके पाँवके तलबेमें हाथकी हथेलीमें और नासिकापर तिल दीखता होय और हृदय, मेद्र परभी तिल होय तो उसको लाभ होताहै और धन तथा भाग्यकी शुद्धि होतीहै. यदि हाथकी हथेलीमें उक्त रेखाएँ रूखी, सूक्ष्म, श्वेत, कटी टटी अधिक होय तो दरिद्रता होतीहै और जिसका लिंग लंबा तथा टेढ़ा होय और मूत्रोत्सर्गके समयमें अनेक तरहसे धार निकले तो शुभ लक्षणवाला पुरुषभी दरिद्री होजाताहै और जो

पुरुष दोनों हाथोंसे शिरको खुजाताहै सोभी दरिद्री होजाताहै ॥
॥ ३७१ ॥ ३७२ ॥ ३७३ ॥ ३७४ ॥ ३७५ ॥ ३७६ ॥

अथ स्त्रीणां विशेषः ।

शुभानि यानि चिह्नानि पुंसां प्रोक्तानि सूरभिः ॥ तान्येव
योपितां योऽत्र विशेषः प्रोच्यते तु सः ॥ ३७७ ॥ नटङ्ग
विकटं भालं विशालं प्रोक्तं तथा ॥ पांदागुलिद्वयं चांत्यं
गमने न स्पृशेद्गुवम् ॥ ३७८ ॥ यस्याः सा विधवा नारी
बह्वाहाराऽपि तद्रिधा ॥ दीर्घस्फिग् हंति भर्तां दीर्घभाला
तु देवरम् ॥ ३७९ ॥ दुष्टा दीर्घोदरी नारी शशुरं हंति
निश्चितम् ॥ स्वल्पगुह्या तथा शुक्लनितंवा पतिधातिनी ॥
॥ ३८० ॥ कुलं दीर्घगला हंति निःस्वाऽतिहस्तवनाभिका ॥
पृथुनासा भवेष्वडी दुःखिता कमठोदरी ॥ ३८१ ॥ हसिते
गर्त्तगंडा या दुःशीला सा प्रकीर्तिता ॥ मिलङ्गयुगुलावर्त्त-
केशभालाऽल्पभालिका ॥ ३८२ ॥ दीर्घरोमाचिता श्रीवा
विम्बोष्टी विकरालिका ॥ इत्यादैशुभैश्चिह्नैर्युक्तां नारीं परि-
त्यजेत् ॥ ३८३ ॥

अब स्त्रियोंके विशेष लिखते हैं—पंडितोंने जो शुभ चिह्न पुरु-
षोंके कहेहैं वेही चिह्न स्त्रियोंके भी शुभ कहेहैं परन्तु यहांपर
स्त्रियोंके कुछ विशेष चिह्नोंका वर्णन किया जाताहै ॥ ३७७ ॥
चञ्चल भौंएँ, ऊंचा, भयंकर तथा बड़ा मस्तक, पाँचके अन्तकी
दो अंगुली चलते समय पृथ्वीसे न लगें ॥ ३७८ ॥ ऐसे लक्षण
जिस स्त्रीके होयें सो विधवा होजातीहैं। इसी प्रकार चहुस खाने-
वाली स्त्रीभी विधवा होतीहैं, लंबे कूलोंवाली स्त्री भर्ताका नाश
करतीहै और लंबे ललाटवाली देवरका ॥ ३७९ ॥ और दीर्घ पेट

चाली स्त्री दुप्रा होतीहै, निश्चयही श्वशुरकां नाश करतीहै. छोटी गुदावाली सफेद चूतडोंवाली स्त्री पतिकी मारनेवाली होतीहै ॥ ३८० ॥ जिसका गला लम्बा होय वह स्त्री कुलका नाश करती है. अति छोटी नाभिवाली स्त्री निर्धन होतीहै. मोटी नासिकावाली स्त्री क्रोधिनी होतीहै. कछुएके समान पेटवाली स्त्री दुःखित रहती है ॥ ३८१ ॥ हँसनेमें जिसके गालोंमें गड्ढा पड़े वह स्त्री दुःशीला होतीहै जिसकी दोनो भौंये मिली होंय, ललाटपर भौंरी तथा वाल होंय, छोटा मस्तक होय ॥ ३८२ ॥ लंबेलंबे रोमोंसे श्रीवा भरी होय, लंबे होठ होंय, भयंकर रूप होय. इत्यादि अशुभ चिह्नोंवाली स्त्रीका परित्यागकर देवे ॥ ३८३ ॥

अथ स्त्रीणां शुभचिह्नानि ।

विशाललोचना तन्वी श्यामा मधुरभाषिणी ॥ कृष्णलंब-
कचा गौरी श्लक्षणगात्रा मनोहरा ॥ ३८४ ॥ हंसेभगमना
मृद्धी चंद्रवक्रा नितंविनी ॥ सुचरित्रा मिताहरा गूढगुल्फा
कृशोदरी ॥ ३८५ ॥ लघुहस्तांत्रिका कंबुश्रीवा वृत्तोव्रत-
स्तनी ॥ इत्यादिलक्षणोपेता सुभगा पुत्रिणी शुभा ॥ ३८६ ॥

अब स्त्रियोंका शुभचिह्न लिखतेहैं—वडे नेत्रोंवाली, हल्के शरीर-
वाली, श्यामांगी, मधुर बोलनेवाली, काले तथा लंबे केशोंवाली,
गौर वर्णवाली, चिकने शरीरवाली, मनकी हरनेवाली ॥ ३८७ ॥
हंस और हाथीके समान चलनेवाली, कोमल शरीरवाली, चंद्रस-
मान मुखवाली, वडे नितंवोंवाली, अच्छे गुणोंवाली, थोड़ा भोजन
करनेवाली, मांसमें छिपेहुए टकनोंवाली, पतले पेटवाली ॥ ३८८ ॥
छोटेछोटे हाथ पैरोंवाली, शंखके समान श्रीवावाली, गोल तथा
ऊंचे स्तनोंवाली इत्यादि लक्षणोंसे युक्त स्त्री शुभ होती और सौभा-
ग्यवती तथा पुत्रवती होतीहै ॥ ३८९ ॥

अथ सामान्यतः शुभलक्षणानि ।

अर्चितं वचनं चेतशोऽन्नं सुभगं वपुः ॥

पापभीरुमतिश्चोक्ताश्चिह्नैरन्यैश्च योपितः ॥ ३८७ ॥

इति श्रीमदैवज्ञरावलहरिशंकरसूरिसूनुगणपतिकृते सुहृत्तं-
गणपतौ मिश्रप्रकरणञ्चतुविंशम् ॥ २४ ॥

अब सामान्य शुभलक्षण लिखते हैं—श्रेष्ठ वचन, प्रसन्न चित्त,
ऊंचा तथा सुंदर शरीर, पापोंसे डरनेवाली बुद्धि इत्यादि शुभ
चिह्नोंसे युक्त खीं शुभ होती है ॥ ३८७ ॥

इति श्रीमदैवज्ञरावलहरिशंकरसूरिसूनुगणपतिकृते सुहृत्तंगणपतौ
श्रीयुतपंडितवर्यवेणीरामात्मजपंडितरामदयालुशम्र्मकृतभापा-
टीकासमलंकृतं मिश्रप्रकरणं चतुर्विंशम् ॥ २४ ॥

अथ ग्रन्थालंकारवर्णनम् । तत्रादौ राजो वर्णनम् ।

गौडोर्वीशशिरोविभूपणमणिगोपालदासोऽभवन्मांधातेत्यभि-
रक्षिताद्यलभत ख्यातिं स दिळीश्वरात् ॥ तत्पुत्रो विजयी
मनोहरनृपो विद्योतते सर्वदा दानैर्येन च दानखंडविहितै-
र्विश्वेश्वरस्तोष्यते ॥ १ ॥ गांभीर्यप्रोढगौडान्वयकुमुदगणा-
नंदिचंद्राभिरामः प्रोद्दामस्वच्छकीर्तिव्रततिपिहितदिङ्मंड-
लीमंडनथ्रीः ॥ भूयः सत्पात्रदानप्रणयशतगुणस्वर्णपूर्णा-
तिसार्थः सर्वार्थावासिधन्यो जगति विजयते मानभूमीश-
रोऽयम् ॥ २ ॥ प्रीत्याऽपूजदीशपार्थिवतनूरावृत्तिभिः
कोटिशो योऽकापींत्कनकेन पोडशमहादानान्यथान्या-
न्यपि ॥ यो धेनुर्दर्शपर्वतांश्च विधिवत्प्रादाद्विजेभ्यो मुदा
सोऽयं गौडमनोहरो नरपतिर्वर्वर्ति सर्वोत्तरः ॥ ३ ॥

अब अंथालंकारवर्णन लिखते हैं—तहां पहिले राजाका वर्णन लिखते हैं—गौड़देशके राजाओंके शिरोविभूषणमणि राजा गोपाल-दासजी हुए, उन्होंने दिल्लीके वादशाहकी बड़ी सहायता तथा रक्षा कीथी; इसी कारणसे वादशाहसे उन्होंने मांधाताका (ख्याति) खिताव पायाथा. मांधाताके पुत्र मनोहरसिंह नामक विजयी तथा दानी होकर प्रकाशको प्राप्त हैं, जिहोंने दानखंडोक्त दानकरके विश्वेश्वर भनवानूको प्रसन्न कियाहै ॥ १ ॥ गम्भीरतासे बड़ा जो गौडवंशरूप कुमुदसमूह तिसके लिये आनंद देनेवाले चंद्रमाके समान सुन्दर और अतिश्रेष्ठ तथा निर्मल कीर्तिलतासे छाईहुई दिशाओंमें सुशोभित लक्ष्मीवाले और फिर सुपात्रोंके दान मानसे सौंगुणा जो सुवर्ण तिससे (अतिसार्थ) सजातीय समूहको पूर्ण करनेवाले और सब अर्थोंकी प्राप्तिसे अतिधनवाले, ये मानरूपभू-मिके राजा जगतमें सबसे अधिक ऐश्वर्यवान् हैं ॥ २ ॥ जिन्होंने ग्रीतिसे करोड़ों बार शिवजूके पार्थिव शरीरोंका पूजन कियाहै और जिन्होंने सुवर्णके पोड़श महादान तथा अन्य प्रकारके दान, गौँँ, अन्नके दश पर्वत ब्राह्मणोंके लिये विधिपूर्वक प्रसन्नतासे दिये हैं ऐसे ये गौड़देशके राजा मनोहरसिंह सबसे अधिक वर्तमान हैं ॥ ३ ॥

अथ राजकुमाराणां वर्णनम् ।

यो मृत्तः पुरुषोत्तमस्य तपसां पुण्यस्य पूरोच्चयो गौडप्रौढ-
मनोहरेऽनुपतेरानंदकंदांकुरः ॥ राकानायकवत्प्रियः स्वसु-
हृदां नारीदशां कामवद्वाजत्युत्तमराम एप सुचिरं श्रीमान्कु-
माराघ्रणीः ॥ ४ ॥ शीर्योदामलसत्प्रतापतपनप्रौढद्विप-
द्वातहत्सर्वार्थिव्रतकल्पवृक्षमहिमः । कंदर्पतुल्याकृतिः ॥
गौडोर्वाँशमनोहरसितिपतेवंशाविजोद्योतकः श्रीमानुत्तम-
राम एप युवराद भास्वानिव भ्राजते ॥ ५ ॥ शीर्योदार्थसुतीक्ष्ण-

धीरधिषणागांभीर्यशास्त्रज्ञतादेववाक्षणसद्गुरुप्रणयितावश्या-
त्मतासंपदाम् ॥ एकं धाम निरीक्षितुं विभिरदाव्यं श्रीकुमारा-
ग्रणीः सोऽयं श्रीपुरुषोत्तमान्वयमणेहृद्योत उद्योतते ॥ ६ ॥
श्रीशंभुष्ठजनसुधापरिपूर्णमूर्तेंगांडाभिनायकमनोहरसिंहुसा-
रात् ॥ पुण्यप्रकाशपुरुषोत्तमसिंहरत्नादुद्योतसिंह उदितोभ्यु-
दयी विभाति ॥ ७ ॥ सौजन्यामृतसिंहुर्दिमहिमासौहार्द-
रत्नकरः सहित्यादिकलाकलापकुशलः शैवप्रभावोज्ज्वलः ॥
गौडोवींशमनोहरेद्रनृपतेः सूनुः कुमारः प्रभोर्लक्ष्मीरामकु-
मार एप जयति प्रौढप्रतापोज्ज्वलः ॥ ८ ॥ आन्वीक्षिक्यां
धिषणनिषुणो दंडनीत्यां प्रचंडोवार्तावृत्तौ सहजकुशलो
धर्मधर्माधिगमी॥ पाङ्गुण्यश्च प्रकृतिविहितो पापचातुर्यधुयों
लक्ष्मीरामः शिवपदरतः पूर्णकामो विभाति ॥ ९ ॥
तोपादेपां निखिलजनतानंदनं ग्रंथरत्नं ज्योतिर्दीपिं प्रक-
रणगणैर्भूरिभैर्देव्यधायि ॥ सारोद्धारं गणपतिविदा चारु-
गुम्फं सुवर्णेरंतःपूर्णसकलविदुपां कर्णयोर्भूपणाय ॥ १० ॥

अब राजकुमारोंका वर्णन लिखतेहैं—पुरुषोत्तम भगवान् कीसी
मूर्तिवाले, तप तथा पुण्योंके प्रवाहराशीके समान, अपने मित्रोंके
लिये चंद्रमाके समान प्यारे, स्त्रियोंके नेत्रोंके लिये कामदेवके समान
श्रीमान् कुमारोंमें अगुआ गौडदेशके राजेन्द्र मनोहरसिंहजूके,
आनन्दकन्दांकुर पुत्र यह उत्तमरामजी बहुत दिनोंसे प्रकाशको
प्राप्त हैं ॥ ४ ॥ उत्कृष्ट शूरतासे शोभायमान जो प्रतापरूप सूर्य
तिस करके बडेवडे शत्रुओंके समूहको नाश करनेवाले, सब प्रका-
रके अर्थोंवाले, व्रतरूप कल्पवृक्षसे सत्कार पानेवाले, कामदेवके
समान आकृतिवाले, गौडदेशाधिप मनोहरसिंहजूके कुलकमलके
खिलानेवाले श्रीमान् युवराज यह उत्तमरामजू सूर्यके समान प्रका-

शको प्राप्तहैं ॥ ५ ॥ शूरता, उदारता, भलेप्रकार तीक्ष्ण तथा धीरवुद्धि, गंभीरता, शास्त्रज्ञता, देवता और व्राह्मण तथा सद्गुरुओंमें प्रेमता और मनकी वश्यता इत्यादि संपदाओंके एक स्थान देखनेके लिये जिसको व्रहा देतेभये, सो यह पुरुषोत्तमजूके वंशरूपमणिके चमकानेवाले धूप यह कुमारायणी उद्योतसिंहजूहैं ॥ ६ ॥ श्रीशिवजूके पूजनरूप अमृतसे परिपूर्ण मृत्तिवाला और गौडाधिपति मनोहर-सिंहनामक समुद्रका सारभूत जो पुण्यप्रकाश पुरुषोत्तमसिंहनामक रत्न तिससे उद्योतसिंह नामी प्रतापी पुरुष उदय होकर प्रकाशको प्राप्तहैं ॥ ७ ॥ सुजनंतारूपी अमृतसमुद्रकेलिये चंद्रमाकीसी महिमावाले, सुहृदताके समुद्र, साहित्यादि कलासमूहोंमें कुशल, शिवजूके प्रभावसे निर्मल तेजवाले, सामर्थ्ययुक्त, उत्कृष्टप्रभावसे उज्ज्वल यह लक्ष्मीराम नामक कुमार गौड़देशाधिपति मनोहरसिंहजूके छोटे पुत्रहैं ॥ ८ ॥ (आन्वीक्षिकी) तर्कविद्यामें निपुण वुद्धिवाले, (दंडनीति) अर्थविद्यामें तेजवाले (वार्तावृत्ति) आजीवन विद्यामें स्वाभाविक कुशल, धर्म कर्मके जाननेवाले, पद्मगुणयुक्त (प्रकृतिः) से शोभायमान, पापरहित, चातुर्थ्यके धारण करनेवाले, शिवचरणोंके भक्त, पूर्णकामनावाले लक्ष्मीरामजू प्रकाशको प्राप्तहैं ॥ ९ ॥ इन सब राजा युवराज आदिकी प्रसन्नतासे गणपतिनामक ज्योतिर्विद्ने अनेक प्रकारके प्रकरणोंसे युक्त सब ग्रंथोंका सारोद्धाररूप, तथा सकलजनसमूहको आनंद देनेवाला ज्योतिषसे प्रकाशित, सुन्दर गुस्तिका, सुवर्णोंसे भीतर पूर्ण यह अन्थरत्न सकल विद्वानोंके कण्ठभूपणार्थ बनायाहै ॥ १० ॥

अथ ग्रंथकर्तुः कुलपरंपरावर्णनम् ।

यो ज्ञे गुर्जग्नेषु द्विजकुलमहितोदीन्यजोतिः सहसः
सच्छीलो रावलाख्यः सकलनृपतिभिः पूजितः श्लाघ्य-

* राजा, मंत्री, नियंत्र, खजाना, देश, शिला, सेना ये सात राज्यके अंग हैं जीर इन्हींको प्रकृति कहते हैं

लक्ष्मीः ॥ भारद्वाजस्य गोवे कृतविमलयथा त्रहनिष्ठो
 वारिष्ठो त्रहर्षिः ख्यातनामाऽपर इव भगवाञ्छ्रीवसिष्ठो
 गरिष्ठः ॥ ११ ॥ शरद्विमलचंद्रिकाप्रथितकांतिपूरोदधौ
 यदीययशसां भर्देशदिशोऽभवद्वज्ज्वलाः ॥ सुतं खलु यशो-
 धरं कुलसुधांशुमस्यादरात्सदात्तहरिदर्शनं बुधजना मुदा-
 वीवद्न् ॥ १२ ॥ आसीत्तस्यात्मजन्मा निगमपरदृशां
 रामदासो निवासो यः प्रश्रादेशवाग्भव्यरचदखिलकं भूष-
 चक्रं वशे स्वे ॥ चृडारत्नप्रदीपैखनितलभुजां द्योतमाजां-
 त्रिमूलो वृद्धत्वे भक्तिहृष्टो वपुषि परिणते प्राप्य काशीं
 विमुक्तः ॥ १३ ॥ तस्यांसीत्तनयोऽबुधेरिव विधुः श्रौताहि-
 ताग्निः सदा शांतोदांत उदारधीः सुतपसा प्रातानुभावाग्रणीः
 ॥ काशीं प्राप्य विमुक्तिमाप खलु यो दैवज्ञतातत्त्ववित्स्वा-
 त्मज्ञो हरिशंकरो मुनिवरोऽद्वैताद्यथार्थाग्रणीभिधः ॥ १४ ॥
 तस्यात्मजः सकलशास्त्रकलाप्रवीणो ज्योतिर्विदः श्रुतिवि-
 दश्च गुरोः प्रसादात् ॥ ग्रंथं मुहूर्तगणपत्यभिधं विधाय
 ग्रीत्याऽप्यच्छिवपदे गणपत्यभिज्ञः ॥ १५ ॥ भूरिग्रभेदसु-
 मुहूर्तगणाधिपत्वात्कार्येषु विघ्नहरणाच्च गणेशतुल्यः ॥ विद्यो-
 तते गणपतिर्द्विजनिर्मितत्वाद्रिंथो मुहूर्तगणपत्यभिधस्त्रि-
 धाऽयम् ॥ १६ ॥ विद्यारमासुतजयातिथिपूर्णकामो निर्वृ-
 द्योगकरणामृतसिद्धिचारः ॥ मौजीविवाहगृहमंगलमंडनादौ
 पूज्यो मुहूर्तगणपत्यभिधो विभाति ॥ १७ ॥ ज्योतिर्वि-
 दः भरणभव्यवसंतराजज्योतिर्निर्विद्यगणमंडनरत्नमालाः ॥
 ग्रंथान्मुहूर्तपदपूर्वकतत्वदीपमात्तंडचितितमणिप्रभुकल्पवृ-
 क्षान् ॥ १८ ॥ सम्यग्विचार्यकृतिनां विदुपां मतेन श्रोकेः
 प्रसिद्धसुगमार्थपदेः ग्रणीतः ॥ ग्रंथो मुहूर्तगणपत्यभिधो
 गुणज्ञः ग्रीत्या स्वचित्तसदने परिपूजनीयः ॥ १९ ॥ अवा-

गमांतरगतं खलु यद्वहस्यं तद्वर्णितं सुजनशिष्यदयावशेन ॥
 नासूयकाय कुटिलाय च नास्तिकाय शुश्रूपया विरहिताय
 कदापि दद्यात् ॥ २० ॥ चृडाभूपावृक्षास्यो रविशशि-
 नयनश्वायनद्वंद्वकुंभो मासैः सत्कर्णवाहुभगणकरणसद्योग-
 संक्रांतिमालः ॥ रत्नालंकारवस्त्रोपनयपरिणयोद्यन्मुहूर्तालि-
 शुंडो यात्रादंतोथ मिथ्रप्रकरणकुसुमोत्तंसद्वर्वाङ्कुरश्च ॥ २१ ॥
 वारंवारं प्रवृत्तातिथिकृतविजयानंदयोगादिसिद्धिर्ज्ञाधानप्र-
 तिष्ठाजनिविधिमहितो नामसंस्कारकांतः ॥ वास्तुप्रासाद-
 शोभोद्वृत्तसृणिपरशुर्वृष्टिपातापवादेः ख्यातो राजाभिषेका-
 ज्जयति गणपतिः सन्मुहूर्तवलीनाम ॥ २२ ॥ नेत्रांभोधि-
 धरधरक्षितिमिते १७४२ श्रीविक्रमाके शके माघे मासि
 वसंतपंचमितिथौ चंद्रेऽथ मीनस्थिते ॥ सूनुः श्रीहरिशंकरस्य
 विदुपः श्रौताहितायेमुद्दाशीशं शंकरपूजनाद्वणपतिग्रंथं समा-
 पूरयत् ॥ २३ ॥ शिवधामान्वितो ग्रंथः प्रत्यर्थं सन्मुहू-
 र्त्तेः ॥ भुवनेषु प्रसरतात्सौरालोक इवोदितः ॥ २४ ॥
 आहितायेद्विजयेष्टाद्वरिशंकररावलात् ॥ जातो गणपति-
 श्राहं समाप्य ग्रंथमुत्तमम् ॥ २५ ॥ निवेद्य चित्स्वरूपाय
 शिवाय प्रार्थये चिरम् ॥ वरदोऽयं शुभोऽभीष्टः सर्वत्र
 प्रसरत्विति ॥ २६ ॥

अब ग्रन्थकर्ताके कुलपरम्परावर्णन लिखते हैं—गुर्जर देशमें र
 नेवाले, ब्राह्मणकुलमें प्रतिष्ठित, सहस्रावदीचजातिके ब्राह्मण, शु-
 शीलयुक्त, सकल राजाओंसे पूजित, लक्ष्मीसंपन्न, भारद्वाजं
 गोत्रमें उत्पन्न, निर्मल यश फैलानेवाले, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मपिंडाद्वाते
 विख्यात, रावलनामक श्रेष्ठपंडित इस प्रकारके हुए मानो वल्लभ
 नामसे विख्यात गरिष्ठ दूसरे श्रीभगवान् वसिष्ठजीही थे,
 कुलरूपीचन्द्रमावाले, शरत्कालकी निर्मल चांदनीही

कांतिप्रवाहके समुद्रमें श्रीरावलजीके ऐसे पुत्र उत्पन्न हुए कि, जिनके उत्तम यशोंसे दशोंदिशाएँ उज्ज्वल होगईर्थीं, जिनको सदैव हरिका दर्शन प्राप्त होताथा और पंडित लोग जिनको यशोधरनामसे बोलते थे ॥ १२ ॥ उन यशोधरजीके पुत्र रामदासजी ऐसे हुए कि, जो वेद वेदाङ्ग दर्शनशास्त्रोंके (निवासस्थान) जाननेवाले और जिन्होंने प्रश्नका पूरा समाचार बतादेनेसे सब राजाओंको अपने वशमें करलियाथा और राजाओंके मुकुटरत्नरूपी दीपकोंसे जिनका चरणमूल प्रकाशित रहताथा, बुद्धापेमें हारिभक्तिसे प्रसन्न होतेहुए काशीमें जायकर शरीर छूट जानेपर मुक्त होगये ॥ १३ ॥ उन रामदासजीके पुत्र हरिशंकरजी ऐसे हुए जैसे कि, समुद्रके चन्द्रमा प्रकाशवान् और अग्निहोत्री, सदैव शान्त, दान्त, उदारवुद्धि, अच्छा तप करनेसे उत्कृष्ट प्रभाववाले, ज्योतिषतत्त्व तथा आत्मतत्त्वके जाननेवाले और अद्वैत विचार करनेसे चर्यार्थनामके मुनिवर थे ॥ १४ ॥ ज्योतिष तथा वेदोंके जाननेवाले उन हरिशंकरजीका पुत्र गणपतिनामकने पिताकी प्रसन्नतासे यह मुहूर्तगणपति नामक ग्रन्थ बनायकर प्रीतिसे शिवजूके चरणोंमें अर्पण कियाहै ॥ १५ ॥ अनेक प्रकारके मुहूर्तसमृहोंका अधिपति होनेसे और काषांमें विनोंके हरनेसे और गणपतिनामक ब्राह्मणका बनायाहुआ होनेसे अर्धात् इन तीन कारणोंसे गणेशजूके तुल्य यह मुहूर्तगणपतिनामक ग्रन्थ प्रकाशको प्राप्तहै ॥ १६ ॥ विद्या, लक्ष्मी, पुत्र, जय, अतिथि इन्होंसे पूर्ण कामनावाला और स्वप्न योग, करण, अमृत, सिद्धि इन्होंसे सञ्चार करनेवाला यह मुहूर्तगणपतिनामक ग्रन्थ यज्ञोपवीत, विवाह, यह, मङ्गल, मंडनादि कार्याम पूज्य होताहुआ शोभाको प्राप्त होताहै ॥ १७ ॥ उपोतिर्विद्वभरण, सुन्दर वसन्तराज, ज्योतिर्निवन्ध, गणकमण्डन,

रत्नमाला, मुहूर्ततत्त्वदीप, मुहूर्तमार्त्तिण्ड, मुहूर्तचिन्तामणि, मुहूर्त-
प्रभु, मुहूर्तकल्पद्रुम ॥ १८ ॥ इन ग्रन्थोंको सम्यग्विचारकर और
सुकृती विद्वान् लोगोंका मत लेकरके प्रसिद्ध और सुगम हैं अर्थ
तथा पद जिन्होंमें ऐसे श्लोकोंसे यह मुहूर्तगणपतिनामक ग्रन्थ
बनाया है. गुणज्ञ पुरुषोंको श्रीतिसे अपने चित्तरूपी स्थानमें इसका
पूजन करना चाहिये ॥ १९ ॥ अच्छे शिष्योंपर दयावशसे इस
ग्रन्थमें अन्य ग्रन्थान्तरोंका रहस्य वर्णन कियागया है. निंदक,
कुटिल, नास्तिक तथा शुश्रूपारहित शिष्यके लिये इस ग्रन्थको
कदापि नहीं देना चाहिये ॥ २० ॥ गणेशतुल्य इस गणपतिनामक
ग्रन्थका चूडाकर्म आभूषण है और संवत्सरोंका वर्णन मुख है.
सूर्यचन्द्रमा नेत्रहैं. दोनों अयन कुम्भस्थल हैं. वारह महीने
कान और भुजाहैं. भग्न, करण, योग, संक्रांति ये सब
माला हैं. यज्ञोपवीत, विवाह, ये दोनों रत्नालंकार तथा वस्त्र
हैं. अन्य मुहूर्त भौंरा तथा शुंड हैं. यात्राप्रकरण दाँत हैं
और मिश्रप्रकरण कर्णफूल तथा दूर्वाकुरु है ॥ २१ ॥ तिथ्युत्पन्न
विजययोग, आनन्दयोग इत्यादिक योगही वारंवार प्रवृत्त होनेवाली
सिद्धिहै. अग्न्याधान, यज्ञ, प्रतिष्ठा, जन्मविधि इतने मुहूर्तहीं
महिमाहैं. नामकरण संस्कारही कांतिहै. वास्तुप्रकरणही प्रांसादकी
शोभाहै. वृष्टियोग, पातयोग, अपवादमुहूर्त येही सब तीक्ष्ण फरसा
है. राज्याभियेकप्रकरणही विख्यातिहै. शुभमुहूर्तावलियोंका यह
(गणपति) गणेश विजयको प्राप्त है ॥ २२ ॥ विक्रमादित्यके
सत्रहसौ वयालीस १७४२ संवत्, माघमास, वसंतपंचमीतिथि,
मीनके चंद्रमामें अभिहोत्री विद्वान् शंकरजीके पुत्र गणपतिने श्रीतिसे
शंकरका पूजन करके शीघ्रही यह गणपतिनामक ग्रन्थ संपूर्ण किया है
॥ २३ ॥ शिवजूके तेजसे युक्त प्रत्येक कार्यके शुभमुहूर्त देनेवाला

यह ग्रंथ भुवनोंमें इस प्रकार से फैलै जैसे कि, सूर्यके उदय होनेपर सूर्यका प्रकाश सकल भुवनोंमें फैलता है ॥२६॥ अग्निहोत्री व्राह्मणोंमें श्रेष्ठ जो हरिशंकररावलजी थे तिनसेैं में गणपति उत्पन्न हुआ हूँ इस उत्तम ग्रंथके समाप्त करके ॥२५॥ चित्स्वरूप शिवजूसे यह प्रार्थना करता हूँ कि, यह शुभग्रंथ वरदायक तथा आभीष्ट होकर सर्वत्र फैलै ॥२६॥

अथ ग्रंथनिर्माणप्रयोजनांतरमप्याह ।

दानैर्विकमभोजकर्णनृपतीञ्छौर्येण वैष्णार्जुनान्गांभीर्येण
सरित्पतिं तुलयतो नीत्या सुराणां गुरुम् ॥ सेनान्यं
बहुसैन्यपालनगुणैर्भक्तया च गौरीपतेर्लक्ष्मीरामविभो-
र्विभाकररुचेः कोऽन्यस्तुलां रोहति ॥ २७ ॥ श्रीमद्भौ-
डमनोहरक्षितिपतेः प्रीत्या प्रतीत्याऽधिकः काव्ये काव्य-
कलासुधर्मकुशलो यः सर्वशास्त्रार्थवित् ॥ तस्यासीदिति
कौतुकेन विदुषां प्रीत्या पुरः प्रेरणाऽज्ज्योतिःशास्त्र-
विचारणाय सुगमग्रंथोऽनुसंधीयताम् ॥ २८ ॥ इति
नृपतनयाशयं विदित्वा सपदि तर्दीयमनोविनोदनाय ॥
अथ विविधमुहूर्तसत्प्रवंधो गणपतिरावलशर्मणा व्यधायि
॥ २९ ॥ वाणी यथा गणपतेः शिवयोगहेतुः काश्यां
तथैव हरिशंकरनंदनस्य ॥ एपा मुहूर्तगणपत्यभिवप्रवंधप्रा-
दुर्भवा भवतु भूमितले जनानाम् ॥ ३० ॥ आयुः प्रज्ञा-
यशः सौख्यं सौभाग्यं फलमअयम् ॥ अभीष्टं च पशून्युत्रा-
छंभतां ग्रन्थतत्त्ववित् ॥ ३१ ॥

इति श्रीमद्ग्रिहोत्रिचातुर्मास्ययाजिसमासादितपुरुपार्थसा-
रार्थदेवज्ञवर्यरावलहरिशंकरसूरीसूनुगणपतिकृते मुहू-
र्तगणपतो ग्रन्थालंकारप्रकरणं पञ्चविंशम् ॥ २६ ॥

अब ग्रंथनिर्माणप्रयोजनान्तरंभी लिखते हैं—दानोंके करनेसे विक्रमादित्य, भोजराज, कर्ण इतने राजाओंको और शूरतासे पृथुतथा अर्जुनकी, गंभीरतासे समुद्रकी और नीतिसे वृहस्पतिकी और वहुतसे योधाओंके पालन करनेके गुणोंसे तथा शिवजूकी भक्तिसे स्वामि कार्त्तिकजीकी वरावरी करनेवाले, सूर्यकीसी काँतिवाले, लक्ष्मीरामजीकी तुलापर कौन पुरुष चढ़ सकता है अर्थात् कोईभी वरावरी नहीं कर सकता है ॥ २७ ॥ उस श्रीमद्भौद्वेशाधिपति मनोहरसिंहजूकी प्रीति और प्रतीतिसे काव्यमें अधिक तथा काव्यकला और सुधर्ममें कुशल और सर्वशास्त्रोंका जाननेवाला गणपति था इसी कोतुकसे विद्वानोंके सामने लक्ष्मीराम राजाके इसप्रकार प्रीतिपूर्वक प्रेरणा करनेसे कि, ज्योतिशशास्त्रका विचारकरनेके अर्थ सुगम ग्रंथ बनाइये ॥ २८ ॥ राजकुमार लक्ष्मीरामजीका इस प्रकारका आशय समझकर श्रीग्रही उनके मनोविनोदार्थ अनेक प्रकारके शुभमुहूर्तोंका ग्रंथ मुझ गणपति रावल शम्भने बनाया है ॥ २९ ॥ जिस प्रकार काशीजीमें गणपतिकी वाणी शिवयोगका कारण है इसी प्रकार हरिशंकरजीके पुत्र गणपतिकी यह सुहृत्तगणपतिनामक प्रवंधसे प्रकट होनेवाली वाणी मनुष्योंके लिये पृथ्वीतलपर कल्याणकारिणी होते ॥ ३० ॥ इस ग्रंथके तत्त्वका जाननेवाला पुरुष आयु, वुद्धि, यश, सौख्य, सौभाग्य, अक्षय फल, मनोरथ, पशु, पुत्र इन सब वस्तुओंको पावे ॥ ३१ ॥

इति श्रीमद्भिरोन्निचातुर्मास्याजिसमासादितपुरुषार्थसारार्थ-
दैवज्ञवर्यरावलहरिशंकरसूरिस्तनुगणपतिकृते सुहृत्तगणपतो
पंडितरामदयालुशर्मकृतभाषाटीकासमलंकृतं ग्रंथालं-
कारप्रकरणं पञ्चविंशम् ॥ २५ ॥

अथ टीकाकारकृतक्षेकाः ।

नृपतिविक्रमपद्मजिनीपते: शररसांकशाशांकमितेऽवद्के ॥
सितदले मधुमासि कुमुदतीपतिदिने भुजगेन्द्रतिथौ तथा ॥ १ ॥
गणपताविह सुन्दरभाषयाज्ञमददस्तिलकं परिपूर्णताम् ॥
प्रणतिपूर्वकमर्थनमत्र मे इति चुधाः कृपया परिशोध्यताम् ॥ २ ॥
आमेऽवस्तप्यंडितपूजितांघ्रिर्दौलिसंज्ञे निगमागमज्ञः ॥
श्रीवेणिरामो निजपूर्णकामो गोविंदभन्तया शुभमुक्तिमापा ॥ ३ ॥
तस्यात्मजो रामदयालुनामा गोविष्वन्दारकवृन्दवन्दी ॥
मौद्र्यर्तिकेऽहं गणनाथसंज्ञे ग्रेथे च टीकां सरलां व्यधां वै ॥ ४ ॥

(सैवया)

श्रीनृप विक्रम संवत पांच रुद्धैनवएक १९६५ प्रमाण सुहावन ।
चैत्र सुदी तिथि पंचमि वार निशाकरको जगमें मनभावन ॥
ता दिन पूरन कीन तिलक मुहूरत अंथ इसी परपावन ।
बालनको उपकार विचारि सुर्यांडित रामदयालु दया मन ॥ ५ ॥

दोहा

‘श्रीयुतसेठ सुपेठमें, जेठे ठाठसमेत ।

खेमराज राजत जगत, जीवनहेत सचेत ॥ ६ ॥

तिनकी आज्ञातैं छप्यो, मुम्बैविच यह अंथ ।

श्रीव्यंकटेश यंत्रमें, सुन्दर अक्षरपंथ ॥ ७ ॥

समाप्तोऽयं अंथः ॥

पुस्तक मिलनेका ठिकाना-

खेमराज श्रीकृष्णदास,

“श्रीवेङ्गटेश्वर” स्टीम प्रेस, -वंवई.